




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4
PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 1]
No. 1]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 26, 1997/माघ 6, 1918
NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 26, 1997/MAGHA 6, 1918

रक्षा मंत्रालय
(सेना विभाग)
अधिसूचना

सं. बी/43432/आर डी 97/ए जी/सी डब्ल्यू 4
नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 1 (अ)—दिनांक 26 जनवरी 1997.—राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 97) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी
औस को सेना विनियमावली 1987 के पारा 177 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं ।

अवैतनिक कप्तान के रूप में

7 काबलरी

1 जेसी 147221 एम

रिसालदार मेजर & अवैतनिक लैं

हवा सिंह

20 लान्सेर्स

2 जेसी 194150 एफ

रिसालदार & अवैतनिक लैं

नन्दा राम

45 काबलरी

3 जेसी 119337 एम

रिसालदार मेजर & अवैतनिक लैं

तम्पी अनिरुद्धन

64 काबलरी

4 जेसी 138069 एच

रिसालदार मेजर & अवैतनिक लैं

मोहन सिंह

66 आर्मड रेजिमेंट

5 जेसी 128867 एच

रिसालदार मेजर & अवैतनिक लैं

लक्ष्मी नारायण यादव

81 आर्मड रेजिमेंट

6 जेसी 128856 डब्ल्यू

रिसालदार मेजर & अवैतनिक लैं

शिख कुमार सिंह

85 आर्मड रेजिमेंट

7 जेसी 127771 एन

रिसालदार मेजर & अवैतनिक लैं

वी ऐ के अचन कुन्जू

तोपखाना रेजिमेंट

8 जेसी 127590 एच

सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं

अजीत सिंह

9 जेसी 123486 एक्स

सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं

बाबु लाल यादव

10	जेसी 121430 एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बलविन्द्र सिंह
11	जेसी 129852 एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गिरधारी लाल
12	जेसी 123948 वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मुनीरतिनम मुरुगेशन
13	जेसी 143874 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मुंशा सिंह
14	जेसी 133899 पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नारायण सिंह बन्धू
15	जेसी 135131 वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नव नाथ प्रसाद
16	जेसी 143182 एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	प्रीतम सिंह
17	जेसी 116538 ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राजा राम
18	जेसी 136207 ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सन्तोख सिंह
19	जेसी 109609 एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिवाजी जाधव
20	जेसी 125643 एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुखदेव सिंह
21	जेसी 126137 वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बिशन स्वरूप
22	जेसी 182093 वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बदन सिंह
23	जेसी 197961 एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बिश्राम सिंह
24	जेसी 168442 एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	केसर सिंह रावत
25	जेसी 204712 के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुखदेव सिंह
वायु रक्षा तोपखाना रेजिमेंट			
26	जेसी 136273 एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	छोग सिंह
27	जेसी 134771 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	होशियार सिंह
28	जेसी 123756 एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कृष्णा वेणुगोपालन
29	जेसी 150060 ऐ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बरेलाल
30	जेसी 144303 के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	वीरेन्द्र सिंह खुशावाह
मद्रास इंजीनियर ग्रुप			
31	जेसी 134559 वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दुराईस्वामी बालाकृष्णन
32	जेसी 96441 एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कालिया पिले शिंगारवेलू
33	जेसी 134566 पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	माधवन नच्चिककाटे
34	जेसी 96428 एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	एम राघवन रवीन्द्रन पिले
35	जेसी 134555 एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	स्वामी कण्णन
36	जेसी 191300 एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	चिन्नकोलंतई राजामाणिकम
बंगाल इंजीनियर ग्रुप			
37	जेसी 123591 एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	आजीत सिंह
38	जेसी 120521 के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बी हरी दासन सन नायर
39	जेसी 124145 वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	हरदेव सिंह
40	जेसी 154161 एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	हरी सिंह चौहान
41	जेसी 159677 एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	लीला नैद
42	जेसी 156650 पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मल्कीयत सिंह
43	जेसी 121122 एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहन चन्द्र भट्ट
44	जेसी 154147 वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नर सिंह दसि
45	जेसी 156467 एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रामजी सिंह
बंबई इंजीनियर ग्रुप			
46	जेसी 143435 एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	चन्द्रकान्त भोसले
47	जेसी 142203 ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दलबीर सिंह
48	जेसी 146582 वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	धर्म सिंह
49	जेसी 146564 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गुरदेव सिंह
50	जेसी 143430 एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राजबीर सिंह
51	जेसी 146591 ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	वसीयुल हसन

52 जेसी 191711ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दौलत सिंह
53 जेसी 179787एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लखमन आहम्मद हबिमी
54 जेसी 179785एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राज नाथ राम
कोर आफ सिग्नल		

55 जेसी 154313एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जगतार सिंह
56 जेसी 154398एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	करन सिंह पठानिया
57 जेसी 154278के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नसीर मसीह
58 जेसी 94943पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	परम हंस राय
59 जेसी 154394एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	एस ए आहम्मद साहेब
60 जेसी 141154डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शशांक शेखर दत्ता
61 जेसी 106213वार्ट	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिवा शंकरा पिले वेणुकरुप
62 जेसी 150843एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुधांशु डे
63 जेसी 209070के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बबशीश राम
64 जेसी 187913के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बिजेश्वर लाल
65 जेसी 192093एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कृष्णा चन्द्र मोण्डल
66 जेसी 209075एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम फल
67 जेसी 214377वार्ट	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रणजीत सिंह जादौन
ब्रिगेड आफ गार्ड्स		

68 जेसी 132914एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जगदीश प्रसाद
69 जेसी 132939वार्ट	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कृष्ण लाल
70 जेसी 137509वार्ट	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	लाला राम लखेरा
71 जेसी 140359वार्ट	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	श्री लाल
72 जेसी 118562पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुल्तान सिंह
73 जेसी 118577एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जाहिर आहम्मद खान
74 जेसी 174899के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोहन सिंह
75 जेसी 163859एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम सिंह
पैराशूट रेजिमेंट		

76 जेसी 128806डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	धर्म चन्द्र
77 जेसी 128242एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कंवर सिंह
78 जेसी 144998एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शोबन सिंह
पंजाब रेजिमेंट		

79 जेसी 151578ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	भाग सिंह
80 जेसी 58098के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	(धमी)दामोदर सिंह
81 जेसी 112490ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दर्शन सिंह
82 जेसी 158852के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जनक राज
83 जेसी 145003पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	केशमीर सिंह
84 जेसी 106898एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	प्यारा सिंह
85 जेसी 48097एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	(धमी)यशवन्त कुमार
86 जेसी 134166एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	केहर सिंह
87 जेसी 151825एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रीतम सिंह
मद्रास रेजिमेंट		

88 जेसी 156882ऐ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	पी भास्करा पिले एसएम

गेनेटिचेस

89 जेसी 138545डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बांत सिंह
90 जेसी 117511पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सी पी एस तेवातिया
91 जेसी 148309एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	लियासत अली खान
92 जेसी 149383डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुदर्शन कुमार
93 जेसी 164031डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	नानक घन्द
94 जेसी 172978ऐ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रामाधतार हेमा राम
95 जेसी 169128एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सज्जन सिंह

मरात्ता लाईट इन्फेन्ट्री

96 जेसी 107704एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बजरंग बागें
97 जेसी 159152एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	भीमगोण्डा पतटिल
98 जेसी 127461एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जयराम घुपाले
99 जेसी 105321डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रघुनाथ पवार
100 जेसी 109972के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिवाजी पतटिल
101 जेसी 184965पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बजरंग जाधव
102 जेसी 145046के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	धोन्डिबा हलादाकर
103 जेसी 172734एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मधुकर करमालकर

राजपुताना राईफलस

104 जेसी 108629पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	चैन सिंह
105 जेसी 140664एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	हवा सिंह
106 जेसी 173005डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जगदीश घन्द
107 जेसी 118876डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मान फूल सिंह
108 जेसी 139065वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राजेन्द्र सिंह
109 जेसी 172999डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	भंवर सिंह
110 जेसी 196457एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दिलबाग सिंह भेल्ला
111 जेसी 182976एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हवा सिंह
112 जेसी 179323डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कुर्दा राम
113 जेसी 188396एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश
114 जेसी 175014डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	श्री चन्द

राजपुत रेजिमेंट

115 जेसी 118784के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गिरधारी लाल
116 जेसी 108500एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	हनुमान सिंह
117 जेसी 136728एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	पीताम्बर सिंह
118 जेसी 118785एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम अवतार सिंह
119 जेसी 118806एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम गोपाल

जाट रेजिमेंट

120 जेसी 127900पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	चन्द राम
121 जेसी 171934डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गुलाब चन्द
122 जेसी 132384ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	ईश्वर सिंह आहलावत
123 जेसी 157891एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जगन्नाथ
124 जेसी 148914डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जगवीर सिंह
125 जेसी 173868एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अनूप सिंह

सिख रेजिमेंट

126 जेसी 48488वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	(धमी)भगत सिंह
127 जेसी 136008एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	निमान सिंह
128 जेसी 116249एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तरलोक सिंह
129 जेसी 156054एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रणबीर सिंह

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

130 जेसी 112734एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बलबीर सिंह
-------------------	----------------------------	------------

डोगरा रेजिमेंट

131 जेसी 128546एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	भले राम
132 जेसी 56038डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	(धमी)छज्जु राम
133 जेसी 182189ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	ज्ञान चन्द धक्वाल
134 जेसी 114134वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जनक राज
135 जेसी 137540एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुशी राम
136 जेसी 143662एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तरलोक चन्द
137 जेसी 201087एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	चैन सिंह
138 जेसी 160923के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	देवी सिंह
139 जेसी 171966वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	गिरधारी लाल
140 जेसी 167461एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	ओंकार सिंह
141 जेसी 196288एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रण सिंह
142 जेसी 163901डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सदा नन्द
143 जेसी 188513के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुभाष बोस सिंह

गडवाल राईफलस

144 जेसी 141501के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	अबासाहेब सिंदे
145 जेसी 112780एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	फत्ते सिंह
146 जेसी 130610डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गोपाल सिंह
147 जेसी 128403एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	केसर सिंह
148 जेसी 135733एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुशाल सिंह
149 जेसी 124603के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नारायण सिंह नेगी
150 जेसी 134381एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	पञ्चवर प्रसाद धपलियाल
151 जेसी 192644एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	भीम सिंह, एसएम

कुमाऊ रेजिमेंट

152 जेसी 106067के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	घनश्याम
153 जेसी 129693ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	महेन्द्र सिंह

बिहार रेजिमेंट

154 जेसी 168917एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मदन लाल
155 जेसी 194888एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	संगा मैसेल

महार रेजिमेंट

156 जेसी 130711के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बंसीलाल भारद्वाज
157 जेसी 117627एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गुलशन मसीह
158 जेसी 156123एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम तीर्थ
159 जेसी 107289एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रोशन लाल
160 जेसी 114082एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सपकल शंकर गणप्रती
161 जेसी 128023एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सत्यबीर सिंह
162 जेसी 160997वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रेम चन्द
163 जेसी 179487वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुजान सिंह

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

164 जेसी 152972एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	अमरिक सिंह
165 जेसी 125376एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बलबीर सिंह
166 जेसी 152982एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बलकार सिंह
167 जेसी 153008एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	काली दास
168 जेसी 157914एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कृषन चन्द एसएम
169 जेसी 152964वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कुलदीप सिंह सैलारिया
170 जेसी 152195ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	लाहौरी मल
171 जेसी 103426एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	पूरण सिंह
172 जेसी 134395एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सबित सिंह
173 जेसी 116245पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुच्य सिंह
174 जेसी 183122पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अमरजीत सिंह
175 जेसी 202125ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मुबितघार सिंह

जम्मू एवं कश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री

176 जेसी 106768एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जय राज सिंह
177 जेसी 118629एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहमद बशीर

1 गोरखा राईफल्स

178 जेसी 117729एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मणी राज थापा
179 जेसी 183144एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	निंजन सिंह

4 गोरखा राईफल्स

180 जेसी 129293एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बलदेव सिंह गुरुंग
181 जेसी 161027एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	पदम सिंह रोका

5 गोरखा राईफल्स

182 जेसी 156972पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	भंगू सिंह मल एसएम
183 जेसी 138594वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दिल बहादुर पुन

11 गोरखा राईफल्स

184 जेसी 128458पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दन बहादुर राय
185 जेसी 140714एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नत्सि कुमार राय वीएसएम

यांत्रिक इन्फेन्ट्री रेजिमेंट

186 जेसी 154920ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बीरेंद्र सिंह
187 जेसी 144196एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कैलाश पती त्रिपाठी
188 जेसी 185915ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शंकर बाबर
189 जेसी 188474डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तरलोक सिंह

सैना सेवा कोर(पूर्वी)

190 जेसी 177727ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	एच पी द्विवेदी
191 जेसी 181642एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शैलेन्द्र मिश्रा
192 जेसी 189846एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अंगद सिंह
193 जेसी 198968पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	भागपाल सिंह
194 जेसी 171672एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कुकतला राज मोहन
195 जेसी 192828ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	पी सी मुखिकोली
196 जेसी 198941डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	टोन्केश्वर छैतिया

सैना सेवा कोर(यांत्रिक परिवहण)

197 जेसी 165574पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	परशोत्तम सिंह
198 जेसी 165577एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रमेश सिंह
199 जेसी 199483एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हेतु राम
200 जेसी 199531एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	ईश्वर सिंह
201 जेसी 194405डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मग्ना नेंद
202 जेसी 194435एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रताप सिंह
203 जेसी 203470ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रताप सिंह

सैना चिकित्सा कोर

204 जेसी 169818पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मिश्री राम
205 जेसी 183737ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम सुरत वर्मा
206 जेसी 182699एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	श्री कृष्ण सैनी
207 जेसी 179609वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तारकेश्वर सिंह घाकव
208 जेसी 206694एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	गैन चन्द सट्टा
209 जेसी 215288एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हरी सिंह
210 जेसी 215289के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जोग बहादुर थापा

सैना और्डेनेंस कोर

211 जेसी 175672एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बालाराम घोबे
212 जेसी 175741एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	परदुमान सिंह
213 जेसी 175682एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रजनीकान्ता शर्मा
214 जेसी 178504एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिव प्रसाद
215 जेसी 186882एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अमरिक सिंह
216 जेसी 191819एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लोलारक राम
217 जेसी 191719एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रवीन्द्रन पी वी

वैद्युत एवं यांत्रिक इन्जिनियर

218 जेसी 167734एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बलबीर सिंह
219 जेसी 167849डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	चन्दा राम

220	जेसी 182484वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दिलीप कुमार घोष
221	जेसी 180048एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	घुलप्पा सिद्धप्पा घुलाप गोल
222	जेसी 146371डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	हरमैल सिंह
223	जेसी 134829एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जगपाल मौर्या
224	जेसी 129089पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जीत सिंह आहलावत
225	जेसी 122546पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मल चन्द
226	जेसी 176893एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मलिक सिंह
227	जेसी 172493एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मिलन चन्द्र घोष
228	जेसी 187870ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नैद कुमार
229	जेसी 147990डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम लाल
230	जेसी 162637एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अबदुल रजाक तरमणिल
231	जेसी 222193पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बाबू लाल
232	जेसी 60516एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं (धमी)	गयालू राम
233	जेसी 217787ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	गुरधरण सिंह
234	जेसी 202517एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हरबंस सिंह
235	जेसी 222336के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोहमद इक्रीश
236	जेसी 218854एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रोबोध चन्द्र करमाकर
237	जेसी 189195एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रमेश चन्द
238	जेसी 182390एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुशा चन्द
सैना शिक्षा कोर			
239	जेसी 147908डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सवाई सिंह
240	जेसी 130204डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	उमेद सिंह भट्टी
241	जेसी 158044एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुरेन्द्र सिंह
242	जेसी 187654एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुशा चन्द्र द्विवेदी
आसूचना कोर			
243	जेसी 144770एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	भुवा नैद चैत्री
244	जेसी 146535एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तानेराव सिंह
कोर आफ सैना पुलिस			
245	जेसी 146823एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दौलत सिंह
सैना शारिरिक प्रशिक्षण कोर			
246	जेसी 124707एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सतवीर सिंह
पयोनियर कोर			
247	जेसी 186833ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रामचन्द्र
सैना डाक सैवा			
248	जेसी 197847ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जगजीत सिंह
रक्षा सुरक्षा कोर			
249	जेसी 128588एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	प्रभाकरन नायर उरुपटिल
250	जेसी 180178ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शेर सिंह
251	जेसी 111037डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	श्याम सिंह
252	जेसी 170660के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुस दयाल

प्रादेशिक सेना

253 टीजे 2581एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश
254 टीजे 2665एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बाबू राम
254 टीजे 2892वार्ड	सुबेदार & अवैतनिक लैं	एम परमशिवम
255 टीजे 2613	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम सिंह
256 टीजे 2315एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रणजीत सिंह भाउ

अवैतनिक कैप्टिनेट के रूप में

1 होर्स

1 जेसी 152730के रिसालदार मेजर नफे सिंह

2 लान्सेर्स

2 जेसी 139632डब्ल्यू गोदिया रिसालदार मेजर धरम सिंह

17 होर्स

3 जेसी 119303एम रिसालदार मेजर कुलदीप सिंह
4 जेसी 164714के रिसालदार बलपत सिंह

18 कार्बलरी

5 जेसी 219145के रिसालदार मलखन सिंह

4 होर्स

6 जेसी 123897रे रिसालदार मेजर गुरदीप सिंह
7 जेसी 132221पी रिसालदार मेजर सकतर सिंह

71 आर्मड रेजिमेंट

8 जेसी 119340एन रिसालदार मेजर इतास जली

81 आर्मड रेजिमेंट

9 जेसी 140591के रिसालदार मेजर संभू राम
10 जेसी 195401एम रिसालदार बदन सिंह

84 आर्मड रेजिमेंट

11 जेसी 138090एम रिसालदार मेजर गुरशरण सिंह

85 आर्मड रेजिमेंट

12 जेसी 127796एच रिसालदार मेजर बलदेव सिंह

88 आर्मड रेजिमेंट

13 जेसी 173814डब्ल्यू रिसालदार कृषन चन्द शर्मा
14 जेसी 173809एन रिसालदार लक्षमन सिंह
शेसावत
15 जेसी 173770के रिसालदार हयाम सिंह

90 आर्मड रेजिमेंट

16 जेसी 116094एफ	रिभालदार मेजर	सन्त सिंह
17 जेसी 127752एच	रिभालदार मेजर	तारा सिंह
18 जेसी 177455एल	रिभालदार	रणजीत सिंह

46 आर्मड रेजिमेंट

19 जेसी 140601एच	रिभालदार मेजर	प्रेम प्रकाश
------------------	---------------	--------------

47 आर्मड रेजिमेंट

20 जेसी 145247एच	रिभालदार	गोविंद सिंह
------------------	----------	-------------

6 आर्मड रेजिमेंट

21 जेसी 175791वाई	रिभालदार	दरिया सिंह
-------------------	----------	------------

11 आर्मड रेजिमेंट

22 जेसी 170252वाई	रिभालदार मेजर	वी आर महादेव
-------------------	---------------	--------------

13 आर्मड रेजिमेंट

23 जेसी 139629डब्ल्यू	रिभालदार मेजर नारायणा पिले	गोविन्द पिले
-----------------------	-------------------------------	--------------

15 आर्मड रेजिमेंट

24 जेसी 171280एक्स	रिभालदार	बलबीर सिंह
--------------------	----------	------------

19 आर्मड रेजिमेंट

25 जेसी 141729ए	रिभालदार मेजर	लक्षमन सिंह
-----------------	---------------	-------------

51 आर्मड रेजिमेंट

26 जेसी 189661एफ	रिभालदार	रजधीर सिंह बरक
------------------	----------	----------------

आर्मड कोर

27 जेसी 145265एल	रिभालदार मेजर	कामेन्द्र सिंह
28 जेसी 67930एन	रिभालदार (धर्म)	प्रभू कृत पुरोहित
29 जेसी 173755पी	रिभालदार	समन्वेद बिशवास

तोपखाना रेजिमेंट

30 जेसी 123768डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	आजीत सिंह
31 जेसी 125841एम	सुबेदार मेजर	आजीत सिंह
32 जेसी 122868पी	सुबेदार मेजर	अजय सिंह

33	जेसी 128629 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ए राजन नायर
34	जेसी 133928 वार्डे	सुबेदार मेजर	बनर्हीश सिंह
35	जेसी 143190 ऐ	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
36	जेसी 50422 एफ	सुबेदार मेजर(धर्म)	बिन्देश्वरी पाण्डे
37	जेसी 132861 एच	सुबेदार मेजर	चन्द्र भान
38	जेसी 49254 एफ	सुबेदार मेजर(धर्म)	चन्द्र प्रकाश
39	जेसी 146299 एल	सुबेदार मेजर	चन्द्र राम
40	जेसी 127591 एल	सुबेदार मेजर	चरण सिंह
41	जेसी 152731 एक्स	सुबेदार मेजर	छगन सिंह
42	जेसी 56036 एल	सुबेदार मेजर(धर्म)	दरबारा सिंह
43	जेसी 52211 एक्स	सुबेदार मेजर(धर्म)	द्वैव राज
44	जेसी 143811 एन	सुबेदार मेजर	धर्म पोल
45	जेसी 132654 एम	सुबेदार मेजर	दुर्देकुला सेकण्णा
46	जेसी 147812 एन	सुबेदार मेजर	ई टी वी कण्णन
47	जेसी 147174 ऐ	सुबेदार मेजर	गनपत सिंदे
48	जेसी 140497 ऐ	सुबेदार मेजर	गोपालन राधाकृष्णन
49	जेसी 51221 पी	सुबेदार मेजर(धर्म)	गुरबन्धन सिंह धनोबा
50	जेसी 139416 एच	सुबेदार मेजर	हनुमान सिंह
51	जेसी 132974 एफ	सुबेदार मेजर	जगन नाथ
52	जेसी 134630 एम	सुबेदार मेजर	के जी रामचन्द्रन नायर
53	जेसी 134844 एफ	सुबेदार मेजर	कैलाश चन्द्र
54	जेसी 121472 वार्डे	सुबेदार मेजर	कंनर सिंह यादव
55	जेसी 138353 वार्डे	सुबेदार मेजर	केशव नागोजी
56	जेसी 155556 वार्डे	सुबेदार मेजर	कायम सिंह
57	जेसी 134729 एक्स	सुबेदार मेजर	के रामचन्द्रन
58	जेसी 138352 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मदन लाल
59	जेसी 127951 एम	सुबेदार मेजर	माधवन कोलाई
60	जेसी 126173 एन	सुबेदार मेजर	मल्कीधत सिंह
61	जेसी 127589 एन	सुबेदार मेजर	मालुक सिंह
62	जेसी 149614 एफ	सुबेदार मेजर	पी एन पिले
63	जेसी 112220 ऐ	सुबेदार मेजर	राजेश्वर सिंह
64	जेसी 124463 एच	सुबेदार मेजर	रामालिंगम
65	जेसी 124080 पी	सुबेदार मेजर	रामा शंकर
66	जेसी 154574 पी	सुबेदार मेजर	राम चन्द्र
67	जेसी 118568 एक्स	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार वर्मा
68	जेसी 118220 एफ	सुबेदार मेजर	राम सरूप
69	जेसी 134775 एम	सुबेदार मेजर	आर जी अस्सारी
70	जेसी 147144 एच	सुबेदार मेजर	रोहिताश्व
71	जेसी 128652 के	सुबेदार मेजर	समर सिंह
72	जेसी 132210 एच	सुबेदार मेजर	सतदेव सिंह
73	जेसी 143083 एच	सुबेदार मेजर	सुबे सिंह
74	जेसी 139867 एच	सुबेदार मेजर	तारा चन्द्र
75	जेसी 134772 वार्डे	सुबेदार मेजर	उष्णिष्कृष्णय पी
76	जेसी 147145 एल	सुबेदार	बनर्ही राम
77	जेसी 134607 के	सुबेदार	बलेस्तर सिंह
78	जेसी 202408 एफ	सुबेदार	भारत सिंह
79	जेसी 174165 एच	सुबेदार	भोज बहादुर राना
80	जेसी 195715 एन	सुबेदार	बिशन सिंह
81	जेसी 167375 ऐ	सुबेदार	छज्जु राम यादव
82	जेसी 223714 के	सुबेदार	चुन्नी लाल
83	जेसी 202320 एक्स	सुबेदार	द्वैवया

84	जेसी 166155के	सुबेदार	दवी चन्द कटोथ
85	जेसी 221545पी	सुबेदार	फकीर राम
86	जेसी 200431 डब्ल्यू	सुबेदार	गुरकम्यन
87	जेसी 158092एफस	सुबेदार	गुरधरण सिंह
88	जेसी 226404के	सुबेदार	गुरदीप सिंह
89	जेसी 202710रे	सुबेदार	हंस राज सिंह
90	जेसी 187667 डब्ल्यू	सुबेदार	हरभद्रसिंह सिंह
91	जेसी 200228रे	सुबेदार	जगमोहन सिंह
92	जेसी 197619एफस	सुबेदार	जरनाईल सिंह
93	जेसी 204511एल	सुबेदार	कश्मीरी लाल
94	जेसी 188564वाई	सुबेदार	कृषन लाल
95	जेसी 197432एल	सुबेदार	लक्षमन सिंह
96	जेसी 188674एन	सुबेदार	मनशा राम धीमन
97	जेसी 200341पी	सुबेदार	माता दीन यादव
98	जेसी 185934एफ	सुबेदार	मोहन दास
99	जेसी 195003एल	सुबेदार	महेन्द्र सिंह
100	जेसी 188749रे	सुबेदार	मृतधुजय सिंह
101	जेसी 221104वाई	सुबेदार	नील कंठ
102	जेसी 214426 डब्ल्यू	सुबेदार	पारुत् सिंह यादव
103	जेसी 201698एफस	सुबेदार	प्रताप चन्द
104	जेसी 174115एफस	सुबेदार	प्रीतम सिंह
105	जेसी 47709एन	सुबेदार(धर्म)	पी सुन्दर कुरूप
106	जेसी 255211एम	सुबेदार	पूजन सिंह यादव
107	जेसी 184620एन	सुबेदार	रघुनन्दन सिंह
108	जेसी 171112वाई	सुबेदार	राम चन्द्र
109	जेसी 177885एफ	सुबेदार	राम किशन
110	जेसी 223712वाई	सुबेदार	रणजीत सिंह
111	जेसी 169992एफ	सुबेदार	रतन लाल
112	जेसी 201667एफस	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार
113	जेसी 163534पी	सुबेदार	शंकर सिंह
114	जेसी 199060के	सुबेदार	तरलोक सिंह
115	जेसी 226400एन	सुबेदार	उदयबीर सिंह
116	जेसी 171445एल	सुबेदार	उमेश सिंह
117	जेसी 123905वाई	सुबेदार	वी शेषगिरि राय
118	जेसी 187601एन	सुबेदार	विनोद कुमार
119	जेसी 225909एन	सुबेदार	यशपाल सिंह

वायु रक्षा लोपसाना

120	जेसी 114227एन	सुबेदार मेजर	बंशी सिंह
121	जेसी 147803एम	सुबेदार मेजर	दयाल सिंह
122	जेसी 77877एफ	सुबेदार मेजर	गोविंद पुरी
123	जेसी 120386एफ	सुबेदार मेजर	हनुमान सिंह
124	जेसी 126140वाई	सुबेदार मेजर	जगना राम
125	जेसी 143854एष	सुबेदार मेजर	कैलाश चन्द्र
126	जेसी 120378एष	सुबेदार मेजर	कश्मीर सिंह
127	जेसी 132551एन	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
128	जेसी 123725एफ	सुबेदार मेजर	मुन्ना लाल
129	जेसी 111915एफ	सुबेदार मेजर	वी टी एस मैनोंन
130	जेसी 140470एल	सुबेदार मेजर	वीर सिंह
131	जेसी 195050एष	सुबेदार	अजीत सिंह बेमाना

132	जेसी 200159पी	सुबेदार	दलीप सिंह
133	जेसी 186368वाई	सुबेदार	देवराज शर्मा
134	जेसी 186734एक्स	सुबेदार	हीरा लाल घाड़व
135	जेसी 186733पी	सुबेदार	के एस कुन्ज
136	जेसी 150362एम	सुबेदार	एम गोविन्दन
137	जेसी 140489एफ	सुबेदार	पी डी चाको
138	जेसी 148116एच	सुबेदार	श्याम सिंह
139	जेसी 187625एक्स	सुबेदार	सन्त लाल

मद्रास इन्जिनीयर ग्रुप

140	जेसी 139023एम	सुबेदार मेजर	घुण्डयिल रमन नायर
141	जेसी 138934डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	धाना सिंह
142	जेसी 98664एफ	सुबेदार मेजर	गाडिल्ली नागमणी
143	जेसी 134541एच	सुबेदार मेजर	गोविन्दस्वामी
144	जेसी 139021एफ	सुबेदार मेजर	काकपोयिल शिवदासन
145	जेसी 98272एम	सुबेदार मेजर	मरुचन्नी मंगया
146	जेसी 138929एल	सुबेदार मेजर	मोराशेरी वीटिल करुणाकरन
147	जेसी 134569एच	सुबेदार मेजर	मोट्टया गौन्डर सुब्रमणी
148	जेसी 134561डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मुनिराव कृष्णाजी राव
149	जेसी 128728एम	सुबेदार मेजर	मुनुस्वामी नायडू गोविन्दराज
150	जेसी 129737एम	सुबेदार मेजर	नन्दी डेविड
151	जेसी 98449एक्स	सुबेदार मेजर	परिक्कमुक्कालयल पौतोस मेथ्यू
152	जेसी 134575डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पोन्नप्पा गौण्डर किन्नाप्पन
153	जेसी 98429के	सुबेदार मेजर	पुन्तिलेत अब्दुलम वरुगीस
154	जेसी 142320एल	सुबेदार मेजर	सन्दनम इरुदयम
155	जेसी 142843एम	सुबेदार मेजर	सनडमुत्त अप्पिणप्पन
156	जेसी 128187के	सुबेदार मेजर	सोमशेसरन उप्पित्तान
157	जेसी 139028ए	सुबेदार मेजर	सुब्रमणी ईश्वरन
158	जेसी 138993एच	सुबेदार मेजर	वरदराज पलनी
159	जेसी 159769के	सुबेदार	अन्नामलाई पोन्नस्वामी
160	जेसी 196977डब्ल्यू	सुबेदार	दुराईस्वामी जैकब
161	जेसी 158601एम	सुबेदार	गोविन्दन रामालिंगम
162	जेसी 202743एल	सुबेदार	हैद्रीस अब्दुल सादर कुन्ज
163	जेसी 182635एक्स	सुबेदार	नागया मुनिकृष्णुडू
164	जेसी 179935एम	सुबेदार	नटेशन येसय्यन
165	जेसी 170868पी	सुबेदार	श्रीनिवास एकतानाथन
166	जेसी 159724के	सुबेदार	तुण्णन जयकुमार एसएम
167	जेसी 177244एच	सुबेदार	वी पी वरमोहनन
168	जेसी 159885एम	सुबेदार	विश्वनाथन एलंपुलाविल

बंगाल इन्जिनीयर ग्रुप

169	जेसी 159507एम	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह
170	जेसी 123599ए	सुबेदार मेजर	अवतार सिंह
171	जेसी 116397डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भूपाल सिंह
172	जेसी 158459एम	सुबेदार मेजर	बंचल सिंह
173	जेसी 158483डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कन्द बल्लभ
174	जेसी 92892एक्स	सुबेदार मेजर	दिलबाग सिंह
175	जेसी 159670एम	सुबेदार मेजर	दिवान सिंह

176	जेसी 156491 एघ	सुबेदार मेजर	फौजदार सिंह
177	जेसी 160330 एक्स	सुबेदार मेजर	गोविंद बल्लभ
178	जेसी 184688 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद कोटियाल
179	जेसी 156476 एन	सुबेदार मेजर	जीत सिंह
180	जेसी 105527 एन	सुबेदार मेजर	कुलवंत सिंह
181	जेसी 121237 ऐ	सुबेदार मेजर	ललिता प्रसाद
182	जेसी 128286 एम	सुबेदार मेजर	मदन सिंह रावत
183	जेसी 123598 एक्स	सुबेदार मेजर	मोहमद मोबिन खान
184	जेसी 123940 एम	सुबेदार मेजर	एन अब्दुल अजीज
185	जेसी 55499 एन	सुबेदार मेजर (धर्म)	पराशर दत्त
186	जेसी 160328 ऐ	सुबेदार मेजर	प्रभा नैक
187	जेसी 126096 ऐ	सुबेदार मेजर	राम चन्द्रन पिले
188	जेसी 121186 एक्स	सुबेदार मेजर	रमेश चन्द्र
189	जेसी 156461 एल	सुबेदार मेजर	राम ललित वर्मा
190	जेसी 159682 एघ	सुबेदार मेजर	रनधीर सिंह
191	जेसी 134640 एल	सुबेदार मेजर	रणजीत सिंह
192	जेसी 128773 एल	सुबेदार मेजर	रिसाल सिंह बरखर
193	जेसी 138858 वार्ड	सुबेदार मेजर	सुखदेव शर्मा
194	जेसी 126101 ऐ	सुबेदार मेजर	सुखमिन्दर सिंह
195	जेसी 65767 ऐ	सुबेदार (धर्म)	हरदेव सिंह
196	जेसी 177179 एन	सुबेदार	जय प्रकाश सिंह
197	जेसी 177115 एघ	सुबेदार	नन्दन सिंह सजवान
198	जेसी 174548 पी	सुबेदार	आँकार चन्द्र शर्मा
199	जेसी 171530 एन	सुबेदार	राजेन्द्र सिंह रावत
200	जेसी 166810 एक्स	सुबेदार	सुरैज चन्द्र बनिया
201	जेसी 191390 एन	सुबेदार	ताजबार सिंह
202	जेसी 199762 एघ	सुबेदार	तेजीन्दर सिंह

बंबई इन्जिनियर ग्रुप

203	जेसी 138338 एफ	सुबेदार मेजर	अण्णा सीताराम जाधव एसएम
204	जेसी 128263 एल	सुबेदार मेजर	बछित्त सिंह
205	जेसी 126714 ऐ	सुबेदार मेजर	जरनार्दन सिंह सिहोटा
206	जेसी 143434 एघ	सुबेदार मेजर	निर्मल सिंह
207	जेसी 146592 एघ	सुबेदार मेजर	सावला मोरे
208	जेसी 174640 एन	सुबेदार मेजर	शिव सिंह
209	जेसी 146575 एघ	सुबेदार मेजर	सुध सिंह
210	जेसी 146758 एन	सुबेदार मेजर	सुरमुख सिंह
211	जेसी 143419 एन	सुबेदार मेजर	उमेद अली खान
212	जेसी 163155 वार्ड	सुबेदार	अबाद अली
213	जेसी 184876 डब्ल्यू	सुबेदार	अलादीन खान
214	जेसी 179782 पी	सुबेदार	बछित्त सिंह
215	जेसी 170470 एक्स	सुबेदार	भोसले महादेव अण्णाजी
216	जेसी 203032 एक्स	सुबेदार	बिक्रम सिंह
217	जेसी 203028 पी	सुबेदार	घरण सिंह
218	जेसी 182577 वार्ड	सुबेदार	दर्शन सिंह
219	जेसी 179774 डब्ल्यू	सुबेदार	दीन दयाल
220	जेसी 203147 एन	सुबेदार	द्विदार सिंह गोजरा
221	जेसी 191892 ऐ	सुबेदार	गुरभजन सिंह
222	जेसी 182565 के	सुबेदार	गुरचरण सिंह

223	जेसी 191676एच	सुबेदार	गुरदीप सिंह
224	जेसी 159834वाई	सुबेदार	गुरमीत सिंह
225	जेसी 170424एच	सुबेदार	गुरनाम सिंह
226	जेसी 200050पी	सुबेदार	गुरपाल सिंह
227	जेसी 200049ए	सुबेदार	हरबंस सिंह
228	जेसी 184880वाई	सुबेदार	हरभजन सिंह
229	जेसी 167970के	सुबेदार	हरभजन सिंह
230	जेसी 174654एन	सुबेदार	जामील आहमद
231	जेसी 167925एक्स	सुबेदार	कमल चन्द
232	जेसी 197265ए	सुबेदार	करज सिंह
233	जेसी 179791 डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्ण राम
234	जेसी 159428वाई	सुबेदार	मोदन सिंह
235	जेसी 184879के	सुबेदार	राय सिंह
236	जेसी 163180एक्स	सुबेदार	राम भोसले
237	जेसी 182573एच	सुबेदार	श्याम सिंह
238	जेसी 197331एक्स	सुबेदार	शंकरा सिंह
239	जेसी 200042 डब्ल्यू	सुबेदार	उमेश सिंह राठौर

कोर आफ सिग्नल

240	जेसी 145992एच	सुबेदार मेजर	भान सिंह जासड
241	जेसी 135267एच	सुबेदार मेजर	चलदहासन अर्जुन
242	जेसी 150655एक्स	सुबेदार मेजर	दर्श राज
243	जेसी 150660एच	सुबेदार मेजर	ध्यान सिंह घोहान
244	जेसी 154275 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गोपालकृष्णा कुरुप सी के
245	जेसी 158203के	सुबेदार मेजर	हरी किशन सिंह
246	जेसी 157064वाई	सुबेदार मेजर	हेत राम
247	जेसी 145988ए	सुबेदार मेजर	ईश्वर सिंह यादव
248	जेसी 153893पी	सुबेदार मेजर	जनक चन्द
249	जेसी 145994एन	सुबेदार मेजर	जोगिन्द्र सिंह
250	जेसी 157123ए	सुबेदार मेजर	कबल सिंह परमार
251	जेसी 102612एल	सुबेदार मेजर	केवल किशोर
252	जेसी 154288एच	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
253	जेसी 102607ए	सुबेदार मेजर	माम राज
254	जेसी 154319एच	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह
255	जेसी 166564एक्स	सुबेदार मेजर	पारस नाथ सिंह
256	जेसी 154307एन	सुबेदार मेजर	पूरण मल
257	जेसी 154455वाई	सुबेदार मेजर	पुरुषोत्तम
258	जेसी 157069एन	सुबेदार मेजर	रघुनाथ सिंह भण्डारी
259	जेसी 145997एफ	सुबेदार मेजर	राम बदन सिंह
260	जेसी 150652के	सुबेदार मेजर	रमैया तिरुपती
261	जेसी 154446एक्स	सुबेदार मेजर	राम सिंह
262	जेसी 154453एन	सुबेदार मेजर	रन्धीर सिंह रोहिल्ला
263	जेसी 141156एफ	सुबेदार मेजर	सतबीर सिंह सुरा
264	जेसी 157120एम	सुबेदार मेजर	एस बालाकृष्णन
265	जेसी 135265एक्स	सुबेदार मेजर	शिव शंकर चक्रवर्ती
266	जेसी 158162एल	सुबेदार मेजर	श्री भगवान सिंह
267	जेसी 145993एल	सुबेदार मेजर	सुसबीर सिंह रावत
268	जेसी 117953एन	सुबेदार मेजर	तरलोक सिंह
269	जेसी 102618एम	सुबेदार मेजर	उपेन्द्रा प्रसाद जयसवाल

270	जेसी 133225 एक्स	सुबेदार मेजर	वसन्त सिंदे
271	जेसी 154282 एम	सुबेदार मेजर	विद्या शंकर
272	जेसी 188178 एल	सुबेदार	बिष्णू चरण बेहेरा
273	जेसी 203441 एल	सुबेदार	बुधी राम
274	जेसी 194810 एन	सुबेदार	छेत राम
275	जेसी 208837 वार्ड	सुबेदार	धनपत सिंह
276	जेसी 217067 वार्ड	सुबेदार	धर्म पाल सिंह
277	जेसी 214378 एफ	सुबेदार	धर्म बीर कालिया
278	जेसी 77450 एक्स	सुबेदार (धमी)	धुब रव पाण्डे
279	जेसी 210011 के	सुबेदार	ध्यानेश्वर पतटिल
280	जेसी 198238 एक्स	सुबेदार	हजारी लाल
281	जेसी 212073 एच	सुबेदार	जीवा नैद
282	जेसी 209071 एम	सुबेदार	कलेशा वार्ड अली होस
283	जेसी 200941 एक्स	सुबेदार	कोशी कण्डनकुलर सामुयेल
284	जेसी 198223 ऐ	सुबेदार	लक्षमन सिंदे
285	जेसी 214326 एल	सुबेदार	माखन लाल महला
286	जेसी 208835 एन	सुबेदार	नेत्र पाल सिंह
287	जेसी 198203 एम	सुबेदार	ओम प्रकाश
288	जेसी 197738 एन	सुबेदार	पदारथ नाथ
289	जेसी 185996 एफ	सुबेदार	पत राम
290	जेसी 217072 के	सुबेदार	प्रेम दत्त
291	जेसी 212140 एच	सुबेदार	राजिन्द्र सिंह
292	जेसी 198021 वार्ड	सुबेदार	रामासामी तिरुवेण्कडम
293	जेसी 203461 वार्ड	सुबेदार	तारा चन्द
294	जेसी 214336 पी	सुबेदार	उमेद सिंह नेग्लिया
295	जेसी 210027 पी	सुबेदार	वेद पाल सिंह

बिगेड अफ गार्ड्स

296	जेसी 187907 पी	सुबेदार मेजर	भगवाना राम
297	जेसी 132937 एन	सुबेदार मेजर	हरनाम सिंह, एससी
298	जेसी 118552 एल	सुबेदार मेजर	आई बासना सिंघा
299	जेसी 184145 एम	सुबेदार मेजर	ईश्वर दास
300	जेसी 186636 एफ	सुबेदार मेजर	जग मोहन वर्मा
301	जेसी 126372 एक्स	सुबेदार मेजर	नरिन्जन सिंह
302	जेसी 142786 एन	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
303	जेसी 186640 के	सुबेदार मेजर	पती राम
304	जेसी 186656 पी	सुबेदार मेजर	रणजीत सिंह
305	जेसी 126358 एल	सुबेदार मेजर	रोखर खान
306	जेसी 125322 ऐ	सुबेदार मेजर	सुख रव सिंह
307	जेसी 126389 एल	सुबेदार मेजर	उनिक्काट पल्लियालिल सोमसुन्दरन
308	जेसी 181720 एन	सुबेदार	बलबीर सिंह
309	जेसी 185682 ऐ	सुबेदार	बीरेंद्र सिंह
310	जेसी 184896 के	सुबेदार	धर्म पाल
311	जेसी 185681 एक्स	सुबेदार	राजेन्द्र सिंह बिस्ट
312	जेसी 154955 डब्ल्यू	सुबेदार	सैनतिक राम
313	जेसी 196362 एल	सुबेदार	सन्त लाल
314	जेसी 162071 वार्ड	सुबेदार	सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह

पैराश्ट रेजिमेंट

315 जेसी 195495एल	सुबेदार मेजर	भागीरथी पथी
316 जेसी 140518एल	सुबेदार मेजर	नरेंद्र कुमार
317 जेसी 140035एन	सुबेदार मेजर	पुतिधेउत मोमसुन्दरन
318 जेसी 140034एल	सुबेदार मेजर	श्याम बहादुर ठाकुरी

पर्जाब रेजिमेंट

319 जेसी 168504एफ	सुबेदार मेजर	बालहर सिंह
320 जेसी 129404ए	सुबेदार मेजर	हरदेव सिंह
321 जेसी 168501एन	सुबेदार मेजर	रमेश चन्द्र
322 जेसी 145370एफ	सुबेदार	अनन्त राम
323 जेसी 180844डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू राम
324 जेसी 218170डब्ल्यू	सुबेदार	बलदेव सिंह
325 जेसी 171792के	सुबेदार	दलीप चन्द्र
326 जेसी 156850एल	सुबेदार	दलजीत सिंह
327 जेसी 199192एक्स	सुबेदार	जगदीश सिंह
328 जेसी 200980डब्ल्यू	सुबेदार	जागीर सिंह
329 जेसी 174946डब्ल्यू	सुबेदार	जीत राज डोगरा
330 जेसी 199193ए	सुबेदार	कंशी राम डीऐराय
331 जेसी 196376एल	सुबेदार	मदन लाल
332 जेसी 152797एन	सुबेदार	मालूक सिंह
333 जेसी 201794एम	सुबेदार	मिताप चन्द्र
334 जेसी 180849पी	सुबेदार	नवीन राम वर्मा
335 जेसी 192876एल	सुबेदार	रणबीर सिंह वर्मा
336 जेसी 177909एल	सुबेदार	सुरजीत सिंह

मद्रास रेजिमेंट

337 जेसी 115700ए	सुबेदार मेजर	किलारी रक्मा शेषयूजा
338 जेसी 128525पी	सुबेदार मेजर	नीलमेगन
339 जेसी 164187के	सुबेदार मेजर	एन सुकुमारन पिले
340 जेसी 109376एक्स	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन किन्नाफन
341 जेसी 184233के	सुबेदार मेजर	आर वेणुगोपालन नायर
342 जेसी 105256एफ	सुबेदार मेजर	शंकर शेट्टी
343 जेसी 169571के	सुबेदार मेजर	वडकेडत हौस रमन चन्द्रन नायर
344 जेसी 148298एफ	सुबेदार	जी कृष्णन कुट्टि कुरुप
345 जेसी 183366एम	सुबेदार	होन्काली मदिवेलण्पा
346 जेसी 132166के	सुबेदार	कारी इरुण्पा रुद्रण्पा
347 जेसी 141780ए	सुबेदार	मूराणी परम्बिल मेथ्यू जोस
348 जेसी 145396डब्ल्यू	सुबेदार	रमन गोपीनाथन नायर
349 जेसी 151158ए	सुबेदार	उत्तमन नायर बी

मेनेडिथेस

350 जेसी 171831एक्स	सुबेदार मेजर	अलादीन
351 जेसी 101483के	सुबेदार मेजर	कृष्ण
352 जेसी 117521वाई	सुबेदार मेजर	पूरण सिंह
353 जेसी 175001वाई	सुबेदार मेजर	राम पत

354	जेसी 103566एन	सुबेदार मेजर	राम सिंह चन्दावत
355	जेसी 168827के	सुबेदार मेजर	रन्वू राम
356	जेसी 151208ऐ	सुबेदार मेजर	सुरज मल
357	जेसी 155069वार्ड	सुबेदार मेजर	सुरीन्दर कुमार
358	जेसी 201004एम	सुबेदार	भंवर सिंह
359	जेसी 180708ऐ	सुबेदार	बुल्लिदान सिंह
360	जेसी 129426वार्ड	सुबेदार	गुलाब सिंह
361	जेसी 185489एन	सुबेदार	केवल सिंह
362	जेसी 196405पी	सुबेदार	नथा सिंह छहर
363	जेसी 155082एच	सुबेदार	राम कुमार
364	जेसी 158980डब्ल्यू	सुबेदार	सुम्न्दर सिंह
365	जेसी 196181ऐ	सुबेदार	वेद मित्तर् सिंह ङी

मरात्ता लाईट इन्फेन्ट्री

366	जेसी 49256एम	सुबेदार मेजर(धमी)	अबा गेंडे
367	जेसी 112454पी	सुबेदार मेजर	तशोक मोरे
368	जेसी 114168एम	सुबेदार मेजर	बबन राजे
369	जेसी 152821वार्ड	सुबेदार मेजर	भीमन अगौठा पाटील
370	जेसी 108330एच	सुबेदार मेजर	दिलावर मुलानी
371	जेसी 155639के	सुबेदार मेजर	गणपती धोकाले
372	जेसी 117539पी	सुबेदार मेजर	कमलाकर ताम्बरे
373	जेसी 127456एक्स	सुबेदार मेजर	महादेव अम्बरे
374	जेसी 141849वार्ड	सुबेदार मेजर	रणजीत सिंह
375	जेसी 117548डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	संभाजी मोरे
376	जेसी 114401पी	सुबेदार मेजर	शमराव कदम
377	जेसी 117555एम	सुबेदार मेजर	शमराव सपकल
378	जेसी 115749डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तानाजी निकम
379	जेसी 184973एन	सुबेदार	बलिराम नारायण वरुणकर
380	जेसी 162272एक्स	सुबेदार	धेरे सुभाष नामदेव
381	जेसी 147436एल	सुबेदार	गणपती भताले
382	जेसी 163635एच	सुबेदार	गोविंद महादिक
383	जेसी 175008एच	सुबेदार	हरीष चन्द्र कदम
384	जेसी 167425ऐ	सुबेदार	महादेव थवान
385	जेसी 172983एल	सुबेदार	कदम विष्णु
386	जेसी 160884डब्ल्यू	सुबेदार	एम डी गनपत
387	जेसी 178517एम	सुबेदार	पाण्डुरंग खोट
388	जेसी 181799एफ	सुबेदार	परशराम नारायण देसाई
389	जेसी 196421एम	सुबेदार	फटी गवास
390	जेसी 171841एफ	सुबेदार	ताजतेला वलम्पिल बालसुब्रमणियन
391	जेसी 169138पी	सुबेदार	वसन्त कदम
392	जेसी 196438ऐ	सुबेदार	वसन्त सरसादे

राजपुताना राईफल

393	जेसी 135620के	सुबेदार मेजर	भैरु सिंह
394	जेसी 105306एफ	सुबेदार मेजर	भीका भाई
395	जेसी 148404पी	सुबेदार मेजर	भोला राम मान
396	जेसी 104783डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	छेत राम सिंह
397	जेसी 118844एन	सुबेदार मेजर	गोपाल राम

398	जेसी 148387ए	सुबेदार मेजर	इमत्यास अहम्मद
399	जेसी 108902वाई	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह
400	जेसी 118870पी	सुबेदार मेजर	पदम सिंह
401	जेसी 173004एन	सुबेदार मेजर	पदम सिंह
402	जेसी 118881एफ	सुबेदार मेजर	राजपाल सिंह
403	जेसी 127847एष	सुबेदार मेजर	राम पाल सिंह
404	जेसी 118887एष	सुबेदार मेजर	सोहन सिंह
405	जेसी 175017के	सुबेदार	भंवर सिंह
406	जेसी 152483एम	सुबेदार	हमेर सिंह
407	जेसी 201870एन	सुबेदार	हरी सिंह
408	जेसी 205108एल	सुबेदार	हेमराज सिंह
409	जेसी 204276एक्स	सुबेदार	महाबीर सिंह रोधा
410	जेसी 155982एम	सुबेदार	ओम प्रकाश
411	जेसी 182970एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश
412	जेसी 204045एफ	सुबेदार	प्रेम सिंह सिंसिनवार
413	जेसी 182975ए	सुबेदार	राज कुमार
414	जेसी 157286एन	सुबेदार	राम सिंह
415	जेसी 110891 डब्ल्यू	सुबेदार	शैलान सिंह
416	जेसी 152474एल	सुबेदार	शिव नारायण सिंह
417	जेसी 151688पी	सुबेदार	वेद सिंह

राजपुत रेजिमेंट

418	जेसी 178558 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जली अहम्मद
419	जेसी 155317के	सुबेदार मेजर	चिंजी लाल गुजर
420	जेसी 143817वाई	सुबेदार मेजर	फते सिंह
421	जेसी 122029एक्स	सुबेदार मेजर	जय नारायण सिंह
422	जेसी 159181एष	सुबेदार मेजर	महाबीर प्रसाद
423	जेसी 151295वाई	सुबेदार मेजर	मनोहर लाल
424	जेसी 137071एन	सुबेदार मेजर	राम प्रकाश
425	जेसी 122030एम	सुबेदार मेजर	रवीन सिंह
426	जेसी 142968एफ	सुबेदार मेजर	सुबीर सरकार
427	जेसी 163877एल	सुबेदार	अमन सिंह एसएम
428	जेसी 167202एष	सुबेदार	बादल चन्द्र डे
429	जेसी 193782पी	सुबेदार	बलबीर सिंह गिल
430	जेसी 211049ए	सुबेदार	भगवान सिंह
431	जेसी 185751एल	सुबेदार	चन्द्र सिंह
432	जेसी 193743एफ	सुबेदार	चन्द्रिका सिंह
433	जेसी 177775ए	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह
434	जेसी 193729पी	सुबेदार	ज्ञान चन्द्र उदान
435	जेसी 182987पी	सुबेदार	हरी नाथ सिंह
436	जेसी 173010के	सुबेदार	हरी निवास गुजर
437	जेसी 173852एष	सुबेदार	जगत सिंह
438	जेसी 163879 डब्ल्यू	सुबेदार	सडक बहादुर सिंह
439	जेसी 162119एफ	सुबेदार	लाखन सिंह तंवर
440	जेसी 193744के	सुबेदार	मदन पाल सिंह
441	जेसी 183432ए	सुबेदार	मदन सिंह
442	जेसी 178254वाई	सुबेदार	मही पाल सिंह
443	जेसी 159173के	सुबेदार	पीतम सिंह
444	जेसी 156887एम	सुबेदार	राम प्रताप सिंह भदोरिया
445	जेसी 164970वाई	सुबेदार	राम अवतार

446	जेसी 188641एफ	सुबेदार	राम पाल
447	जेसी 181810पी	सुबेदार	समरथ
448	जेसी 178535पी	सुबेदार	वेद प्रकाश

जाट रेजिमेंट

449	जेसी 158388डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ज्ञान चन्द
450	जेसी 127925पी	सुबेदार मेजर	ईश्वर सिंह
451	जेसी 148915वाई	सुबेदार मेजर	जय लाल
452	जेसी 125665के	सुबेदार मेजर	जय नारायण
453	जेसी 129638के	सुबेदार मेजर	औमबीर सिंह
454	जेसी 139600एन	सुबेदार मेजर	राम कुमार
455	जेसी 129465एफस	सुबेदार मेजर	रघु राम
456	जेसी 185178ए	सुबेदार	चन्द्र पाल सिंह
457	जेसी 193749एफ	सुबेदार	गिरधारी सिंह
458	जेसी 188488डब्ल्यू	सुबेदार	हवा सिंह
459	जेसी 185004ए	सुबेदार	नारायण सिंह भण्डारी
460	जेसी 193763पी	सुबेदार	राम चन्द्र
461	जेसी 185005एफ	सुबेदार	शिव पाल सिंह
462	जेसी 152105एन	सुबेदार	सुखबीर सिंह
463	जेसी 177950के	सुबेदार	टेक राम
464	जेसी 181831एल	सुबेदार	उदे सिंह

सिख रेजिमेंट

465	जेसी 144880डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुरदयाल सिंह
466	जेसी 129619वाई	सुबेदार मेजर	जरनाईल सिंह
467	जेसी 120148पी	सुबेदार मेजर	मंगल सिंह
468	जेसी 143001एल	सुबेदार मेजर	मूल चन्द
469	जेसी 115792एफस	सुबेदार मेजर	साधु सिंह
470	जेसी 112915एन	सुबेदार मेजर	शंकरा सिंह
471	जेसी 163886एम	सुबेदार	बहादुर सिंह
472	जेसी 180875डब्ल्यू	सुबेदार	शरण सिंह
473	जेसी 184358डब्ल्यू	सुबेदार	गुरचरण सिंह
474	जेसी 175042एफ	सुबेदार	जोगिन्द्र सिंह
475	जेसी 166721वाई	सुबेदार	पलवीन्दर सिंह

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

476	जेसी 100628एफस	सुबेदार मेजर	ज्ञान सिंह
477	जेसी 112737डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुलजार सिंह
478	जेसी 103277वाई	सुबेदार मेजर	गुरमीत सिंह
479	जेसी 171955एम	सुबेदार मेजर	जगदीश सिंह
480	जेसी 112740डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	करनैल सिंह
481	जेसी 110934ए	सुबेदार मेजर	परगत सिंह
482	जेसी 169198के	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह
483	जेसी 110933एफस	सुबेदार मेजर	श्याम सिंह
484	जेसी 222692के	सुबेदार	बलदेव सिंह
485	जेसी 169198एल	सुबेदार	गुलजार सिंह
486	जेसी 169398ए	सुबेदार	मेजर सिंह
487	जेसी 155352एम	सुबेदार	जोरा सिंह सरभा

डोगरा रेजिमेंट

488	जेसी 136751एफ	सुबेदार मेजर	बंशी राम चौहान
489	जेसी 115765एन	सुबेदार मेजर	बीन सिंह
490	जेसी 114058एक्स	सुबेदार मेजर	हुकम चन्द
491	जेसी 136748एफ	सुबेदार मेजर	जगदीश कुमार
492	जेसी 134375ए	सुबेदार मेजर	जसकन्त सिंह
493	जेसी 159218वाई	सुबेदार मेजर	किशोरी लाल पतियाल
494	जेसी 129603एन	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द
495	जेसी 118392डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	षण्पाल सिंह
496	जेसी 136755एक्स	सुबेदार मेजर	ठाकुर दास
497	जेसी 185215एच	सुबेदार	अनन्त राम
498	जेसी 198796ए	सुबेदार	बछित्त सिंह
499	जेसी 196520पी	सुबेदार	बलबीर सिंह
500	जेसी 204118एच	सुबेदार	बलवान सिंह
501	जेसी 185034एक्स	सुबेदार	बंशी लाल शर्मा
502	जेसी 201074एल	सुबेदार	भाग चन्द
503	जेसी 192830एम	सुबेदार	बिधी चन्द
504	जेसी 185202एल	सुबेदार	चिराग सिंह पतियाल
505	जेसी 196872एम	सुबेदार	दर्शन कुमार
506	जेसी 166726पी	सुबेदार	ध्यान सिंह
507	जेसी 193797एच	सुबेदार	ध्यान सिंह
508	जेसी 185207के	सुबेदार	ध्यान सिंह परमार
509	जेसी 194624एक्स	सुबेदार	धोगरु राम
510	जेसी 211157के	सुबेदार	ज्ञान चन्द
511	जेसी 203729एल	सुबेदार	हरबंस लाल
512	जेसी 178801एम	सुबेदार	हेम राज
513	जेसी 211158एम	सुबेदार	हीरा सिंह
514	जेसी 211155वाई	सुबेदार	जगदीश सिंह
515	जेसी 199271एम	सुबेदार	काली दास
516	जेसी 192840डब्ल्यू	सुबेदार	कमान चन्द राना
517	जेसी 185201एच	सुबेदार	करम चन्द
518	जेसी 201075एन	सुबेदार	करतार सिंह चन्देल
519	जेसी 196522ए	सुबेदार	केशमीर सिंह जसवाल एस एम
520	जेसी 208138एन	सुबेदार	किशन सिंह ठाकुर
521	जेसी 201973एम	सुबेदार	लाल सिंह
522	जेसी 185048एक्स	सुबेदार	मेहर चन्द
523	जेसी 205180एफ	सुबेदार	मोहन सिंह
524	जेसी 201987एम	सुबेदार	मोहीन्दर कुमार
525	जेसी 164814पी	सुबेदार	नेक चन्द सडवाल
526	जेसी 205177एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश बनवल
527	जेसी 222722डब्ल्यू	सुबेदार	रणबीर सिंह
528	जेसी 156073एन	सुबेदार	रणजीत सिंह
529	जेसी 204114एम	सुबेदार	रसाल सिंह
530	जेसी 178012डब्ल्यू	सुबेदार	रतन सिंह राना
531	जेसी 211167एन	सुबेदार	रवीन्द्र नाथ एसएम
532	जेसी 208390एम	सुबेदार	सत पाल
533	जेसी 201968एफ	सुबेदार	उधम सिंह

गडवाल राईफलस

534	जेसी 124601 वाई	सुबेदार मेजर	अनुसुया प्रसाद
535	जेसी 130841 एम	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह गुसाई
536	जेसी 132131 एन	सुबेदार मेजर	दानवीर सिंह
537	जेसी 128404 एन	सुबेदार मेजर	जीबा नैद
538	जेसी 128391 एफ	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह
539	जेसी 152963 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मूल राज शर्मा
540	जेसी 128294 पी	सुबेदार मेजर	पूरण सिंह
541	जेसी 155412 डब्ल्यू	सुबेदार	बलवत सिंह नेगी
542	जेसी 181875 एच	सुबेदार	भगवत सिंह
543	जेसी 216877 पी	सुबेदार	बिजय सिंह
544	जेसी 220224 एल	सुबेदार	ध्यान सिंह रावत
545	जेसी 211223 एफ	सुबेदार	गोविंद सिंह
546	जेसी 156405 एम	सुबेदार	जसोद सिंह
547	जेसी 167255 एफ	सुबेदार	जीत सिंह
548	जेसी 192849 एल	सुबेदार	पीताम्बर दत्त
549	जेसी 167241 एफ	सुबेदार	तिरथ सिंह

कुमाऊ रेजिमेंट

550	जेसी 149491 ऐ	सुबेदार मेजर	भुवन चन्द्र
551	जेसी 142810 वाई	सुबेदार मेजर	दरवान सिंह
552	जेसी 173009 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गोविंद सिंह महारा
553	जेसी 172906 एच	सुबेदार मेजर	जय राम
554	जेसी 151745 एल	सुबेदार मेजर	लल्लन
555	जेसी 128930 एम	सुबेदार मेजर	महाबीर प्रसाद
556	जेसी 152182 एच	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह
557	जेसी 155420 पी	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह
558	जेसी 151384 एक्स	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह
559	जेसी 128554 के	सुबेदार मेजर	नवीन चन्द्र जोशी
560	जेसी 128559 एच	सुबेदार मेजर	त्रिलोक सिंह
561	जेसी 202008 पी	सुबेदार	अनूप सिंह
562	जेसी 203756 पी	सुबेदार	दया नैद बेलवाल
563	जेसी 184429 एम	सुबेदार	दन सिंह
564	जेसी 196546 के	सुबेदार	दीनबन्धु सिन्हा
565	जेसी 194653 एम	सुबेदार	गणेश दत्त जोशी
566	जेसी 196545 एफ	सुबेदार	लक्षमन सिंह रौटेला
567	जेसी 199320 के	सुबेदार	मंगल सिंह
568	जेसी 196542 एन	सुबेदार	राजेन्द्र सिंह
569	जेसी 173229 डब्ल्यू	सुबेदार	राम सिंह
570	जेसी 196576 वाई	सुबेदार	सरजीत सिंह
571	जेसी 193840 वाई	सुबेदार	शेर सिंह

असाम रेजिमेंट

572	जेसी 128561 ऐ	सुबेदार मेजर	अलेमुंगाबा अबो
573	जेसी 135892 एने	सुबेदार मेजर	बछित्त सिंह
574	जेसी 133794 एल	सुबेदार मेजर	मनो रंजन शर्मा
575	जेसी 112870 वाई	सुबेदार मेजर	रणजीत सिंघा
576	जेसी 133787 पी	सुबेदार मेजर	सोना राम काकाती

577	जेसी 155429एन	सुबेदार	धर्मेश्वर बोरा
578	जेसी 159263एल	सुबेदार	घन बहादुर चैत्री
579	जेसी 216901ए	सुबेदार	जरमेज सिंह
580	जेसी 200169एफ	सुबेदार	सुखवीर सिंह
581	जेसी 155429के	सुबेदार	रुधरा कान्ता नाथ
582	जेसी 156110डब्ल्यू	सुबेदार	रुमोल चन्द्र बोरो
583	जेसी 144593एम	सुबेदार	स्टिबेसन मोमीज

बिहार रेजिमेंट

584	जेसी 127386के	सुबेदार मेजर	ई मरण्डी
585	जेसी 144913डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जय नाथ सिंह यादव
586	जेसी 127371एफ	सुबेदार मेजर	जय प्रकाश कुमार
587	जेसी 141872एम	सुबेदार मेजर	राम बिलास सिंह
588	जेसी 127160वाई	सुबेदार मेजर	सत्या नारायण प्रसाद सिंह
589	जेसी 125183एफ	सुबेदार मेजर	सिया राम प्रसाद यादव
590	जेसी 128914पी	सुबेदार मेजर	श्री कृष्णा सिंह
591	जेसी 175406के	सुबेदार	दिवाकर कनवर
592	जेसी 185549एक्स	सुबेदार	नगेन्द्रा राय
593	जेसी 159275ए	सुबेदार	रघु नाथ सिंह
594	जेसी 163709एम	सुबेदार	सन्तोश पूर्ति
595	जेसी 149134एक्स	सुबेदार	सत नारायण सिंह
596	जेसी 173256एच	सुबेदार	सुग्रीव बैठा

महार रेजिमेंट

597	जेसी 123024एल	सुबेदार मेजर	हवा सिंह
598	जेसी 107286के	सुबेदार मेजर	जेना नायक
599	जेसी 156112एफ	सुबेदार मेजर	राजघन एन
600	जेसी 121916एक्स	सुबेदार मेजर	सीताराम घनषोध
601	जेसी 113985वाई	सुबेदार मेजर	तुकाराम रनधीर
602	जेसी 149509एल	सुबेदार	अमीर सिंह
603	जेसी 62228वाई	सुबेदार (धर्म)	बदरी प्रसाद पुरोहित
604	जेसी 160996डब्ल्यू	सुबेदार	बीरबल सिंह
605	जेसी 160994एल	सुबेदार	छत्तर सैन
606	जेसी 173270एम	सुबेदार	दलबीर सिंह
607	जेसी 206018डब्ल्यू	सुबेदार	होशियार सिंह
608	जेसी 175443एक्स	सुबेदार	जगदीश चन्द्र

609	जेसी 202096डब्ल्यू	सुबेदार	किशोरी लाल
610	जेसी 194706रे	सुबेदार	मोहन लाल लखेरा
611	जेसी 199326एल	सुबेदार	मोती लाल
612	जेसी 160998एफ	सुबेदार	नन्दा बलभ
613	जेसी 160995एन	सुबेदार	पहलाद सिंह
614	जेसी 169439वाई	सुबेदार	राजिन्द्र प्रसाद
615	जेसी 178305एफ	सुबेदार	रामफल
616	जेसी 142825एफ	सुबेदार	शेर सिंह
617	जेसी 188088रे	सुबेदार	शिरी राम
618	जेसी 178662के	सुबेदार	सुलखान सिंह
619	जेसी 194705एक्स	सुबेदार	सुरीन्दर कुमार
620	जेसी 175442पी	सुबेदार	उमेद सिंह
621	जेसी 201142एन	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह

जम्मू एवं कश्मीर राईफलस

622	जेसी 143749एम	सुबेदार मेजर	अमीन चन्द पाठक
623	जेसी 122120एन	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
624	जेसी 137988एन	सुबेदार मेजर	बिष्णू बहादुर चैत्री
625	जेसी 152994डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	फरकीर सिंह
626	जेसी 155795एन	सुबेदार मेजर	नरेश बहादुर राना
627	जेसी 153033एफ	सुबेदार मेजर	रतन चन्द
628	जेसी 105709एफ	सुबेदार मेजर	सरदार सिंह
629	जेसी 167510एच	सुबेदार मेजर	सुरज सिंह
630	जेसी 49018रे	सुबेदार मेजर (धर्म)	त्रिभुवन पती
631	जेसी 192893पी	सुबेदार	आजीत सिंह
632	जेसी 220290एन	सुबेदार	बलदेव राज
633	जेसी 192692एम	सुबेदार	भगवान दास
634	जेसी 203849के	सुबेदार	दिवान चन्द
635	जेसी 196914एन	सुबेदार	ईश्वर दास
636	जेसी 205710एल	सुबेदार	जोगिन्द्र पाल
637	जेसी 185260पी	सुबेदार	कल्याण चन्द कौंडल
638	जेसी 224472वाई	सुबेदार	केशवा नैद धर्मा
639	जेसी 172806पी	सुबेदार	कृष्ण बहादुर चैत्री एसएम
640	जेसी 212985एफ	सुबेदार	कुलदीप सिंह
641	जेसी 178115पी	सुबेदार	लहेर सिंह
642	जेसी 203836एम	सुबेदार	मेहर सिंह
643	जेसी 196603रे	सुबेदार	नरीन्दर सिंह पठानिया
644	जेसी 205280एम	सुबेदार	पूरण चन्द धीमान
645	जेसी 203848एफ	सुबेदार	रघुपाल सिंह
646	जेसी 185099एल	सुबेदार	समशेर सिंह
647	जेसी 181898के	सुबेदार	शंकर सिंह
648	जेसी 205693डब्ल्यू	सुबेदार	शेष पाल
649	जेसी 203845एन	सुबेदार	सुखदेव सिंह
650	जेसी 196618एच	सुबेदार	विनोद कुमार

नक्सल स्कॉउटस

651	जेसी 144608के	सुबेदार मेजर	छेवांग डोरजे
-----	---------------	--------------	--------------

नागा रेजिमेंट

652	जेसी 155750एन	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह
जम्मू एवं कश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री			
653	जेसी 118110एम	सुबेदार मेजर	बिश्वा नाथ
654	जेसी 101253ए	सुबेदार मेजर	देष राज
655	जेसी 107406एन	सुबेदार मेजर	कैप्टेन राम
656	जेसी 107405एच	सुबेदार मेजर	जसपाल सिंह
657	जेसी 107407एन	सुबेदार मेजर	मदन सिंह
658	जेसी 107856एच	सुबेदार मेजर	मोहमद रमजान भट्ट
659	जेसी 107404ए	सुबेदार मेजर	प्रकाश सिंह
660	जेसी 118514पी	सुबेदार मेजर	शेर सिंह
661	जेसी 165017डब्ल्यू	सुबेदार	जीत लाल
662	जेसी 145178एक्स	सुबेदार	लावर खान
663	जेसी 193913ए	सुबेदार	रस राम सैनी
664	जेसी 175127वाई	सुबेदार	रमेश लाल

1 गोरखा राईफल्स

665	जेसी 138562डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अध्याय सिंह गुरुंग
666	जेसी 172636एम	सुबेदार मेजर	नकेलु राम धलीरिया
667	जेसी 128043ए	सुबेदार मेजर	सुदर्शन सिंह गुरुंग
668	जेसी 185889ए	सुबेदार	भीम बहादुर गिरि
669	जेसी 208214पी	सुबेदार	वल बहादुर गुरुंग
670	जेसी 180906एल	सुबेदार	गणेश बहादुर चेत्री
671	जेसी 181912एल	सुबेदार	मोहन सिंह पुन
672	जेसी 169285एक्स	सुबेदार	मुक्तिभार नेवार एसएम
673	जेसी 183143एल	सुबेदार	रुधरा बहादुर राना
674	जेसी 168928एक्स	सुबेदार	तेज बहादुर गुरुंग

3 गोरखा राईफल्स

675	जेसी 121520एन	सुबेदार मेजर	चित्र बहादुर राना
676	जेसी 115876एल	सुबेदार मेजर	किशन बहादुर मल
677	जेसी 132113एल	सुबेदार मेजर	शेर बहादुर
678	जेसी 148556डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार राना

4 गोरखा राईफल्स

679	जेसी 143796के	सुबेदार मेजर	हमान बहादुर गुरुंग
680	जेसी 143788एल	सुबेदार मेजर	कुमार भुजेल
681	जेसी 143791एल	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार
682	जेसी 130055एन	सुबेदार मेजर	तिल बहादुर थापा
683	जेसी 156129पी	सुबेदार	दिवान सिंह थापा
684	जेसी 193949वाई	सुबेदार	दिलीप सिंह गुरुंग
685	जेसी 158043एल	सुबेदार	सुरज बहादुर पुन
686	जेसी 145200एक्स	सुबेदार	तेज बीर गुरुंग
687	जेसी 172040एन	सुबेदार	उमेद सिंह गुरुंग

5 गोरखा राईफलस

688	जेसी 138592एन	सुबेदार मेजर	इन्द्र बहादुर गुरुंग
689	जेसी 179488डब्ल्यू	सुबेदार	भक्ता बहादुर गुरुंग
690	जेसी 184507वाई	सुबेदार	भीम बहादुर राय
691	जेसी 188590वाई	सुबेदार	भीम बहादुर थापा
692	जेसी 169479ए	सुबेदार	दन बहादुर थापा
693	जेसी 193988एक्स	सुबेदार	गज बहादुर गुरुंग
694	जेसी 188721वाई	सुबेदार	ग्यान बहादुर थापा
695	जेसी 206057पी	सुबेदार	हरी प्रसाद पुरोहित
696	जेसी 205793एफ	सुबेदार	इन्द्र बहादुर थापा
697	जेसी 204217एल	सुबेदार	जसवन्त सिंह रावत
698	जेसी 179052के	सुबेदार	खिल बहादुर आले
699	जेसी 179484वाई	सुबेदार	किशोर कुमार साही
700	जेसी 155155के	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा
701	जेसी 167314एच	सुबेदार	मान बहादुर मगर एसएम
702	जेसी 206056एम	सुबेदार	मनदीप सिंह ठाकुर
703	जेसी 167311पी	सुबेदार	नर बहादुर गुरुंग
704	जेसी 205792वाई	सुबेदार	पूर्णा बहादुर थापा
705	जेसी 172646डब्ल्यू	सुबेदार	रोक बहादुर पुन
706	जेसी 164114एफ	सुबेदार	तेज बहादुर गुरुंग
707	जेसी 168948एल	सुबेदार	टिका राम गुरुंग

8 गोरखा राईफलस

708	जेसी 136927एफ	सुबेदार मेजर	बुधी बहादुर थापा
709	जेसी 125210एम	सुबेदार मेजर	सर्का प्रसाद पुन
710	जेसी 132820पी	सुबेदार मेजर	पदम बहादुर थापा वीआरसी
711	जेसी 157334एच	सुबेदार	गोपाल प्रसाद गुरुंग
712	जेसी 149570पी	सुबेदार	नर बहादुर गुरुंग
713	जेसी 188646वाई	सुबेदार	सिरधोज गुरुंग

9 गोरखा राईफलस

714	जेसी 136952एन	सुबेदार मेजर	भगवान सिंह बिष्ट
715	जेसी 177827एल	सुबेदार मेजर	दर्शन राम
716	जेसी 178156वाई	सुबेदार मेजर	प्रमा नैद जोशी
717	जेसी 167292पी	सुबेदार	के बी ठाकुरी
718	जेसी 184524वाई	सुबेदार	कृष्णा मान चौधरी
719	जेसी 185130एम	सुबेदार	मिन बहादुर चौधरी
720	जेसी 188728एच	सुबेदार	शिव बहादुर साही

11 गोरखा राईफलस

721	जेसी 142876पी	सुबेदार मेजर	निर्मल लिब्
722	जेसी 136994ए	सुबेदार मेजर	तारा बहादुर भुजेल
723	जेसी 178158के	सुबेदार	सागस बहादुर चौधरी
724	जेसी 192499ए	सुबेदार	ठाकुर सिंह

यात्रिक इन्फेन्ट्री रेजिमेंट

725	जेसी 128114डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह
726	जेसी 182798रे	सुबेदार मेजर	जगपाल सिंह
727	जेसी 128074रे	सुबेदार मेजर	करमेल सिंह
728	जेसी 132023के	सुबेदार मेजर	करमेल सिंह
729	जेसी 129376वाइ	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह बोरा
730	जेसी 130666एच	सुबेदार मेजर	मूल चन्द
731	जेसी 130665रे	सुबेदार मेजर	मोती राम
732	जेसी 130673वाइ	सुबेदार मेजर	रमेश राईघूरकर
733	जेसी 128477रे	सुबेदार मेजर	राठौर नारायण सिंह
734	जेसी 168769एल	सुबेदार	जगदीश राज
735	जेसी 168776वाइ	सुबेदार	मंगे राम
736	जेसी 189704एल	सुबेदार	ऑंकार सिंह
737	जेसी 168768एच	सुबेदार	प्यारे लाल
738	जेसी 175884रे	सुबेदार	राज कुमार सिंह
739	जेसी 151097एन	सुबेदार	शिव सरण सिंह
सैना सेवा कोर(पूर्वी)			
740	जेसी 171317एन	सुबेदार मेजर	आदित्य नन्रायन ओझा
741	जेसी 171324के	सुबेदार मेजर	बालकृष्णा पिले केएन
742	जेसी 177737के	सुबेदार मेजर	बासु रवि सविता
743	जेसी 114939डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	देवमुनी चौधरी
744	जेसी 161992एम	सुबेदार मेजर	हरभजन सिंह
745	जेसी 177728एच	सुबेदार मेजर	कैवल सिंह
746	जेसी 175315रे	सुबेदार मेजर	के के एस नायर
747	जेसी 177786एफ	सुबेदार मेजर	कृष्ण कुमार ओझा
748	जेसी 181646एक्स	सुबेदार मेजर	कुन्दन लाल
749	जेसी 181661एम	सुबेदार मेजर	नामराम खाईखई सिंह
750	जेसी 177725पी	सुबेदार मेजर	निमाई सेन्यासी डे
751	जेसी 183831के	सुबेदार मेजर	पूरण सिंह बिष्ट
752	जेसी 171319एक्स	सुबेदार मेजर	राम बाबू सिंह सेंगेर
753	जेसी 171332एच	सुबेदार मेजर	रकमेश्वर दयाल
754	जेसी 181653एन	सुबेदार मेजर	रुप सिंह
755	जेसी 181648एच	सुबेदार मेजर	सेवा राम
756	जेसी 181643के	सुबेदार मेजर	एस एन उपाध्याय
757	जेसी 181651एच	सुबेदार मेजर	सुनिल चन्द सरकार
758	जेसी 175904डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तेज प्रताप सिंह
759	जेसी 171318डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वीरेंद्र सिंह
760	जेसी 193176के	सुबेदार	अलख राम
761	जेसी 200606रे	सुबेदार	बाला राम
762	जेसी 189993एल	सुबेदार	बलेश्वर दयाल
763	जेसी 189857पी	सुबेदार	भाग सिंह
764	जेसी 189997एफ	सुबेदार	भुरी सिंह
765	जेसी 208927रे	सुबेदार	बीरेंद्र सिंह
766	जेसी 160601के	सुबेदार	ईश्वर सिंह पठानिया
767	जेसी 192847डब्ल्यू	सुबेदार	के अनन्द
768	जेसी 195252के	सुबेदार	महेन्द्र सिंह
769	जेसी 189990एक्स	सुबेदार	महेन्द्र सिंह
770	जेसी 209027एच	सुबेदार	सुनु स्वामी मुनी राज

771	जेसी 146446एघ	सुबेदार	रामासामी वी
772	जेसी 200542एन	सुबेदार	रामेश्वर दत्तचन्दन
773	जेसी 200543डब्ल्यू	सुबेदार	राम मूर्ती
774	जेसी 198986एन	सुबेदार	रणबीर पाल सिंह

सेना सेवा कोर(पशु परिवहण)

775	जेसी 164229पी	रिसालदार	अमर सिंह
776	जेसी 178880डब्ल्यू	रिसालदार	बिजोय कुमार सिंह
777	जेसी 185406एक्स	रिसालदार	सोपान कुमार यक्रवर्ती

सेना सेवा कोर(घात्रिक परिवहण)

778	जेसी 165572के	सुबेदार मेजर	बठबन कुवर
779	जेसी 165579ऐ	सुबेदार मेजर	धूम सिंह
780	जेसी 165662एल	सुबेदार मेजर	हरबंस लाल
781	जेसी 165569के	सुबेदार मेजर	राम ललित राम
782	जेसी 165542एम	सुबेदार मेजर	राम निवास रायवाल
783	जेसी 165571एफ	सुबेदार मेजर	रीझा
784	जेसी 165580एघ	सुबेदार मेजर	श्री कृषण
785	जेसी 165573एम	सुबेदार मेजर	सुजित कुमार डे
786	जेसी 165566डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पुगुल किशोर
787	जेसी 199467एन	सुबेदार	अमरिक सिंह
788	जेसी 209803एक्स	सुबेदार	अन्त प्रसाद यादव
789	जेसी 202701वाई	सुबेदार	आराम सिंह
790	जेसी 202882वाई	सुबेदार	बाबू लाल मीणा
791	जेसी 199473एन	सुबेदार	बजसंगी यादव
792	जेसी 194900पी	सुबेदार	बलम राम
793	जेसी 199504एघ	सुबेदार	बशिष्ठा सिंह
794	जेसी 194402एघ	सुबेदार	भवानी लाल
795	जेसी 194269एल	सुबेदार	भीम सिंह
796	जेसी 208294वाई	सुबेदार	भूपाल सिंह
797	जेसी 194423वाई	सुबेदार	ब्रहमा शंकर तिवारी
798	जेसी 194432ऐ	सुबेदार	देश राज
799	जेसी 199506एन	सुबेदार	धरमपाल सिंह
800	जेसी 83103पी	सुबेदार (धमी)	हरनाम सिंह
801	जेसी 199474डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश कुमार
802	जेसी 194346पी	सुबेदार	जय कृष्णा भट्ट
803	जेसी 194279पी	सुबेदार	झबल सिंह
804	जेसी 208237एक्स	सुबेदार	कन्हैया लाल शर्मा
805	जेसी 208247एफ	सुबेदार	के टी श्रीधरन
806	जेसी 199535एघ	सुबेदार	सुशाल राव
807	जेसी 194304एघ	सुबेदार	महिपाल सिंह
808	जेसी 208254एक्स	सुबेदार	मूल चन्द वर्मा
809	जेसी 194434एल	सुबेदार	मोती सिंह
810	जेसी 194427पी	सुबेदार	मुन्ना लाल
811	जेसी 208276डब्ल्यू	सुबेदार	निजामुद्दीन लस्कर
812	जेसी 194330के	सुबेदार	ओम प्रकाश
813	जेसी 194911एफ	सुबेदार	परदुमान सिंह
814	जेसी 194869के	सुबेदार	पटेल सपुष्य अयुब

815	जेसी 194898एच	सुबेदार	पी गोपीनाथन
816	जेसी 194925एफ	सुबेदार	पूरण सिंह
817	जेसी 194481एक्स	सुबेदार	राधा सिंह
818	जेसी 199501पी	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद
819	जेसी 199487एन	सुबेदार	राम कृष्ण
820	जेसी 202681डब्ल्यू	सुबेदार	राना प्रताप सिंह
821	जेसी 194441एफ	सुबेदार	रोशन लाल
822	जेसी 202683एफ	सुबेदार	सरदार खान
823	जेसी 208298पी	सुबेदार	सत्या पाल सिंह सिख
824	जेसी 206240एक्स	सुबेदार	शालिग राम
825	जेसी 206297एम	सुबेदार	शान्ति सरूप
826	जेसी 194314एम	सुबेदार	शेर सिंह ठाकुर
827	जेसी 206295एफ	सुबेदार	शिव राम
828	जेसी 194413पी	सुबेदार	सोमन पी
829	जेसी 199525वाई	सुबेदार	सुकुमारन के
830	जेसी 199465पी	सुबेदार	वीडीएस नायर
831	जेसी 206239एच	सुबेदार	यशोधरन आर
832	जेसी 194923डब्ल्यू	सुबेदार	यूसफ
833	जेसी 194438एफ	सुबेदार	जोरावर सिंह दहिया

सैना चिकित्सा कोर

834	जेसी 146518एफ	सुबेदार मेजर	बहादुर सिंह राजपुत
835	जेसी 50464के	सुबेदार मेजर (धर्म)	बिरोश्वर झा
836	जेसी 169812एन	सुबेदार मेजर	गंगा प्रसाद शर्मा
837	जेसी 169873एल	सुबेदार मेजर	गेंडन लाल
838	जेसी 169877एफ	सुबेदार मेजर	हजारा सिंह
839	जेसी 169878के	सुबेदार मेजर	जगदीश चन्द
840	जेसी 170150एच	सुबेदार मेजर	जितेन्द्र सिंह
841	जेसी 146476ऐ	सुबेदार मेजर	के एम प्रभाकरन
842	जेसी 169809एन	सुबेदार मेजर	कीरपाल सिंह
843	जेसी 169815एफ	सुबेदार मेजर	लीला राम
844	जेसी 180154एम	सुबेदार मेजर	मदन मिश्रा
845	जेसी 181592एल	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह चौहान
846	जेसी 183736एक्स	सुबेदार मेजर	राम शंकर चतुरवेदी
847	जेसी 170185वाई	सुबेदार मेजर	रामनाथन अण्णादुराई
848	जेसी 192277एल	सुबेदार मेजर	रोमेश लाल
849	जेसी 214882डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सन्तोस सिंह हीरा
850	जेसी 183760एन	सुबेदार मेजर	सेवा राम पंवर
851	जेसी 183738एच	सुबेदार मेजर	उत्तम चन्द शर्मा
852	जेसी 192275ऐ	सुबेदार मेजर	वेदान्तम राम चन्द्र प्रसाद
853	जेसी 209749पी	सुबेदार	बेद सिंह
854	जेसी 209695वाई	सुबेदार	ईश्वर सिंह यादव
855	जेसी 161487के	सुबेदार	जगदीश चन्द लंगडी
856	जेसी 690115के	सुबेदार	लाल सिंह पन्नू एसएम
857	जेसी 223217ऐ	सुबेदार	एम शरीफ
858	जेसी 223214एम	सुबेदार	मोहन लाल साह
859	जेसी 201355एफ	सुबेदार	राय सिंह जमवाल
860	जेसी 215241एफ	सुबेदार	रत्न चन्द
861	जेसी 219988एक्स	सुबेदार	शिव नारायण यादव
862	जेसी 216248एक्स	सुबेदार	सूर बहादुर थापा

863	जेसी 201347एच	सुबेदार	वीर सिंह
864	जेसी 180192एच	सुबेदार	योगेश कुमार शर्मा

सैना औडनेस कोर

865	जेसी 91245एफ	सुबेदार मेजर	अर्जन कुमार मिनोच्या एसएम
866	जेसी 49432वाई	सुबेदार मेजर(धमी)	छवीश्याम मिश्रा
867	जेसी 175680एफ	सुबेदार मेजर	दीप चन्द शर्मा
868	जेसी 175719एच	सुबेदार मेजर	धर्म सिंह
869	जेसी 175631वाई	सुबेदार मेजर	केसर सिंह
870	जेसी 175725डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मनोहर लाल
871	जेसी 175685ऐ	सुबेदार मेजर	राजे सिंह रावत
872	जेसी 178631एल	सुबेदार मेजर	राम कुमार मलिक
873	जेसी 153274एफ	सुबेदार मेजर	शेर सिंह
874	जेसी 176743एल	सुबेदार मेजर	सोहन पाल सिंह
875	जेसी 187283पी	सुबेदार	तशोक कुमार सिंह
876	जेसी 186972के	सुबेदार	बिर्जू सिंह राठोर
877	जेसी 187209एन	सुबेदार	बिंश राम प्रजापती
878	जेसी 195505एन	सुबेदार	छांगदेव
879	जेसी 186964एल	सुबेदार	द्वेव राज
880	जेसी 186974पी	सुबेदार	कुर्जन सिंह राव
881	जेसी 187725एच	सुबेदार	हरदयाल सिंह
882	जेसी 187739एच	सुबेदार	कुन्जुमोन सी जी
883	जेसी 187211एल	सुबेदार	लकुकिशोर मोहापत्रा
884	जेसी 189735एल	सुबेदार	लल्लन राम
885	जेसी 201226एफ	सुबेदार	मेजर सिंह कैले
886	जेसी 194785ऐ	सुबेदार	मंगल सिंह चौहान
887	जेसी 193550एफ	सुबेदार	राधा कृष्णा दास
888	जेसी 722128एक्स	सुबेदार	रकमा कान्त सिंह
889	जेसी 186971एफ	सुबेदार	रामजी तिवारी
890	जेसी 194802पी	सुबेदार	राम नगीना सिंह
891	जेसी 193536पी	सुबेदार	राम निवास स्वामी
892	जेसी 186963एच	सुबेदार	श्याम कान्त चौधरी
893	जेसी 189740डब्ल्यू	सुबेदार	सुखदेव सिंह
894	जेसी 187740एक्स	सुबेदार	सूर्ता राम एसएम
895	जेसी 193595एल	सुबेदार	तेजा सिंह
896	जेसी 193535एम	सुबेदार	वीरेंद्र चौहान

वैद्युत एवं यांत्रिक इन्जिनियर

897	जेसी 167736एन	सुबेदार मेजर	अमर सिंह
898	जेसी 129198एफ	सुबेदार मेजर	बहादुर सिंह भैंसोरा
899	जेसी 131226एफ	सुबेदार मेजर	बैद्यनाथ चौधरी
900	जेसी 163305एन	सुबेदार मेजर	भुरी सिंह
901	जेसी 66326डब्ल्यू	सुबेदार मेजर (धमी)	चन्द्रदेव झा
902	जेसी 129220एफ	सुबेदार मेजर	ई बाला कृष्णन नंबियार
903	जेसी 177567एल	सुबेदार मेजर	गजेन्द्र गिरि
904	जेसी 181371एक्स	सुबेदार मेजर	गिरिजा राय
905	जेसी 184211ऐ	सुबेदार मेजर	हरी सिंह मान
906	जेसी 124831एम	सुबेदार मेजर	हजारी दान सिंह
907	जेसी 191050एल	सुबेदार मेजर	जगदीश राय

908	जैसी 124832पी	सुबेदार मेजर	जगदीश राम
909	जैसी 129086एफ	सुबेदार मेजर	जगजीत सिंह
910	जैसी 122565रे	सुबेदार मेजर	जोगिन्द्र सिंह
911	जैसी 177565रे	सुबेदार मेजर	कालीपादा सिंघा
912	जैसी 131198रे	सुबेदार मेजर	खडक सिंह वाल्दिया
913	जैसी 168307वाई	सुबेदार मेजर	कोमल सिंह
914	जैसी 122562एम	सुबेदार मेजर	कृष्णप्पा केएमआर
915	जैसी 187872एल	सुबेदार मेजर	महाबीर प्रसाद यादव
916	जैसी 172517डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहमद अफसल खान
917	जैसी 131677एफ	सुबेदार मेजर	नथुनी प्रसाद वर्मा
918	जैसी 130319के	सुबेदार मेजर	फिलिप्पोस मत्तार्ई
919	जैसी 136344वाई	सुबेदार मेजर	पुन्वी नाथ सिंह
920	जैसी 167735एल	सुबेदार मेजर	राजेन्द्र सिंह
921	जैसी 180045रे	सुबेदार मेजर	रमेश चन्द्र
922	जैसी 49665रे	सुबेदार मेजर (धर्म)	रूप नन्दायन शुक्ला
923	जैसी 179132एफ	सुबेदार मेजर	रुघा राम
924	जैसी 182338के	सुबेदार मेजर	सदा राम यादव
925	जैसी 179130डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सरदारा राम
926	जैसी 131767एथ	सुबेदार मेजर	सुख र्दव सिंह
927	जैसी 189338एम	सुबेदार मेजर	सुरीन्दर सिंह
928	जैसी 136472डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरीन्दर सिंह
929	जैसी 182438पी	सुबेदार मेजर	तारा सिंह
930	जैसी 180049डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तिलक राज
931	जैसी 124818एच	सुबेदार मेजर	तुलसी राम तिवारी
932	जैसी 184205एम	सुबेदार मेजर	वैद्य राम
933	जैसी 170898के	सुबेदार मेजर	वेलुस्वामी सुब्बया
934	जैसी 130333डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	यशवन्त सिंह नघल
935	जैसी 202485डब्ल्यू	सुबेदार	अमीन चन्द्र
936	जैसी 222184एन	सुबेदार	तरुन कुमार थापा
937	जैसी 221912डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू तुलसीराम क्षीरसागर
938	जैसी 221851के	सुबेदार	भिकारी चरण दास
939	जैसी 160708वाई	सुबेदार	चरण सिंह
940	जैसी 207243एम्स	सुबेदार	दर्श राम मन्धोलिया
941	जैसी 181478एल	सुबेदार	द्वेन्द्र सिंह
942	जैसी 202532एथ	सुबेदार	धनी राम
943	जैसी 202502एल	सुबेदार	गिरीश कुमार सिंह
944	जैसी 203409डब्ल्यू	सुबेदार	गोपी नाथ बिश्वास
945	जैसी 211774एम	सुबेदार	जगदीश सिंह
946	जैसी 177528एफ	सुबेदार	जोन डी
947	जैसी 747552एल	सुबेदार	जोसन राम
948	जैसी 206419एल	सुबेदार	कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव
949	जैसी 189288एम	सुबेदार	करतार सिंह तर्थ
950	जैसी 222095पी	सुबेदार	किशन दान सिंह
951	जैसी 202492एम	सुबेदार	किशन लाल यादव
952	जैसी 222186वाई	सुबेदार	किशोरी लाल
953	जैसी 202488के	सुबेदार	कोडकल पुतियवीडू बालन
954	जैसी 162654एफ	सुबेदार	कृष्ण र्दव
955	जैसी 210147एन	सुबेदार	कुलदीप सिंह
956	जैसी 207272एम	सुबेदार	कुशा राम सैकिया
957	जैसी 217784एम	सुबेदार	महाबीर प्रसाद

958	जेसी 206764वाई	सुबेदार	मोहन सिंह
959	जेसी 199437एच	सुबेदार	नगेन्द्रा चन्द्र बरमान
960	जेसी 222096एक्स	सुबेदार	राजेन्द्र नाथ बरुवा
961	जेसी 181433के	सुबेदार	राजिन्द्र सिंह
962	जेसी 210249के	सुबेदार	राम चन्द्र
963	जेसी 170873एक्स	सुबेदार	राम लाल सेमियाल
964	जेसी 747413एफ	सुबेदार	राम प्रवेश सिंह
965	जेसी 217778वाई	सुबेदार	रिषपाल सिंह
966	जेसी 747737एम	सुबेदार	श्रीकृष्णा सिंह
967	जेसी 222589वाई	सुबेदार	श्याम सिंह नागरकोटी
968	जेसी 202534एन	सुबेदार	सूरत सिंह

सैना शिक्षा कोर

969	जेसी 128581एन	सुबेदार मेजर	बीर प्रताप सिंह
970	जेसी 129347के	सुबेदार मेजर	राज बहादुर सिंह चौहान
971	जेसी 129344डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजेन्द्र सिंह बिष्ट
972	जेसी 150486एफ	सुबेदार मेजर	रकम सिंह
973	जेसी 139146वाई	सुबेदार मेजर	राम हकबाल सिंह
974	जेसी 137684एन	सुबेदार मेजर	साय्या चन्द्र शेकरा चेट्टी
975	जेसी 132088एच	सुबेदार मेजर	वि यादव
976	जेसी 182675वाई	सुबेदार	बुई लाल
977	जेसी 195215डब्ल्यू	सुबेदार	गुरदीप सिंह
978	जेसी 188189एन	सुबेदार	कंपील र्व ठाकुर
979	जेसी 187648वाई	सुबेदार	कृष्ण सिंह
980	जेसी 217193एल	सुबेदार	पीए जेन
981	जेसी 206122के	सुबेदार	प्रेम चन्द्र
982	जेसी 169303पी	सुबेदार	राधे श्याम
983	जेसी 185341पी	सुबेदार	रघु बंश नारायण सिंह
984	जेसी 180220के	सुबेदार	शैख यूसुफ बाशा
985	जेसी 198888डब्ल्यू	सुबेदार	सुरज मल सुहाग

रीमाउंट एवं वेटेरिनरी कोर

986	आरवी 7708एच	रिसालदार	अवध बिहारी अक्थी
987	आरवी 7765के	रिसालदार	केदार सिंह खाटी

आसूचना कोर

988	जेसी 144786एम	सुबेदार मेजर	अपूर्वा कुमार चक्रवर्ती
989	जेसी 174308एक्स	सुबेदार मेजर	बलम सिंह रावत
990	जेसी 144779डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बसन्त कुमार शर्मा
991	जेसी 149235एल	सुबेदार मेजर	फन्ने बहादुर सिंह
992	जेसी 149236एन	सुबेदार मेजर	गिरधर प्रसाद जैलवाल
993	जेसी 144789ए	सुबेदार मेजर	मदन सिंह
994	जेसी 144775ए	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह रावत
995	जेसी 179991एम	सुबेदार	राज कुमार माही
996	जेसी 174284वाई	सुबेदार	शशीधरन पिले
997	जेसी 174291पी	सुबेदार	सुन्दर सिंह पंवार

कोर आफ सैना पुलिस

998 जेसी 146824 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दन सिंह
999 जेसी 147602 एन	सुबेदार मेजर	पी अण्णा राव
1000 जेसी 173371 ऐ	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द
1001 जेसी 146821 एच	सुबेदार मेजर	टी नारायण झा
1002 जेसी 198191 एच	सुबेदार	स्करिया ऐसी

सैना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1003 जेसी 169493 एम	सुबेदार	अमर सिंह
1004 जेसी 178794 एक्स	सुबेदार	गुमन चन्द

पयोनिघर कोर

1005 जेसी 160110 एन	सुबेदार मेजर	भीम सिंह
1006 जेसी 163071 एल	सुबेदार मेजर	उजला राम
1007 जेसी 174877 एल	सुबेदार	दलीप सिंह
1008 जेसी 188762 एच	सुबेदार	कामता प्रसाद
1009 जेसी 198808 एन	सुबेदार	रघुबीर सिंह

सैना डाक सेवा

1010 जेसी 130657 एफ	सुबेदार	के एल डोवल
1011 जेसी 210102 एन	सुबेदार	करम सिंह मैनी
1012 जेसी 223770 एच	सुबेदार	पी सोमन पिले
1013 जेसी 223767 एच	सुबेदार	सुच सिंह

रक्षा सुरक्षा कोर

1014 जेसी 124753 ऐ	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह
1015 जेसी 119711 के	सुबेदार मेजर	डी टी भूटिया
1016 जेसी 111075 एम	सुबेदार मेजर	कृष्ण चन्द
1017 जेसी 124898 एल	सुबेदार	अच्युतानन्दा रथ
1018 जेसी 139185 एक्स	सुबेदार	षकोर चन्द
1019 जेसी 116991 एफ	सुबेदार	देव महाय नाग
1020 जेसी 130171 डब्ल्यू	सुबेदार	स्वरण सिंह
1021 जेसी 141383 एफ	सुबेदार	तुलसी राम

प्रादेशिक सैना

1022 टीजे 1905	सुबेदार मेजर	अमरिक सिंह गिल
1023 टीजे 2521 एम	सुबेदार	अंचल सिंह
1024 टीजे 3144	सुबेदार	बालासाहेब पतटिल
1025 टीजे 2328	सुबेदार	गोधा राम
1026 टीजे 3337	सुबेदार	जगत सिंह थदेल
1027 टीजे 3047 डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णदास
1028 टीजे 2495 डब्ल्यू	सुबेदार	क्षेमचन्द
1029 टीजे 2251 एच	सुबेदार	लक्षमन प्रसाद मिश्रा
1030 टीजे 2626	सुबेदार	मोहन राम
1031 टीजे 2630 वार्ड	सुबेदार	महेन्द्र सिंह
1032 टीजे 2735	सुबेदार	मिणाल कान्ती सिंघा

1033	टीजे 2450	सूबेदार	नगेन्द्रा देब ब्रहमा
1034	टीजे 2991	सूबेदार	नेताजी पाटील
1035	टीजे 3065 चाई	सूबेदार	प्रेम बल्लभ पाण्डे
1036	टीजे 2656	सूबेदार	रकमचन्द्र यादव
1037	टीजे 2725	सूबेदार	राम ललन पाण्डे
1038	टीजे 3046 एन	सूबेदार	रतन लाल
1039	टीजे 2775	सूबेदार	शिवाजी भीसे
1040	टीजे 3085	सूबेदार	सोहन सिंह

[सं. बी/43432/आर डी 97/ए जी/सी डब्ल्यू 4]

एम. एस. सोखण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Army Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 1(E).—The President is pleased to grant honorary commission to the undermentioned JCOs on the eve of Republic Day 1997 on active list under Para 177 of Regulations for the Army, with effect from 26 January, 1997 :—

TO BE HONORARY CAPTAINS**7 CAVALRY**

1 JC 147221M RIS MAJ & HONY LT HAWA SINGH

20 LANCERS

2 JC 194150F RIS & HONY LT NANDA RAM

45 CAVALRY

3 JC 119337M RIS MAJ & HONY LT THAMPY ANIRUDHAN

64 CAVALRY

4 JC 138069H RIS MAJ & HONY LT MOHAN SINGH

66 ARMoured REGIMENT

5 JC 128867H RIS MAJ & HONY LT LAXMI NARAYAN YADAV

81 ARMoured REGIMENT

6 JC 128856W • RIS MAJ & HONY LT SHEO KUMAR SINGH

85 ARMoured REGIMENT

7 JC 127771N RIS MAJ & HONY LT V A K ACHAN KUNJU

REGIMENT OF ARTILLERY

8 JC 127590H SUB MAJ & HONY LT AJIT SINGH

9 JC 123486X SUB MAJ & HONY LT BABOO LAL YADAV

10 JC 121430M SUB MAJ & HONY LT BALWINDER SINGH

11 JC 129852M SUB MAJ & HONY LT GIRDHARI LAL

12 JC 123948Y SUB MAJ & HONY LT MUNIRATHINAM MURUGESAN

13 JC 143874W SUB MAJ & HONY LT MUNSHA SINGH

14 JC 133899P SUB MAJ & HONY LT NARAYAN SINGH BANDHU

15 JC 135131Y SUB MAJ & HONY LT NAV NATH PRASAD

16 JC 143182F SUB MAJ & HONY LT PREETAM SINGH

17	JC 116538A	SUB MAJ & HONY LT	RAJA RAM
18	JC 136207A	SUB MAJ & HONY LT	SANTOKH SINGH
19	JC 109609N	SUB MAJ & HONY LT	SHIVAJI JADHAV
20	JC 125643X	SUB MAJ & HONY LT	SUKHDEV SINGH
21	JC 126137Y	SUB MAJ & HONY LT	VISHAN SWARUP
22	JC 182093Y	SUB & HONY LT	BADAN SINGH
23	JC 197961X	SUB & HONY LT	BISHRAM SINGH
24	JC 168442M	SUB & HONY LT	KESHAR SINGH RAWAT
25	JC 204712K	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

26	JC 136273H	SUB MAJ & HONY LT	CHHOG SINGH
27	JC 134771W	SUB MAJ & HONY LT	HOSHIAR SINGH
28	JC123756F	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA VENUGOPALAN
29	JC 150060A	SUB & HONY LT	BARHE LAL
30	JC 144303K	SUB & HONY LT	VIRENDRA SINGH KUSHWAH

MADRAS ENGINEERING GROUP

31	JC 134559Y	SUB MAJ & HONY LT	DURASAMY BALAKRISHNAN
32	JC 96441L	SUB MAJ & HONY LT	KALIA PILLAI SINGARAVELU
33	JC 134566P	SUB MAJ & HONY LT	MADHAVAN NACHIKATE
34	JC 96428F	SUB MAJ & HONY LT	MULAKAL RAGHAVAN RAVINDRAN PILLAI
35	JC 134555H	SUB MAJ & HONY LT	SWAMI KANNAN
36	JC 191300F	SUB & HONY LT	CHINNAKOLANDAI RAJAMANICKAM

BENGAL ENGINEER GROUP

37	JC 123591N	SUB MAJ & HONY LT	AJT SINGH
38	JC 120521K	SUB MAJ & HONY LT	BALAKRISHNAN HARIDASAN NAIR
39	JC 124145Y	SUB MAJ & HONY LT	HARDEV SINGH
40	JC 154161L	SUB MAJ & HONY LT	HARI SINGH CHAUHAN
41	JC 159677X	SUB MAJ & HONY LT	LILA NAND
42	JC 156650P	SUB MAJ & HONY LT	MALKIAT SINGH
43	JC 121122M	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN CHANDRA BHATT
44	JC 154147Y	SUB MAJ & HONY LT	NAR SINGH DASS
45	JC 156467M	SUB MAJ & HONY LT	RAMJEE SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

46	JC 143435L	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRAKANT BHOSLE
47	JC 142203A	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
48	JC 146582Y	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM SINGH
49	JC 146564W	SUB MAJ & HONY LT	GURDEV SINGH
50	JC 143430M	SUB MAJ & HONY LT	RAJBIR SINGH
51	JC 146591A	SUB MAJ & HONY LT	WASEEYUL HASAN
52	JC 191711A	SUB & HONY LT	DAULAT SINGH
53	JC 179787N	SUB & HONY LT	LUQMAN AHAMAD HASHIMI
54	JC 179785H	SUB & HONY LT	RAJ NATH RAM

CORPS OF SIGNALS

55	JC 154313F	SUB MAJ & HONY LT	JAGTAR SINGH
56	JC 154398H	SUB MAJ & HONY LT	KARAN SINGH PATHANIA
57	JC 154278K	SUB MAJ & HONY LT	NAZIR MASIH
58	JC 94943P	SUB MAJ & HONY LT	PARAM HANS RAI
59	JC 154394M	SUB MAJ & HONY LT	SHAIK ATCHUKATTA AHAMMAD SAHER
60	JC 141154W	SUB MAJ & HONY LT	SHASANKA SEKHAR DUTTA
61	JC 106213Y	SUB MAJ & HONY LT	SIYA SANKARA PILLAI VENUKURUP
62	JC 150643H	SUB MAJ & HONY LT	SUDHANGSHU DE
63	JC 209070K	SUB & HONY LT	BAKSHISH RAM
64	JC 107913K	SUB & HONY LT	BIJESHWAR LAL
65	JC 192093M	SUB & HONY LT	KRISHNA CHANDRA MONDAL
66	JC 209075H	SUB & HONY LT	RAM PHAL
67	JC 214377Y	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH JADAON

THE BRIGADE OF GUARDS

68	JC 132914M	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD
69	JC 132939Y	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN LAL
70	JC 137509Y	SUB MAJ & HONY LT	LALA RAM LAKHERA
71	JC 140359Y	SUB MAJ & HONY LT	SHRI LAL
72	JC 118562P	SUB MAJ & HONY LT	SULTAN SINGH
73	JC 118577X	SUB MAJ & HONY LT	ZAHIR AHMAD KHAN
74	JC 174899K	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH
75	JC 163859H	SUB & HONY LT	RAM SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

76	JC 126605W	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM CHAND
77	JC 120242N	SUB MAJ & HONY LT	KANWAR SINGH
78	JC 144998X	SUB MAJ & HONY LT	SOBAN SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

79	JC 151578A	SUB MAJ & HONY LT	BHAG SINGH
80	JC 50090K	SUB MAJ & HONY LT	(RT) DAMODAR SINGH
81	JC 112490A	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH
82	JC 150352K	SUB MAJ & HONY LT	JANAK RAJ
83	JC 145003P	SUB MAJ & HONY LT	KASHMIR SINGH
84	JC 106698M	SUB MAJ & HONY LT	PIARA SINGH
85	JC 48097N	SUB MAJ & HONY LT	(RT) YASHWANT KUMAR
86	JC 134166H	SUB & HONY LT	KEHAR SINGH
87	JC 151625M	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH

THE MADRAS REGIMENT

88	JC 156062A	SUB & HONY LT	P BHASKARA PILLAI BM
----	------------	---------------	----------------------

THE GRENADIERS .

89	JC	138545W	SUB MAJ & HONY LT	BANT SINGH
90	JC	117511P	SUB MAJ & HONY LT	C P S TEOTIA
91	JC	148309H	SUB MAJ & HONY LT	LIAQAT ALI KHAN
92	JC	149383W	SUB MAJ & HONY LT	SUDARSHAN KUMAR
93	JC	164031W	SUB & HONY LT	NANAK CHAND
94	JC	172978A	SUB & HONY LT	RAMAVTAR HEMA RAM
95	JC	169128L	SUB & HONY LT	SAJJAN SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

96	JC	107704F	SUB MAJ & HONY LT	BAJARANG BARGE
97	JC	159152N	SUB MAJ & HONY LT	BHIMABONDA PATIL
98	JC	127461M	SUB MAJ & HONY LT	JAIRAM UPALE
99	JC	105321W	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUNATH PAWAR
100	JC	109972K	SUB MAJ & HONY LT	SHIVAJI PATIL
101	JC	184965P	SUB & HONY LT	BAJARANG JADHAV
102	JC	145046K	SUB & HONY LT	DHONDIBA HALADAKAR
103	JC	172734M	SUB & HONY LT	MADHUKAR KARMALKAR

THE RAJPUTANA RIFLES

104	JC	108629P	SUB MAJ & HONY LT	CHAIN SINGH
105	JC	140664L	SUB MAJ & HONY LT	HAWA SINGH
106	JC	173005W	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHAND
107	JC	118876W	SUB MAJ & HONY LT	MAN PHOOL SINGH
108	JC	139065Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDER SINGH
109	JC	172999W	SUB & HONY LT	BHANWAR SINGH
110	JC	196457L	SUB & HONY LT	DILBAGH SINGH BHELLA
111	JC	182976H	SUB & HONY LT	HAWA SINGH
112	JC	179323W	SUB & HONY LT	KURDA RAM
113	JC	188395F	SUB & HONY LT	OM PRAKASH
114	JC	175014W	SUB & HONY LT	SHRI CHAND

THE RAJPUT REGIMENT

115	JC	118784K	SUB MAJ & HONY LT	GIRDHARI LAL
116	JC	108500F	SUB MAJ & HONY LT	HANUMAN SINGH
117	JC	136728N	SUB MAJ & HONY LT	PITAMBER SINGH
118	JC	118785M	SUB MAJ & HONY LT	RAM AUTAR SINGH
119	JC	118806X	SUB MAJ & HONY LT	RAM GOPAL

THE JAT REGIMENT

120	JC	127988P	SUB MAJ & HONY LT	CHAND RAM
121	JC	171934W	SUB MAJ & HONY LT	GULAB CHAND
122	JC	132884A	SUB MAJ & HONY LT	ISHWAR SINGH AHLAWAT
123	JC	157831M	SUB MAJ & HONY LT	JAGANATH
124	JC	148914W	SUB MAJ & HONY LT	JAGVIR SINGH
125	JC	173868X	SUB & HONY LT	ANUP SINGH

 THE SIKH REGIMENT

126	JC 48488Y	SUB MAJ & HONY LT (RT)	BHAGAT SINGH
127	JC 136008M	SUB MAJ & HONY LT	NISHAN SINGH
128	JC 116249L	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK SINGH
129	JC 156054H	SUB & HONY LT	RANBIR SINGH

 THE SIKH LIGHT INFANTRY

130	JC 112734H	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
-----	------------	-------------------	--------------

 THE DOGRA REGIMENT

131	JC 128546L	SUB MAJ & HONY LT	BHALE RAM
132	JC 56038W	SUB MAJ & HONY LT (RT)	CHHAJU RAM
133	JC 132139A	SUB MAJ & HONY LT	GIAN CHAND DHADWAL
134	JC 114134Y	SUB MAJ & HONY LT	JANAK RAJ
135	JC 137540L	SUB MAJ & HONY LT	KHUSHI RAM
136	JC 143662L	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK CHAND
137	JC 201087H	SUB & HONY LT	CHAIN SINGH
138	JC 160923K	SUB & HONY LT	DEVI SINGH
139	JC 171966Y	SUB & HONY LT	GIRDHARI LAL
140	JC 167461L	SUB & HONY LT	ONKAR SINGH
141	JC 196268F	SUB & HONY LT	RAN SINGH
142	JC 163901W	SUB & HONY LT	SADA NAND
143	JC 188513K	SUB & HONY LT	SUBASH BOSE SINGH

 THE GARHWAL RIFLES

144	JC 141501K	SUB MAJ & HONY LT	ABASAHEB SHINDE
145	JC 112780X	SUB MAJ & HONY LT	FATEH SINGH
146	JC 130610W	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH
147	JC 128403L	SUB MAJ & HONY LT	KESHAR SINGH
148	JC 135733M	SUB MAJ & HONY LT	KHUSHHAL SINGH
149	JC 124603K	SUB MAJ & HONY LT	NARAIN SINGH NEGI
150	JC 134381N	SUB MAJ & HONY LT	PARESHWAR PRASAD THAPLIYAL
151	JC 192644M	SUB & HONY LT	BHIM SINGH, SM

 THE KUMAON REGIMENT

152	JC 106067K	SUB MAJ & HONY LT	GHANSHYAM
153	JC 129693A	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH

 THE BIHAR REGIMENT

154	JC 168917L	SUB & HONY LT	MADAN LAL
155	JC 194688H	SUB & HONY LT	SANGA MICHAEL

 THE MAHAR REGIMENT

156	JC 130711K	SUB MAJ & HONY LT	BANSILAL BHARDWAJ
157	JC 117627L	SUB MAJ & HONY LT	GULSHAN MASIH

158	JC	156123N	SUB MAJ & HONY LT	RAM TIRTH
159	JC	107269X	SUB MAJ & HONY LT	ROSHAN LAL
160	JC	114082N	SUB MAJ & HONY LT	SAPKAL SHANKAR GANAPATI
161	JC	123023H	SUB MAJ & HONY LT	SATYABIR SINGH
162	JC	160997Y	SUB & HONY LT	PREM CHAND
163	JC	179467Y	SUB & HONY LT	SUJAN SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

164	JC	152972X	SUB MAJ & HONY LT	AMRIK SINGH
165	JC	125376F	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
166	JC	152982F	SUB MAJ & HONY LT	BALKAR SINGH
167	JC	153008H	SUB MAJ & HONY LT	KALI DASS
168	JC	157914X	SUB MAJ & HONY LT	KRISHAN CHAND SM
169	JC	152964Y	SUB MAJ & HONY LT	KULDIP SINGH SALARIA
170	JC	152195A	SUB MAJ & HONY LT	LAHORI MAL
171	JC	103426F	SUB MAJ & HONY LT	PURAN SINGH
172	JC	134395N	SUB MAJ & HONY LT	SABIT SINGH
173	JC	116245P	SUB MAJ & HONY LT	SUCHA SINGH
174	JC	183122P	SUB & HONY LT	AMERJIT SINGH
175	JC	202125A	SUB & HONY LT	MUKHTIAR SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

176	JC	106763F	SUB MAJ & HONY LT	JAI RAJ SINGH
177	JC	118629H	SUB MAJ & HONY LT	MOHD BASHIR

1 GORKHA RIFLES

178	JC	117729F	SUB MAJ & HONY LT	MANI RAJ THAPA
179	JC	183144N	SUB & HONY LT	NIRANJAN SINGH

4 GORKHA RIFLES

180	JC	129293N	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV SINGH GURUNG
181	JC	161027H	SUB & HONY LT	PADAM SINGH ROKA

5 GORKHA RIFLES

182	JC	156972P	SUB MAJ & HONY LT	BHANGU SINGH MALL SM
183	JC	138594Y	SUB MAJ & HONY LT	DIL BAHADUR PUN

11 GORKHA RIFLES

184	JC	128458P	SUB MAJ & HONY LT	DHAN BAHADUR RAI
185	JC	140714L	SUB MAJ & HONY LT	LALIT KUMAR RAI VSM

THE MECHANISLED INFANTRY REGIMENT

186	JC	154920A	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDRA SINGH
187	JC	144196N	SUB MAJ & HONY LT	KAILASH PATI TRIPATHI
188	JC	135915A	SUB MAJ & HONY LT	SHANKAR BABAR
189	JC	133474W	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK SINGH

 ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

190	JC	177727A	SUB MAJ & HONY LT	H P DWIVEDI
191	JC	181642F	SUB MAJ & HONY LT	SHAILENDRA MISHRA
192	JC	189846H	SUB & HONY LT	ANGAD SINGH
193	JC	198963P	SUB & HONY LT	BHAGPAL SINGH
194	JC	171672L	SUB & HONY LT	KUKUTIA RAJ MOHAN
195	JC	192826A	SUB & HONY LT	P C MURKHOOLY
196	JC	198941W	SUB & HONY LT	TONGESWAR CHETIA

 ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

197	JC	165574P	SUB MAJ & HONY LT	PARSHOTAM SINGH
198	JC	165577H	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH SINGH
199	JC	199483X	SUB & HONY LT	HET RAM
200	JC	199531M	SUB & HONY LT	ISHWAR SINGH
201	JC	194485W	SUB & HONY LT	MAGNA NAND
202	JC	194435N	SUB & HONY LT	PRATAP SINGH
203	JC	203478A	SUB & HONY LT	PRATAP SINGH

 ARMY MEDICAL CORPS

204	JC	169818P	SUB MAJ & HONY LT	MISIRI RAM
205	JC	183737A	SUB MAJ & HONY LT	RAM SURAT VERMA
206	JC	182699H	SUB MAJ & HONY LT	SHRI KRISHAN SAINT
207	JC	179689Y	SUB MAJ & HONY LT	TARKESHWAR SINGH YADAV
208	JC	206694L	SUB & HONY LT	RAIN CHAND KHATTA
209	JC	215238F	SUB & HONY LT	HARI SINGH
210	JC	215239K	SUB & HONY LT	JOG RAHADUR THAPA

 ARMY ORDNANCE CORPS

211	JC	175672H	SUB MAJ & HONY LT	BALARAM CHOUREY
212	JC	175741N	SUB MAJ & HONY LT	PARDUMAN SINGH
213	JC	175682M	SUB MAJ & HONY LT	RAJANIKANTA SARMAH
214	JC	173584L	SUB MAJ & HONY LT	SHIV PRASAD
215	JC	186882H	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH
216	JC	191819X	SUB & HONY LT	LOLARAK RAM
217	JC	191719M	SUB & HONY LT	RAVINDRAN P V

 CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

218	JC	167734H	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
219	JC	167849W	SUB MAJ & HONY LT	CHANDA RAM
220	JC	182434Y	SUB MAJ & HONY LT	DILIP KUMAR GHOSH
221	JC	180846H	SUB MAJ & HONY LT	GHULAPPA SIDDAPPA GHULAP GOL
222	JC	146371W	SUB MAJ & HONY LT	HARMEL SINGH
223	JC	134829H	SUB MAJ & HONY LT	JAGPAL MAURYA
224	JC	129889P	SUB MAJ & HONY LT	JIT SINGH AHLAWAT
225	JC	122546P	SUB MAJ & HONY LT	MAL CHAND
226	JC	176893F	SUB MAJ & HONY LT	*MALIK SINGH

227	JC	172493X	SUB MAJ & HONY LT	MILAN CHANDRA BHOSH
228	JC	187870A	SUB MAJ & HONY LT	NAND KUMAR
229	JC	147990W	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAL
230	JC	162637F	SUB & HONY LT	ABDUL RAZAK THARAMANNIL
231	JC	222193P	SUB & HONY LT	BABU LAL
232	JC	60516M	SUB & HONY LT (RT)	GAYALU RAM
233	JC	217787A	SUB & HONY LT	GURCHARAN SINGH
234	JC	202517N	SUB & HONY LT	HARBANS SINGH
235	JC	222336K	SUB & HONY LT	MOHAMMAD IDREESH
236	JC	218854M	SUB & HONY LT	PROBODH CHANDRA KARMAKAR
237	JC	189195X	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND
238	JC	182390M	SUB & HONY LT	SURESH CHAND

ARMY EDUCATION CORPS

239	JC	147908W	SUB MAJ & HONY LT	SAWAI SINGH
240	JC	130204W	SUB MAJ & HONY LT	UMED SINGH BHATI
241	JC	158044X	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH
242	JC	187654M	SUB & HONY LT	SURESH CHANDRA DWIVEDI

THE INTELLIGENCE CORPS

243	JC	144770F	SUB MAJ & HONY LT	BHUWA NAND CHHETRI
244	JC	146535F	SUB MAJ & HONY LT	TANERAO SINGH

CORPS OF MILITARY POLICE

245	JC	146823N	SUB MAJ & HONY LT	DAULAT SINGH
-----	----	---------	-------------------	--------------

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

246	JC	124707L	SUB MAJ & HONY LT	SATVIR SINGH
-----	----	---------	-------------------	--------------

THE PIONEER CORPS

247	JC	186833A	SUB & HONY LT	RAMCHANDER
-----	----	---------	---------------	------------

ARMY POSTAL SERVICE

248	JC	197847A	SUB & HONY LT	JAGJIT SINGH
-----	----	---------	---------------	--------------

DEFENCE SECURITY CORPS

249	JC	128586M	SUB MAJ & HONY LT	PRABHAKARAN NAIR URPAYIL
250	JC	130178A	SUB & HONY LT	SHER SINGH
251	JC	111037W	SUB & HONY LT	SHYAM SINGH
252	JC	170660K	SUB & HONY LT	SUKH DAYAL

TERRITORIAL ARMY

253	TJ	2581F	SUB MAJ & HONY LT	DM PRAKASH
254	TJ	2655L	SUB & HONY LT	BARU RAM
254	TJ	2690Y	SUB & HONY LT	M PARAMASIVAM
255	TJ	2613	SUB & HONY LT	RAM SINGH
256	TJ	2315H	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH BHAU

TO BE HONORARY LIEUTENANTS

1 HORSE

1 JC 152739K	RIS MAJ	NAFE SINGH
--------------	---------	------------

2 LANCERS

2 JC 139632W	RIS MAJ	DHRAM SINGH GODIA
--------------	---------	-------------------

17 HORSE

3 JC 119303M	RIS MAJ	KULDIP SINGH
4 JC 164714K	RIS	DALPAT SINGH

18 CAVALRY

5 JC 219145K	RIS	MALKHAN SINGH
--------------	-----	---------------

4 HORSE

6 JC 123697A	RIS MAJ	GURDIP SINGH
7 JC 132221P	RIS MAJ	SAKATTAR SINGH

71 ARMoured REGIMENT

8 JC 119346N	RIS MAJ	IMTHAZ ALI
--------------	---------	------------

81 ARMoured REGIMENT

9 JC 140591K	RIS MAJ	SHAMBHU RAM
10 JC 195401M	RIS	BADAN SINGH

84 ARMoured REGIMENT

11 JC 138096M	RIS MAJ	GURBHARAN SINGH
---------------	---------	-----------------

85 ARMoured REGIMENT

12 JC 127795X	RIS MAJ	BALDEV SINGH
---------------	---------	--------------

88 ARMoured REGIMENT

13 JC 173814W	RIS	KRISHAN CHAND SHARMA
14 JC 173809L	RIS	LAXMAN SINGH SHEKHAWAT
15 JC 173770K	RIS	SHYAM SINGH

90 ARMoured REGIMENT

16 JC 116094F	RIS MAJ	SANT SINGH
17 JC 127752H	RIS MAJ	TARA SINGH
18 JC 177455L	RIS	RANJIT SINGH

46 ARMoured REGIMENT

19 JC 140601H RIS MAJ PREM PRAKASH

47 ARMoured REGIMENT

20 JC 145247H RIS GOVIND SINGH

6 ARMoured REGIMENT

21 JC 175791Y RIS DARIYA SINGH

11 ARMoured REGIMENT

22 JC 170252Y RIS MAJ VALANJU RAJARAM MAHADEO

13 ARMoured REGIMENT

23 JC 139629W RIS MAJ GOVINDA PILLAI NARAYANA PILLAI

15 ARMoured REGIMENT

24 JC 171280X RIS BALBIR SINGH

19 ARMoured REGIMENT

25 JC 141729A RIS MAJ LAXMAN SINGH

51 ARMoured REGIMENT

26 JC 189661F RIS RANDHIR SINGH BARAK

ARMoured CORPS

27 JC 145265L RIS MAJ KAMENDRA SINGH
28 JC 67930N RIS (RT) PRABHU DATT PURCHIT
29 JC 173755P RIS SAMARENDRA BISWAS

REGIMENT OF ARTILLERY

30 JC 123760W SUB MAJ AJIT SINGH
31 JC 125641M SUB MAJ AJIT SINGH
32 JC 122868P SUB MAJ ARJAN SINGH
33 JC 128629W SUB MAJ ATTAKIL RAJAN NAIR
34 JC 133928Y SUB MAJ BAKHSHISH SINGH
35 JC 143190A SUB MAJ BALDEV SINGH
36 JC 50422F SUB MAJ (RT) BINDESHWARI PANDEY
37 JC 132661H SUB MAJ CHANDER BHAN
38 JC 49254F SUB MAJ (RT) CHANDER PRAKASH
39 JC 146299L SUB MAJ CHANDER RAM
40 JC 127591L SUB MAJ CHARN SINGH
41 JC 152731X SUB MAJ CHHAGAN SINGH

42	JC	56036L	SUB MAJ (RT)	DARBARA SINGH
43	JC	52211X	SUB MAJ (RT)	DEV RAJ
44	JC	143811N	SUB MAJ	DHARAM PAUL
45	JC	132654M	SUB MAJ	DUDEKULA SEKANNA
46	JC	147812N	SUB MAJ	E T V KANNAN
47	JC	147174A	SUB MAJ	GANPAT SHINDE
48	JC	140497A	SUB MAJ	GOPALAN RADHAKRISHNAN
49	JC	51221P	SUB MAJ (RT)	GURBACHAN SINGH DHANOA
50	JC	139416H	SUB MAJ	HANUMAN SINGH
51	JC	132974F	SUB MAJ	JAGAN NATH
52	JC	134680M	SUB MAJ	K G RAMACHANDRAN NAIR
53	JC	134644F	SUB MAJ	KAILASH CHAND
54	JC	121472Y	SUB MAJ	KANWAR SINGH YADAVA
55	JC	138353Y	SUB MAJ	KASAB NAGOJI
56	JC	155556Y	SUB MAJ	KAYAM SINGH
57	JC	134729X	SUB MAJ	K RAMACHANDRAN
58	JC	138352W	SUB MAJ	MADAN LAL
59	JC	127051M	SUB MAJ	MADHAVAN KOLAYI
60	JC	120173N	SUB MAJ	MALKIAT SINGH
61	JC	127589N	SUB MAJ	MALUK SINGH
62	JC	149614F	SUB MAJ	P N PILLAI
63	JC	112229A	SUB MAJ	RAJESHWAR SINGH
64	JC	124463H	SUB MAJ	RAMALINGAM
65	JC	124080P	SUB MAJ	RAMA SHANKER
66	JC	154574P	SUB MAJ	RAM CHANDRA
67	JC	116568X	SUB MAJ	RAMESH KUMAR SHARMA
68	JC	118220F	SUB MAJ	RAM SARUP
69	JC	134775M	SUB MAJ	R G ASSARI
70	JC	147144H	SUB MAJ	ROHITASHWA
71	JC	128652K	SUB MAJ	SAMAR SINGH
72	JC	132210H	SUB MAJ	SATDEV SINGH
73	JC	148083H	SUB MAJ	SUBE SINGH
74	JC	139867H	SUB MAJ	TARA CHAND
75	JC	134772Y	SUB MAJ	UNNIKRISHNAN PUTHANVEEDU
76	JC	147145L	SUB	BAKSHI RAM
77	JC	184607K	SUB	BALESTAR SINGH
78	JC	202408F	SUB	BHARAT SINGH
79	JC	174165H	SUB	BHOJ BAHADUR RANA
80	JC	195715N	SUB	BISHAN SINGH
81	JC	167375A	SUB	CHHAJU RAM YADAV
82	JC	223714K	SUB	CHUNNI LAL
83	JC	202320X	SUB	DEVASIA
84	JC	166155K	SUB	DEVI CHAND KATOCH
85	JC	221545P	SUB	FAKIR RAM
86	JC	200431W	SUB	GURBACHAN
87	JC	158092X	SUB	GURCHARAN SINGH
88	JC	226404K	SUB	GURDEEP SINGH
89	JC	202710A	SUB	HANS RAJ SINGH
90	JC	187597W	SUB	HARBHAJAN SINGH
91	JC	200228A	SUB	JAGMOHAN SINGH
92	JC	197619X	SUB	JARNAIL SINGH
93	JC	204511L	SUB	KASHMIRI LAL

94	JC	186564Y	SUB	ERISHAN LAL
95	JC	197432L	SUB	LAXMAN SINGH
96	JC	136674N	SUB	MANSRA RAM DHIMAN
97	JC	288341P	SUB	MATA DIN YADAV
98	JC	185934F	SUB	MOHAN DASS
99	JC	195883L	SUB	MOHINDER SINGH
100	JC	186749A	SUB	MRITUNJAYA SINGH
101	JC	221104Y	SUB	NIL KANTH
102	JC	214426W	SUB	PALTU SINGH YADAV
103	JC	201698X	SUB	PARTAP CHAND
104	JC	174115X	SUB	PRITAM SINGH
105	JC	47709N	SUB (RT)	P SURENDRA KURUP
106	JC	255211M	SUB	PUJAN SINGH YADAV
107	JC	184620N	SUB	RAGHUNANDAN SINGH
108	JC	171112Y	SUB	RAM CHANDRA
109	JC	177865F	SUB	RAM KISHAN
110	JC	223712Y	SUB	RANJIT SINGH
111	JC	169992F	SUB	RATTAN LAL
112	JC	201667X	SUB	RAVINDER KUMAR
113	JC	163534P	SUB	SANKAR SINGH
114	JC	199060K	SUB	TARLOK SINGH
115	JC	226400N	SUB	UDAIBIR SINGH
116	JC	171445L	SUB	UMED SINGH
117	JC	123805Y	SUB	VANAPALLI SESHAGIRI RAO
118	JC	187601N	SUB	VINOD KUMAR
119	JC	225909N	SUB	YASHPAUL SINGH

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

120	JC	114227N	SUB MAJ	BANSHI SINGH
121	JC	147803M	SUB MAJ	DAYAL SINGH
122	JC	77877F	SUB MAJ	GOVIND PURI
123	JC	120386F	SUB MAJ	HANUMAN SINGH
124	JC	126140Y	SUB MAJ	JAGANA RAM
125	JC	143854H	SUB MAJ	KAILASH CHANDRA
126	JC	120378H	SUB MAJ	KASHMIR SINGH
127	JC	132551N	SUB MAJ	KULDIP SINGH
128	JC	123725F	SUB MAJ	MUNNA LAL
129	JC	111915F	SUB MAJ	V T S MENON
130	JC	140470H	SUB MAJ	VEER SINGH
131	JC	195050H	SUB	AJIT SINGH BEGANA
132	JC	200159P	SUB	DALIP SINGH
133	JC	186368Y	SUB	DEVRAJ SHARMA
134	JC	186734X	SUB	HIRA LAL YADAV
135	JC	186733P	SUB	K S KUNJU
136	JC	150362M	SUB	M GOVINDAN
137	JC	140489F	SUB	P D CHACKO
138	JC	148116H	SUB	RESHAM SINGH
139	JC	187625X	SUB	SANT LAL

MADRAS ENGINEER GROUP

140	JC	139023M	SUB MAJ	CHUNDAYIL RAMAN NAIR
141	JC	138934W	SUB MAJ	DHANA SINGH
142	JC	98664F	SUB MAJ	GADILLI NAGAMANI
143	JC	134541H	SUB MAJ	GOVINDASWAMY
144	JC	139021F	SUB MAJ	KAKKAPoyIL SIVADASAN
145	JC	98272N	SUB MAJ	MACHANURI MANGAIAH
146	JC	138929L	SUB MAJ	MORASSERI VEETIL KARUNAKARAN
147	JC	134569H	SUB MAJ	MOTTAIYA GOUNDER SUBRAMANI
148	JC	134561W	SUB MAJ	MUNIRAO KRISHNAJI RAD
149	JC	128726N	SUB MAJ	MUNUSWAMY NAIDU GOVINDARAJALU
150	JC	129737M	SUB MAJ	NANDI DAVID
151	JC	96449X	SUB MAJ	PARICKAMUKALEAL PAULOSE MATHEW
152	JC	134575W	SUB MAJ	PONNAPPA GOUNDER CHINNAPPAN
153	JC	96429K	SUB MAJ	PUNTHILETH ABRAHAM VARUGHESE
154	JC	142320L	SUB MAJ	SANDANAM IRUDAYAM
155	JC	142343M	SUB MAJ	SAVADAMUTHU ANDIAPPAN
156	JC	126187K	SUB MAJ	SOMASEKHARAN UNNITHAN
157	JC	139026A	SUB MAJ	SUBRAMANI EASWARAN
158	JC	138993H	SUB MAJ	VARADARAJ PALANI
159	JC	159769K	SUB	ANNAMALAI PONNUSAMY
160	JC	196977W	SUB	DURAI SWAMY JACOB
161	JC	156601M	SUB	GOVINDAN RAMALINGAM
162	JC	202743L	SUB	HYDROSE ABDUL KHADAR KUNJU
163	JC	182635X	SUB	NAGAIAH MUNIKRISHNUDU
164	JC	179935N	SUB	NATESAN YESAIAN
165	JC	170368P	SUB	SREENIVASA EAKATHANTHAN
166	JC	159724K	SUB	TUPLAN JAYAKUMAR SM
167	JC	177244H	SUB	VIJAYAPURAM PARAMESWARAN VARAMOHANAN
168	JC	189005M	SUB	VISWANATHAN ELAMPULAVIL

BENGAL ENGINEER GROUP

169	JC	159507N	SUB MAJ	AJIT SINGH
170	JC	123599A	SUB MAJ	AVTAR SINGH
171	JC	116397W	SUB MAJ	BHUPAL SINGH
172	JC	156459N	SUB MAJ	CHANCHAL SINGH
173	JC	156463W	SUB MAJ	CHANDRA BALLABH
174	JC	92692X	SUB MAJ	DILBAGH SINGH
175	JC	159670N	SUB MAJ	DIWAN SINGH
176	JC	156491H	SUB MAJ	FAUJDAR SINGH
177	JC	160330X	SUB MAJ	GOVIND BALLABH
178	JC	134639W	SUB MAJ	JAGDISH PRASAD DOBRIYAL
179	JC	156476N	SUB MAJ	JIT SINGH
180	JC	185527N	SUB MAJ	KULWANT SINGH
181	JC	121237A	SUB MAJ	LALITA PRASAD
182	JC	126286M	SUB MAJ	MADAN SINGH RAWAT
183	JC	123598X	SUB MAJ	MOHD MOBIN KHAN
184	JC	123948M	SUB MAJ	N ABDUL AZIZ
185	JC	55499N	SUB MAJ (RT)	PARASHAR DATT
186	JC	160328A	SUB MAJ	PARMA NAND
187	JC	126096A	SUB MAJ	RAM CHANDRAN PILLAI

188	JC	121186X	SUB MAJ	RAMESH CHANDRA
189	JC	156461L	SUB MAJ	RAM LALIT VERMA
190	JC	159682H	SUB MAJ	RANDHIR SINGH
191	JC	134640L	SUB MAJ	RANJIT SINGH
192	JC	128773L	SUB MAJ	RISAL SINGH BARWAR
193	JC	138658Y	SUB MAJ	SUKHDEV SHARMA
194	JC	126101A	SUB MAJ	SUKHMANDER SINGH
195	JC	65767A	SUB (RT)	HARDEV SINGH
196	JC	177179N	SUB	JAY PRAKASH SINGH
197	JC	177115H	SUB	NANDAN SINGH SAJWAN
198	JC	174548P	SUB	ONKAR CHAND SHARMA
199	JC	171530N	SUB	RAJENDRA SINGH RAWAT
200	JC	166010X	SUB	SUREN CHANDRA BANIA
201	JC	191390N	SUB	TAJBAR SINGH
202	JC	199762H	SUB	TEJINDER SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

203	JC	138838F	SUB MAJ	ANNA SITARAM JADHAV SM
204	JC	126263L	SUB MAJ	BACHITTAR SINGH
205	JC	126714A	SUB MAJ	JARNAIL SINGH SIHOTA
206	JC	143434H	SUB MAJ	NIRMAL SINGH
207	JC	146592H	SUB MAJ	SAVALA MORE
208	JC	174640N	SUB MAJ	SHIV SINGH
209	JC	146575H	SUB MAJ	SUCHA SINGH
210	JC	145753N	SUB MAJ	BURMUKH SINGH
211	JC	143419N	SUB MAJ	UMED ALI KHAN
212	JC	163155Y	SUB	ABAD ALI
213	JC	184876W	SUB	ALLADIN KHAN
214	JC	179782P	SUB	BACHITTAR SINGH
215	JC	170470X	SUB	RHOSAIE MAHADEO APPAJI
216	JC	203032X	SUB	BIKRAM SINGH
217	JC	203028P	SUB	CHARAN SINGH
218	JC	182577Y	SUB	DARSHAN SINGH
219	JC	179774W	SUB	DEEN DAYAL
220	JC	203147L	SUB	DIDAR SINGH GOJRA
221	JC	191692A	SUB	GURBHAJAN SINGH
222	JC	182565K	SUB	GURCHARAN SINGH
223	JC	191676H	SUB	GURDIP SINGH
224	JC	159834Y	SUB	GURMIT SINGH
225	JC	170424H	SUB	GURNAM SINGH
226	JC	200050P	SUB	GURPAL SINGH
227	JC	200049A	SUB	HARBANS SINGH
228	JC	184880Y	SUB	HARBHAJAN SINGH
229	JC	167970K	SUB	HARBHAJAN SINGH
230	JC	174654N	SUB	JAMIL AHMAD
231	JC	167925X	SUB	KAMAL CHAND
232	JC	197265A	SUB	KARAJ SINGH
233	JC	179791W	SUB	KRISHNU RAM
234	JC	159428Y	SUB	MODHAN SINGH
235	JC	184879K	SUB	RAI SINGH
236	JC	163180X	SUB	RAM BHOSLE
237	JC	182573H	SUB	RESHAM SINGH
238	JC	197331X	SUB	SHANGARA SINGH
239	JC	200042W	SUB	UMED SINGH RATHOUR

CORPS OF SIGNALS

240	JC	145992H	SUB MAJ	BHAN SINGH JAKHAR
241	JC	135267H	SUB MAJ	CHANDRAHASAN ARJUNAN
242	JC	150655X	SUB MAJ	DES RAJ
243	JC	150660H	SUB MAJ	DHIAN SINGH CHAUHAN
244	JC	154275W	SUB MAJ	GOPALAKRISHNA KURUP C K
245	JC	158203K	SUB MAJ	HARI KISHAN SINGH
246	JC	157064Y	SUB MAJ	HET RAM
247	JC	145988A	SUB MAJ	ISHWAR SINGH YADAV
248	JC	153893P	SUB MAJ	JANAK CHAND
249	JC	145994N	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
250	JC	157123A	SUB MAJ	KABAL SINGH PARMAR
251	JC	102612L	SUB MAJ	KEWAL KISHOR
252	JC	154286H	SUB MAJ	KULDIP SINGH
253	JC	102607A	SUB MAJ	MAM RAJ
254	JC	154319H	SUB MAJ	MOHINDER SINGH
255	JC	166564X	SUB MAJ	PARAS NATH SINGH
256	JC	154307N	SUB MAJ	PURAN MAL
257	JC	154455Y	SUB MAJ	PURUSHOTTAM
258	JC	157059N	SUB MAJ	RAGHUNATH SINGH BHANDARI
259	JC	145997F	SUB MAJ	RAM BADAN SINGH
260	JC	150652K	SUB MAJ	RAMIAH THIRUPPATHI
261	JC	154446X	SUB MAJ	RAM SINGH
262	JC	154453N	SUB MAJ	RANDHIR SINGH ROHILLA
263	JC	141156F	SUB MAJ	SATBIR SINGH SURRA
264	JC	157120M	SUB MAJ	SELVANAMBI BALAKRISHNAN
265	JC	135265X	SUB MAJ	SHIB BANKAR CHAKRABORTY
266	JC	158162L	SUB MAJ	SHREE BHAGWAN SINGH
267	JC	145993L	SUB MAJ	SUKHBIR SINGH RAWAT
268	JC	117953N	SUB MAJ	TARLOK SINGH
269	JC	102618M	SUB MAJ	UPENDRA PRASAD JAISWAL
270	JC	133225X	SUB MAJ	VASANT SHINDE
271	JC	154282M	SUB MAJ	VIDYA SHANKAR
272	JC	188178L	SUB	BISHNU CHARAN BEHERA
273	JC	203441L	SUB	BUDHI RAM
274	JC	194810N	SUB	CHET RAM
275	JC	208837Y	SUB	DHANPAT SINGH
276	JC	217067Y	SUB	DHARAM PAL SINGH
277	JC	214378F	SUB	DHARAM VIR KALIA
278	JC	77450X	SUB (RT)	DHRUB DEO PANDEY
279	JC	210011K	SUB	DHYANESHWAR PATIL
280	JC	198236X	SUB	HAZARI LAL
281	JC	212073H	SUB	JIWA NAND
282	JC	209071M	SUB	KALESHA YALI SHAIK
283	JC	200941X	SUB	KOSHY KANDAN KULATHU SAMUEL
284	JC	198223A	SUB	LAXMAN SHINDE
285	JC	214326L	SUB	MAKHAN LAL MAHALA
286	JC	208835N	SUB	NETRA PAL SINGH
287	JC	198203M	SUB	OM PARKASH
288	JC	197738N	SUB	PADARATH NATH
289	JC	185996F	SUB	PAT RAM
290	JC	217072K	SUB	PREM DUTT

291	JC	212140H	SUB	RAJINDER SINGH
292	JC	198021Y	SUB	RAMASAMY THIRUVENKADAM
293	JC	203451Y	SUB	TARA CHAND
294	JC	214336P	SUB	UMED SINGH NEGLIA
295	JC	210027P	SUB	VED PAL SINGH

THE BRIGADE OF GUARDS

296	JC	137807P	SUB MAJ	BHABWANA RAM
297	JC	132937N	SUB MAJ	HARNAM SINGH, SC
298	JC	118552L	SUB MAJ	I BASNA SINGHA
299	JC	134145M	SUB MAJ	ISHWAR DASS
300	JC	136636F	SUB MAJ	JAG MOHAN SHARMA
301	JC	126372X	SUB MAJ	NARINJAN SINGH
302	JC	142786N	SUB MAJ	OM PARKASH
303	JC	136640K	SUB MAJ	PATI RAM
304	JC	136656P	SUB MAJ	RANJIT SINGH
305	JC	126358L	SUB MAJ	SHEKHAR KHAN
306	JC	125322A	SUB MAJ	SUKH DEV SINGH
307	JC	126389L	SUB MAJ	UNIKKAT PALLIYALIL SOMASUNDARAN
308	JC	181720N	SUB	HALBIR SINGH
309	JC	185682A	SUB	BIRANDRA SINGH
310	JC	184896H	SUB	DHARAM PAL
311	JC	185681X	SUB	RAJENDRA SINGH BISHT
312	JC	154955W	SUB	SALIK RAM
313	JC	196362L	SUB	SANT LAL
314	JC	162071Y	SUB	SIDESWAR PRASAD SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

315	JC	135495L	SUB MAJ	RHAGIRATHI PADHI
316	JC	140518L	SUB MAJ	NARENDRA KUMAR
317	JC	140035N	SUB MAJ	PUTHIYEDATH SOMASUNDARAN
318	JC	140034L	SUB MAJ	SHYAM BAHADUR THAKURI

THE PUNJAB REGIMENT

319	JC	168504F	SUB MAJ	BALHAR SINGH
320	JC	129404A	SUB MAJ	HARDEV SINGH
321	JC	168501N	SUB MAJ	RAMESH CHANDER
322	JC	145370F	SUB	ANANT RAM
323	JC	180844W	SUB	BARU RAM
324	JC	218170W	SUB	BALDEV SINGH
325	JC	171792K	SUB	DALIP CHAND
326	JC	156850L	SUB	DALJIT SINGH
327	JC	199192X	SUB	JAGDISH SINGH
328	JC	200980W	SUB	JAGIR SINGH
329	JC	174946W	SUB	JIT RAJ DOGRA
330	JC	199193A	SUB	KANSHI RAM DARAI
331	JC	196376L	SUB	MADAN LAL
332	JC	152797N	SUB	MALUK SINGH
333	JC	201794N	SUB	MILAP CHAND
334	JC	180849P	SUB	NAWEEN RAM VERMA

335	JC	192876L	SUB	RANBIR SINGH VERMA
336	JC	177989N	SUB	SURJIT SINGH

THE MADRAS REGIMENT

337	JC	115700A	SUB MAJ	LILARL RAMA SEBHAIH
338	JC	128525P	SUB MAJ	NEELAMEGAN
339	JC	104187K	SUB MAJ	N SUKUNARAN PILLAI
340	JC	109376X	SUB MAJ	RAJENDRAN CHINNAPPAN
341	JC	184283K	SUB MAJ	R VENUGOPALAN NAIR
342	JC	105256F	SUB MAJ	SHANKAR GHETTY
343	JC	139571K	SUB MAJ	VADAKKEDATH HOUSE RAMAN CHANDRAN NAIR
344	JC	148298F	SUB	G KRISHNAN KUTTY KURUP
345	JC	188366M	SUB	HONEAIT MADIWALEPPA
346	JC	132166K	SUB	KARI IRAPPA RUDRAPPA
347	JC	141780A	SUB	MURANI PARAMPIL MATHEW JOSE
348	JC	145396W	SUB	RAMAN GOPINATHAN NAIR
349	JC	151158A	SUB	UTHAMAN NAIR R

THE GRENADIERS

350	JC	171831X	SUB MAJ	ALADIN
351	JC	101483K	SUB MAJ	KRISHAN
352	JC	117521Y	SUB MAJ	POORAN SINGH
353	JC	175001Y	SUB MAJ	RAM PAT
354	JC	103566N	SUB MAJ	RAM SINGH CHANDAWAT
355	JC	168827K	SUB MAJ	RULDU RAM
356	JC	151208A	SUB MAJ	SURAJ MAL
357	JC	155069Y	SUB MAJ	SURINDER KUMAR
358	JC	201004M	SUB	BHANWAR SINGH
359	JC	180708A	SUB	BULIDAN SINGH
360	JC	129426Y	SUB	GULAB SINGH
361	JC	185489N	SUB	KEWAL SINGH
362	JC	196485P	SUB	NATHA SINGH CHAHAR
363	JC	155082H	SUB	RAM KUMAR
364	JC	158360W	SUB	SUMANDER SINGH
365	JC	196181A	SUB	VED MITTAR SINGH RANGI

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

366	JC	49256M	SUB MAJ (RT)	ABA GENDE
367	JC	112454P	SUB MAJ	ASHOK MORE
368	JC	114168M	SUB MAJ	BABAN RAJE
369	JC	152821Y	SUB MAJ	BHIMAN AGOUDA PATIL
370	JC	108330H	SUB MAJ	DILAWAR MULANI
371	JC	155639K	SUB MAJ	GANAPATI DHOKALE
372	JC	117539P	SUB MAJ	KAMLAKAR TAMBRE
373	JC	127456X	SUB MAJ	MAHADEO AMBRE
374	JC	141849Y	SUB MAJ	RANJIT SINGH
375	JC	117548W	SUB MAJ	SAMBHAJI MORE
376	JC	114481P	SUB MAJ	SHAMRAO KADAM
377	JC	117555M	SUB MAJ	SHAMRAO SAPKAL
378	JC	115749W	SUB MAJ	TANAJI NIKAM
379	JC	184973N	SUB	BALIRAM NARAYAN VARUNKAR

380	JC	162272X	SUB	DHERE SUBHASH NAMDEV
381	JC	147436L	SUB	GANAPATI BHATALE
382	JC	163635H	SUB	GOVIND MAHADIK
383	JC	175008H	SUB	HARISHCHANDRA KADAM
384	JC	167425A	SUB	JAGANNATH MAHADEO CHAVAN
385	JC	172983L	SUB	KADAM VISHNU
386	JC	160884W	SUB	MANDHARE DAYANAND GANPAT
387	JC	178517M	SUB	PANDURANG KHOT
388	JC	181799F	SUB	PARASHRAM NARAYAN DESAI
389	JC	196421M	SUB	PHATI GAWAS
390	JC	171841F	SUB	THAZHATHELA VALAPPIL BALASUBRAMANTAN
391	JC	169138P	SUB	VASANT KADAM
392	JC	196438A	SUB	VASANT KHARSADE

THE RAJPUTANA RIFLES

393	JC	135620K	SUB MAJ	BHAIRU SINGH
394	JC	105306F	SUB MAJ	BHIKA BHAI
395	JC	148404P	SUR MAJ	BHOLA RAM MANN
396	JC	104783W	SUB MAJ	CHET RAM SINGH
397	JC	110844N	SUR MAJ	GOPALA RAM
398	JC	148387A	SUB MAJ	IMTIYAZ AHMED
399	JC	108902Y	SUB MAJ	NARAJAN SINGH
400	JC	118870P	SUB MAJ	PADAM SINGH
401	JC	173004N	SUR MAJ	PADAM SINGH
402	JC	118881F	SUB MAJ	RAJPAL SINGH
403	JC	127847H	SUB MAJ	RAM PAL SINGH
404	JC	118887H	SUB MAJ	SOHAN SINGH
405	JC	175017K	SUB	BHANWAR SINGH
406	JC	152483M	SUB	HAMER SINGH
407	JC	201870N	SUB	HARI SINGH
408	JC	205109L	SUB	HEMRAJ SINGH
409	JC	204276X	SUB	MAHABIR SINGH RODHA
410	JC	155982M	SUB	OM PRAKASH
411	JC	182970F	SUB	OM PRAKASH
412	JC	204045F	SUB	PREM SINGH SINSINWAR
413	JC	182975A	SUB	RAJ KUMAR
414	JC	157286N	SUB	RAM SINGH
415	JC	110891W	SUB	SAITAN SINGH
416	JC	152474L	SUB	SHIV NARAYAN SINGH
417	JC	151688P	SUB	VED SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

418	JC	178558W	SUB MAJ	ALI AHMED
419	JC	155317K	SUB MAJ	CHIRANJI LAL GUJAR
420	JC	143617Y	SUB MAJ	FATE SINGH
421	JC	122029X	SUB MAJ	JAI NARAYAN SINGH
422	JC	159181H	SUB MAJ	MAHABIR PARSHAD
423	JC	151295Y	SUB MAJ	MANOHAR LAL
424	JC	137071N	SUB MAJ	RAM PARKASH
425	JC	122030M	SUB MAJ	SARWAN SINGH

426	JC	142968F	SUB MAJ	SUBIR SARKAR
427	JC	163877I	SUB	AMAN SINGH SM
428	JC	167202H	SUB	BADAL CHANDRA DEY
429	JC	193732P	SUB	BALBIR SINGH GILL
430	JC	211049A	SUB	BHAGWAN SINGH
431	JC	185751L	SUB	CHANDER SINGH
432	JC	193743F	SUB	CHANDRIKA SINGH
433	JC	177775A	SUB	GAJENDRA SINGH
434	JC	193729P	SUB	GIAN CHAND UDAN
435	JC	182987P	SUB	HARI NATH SINGH
436	JC	173010K	SUB	HARI NIWAS GUJAR
437	JC	173852H	SUB	JAGAT SINGH
438	JC	163879W	SUB	KHADG BAHADUR SINGH
439	JC	162119F	SUB	LAKHAN SINGH TANWAR
440	JC	193744K	SUB	MADAN PAL SINGH
441	JC	183432A	SUB	MADAN SINGH
442	JC	178254Y	SUB	MAHI PAL SINGH
443	JC	159173K	SUB	PITAM SINGH
444	JC	156887M	SUB	RAM PRATAP SINGH BHADAURIA
445	JC	164970Y	SUB	RAM AUTAR
446	JC	188641F	SUB	RAM PAL
447	JC	181810P	SUB	SAMARATH
448	JC	178535P	SUB	VED PARKASH

THE JAT REGIMENT

449	JC	158388W	SUB MAJ	GIAN CHAND
450	JC	127925P	SUB MAJ	ISHWAR SINGH
451	JC	148915Y	SUB MAJ	JAI LALL
452	JC	135665K	SUB MAJ	JAI NARAIN
453	JC	129638K	SUB MAJ	OMBIR SINGH
454	JC	139600N	SUB MAJ	RAM KUMAR
455	JC	129465X	SUB MAJ	RUGHA RAM
456	JC	185178A	SUB	CHANDRA PAL SINGH
457	JC	193749H	SUB	GIRDHARI SINGH
458	JC	188488W	SUB	HAWA SINGH
459	JC	185004A	SUB	NARAIN SINGH BHANDARI
460	JC	193763P	SUB	RAM CHANDER
461	JC	185005H	SUB	SHIV PAL SINGH
462	JC	152105N	SUB	SUKHBIR SINGH
463	JC	177950K	SUB	TEK RAM
464	JC	181831L	SUB	UDE SINGH

THE SIKH REGIMENT

465	JC	144880W	SUB MAJ	GURDIAL SINGH
466	JC	129619Y	SUB MAJ	JARNAIL SINGH
467	JC	120148P	SUB MAJ	MANGAL SINGH
468	JC	143001L	SUB MAJ	MOOL CHAND
469	JC	115792X	SUB MAJ	SADHU SINGH
470	JC	112915N	SUB MAJ	SHANGARA SINGH
471	JC	163886M	SUB	BAHADUR SINGH

472	JC	180875W	SUB	CHARAN SINGH
473	JC	184358W	SUB	GURBACHAN SINGH
474	JC	175042H	SUB	JOGINDER SINGH
475	JC	166721Y	SUB	PALWINDER SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

476	JC	100628X	SUB MAJ	GIAN SINGH
477	JC	112737W	SUB MAJ	GULZAR SINGH
478	JC	103277Y	SUB MAJ	GURMIT SINGH
479	JC	171955M	SUB MAJ	JAGDISH SINGH
480	JC	112740W	SUB MAJ	KARNAIL SINGH
481	JC	110934A	SUB MAJ	PARGAT SINGH
482	JC	169198K	SUB MAJ	PRITAM SINGH
483	JC	110933X	SUB MAJ	RESHAM SINGH
484	JC	222692K	SUB	BALDEV SINGH
485	JC	169193L	SUB	GULZAR SINGH
486	JC	169398A	SUB	MAJOR SINGH
487	JC	155352M	SUB	ZORA SINGH SARABHA

THE DOGRA REGIMENT

488	JC	136751F	SUB MAJ	BANSI RAM CHAUHAN
489	JC	115765N	SUB MAJ	BEEN SINGH
490	JC	114058X	SUB MAJ	HUKAM CHAND
491	JC	136748F	SUB MAJ	JAGDISH KUMAR
492	JC	134375A	SUB MAJ	JASWANT SINGH
493	JC	159218Y	SUB MAJ	KISHORI LAL PATIAL
494	JC	129603N	SUB MAJ	PARKASH CHAND
495	JC	110392W	SUB MAJ	SHASHPAL SINGH
496	JC	136755X	SUB MAJ	THAKUR DASS
497	JC	185215H	SUB	ANANT RAM
498	JC	193796A	SUB	BACHITTAR SINGH
499	JC	196520P	SUB	BALBIR SINGH
500	JC	204118H	SUB	BALWAN SINGH
501	JC	185034X	SUB	BANSI LAL SHARMA
502	JC	201074L	SUB	RHAG CHAND
503	JC	192630M	SUB	BIDHI CHAND
504	JC	185202L	SUB	CHIARAGH SINGH PATYAL
505	JC	196872M	SUB	DARSHAN KUMAR
506	JC	166725P	SUB	DHIAN SINGH
507	JC	193797H	SUB	DHIAN SINGH
508	JC	185207K	SUB	DHIAN SINGH PARMAR
509	JC	194624X	SUB	DHOGRU RAM
510	JC	211157K	SUB	GTAN CHAND
511	JC	203729L	SUB	HARBANS LAL
512	JC	170601M	SUB	HEM RAJ
513	JC	211158M	SUB	HTRA SINGH
514	JC	211155Y	SUB	JAGDISH SINGH
515	JC	199271M	SUB	KALI DASS
516	JC	192640W	SUB	KAMAN CHAND RANA
517	JC	185201H	SUB	KARAM CHAND

518	JC	201075N	SUB	KARTAR SINGH CHANDEL
519	JC	196522A	SUB	KASHMIR SINGH JASWAL SM
520	JC	200138N	SUB	KISHAN SINGH THAKUR
521	JC	201973M	SUB	LAL SINGH
522	JC	185048X	SUB	MEHAR CHAND
523	JC	205100F	SUB	MOHAN SINGH
524	JC	201987M	SUB	MOHENDAR KUMAR
525	JC	164814P	SUB	NEK CHAND KHARWAL
526	JC	205177F	SUB	OM PARKASH BANVAL
527	JC	222722W	SUB	RANBIR SINGH
528	JC	156073N	SUB	RANJIT SINGH
529	JC	204114M	SUB	RASAL SINGH
530	JC	178012W	SUB	RATTAN SINGH RANA
531	JC	211167N	SUB	RAVINDER NATH SM
532	JC	200390M	SUB	SAT PAL
533	JC	201960F	SUB	UDHAM SINGH

THE GARHWAL RIFLES

534	JC	124601Y	SUB MAJ	ANUSUYA PRASAD
535	JC	130841M	SUB MAJ	DALBIR SINGH GUSAIN
536	JC	132131N	SUB MAJ	DHANVIR SINGH
537	JC	128404N	SUB MAJ	JIBA NAND
538	JC	128391F	SUB MAJ	MOHAN SINGH
539	JC	152963W	SUB MAJ	MOOL RAJ SHARMA
540	JC	128394P	SUB MAJ	PURAN SINGH
541	JC	155412W	SUB	BALWANT SINGH NEGI
542	JC	181875H	SUB	BHAGWAT SINGH
543	JC	216877P	SUB	BIJAI SINGH
544	JC	220224L	SUB	DHYAN SINGH RAWAT
545	JC	211223F	SUB	GOVIND SINGH
546	JC	156405M	SUB	JASOD SINGH
547	JC	167255F	SUB	JIT SINGH
548	JC	192649L	SUB	PITAMBAR DATT
549	JC	167241F	SUB	TIRATH SINGH

THE KUMAON REGIMENT

550	JC	149491A	SUB MAJ	BHUWAN CHANDRA
551	JC	142810Y	SUB MAJ	DARWAN SINGH
552	JC	173909W	SUB MAJ	GOVIND SINGH MAHARA
553	JC	173906H	SUB MAJ	JAI RAM
554	JC	151745L	SUB MAJ	LALLAN
555	JC	128930M	SUB MAJ	MAHABIR PRASAD
556	JC	152182H	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH
557	JC	155420P	SUB MAJ	MOHAN SINGH
558	JC	151384X	SUB MAJ	NARAIN SINGH
559	JC	128554K	SUB MAJ	NAVIN CHANDRA JOSHI
560	JC	128559H	SUB MAJ	TRILOK SINGH
561	JC	202008P	SUB	ANUP SINGH
562	JC	203756P	SUB	DAYA NAND BELWAL
563	JC	184429M	SUB	DHAN SINGH
564	JC	196546K	SUB	DINABANDHU SINHA

565	JC	194653M	SUB	GANESH DATT JOSHI
566	JC	196545F	SUB	LAXMAN SINGH ROTELA
567	JC	199320K	SUB	MANGAL SINGH
568	JC	196542N	SUB	RAJENDRA SINGH
569	JC	173229W	SUB	RAM SINGH
570	JC	196575Y	SUB	SARJIT SINGH
571	JC	193840Y	SUB	SHER SINGH

THE ASSAM REGIMENT

572	JC	128561A	SUB MAJ	ALEMZUNGBA AO
573	JC	135692N	SUB MAJ	BACHITTAR SINGH
574	JC	133794L	SUB MAJ	MANO RANJAN SARMA
575	JC	112870Y	SUB MAJ	RANJIT SINGHA
576	JC	133787P	SUB MAJ	SONA RAM KAKATI
577	JC	155439N	SUB	DHARMESWAR BORA
578	JC	159263L	SUB	GHAN BAHADUR CHHETRI
579	JC	216901A	SUB	JARMEZ SINGH
580	JC	208192F	SUB	KULDIP SINGH
581	JC	155429K	SUB	RUDRA KANTA NATH
582	JC	156110W	SUB	RUMOL CHANDRA BORO
583	JC	144593M	SUB	STIBENSON MOMIN

THE BIHAR REGIMENT

584	JC	127386K	SUB MAJ	EMMANUEL MARANDIH
585	JC	144913W	SUB MAJ	JAI NATH SINGH YADAV
586	JC	127371F	SUB MAJ	JAI PRAKASH KUMAR
587	JC	141872M	SUB MAJ	RAM BILAS SINGH
588	JC	127160Y	SUB MAJ	SATYA NARAYAN PRASAD SINGH
589	JC	125183F	SUB MAJ	SIYA RAM PRASAD YADAV
590	JC	128914P	SUB MAJ	SRI KRISHNA SINGH
591	JC	175406K	SUB	DIWAKAR KUNWAR
592	JC	185549X	SUB	NAGENDRA RAI
593	JC	159275A	SUB	RAGHU NATH SINGH
594	JC	163709M	SUB	SANTOSH PURTI
595	JC	149134X	SUB	SAT NARAYAN SINGH
596	JC	173256H	SUB	SUGRIW BAITHA

THE MAHAR REGIMENT

597	JC	123024L	SUB MAJ	HAWA SINGH
598	JC	107266K	SUB MAJ	JENA NAIK
599	JC	156112F	SUB MAJ	RAJAPPAN N
600	JC	121916X	SUB MAJ	SITARAM GHANSAWADH
601	JC	113905Y	SUB MAJ	TUKARAM RANDHIR
602	JC	149509L	SUB	AMIR SINGH
603	JC	62228Y	SUB (RT)	BADRI PRASAD PURDHIT
604	JC	160996W	SUB	BIRBAL SINGH
605	JC	160994L	SUB	CHATTAR SAIN
606	JC	173270M	SUB	DALBIR SINGH
607	JC	206010W	SUB	HOSHIAR SINGH
608	JC	175443X	SUB	JAGDISH CHAND

609	JC	202096W	SUB	KISHORI LAL
610	JC	194706A	SUB	MOHAN LAL LAKHERA
611	JC	199326L	SUB	MOTI LAL
612	JC	160998F	SUB	NANDA BALABH
613	JC	160995N	SUB	PAHLAD SINGH
614	JC	169439Y	SUB	RAJINDER PRASAD
615	JC	178305F	SUB	RAMPHAL
616	JC	142825F	SUB	SHER SINGH
617	JC	183088A	SUB	SHIRI RAM
618	JC	178662K	SUB	SULKHAN SINGH
619	JC	194705X	SUB	SURINDER KUMAR
620	JC	175442P	SUB	UMED SINGH
621	JC	201142N	SUB	VIRENDRA SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

622	JC	143749M	SUB MAJ	AMIN CHAND PATHAK
623	JC	122120N	SUB MAJ	BALDEV SINGH
624	JC	137988N	SUR MAJ	BISHNU BAHADUR CHHETRI
625	JC	152994W	SUB MAJ	FAQUIR SINGH
626	JC	155795N	SUB MAJ	NARESH BAHADUR RANA
627	JC	153033F	SUB MAJ	RATTAN CHAND
628	JC	105709F	SUB MAJ	SARDAR SINGH
629	JC	167510H	SUB MAJ	SURAJ SINGH
630	JC	49018A	SUB MAJ (RT)	TRIBHUWAN PATI
631	JC	192693P	SUB	AJIT SINGH
632	JC	220290N	SUB	BALDEV RAJ
633	JC	192692M	SUB	BHAGWAN DASS
634	JC	203849K	SUR	DIWAN CHAND
635	JC	196914N	SUB	ISHAR DASS
636	JC	205710L	SUB	JOGINDER PAL
637	JC	185260P	SUB	KALYAN CHAND KONDAL
638	JC	224472Y	SUB	KESHWA NAND SHARMA
639	JC	172606P	SUB	KRISHAN BAHADUR CHHETRI SM
640	JC	212985F	SUB	KULDIP SINGH
641	JC	178115P	SUB	LAHER SINGH
642	JC	203836M	SUB	MEHAR SINGH
643	JC	196603A	SUB	NARINDER SINGH PATHANIA
644	JC	205260M	SUR	PURAN CHAND DHIMAN
645	JC	203848F	SUB	RACHHPAL SINGH
646	JC	185099L	SUB	SHAMSHER SINGH
647	JC	181898K	SUB	SHANKAR SINGH
648	JC	205693W	SUR	SHESH PAL
649	JC	203845N	SUB	SUKHDEV SINGH
650	JC	196618H	SUB	VINOD KUMAR

THE LADAKH SCOUTS

651	JC	144600K	SUR MAJ	CHHEWANG DORJE
-----	----	---------	---------	----------------

THE NAGA REGIMENT

652	JC	155750N	SUB MAJ	MOHAN SINGH
-----	----	---------	---------	-------------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

653	JC	118110M	SUB MAJ	BISHWA NATH
654	JC	101258A	SUB MAJ	DEV RAJ
655	JC	107406L	SUB MAJ	FAIJU RAM
656	JC	107405H	SUB MAJ	JASPAL SINGH
657	JC	107407N	SUB MAJ	MADAN SINGH
658	JC	107856H	SUB MAJ	MOHD RAMZAN BUTT
659	JC	107404A	SUB MAJ	PARKASH SINGH
660	JC	118514P	SUB MAJ	SHER SINGH
661	JC	165017W	SUB	AJIT LAL
662	JC	145178X	SUB	DILAWAR KHAN
663	JC	193913A	SUB	PARAS RAM SAINI
664	JC	175127Y	SUB	RAMESH LAL

1 GORKHA RIFLES

665	JC	138562W	SUB MAJ	ACHHAR SINGH GURUNG
666	JC	172636M	SUB MAJ	NAKELU RAM DHALORIA
667	JC	128043A	SUB MAJ	SUDARSHAN SINGH GURUNG
668	JC	185889A	SUB	BHIM BAHADUR GIRI
669	JC	208214P	SUB	DAL BAHADUR GURUNG
670	JC	180906L	SUB	GANESH BAHADUR CHHETRI
671	JC	181912L	SUB	MOHAN SINGH PUN
672	JC	169205X	SUB	MUKTISAR NEWAR SM
673	JC	183143L	SUB	RUDRA BAHADUR RANA
674	JC	168922X	SUB	TEJ BAHADUR GURUNG

3 GORKHA RIFLES

675	JC	121520N	SUB MAJ	CHITRA BAHADUR RANA
676	JC	115876L	SUB MAJ	KISHAN BAHADUR MALL
677	JC	132113L	SUB MAJ	SHER BAHADUR
678	JC	148556W	SUB MAJ	SURESH KUMAR RANA

4 GORKHA RIFLES

679	JC	143796K	SUB MAJ	IMAN BAHADUR GURUNG
680	JC	143788L	SUB MAJ	KUMAR BHUJEL
681	JC	143791L	SUB MAJ	RAMESH KUMAR
682	JC	130058N	SUB MAJ	TIL BAHADUR THAPA
683	JC	156129P	SUB	DEWAN SINGH THAPA
684	JC	193949Y	SUB	DILIP SINGH GURUNG
685	JC	153043L	SUB	SURAJ BAHADUR PUN
686	JC	145200X	SUB	TEJ BIR GURUNG
687	JC	172046N	SUB	UMED SINGH GURUNG

5 GORKHA RIFLES

688	JC	138592N	SUB MAJ	INDRA BAHADUR GURUNG
689	JC	179403W	SUB	BHAKTA BAHADUR GURUNG
690	JC	184507Y	SUB	BHIM BAHADUR RAI
691	JC	188590Y	SUB	BHIM BAHADUR THAPA
692	JC	169479A	SUB	DHAN BAHADUR THAPA

693	JC	193988X	SUB	GAJ BAHADUR GURUNG
694	JC	188721Y	SUB	BYAN BAHADUR THAPA
695	JC	206057P	SUB	HARI PRASAD PUROHIT
696	JC	205793F	SUB	INDRA BAHADUR THAPA
697	JC	204217L	SUB	JASWANT SINGH RAWAT
698	JC	179052K	SUB	KHIL BAHADUR ALE
699	JC	179484Y	SUB	KISHOR KUMAR SAHI
700	JC	155155K	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA
701	JC	167314H	SUB	MAN BAHADUR MAGAR SM
702	JC	206056M	SUB	MANDEEP SINGH THAKUR
703	JC	167311P	SUB	NAR BAHADUR GURUNG
704	JC	205792Y	SUB	PURNA BAHADUR THAPA
705	JC	172646W	SUB	ROK BAHADUR PUN
706	JC	164114F	SUB	TEJ BAHADUR GURUNG
707	JC	168948L	SUB	TIKA RAM GURUNG

8 GORKHA RIFLES

708	JC	136927F	SUB MAJ	BUDHI BAHADUR THAPA
709	JC	125210M	SUB MAJ	KHARKA PRASAD PUN
710	JC	132820P	SUB MAJ	PADAM BAHADUR THAPA Vrc
711	JC	157334H	SUB	GOPAL PRASAD GURUNG
712	JC	149570P	SUB	NAR BAHADUR GURUNG
713	JC	168646Y	SUB	SIRDHOJ GURUNG

9 GORKHA RIFLES

714	JC	135952N	SUB MAJ	BHAGWAN SINGH BIST
715	JC	177027L	SUB MAJ	DARSHAN RAM
716	JC	178156Y	SUB MAJ	PARMA NAND JOSHI
717	JC	167292P	SUB	K B THAKURI
718	JC	184524Y	SUB	KRISHNA MAN CHHETRI
719	JC	185130M	SUB	MIN BAHADUR CHHETRI
720	JC	188720H	SUB	SHIB BAHADUR SAHI

11 GORKHA RIFLES

721	JC	142876P	SUB MAJ	NIRMAL LIMBU
722	JC	135994A	SUB MAJ	TARA BAHADUR BHUJEL
723	JC	170158K	SUB	SAGAS BAHADUR CHHETRI
724	JC	192499A	SUB	THAKUR SINGH

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

725	JC	128114W	SUB MAJ	BALDEV SINGH
726	JC	137786A	SUB MAJ	JAGPAL SINGH
727	JC	128074A	SUB MAJ	KARNAIL SINGH
728	JC	132003K	SUB MAJ	KARNAIL SINGH
729	JC	129576Y	SUB MAJ	MOHAN SINGH BOHRA
730	JC	138666H	SUB MAJ	MOOL CHAND
731	JC	138665A	SUB MAJ	MOTI RAM

732	JC	130673Y	SUB MAJ	RAMESH RAICHURKAR
733	JC	128477A	SUB MAJ	RATHOD NARAYAN SINGH
734	JC	168769L	SUB	JAGDISH RAJ
735	JC	168775Y	SUB	MANGE RAM
736	JC	189704L	SUB	ONKAR SINGH
737	JC	168768H	SUB	PIARE LAL
738	JC	175064A	SUB	RAJ KUMAR SINGH
739	JC	151097N	SUB	SHIV SARAN SINGH

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

740	JC	171317N	SUB MAJ	ADITYA NARAIN DJHA
741	JC	171324K	SUB MAJ	BALAKRISHNA PILLAI KN
742	JC	177737K	SUB MAJ	BASU DEO SAVITA
743	JC	114939W	SUB MAJ	DEWMUNI CHAUDHARY
744	JC	161992M	SUB MAJ	HARBHAJAN SINGH
745	JC	177728H	SUB MAJ	KANWAL SINGH
746	JC	175315A	SUB MAJ	KUNNATHU KUNCHIYAMMA SIVANKUTTY NAIR
747	JC	177736F	SUB MAJ	KRISHAN KUMAR DJHA
748	JC	181646X	SUB MAJ	KUNDAN LAL
749	JC	181661M	SUB MAJ	NAMRAM KHOIKHOI SINGH
750	JC	177725P	SUB MAJ	NIMAI SANNYASI DE
751	JC	183831K	SUB MAJ	PURAN SINGH BISHT
752	JC	171319X	SUB MAJ	RAM BABU SINGH SENGER
753	JC	171332H	SUB MAJ	RAMESHWAR DAYAL
754	JC	181653N	SUB MAJ	ROOP SINGH
755	JC	181648H	SUB MAJ	SEWA RAM
756	JC	181643K	SUB MAJ	S N UPADHYAYA
757	JC	181651H	SUB MAJ	SUNIL CHANDRA SARKAR
758	JC	175904W	SUB MAJ	TEJ PRATAP SINGH
759	JC	171318W	SUB MAJ	VEERINDER SINGH
760	JC	193176K	SUB	ALAKH RAM
761	JC	200505A	SUB	BALA RAM
762	JC	189993L	SUB	BALESHWAR DAYAL
763	JC	189857P	SUB	BIHAG SINGH
764	JC	189997F	SUB	BHURI SINGH
765	JC	200927A	SUB	BINDER SINGH
766	JC	160601K	SUB	ISHWAR SINGH PATHANIA
767	JC	192847W	SUB	KALARIYA ANAND
768	JC	195252K	SUB	MOHINDER SINGH
769	JC	189990X	SUB	MOHINDER SINGH
770	JC	209027H	SUB	MUNU SAMY MUNI RAJ
771	JC	146446H	SUB	RAMASAMY VILLIALWAR
772	JC	200542N	SUB	RAMESHWAR DATTCHANDAN
773	JC	200543W	SUB	RAM MURTI
774	JC	198936L	SUB	RANBIR PAL SINGH

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

775	JC	164229P	RIS	AMAR SINGH
776	JC	176060W	RIS	BIJOY KUMAR SINGH
777	JC	185406X	RIS	SOPAN KUMAR CHAKRAVARTHY

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

778	JC	165572K	SUB MAJ	BABBAN KUAR
779	JC	165579A	SUB MAJ	DHOOM SINGH
780	JC	165662L	SUB MAJ	HARBANS LAL
781	JC	165569K	SUB MAJ	RAM LALIT RAM
782	JC	165542M	SUB MAJ	RAM NIWAS RAYAWAL
783	JC	165571F	SUB MAJ	RANJHA
784	JC	165580H	SUB MAJ	SHRI KRISHAN
785	JC	165573M	SUB MAJ	SUJIT KUMAR DEY
786	JC	165566W	SUB MAJ	YUGUL KISHORE
787	JC	199457N	SUB	AMRIT SINGH
788	JC	209803X	SUB	ANTU PRASAD YADAV
789	JC	202701Y	SUB	ARAM SINGH
790	JC	202682Y	SUB	BABU LAL MEENA
791	JC	199473N	SUB	BAJARANGI YADAV
792	JC	194900P	SUB	BALAM RAM
793	JC	199504H	SUB	BASHISTHA SINGH
794	JC	194402H	SUB	BHAWANI LAL
795	JC	194269L	SUB	BHIM SINGH
796	JC	206294Y	SUB	BHUPAL SINGH
797	JC	194423Y	SUB	BRAHMA SHANKER TIWARY
798	JC	194432A	SUB	DESH RAJ
799	JC	199506N	SUB	DHARAMPAL SINGH
800	JC	03103P	SUB (RT)	HARNAM SINGH
801	JC	199474W	SUB	JAGDISH KUMAR
802	JC	194346P	SUB	JAI KRISHNA BHATT
803	JC	194279P	SUB	JHABAL SINGH
804	JC	206237X	SUB	KANHAIYA LAL SHARMA
805	JC	206247F	SUB	KARUMAN THOTIL SREEDHARAN
806	JC	199535H	SUB	KHUSHAL RAO
807	JC	194304H	SUB	MAHIPAL SINGH
808	JC	206254X	SUB	MOOL CHAND VERMA
809	JC	194434L	SUB	MOTI SINGH
810	JC	194427P	SUB	MUNNA LAL
811	JC	206276W	SUB	NIZAMUDDIN LASKAR
812	JC	194330K	SUB	OM PRAKASH
813	JC	194911F	SUB	PARDUMAN SINGH
814	JC	194059K	SUB	PATEL SAYYAD AYUB
815	JC	194898H	SUB	P GOPINATHAN
816	JC	194720F	SUB	PURAN SINGH
817	JC	194431X	SUB	RADHA SINGH
818	JC	199501P	SUB	RAJENDRA PRASAD
819	JC	199487N	SUB	RAM KRISHAN
820	JC	202681W	SUB	RANA PRATAP SINGH
821	JC	194441F	SUB	ROSHAN LAL
822	JC	202683F	SUB	SARDAR KHAN
823	JC	206290P	SUB	SATYA PAL SINGH SIKH
824	JC	206240X	SUB	SHALIG RAM
825	JC	206297M	SUB	SHANTI SAROOP
826	JC	194314M	SUB	SHER SINGH THAKUR
827	JC	206295F	SUB	SHIV RAM

828	JC	194413P	SUB		SOMAN P
829	JC	199525Y	SUB		BUKUMARAN K
830	JC	199465P	SUB		VDS NAIR
831	JC	206239H	SUB		YESHODHARAN R
832	JC	194923W	SUB		YOUSAF
833	JC	194438F	SUB		ZORAWAR SINGH DAHIYA

ARMY MEDICAL CORPS

834	JC	146518F	SUB MAJ		BAHADUR SINGH RAJPUT
835	JC	50464K	SUB MAJ	(RT)	BISHESHWAR JHA
836	JC	169812N	SUB MAJ		GANGA PRASAD SHARMA
837	JC	169873L	SUB MAJ		GENDAN LAL
838	JC	169877F	SUB MAJ		HAZARA SINGH
839	JC	169878K	SUB MAJ		JAGDISH CHAND
840	JC	170150H	SUB MAJ		JITENDRA SINGH
841	JC	146476A	SUB MAJ		KOYATASSERY MUNDAKKA THODI PRABHAKAI
842	JC	169809N	SUB MAJ		KRIPAL SINGH
843	JC	169815F	SUB MAJ		LILA RAM
844	JC	180154M	SUB MAJ		MADAN MISHRA
845	JC	131592L	SUB MAJ		NARAYAN SINGH CHAUHAN
846	JC	183736X	SUB MAJ		RAM SHANKER CHATURVEDI
847	JC	170185Y	SUB MAJ		RANGANATHAN ANNADURAI
848	JC	192277L	SUB MAJ		ROMESH LAL
849	JC	214832W	SUB MAJ		SANTOKH SINGH HIRA
850	JC	183760N	SUB MAJ		SEWA RAM PANWAR
851	JC	183738H	SUB MAJ		UTTAM CHAND SHARMA
852	JC	192275A	SUB MAJ		VEDANTAM RAM CHANDRA PRASAD
853	JC	209749P	SUB		BED SINGH
854	JC	209695Y	SUB		ISHWAR SINGH YADAV
855	JC	161487K	SUB		JAGDISH CHAND LANGDI
856	JC	690115K	SUB		LAL SINGH PANNU SM
857	JC	223217A	SUB		MOD SHARIF
858	JC	223214M	SUB		MOHAN LAL SAH
859	JC	201355F	SUB		RAI SINGH JAMWAL
860	JC	215241F	SUB		RATTAN CHAND
861	JC	219988X	SUB		SHIVA NARAYAN YADAV
862	JC	216248X	SUB		SUR BAHADUR THAPA
863	JC	201347H	SUB		VIR SINGH
864	JC	180192H	SUB		YOGESH KUMAR SHARMA

ARMY ORDNANCE CORPS

865	JC	91245F	SUB MAJ		ARJAN KUMAR MINOCHA SM
866	JC	49432Y	SUB MAJ	(RT)	CHHAVISHYAM MISHRA
867	JC	175680F	SUB MAJ		DEEP CHAND SHARMA
868	JC	175719H	SUB MAJ		DHARAM SINGH
869	JC	175631Y	SUB MAJ		KESAR SINGH
870	JC	175725W	SUB MAJ		MANOHAR LAL
871	JC	175685A	SUB MAJ		RAJE SINGH RAWAT
872	JC	176631L	SUB MAJ		RAM KUMAR MALIK
873	JC	153274F	SUB MAJ		SHER SINGH

874	JC	126743I	SUB MAJ	MOHON PAL SINGH
875	JC	107260F	SUB	ASHOK KUMAR SINGH
876	JC	186972F	SUB	BIRJU SINGH RAJPOOT
877	JC	187209H	SUB	DISH PAI PRADIPATI
878	JC	195505H	SUB	CHANGDEV
879	JC	186964L	SUB	DEW PAI
880	JC	186974P	SUB	DURLAN SINGH RAO
881	JC	187725H	SUB	HARDIAL SINGH
882	JC	187732H	SUB	KUNTIKON C S
883	JC	187211I	SUB	LADULSHORE MOHAPATRA
884	JC	189735I	SUB	LALLAN RAM
885	JC	201226F	SUB	MAJOR SINGH KULLAY
886	JC	194785A	SUB	MANGAL SINGH CHOUDHAN
887	JC	193550F	SUB	RADHA KRISHNA DAS
888	JC	722128H	SUB	RAMA KANT SINGH
889	JC	186971F	SUB	RAMJI TIWARI
890	JC	194802P	SUB	RAM NAGINA SINGH
891	JC	193536P	SUB	RAM NIVAS SWAMI
892	JC	186963H	SUB	SHYAM KANT CHAUDHARY
893	JC	189740W	SUB	SUKHDEV SINGH
894	JC	187740X	SUB	SURTA RAM SM
895	JC	198595L	SUB	TEJA SINGH
896	JC	193535M	SUB	VIRENDRA CHOUHAN

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

897	JC	187703M	SUB MAJ	AMAR SINGH
898	JC	129198F	SUB MAJ	BAHAOUR SINGH BHAINORA
899	JC	131226F	SUB MAJ	RAJDIYANATH CHOUDHARY
900	JC	168305N	SUB MAJ	HAURIT SINGH
901	JC	66326N	SUB MAJ (RT)	CHANDRADEO JHA
902	JC	129220F	SUB MAJ	E PALA KRISHNAN NOMBIAI
903	JC	177567L	SUB MAJ	GAJENDRA GRI
904	JC	131371X	SUB MAJ	GIRIJA RAJ
905	JC	184211A	SUB MAJ	HARI SINGH MAN
906	JC	124831M	SUB MAJ	HAZARI DAN SINGH
907	JC	191050L	SUB MAJ	JAGDISH RAI
908	JC	124832P	SUB MAJ	JAGDISH RAM
909	JC	129086F	SUB MAJ	JAGJIT SINGH
910	JC	122565A	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
911	JC	177565A	SUB MAJ	FALJPADA SINGHA
912	JC	131198A	SUB MAJ	KHARAK SINGH WALDIA
913	JC	168307Y	SUB MAJ	KOMAL SINGH
914	JC	122562M	SUB MAJ	KRISHNAPPA KMR
915	JC	187872L	SUB MAJ	MAHABIR PARSHAD YADAV
916	JC	172517W	SUB MAJ	MOHD AFZAL KHAN
917	JC	131677F	SUB MAJ	NATHUNI PRASAD VERMA
918	JC	130319K	SUB MAJ	PHILIPPOSE MATHAI
919	JC	136344Y	SUB MAJ	PRITHVI NATH SINGH
920	JC	167735L	SUB MAJ	RAJINDRA SINGH
921	JC	180045A	SUB MAJ	RAMESH CHANDRA
922	JC	49665A	SUB MAJ (RT)	ROOP NARAIN SHUKLA
923	JC	179132F	SUB MAJ	RUGHA RAM

924	JC	182338K	SUB MAJ	SADA RAM YADAV
925	JC	179138W	SUB MAJ	SARDARA RAM
926	JC	131767H	SUB MAJ	SUKH DEV SINGH
927	JC	189338M	SUB MAJ	SURRINDER SINGH
928	JC	136472W	SUB MAJ	SURRINDER SINGH
929	JC	182438P	SUB MAJ	TARA SINGH
930	JC	180049W	SUB MAJ	TILAK RAJ
931	JC	124818H	SUB MAJ	TULSI RAM TIWARI
932	JC	184205M	SUB MAJ	VED RAM
933	JC	170898K	SUB MAJ	VELUSAMY SUBBIAH
934	JC	130333W	SUB MAJ	YASHWANT SINGH NAYAL
935	JC	202485W	SUB	AMIN CHAND
936	JC	222184N	SUB	ARUN KUMAR THAPA
937	JC	221912W	SUB	BABU TULSI RAM KSHIRSAGAR
938	JC	221851K	SUB	BHIKARI CHARAN DAS
939	JC	160708Y	SUB	CHARAN SINGH
940	JC	207243X	SUB	DES RAM MANDHOLEIA
941	JC	181473L	SUB	DEVINDER SINGH
942	JC	202532H	SUB	DHANI RAM
943	JC	202502L	SUB	GIRISH KUMAR SINGH
944	JC	203409W	SUB	GOPI NATH BISWAS
945	JC	211774M	SUB	JAGDISH SINGH
946	JC	177526F	SUB	JOHN D
947	JC	747552L	SUB	JOKHAN RAM
948	JC	206419L	SUB	KAMESHWAR PRASAD SRIVASTAVA
949	JC	189288M	SUB	KARTAR SINGH ARYA
950	JC	222095P	SUB	KISHAN DAN SINGH
951	JC	202492M	SUB	KISHAN LAL YADAV
952	JC	222186Y	SUB	KISHORI LAL
953	JC	207408K	SUB	KODACKAL PUTHEYAVEEDU BALAN
954	JC	162654F	SUB	KRISHAN DEV
955	JC	210147N	SUB	KULDIP SINGH
956	JC	207272M	SUB	KUSHA RAM SAIKIA
957	JC	217704M	SUB	MAHABIR PRASAD
958	JC	206764Y	SUB	MOHAN SINGH
959	JC	199437H	SUB	NAGENDRA CHANDRA BARMAN
960	JC	222096X	SUB	RAJENDRA NATH BARUA
961	JC	181433K	SUB	RAJINDER SINGH
962	JC	210249K	SUB	RAM CHAND
963	JC	170873Y	SUB	RAM LAL SEMIAL
964	JC	747413P	SUB	RAM PRAKESH SINGH
965	JC	217778Y	SUB	RICHPAI SINGH
966	JC	747737M	SUB	SHRIKRISHNA SINGH
967	JC	222589Y	SUB	SHYAM SINGH NAGARKOTI
968	JC	202534N	SUB	SURAT SINGH

ARMY EDUCATION CORPS

969	JC	129581N	SUB MAJ	BIR PRATAP SINGH
970	JC	129347K	SUB MAJ	RAJ BAHADUR SINGH CHAUHAN
971	JC	129344W	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH BISHT
972	JC	150486F	SUB MAJ	RAKAM SINGH
973	JC	139146Y	SUB MAJ	RAM KIBAL SINGH

974	JC	137684N	SUB MAJ	RANGIAH CHANDRA SEKARA CHETTY
975	JC	132080H	SUB MAJ	VIKRAMADITYA YADAV
976	JC	182675Y	SUB	BUI LAL
977	JC	195215W	SUB	GURDIP SINGH
978	JC	183189N	SUB	KAPIL DEO THAKUR
979	JC	187648Y	SUB	KRISHAN SINGH
980	JC	217193L	SUB	PA JOHN
981	JC	206122K	SUB	PREM CHAND
982	JC	169303P	SUB	RADHEY SHIAM
983	JC	185341P	SUB	RAGHU BANSH NARAYAN SINGH
984	JC	180220K	SUB	SHAIK YUSUF BASHA
985	JC	198888W	SUB	SURAJ MAL SUHAG

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

986	RV	7700H	RIS	AWDH BIHARI AWASTHI
987	RV	7765K	RIS	KEDAR SINGH KHATI

THE INTELLIGENCE CORPS

988	JC	144786M	SUB MAJ	APURBA KUMAR CHAKRABARTY
989	JC	174308X	SUB MAJ	BALAM SINGH RAWAT
990	JC	144779W	SUB MAJ	BASANT KUMAR SHARMA
991	JC	149235L	SUB MAJ	FATEH BAHADUR SINGH
992	JC	149236N	SUB MAJ	GIRDHAR PRASAD NAILWAL
993	JC	144789A	SUB MAJ	MADAN SINGH
994	JC	144775A	SUB MAJ	PRATAP SINGH RAWAT
995	JC	179991M	SUB	RAJ KUMAR SAHI
996	JC	174284Y	SUB	SASIDHARAN PILLAI
997	JC	174291P	SUB	SURENDRA SINGH PANWAR

CORPS OF MILITARY POLICE

998	JC	146824W	SUB MAJ	DHAN SINGH
999	JC	147602N	SUB MAJ	PANIPILLI APPA RAO
1000	JC	173371A	SUB MAJ	PARKASH CHAND
1001	JC	146021H	SUB MAJ	TRIPTI NARAYAN JHA
1002	JC	198191H	SUB	SCARIAH AC

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

1003	JC	169493M	SUB	AMAR SINGH
1004	JC	178794X	SUB	GUMAN CHAND

THE PIONEER CORPS

1005	JC	160110N	SUB MAJ	BHIM SINGH
1006	JC	163071L	SUB MAJ	UJALA RAM
1007	JC	174877L	SUB	DALIP SINGH
1008	JC	188762H	SUB	KAMTA PRASAD
1009	JC	198809N	SUB	RAGHUBIR SINGH

ARMY POSTAL SERVICE

1010	JC	130657F	SUB	KANHAIYA LAL DOVAL
1011	JC	210102N	SUB	KARAM SINGH SAINI
1012	JC	223770H	SUB	P SOMAN PILLAI
1013	JC	223767H	SUB	SUCHA SINGH

DEFENCE SECURITY CORPS

1014	JC	124753A	SUB MAJ	BALBIR SINGH
1015	JC	119711K	SUB MAJ	DOJEE TSHIRING BHUTIA
1016	JC	111075M	SUB MAJ	KRISHAN CHANDER
1017	JC	124898L	SUB	ACHHUTANANDA RATH
1018	JC	139185X	SUB	CHAKOR CHAND
1019	JC	116991F	SUB	DEO SAHAY NAG
1020	JC	130171W	SUB	SWARAN SINGH
1021	JC	141383F	SUB	TULSI RAM

TERRITORIAL ARMY

1022	TJ	1905	SUB MAJ	AMRIK SINGH BILL
1023	TJ	2521M	SUB	ANCHAL SINGH
1024	TJ	3144	SUB	BALASAHEB PATIL
1025	TJ	2328	SUB	GODHA RAM
1026	TJ	3337	SUB	JAGAT SINGH CHANDEL
1027	TJ	3047W	SUB	KISHNA DASS
1028	TJ	2495W	SUB	KHEMACHAND
1029	TJ	2251H	SUB	LAXMAN PRASAD MISHRA
1030	TJ	2626	SUB	MOHAN RAM
1031	TJ	2630Y	SUB	MOHINDER SINGH
1032	TJ	2735	SUB	MRINAL KANTI SINGHA
1033	TJ	2450	SUB	NAGENDRA DEB BRAHMA
1034	TJ	2991	SUB	NETAJI PATIL
1035	TJ	3065Y	SUB	PREM BALLABH PANDEY
1036	TJ	2656	SUB	RAMCHANDRA YADAV
1037	TJ	2725	SUB	RAM LALAN PANDEY
1038	TJ	3046N	SUB	RATAN LAL
1039	TJ	2775	SUB	SHIVAJI BHISE
1040	TJ	3005	SUB	SOHAN SINGH

Tele : 3018193

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

सं. ए/43432/आर डी 97/ए जी/सी डब्ल्यू 2

क्रा. नि. आ. 2 (अ)— दिनांक 26 जनवरी 1997.— राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 1997) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी नंबर अंतर्गत मंत्रालय विनियमावली 1987 के पैरा 177 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

आर्मंड कोर

1	जेसी 122343 एल	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	अजीत सिंह	01-12-96
2	जेसी 141677 पी	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	ज्ञान चन्द परिहार	01-11-96
3	जेसी 128219 ए	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	खिम सिंह	01-09-96
4	जेसी 119300 एल	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	मेजर सिंह	01-09-96
5	जेसी 127801 ए	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	राम किशन	01-10-96
6	जेसी 163585 एच	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	बिजेन्द्र सिंह	01-09-96
7	जेसी 203258 एच	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	दलीप सिंह	01-09-96
8	जेसी 145262 एक्स	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	फते सिंह	01-10-96
9	जेसी 168682 के	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	जय चन्द कादियान	01-12-96
10	जेसी 177461 वाई	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	मदन पाल सिंह	01-10-96
11	जेसी 200810 एम	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	शंकर सिंह	01-10-96
12	जेसी 200811 पी	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	सर्वजीत सिंह	01-09-96
13	जेसी 134540 ए	रिसालदार मेजर व अवैतनिक ले.	विजय सिंह राठोर	01-12-96

रजिमेंट आफ तोपखाना

14	जेसी 136056 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	बसलिंगप्पा बल्लप्पा बरगली	01-11-96
15	जेसी 119816 एन	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	भीम बहादुर राय	01-01-97
16	जेसी 136199 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	दान बहादुर सिंह	01-01-97
17	जेसी 118338 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	दया नन्द	01-11-96
18	जेसी 118243 एच	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	गबर सिंह रावत	01-09-96
19	जेसी 119884 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	हरभजन सिंह	01-12-96
20	जेसी 124461 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	काली चरण	01-10-96
21	जेसी 128843 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	कोल्तम परम्बिल वरुगीस मेथ्यू	01-01-97
22	जेसी 130500 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	लखा सिंह	01-01-97
23	जेसी 123520 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	लक्ष्मिदत्त पन्त	01-01-97
24	जेसी 128649 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	मल्कीयत सिंह	01-01-97
25	जेसी 133994 एफ	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	मान सिंह	01-01-97
26	जेसी 135092 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	मंगल सिंह जख्मी	01-01-97
27	जेसी 144291 ए	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	मंगित राम	01-01-97
28	जेसी 112355 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	मनहरी पुरिया श्रीदिल गोपालन	01-10-96
29	जेसी 109021 एम	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	महेन्द्र सिंह	01-09-96
30	जेसी 127823 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	निरंजन सिंह	01-09-96
31	जेसी 123791 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	प्रकाश चन्द	01-09-96
32	जेसी 135145 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	परमेश्वर	01-10-96
33	जेसी 128831 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	रघुबीर सिंह	01-09-96
34	जेसी 143897 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	राजबक्ष सिंह	01-09-96
35	जेसी 134671 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	राज देव सिंह	01-10-96
36	जेसी 118281 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	राजे राम	01-10-96
37	जेसी 119902 वाई	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	राजेन्द्र प्रसाद यादव	01-01-97
38	जेसी 152016 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	राम चन्द्र	01-12-96
39	जेसी 124080 डब्ल्यू	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	रत्न सिंह	01-09-96
40	जेसी 120196 के	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ले.	रत्न सिंह	01-01-97

41	जैसी 139211ए	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	रघु राम	01-01-97
42	जैसी 127320एएम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	सेबा दामि	01-12-96
43	जैसी 130734एएम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	शंकरा सिंह	01-10-96
44	जैसी 144750डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	शिव सिंह	01-01-97
45	जैसी 131954एएम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	शिवाजी गाईकवाड	01-09-96
46	जैसी 136111एएम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	श्री विक्रमा सिंह	01-01-97
47	जैसी 144285डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	श्याम लाल कैरी	01-12-96
48	जैसी 137183वाई	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	सुरत सिंह	01-09-96
49	जैसी 123679एएम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	सुरजीत सिंह	01-10-96
50	जैसी 116590एएम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	तरलोक सिंह	01-09-96
51	जैसी 122955डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	टीवी जोष	01-12-96
52	जैसी 118277डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	उमेश सिंह	01-01-97
53	जैसी 108744पी	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	वसन्त रावूल	01-11-96
54	जैसी 106680डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लैं	विजय सिंह	01-10-96
55	जैसी 168431ए	सुबेदार & अखैतनिक लैं	अमरजीत सिंह	01-01-97
56	जैसी 155548ए	सुबेदार & अखैतनिक लैं	अमरजीत सिंह	01-10-96
57	जैसी 185350डब्ल्यू	सुबेदार & अखैतनिक लैं	अमरजीत सिंह	01-01-97
58	जैसी 193600डब्ल्यू	सुबेदार & अखैतनिक लैं	अमरजीत सिंह	01-11-96
59	जैसी 148672वाई	सुबेदार & अखैतनिक लैं	अमृतम पीटर	01-11-96
60	जैसी 185365वाई	सुबेदार & अखैतनिक लैं	अवतार सिंह	01-11-96
61	जैसी 197509एएम	सुबेदार & अखैतनिक लैं	बलवीर सिंह	01-09-96
62	जैसी 169912वाई	सुबेदार & अखैतनिक लैं	भूप नारायण सिंह	01-12-96
63	जैसी 183237एएम	सुबेदार & अखैतनिक लैं	ब्रह्मा नैद धर्मा	01-11-96
64	जैसी 197493एएम	सुबेदार & अखैतनिक लैं	चन्द्र मोहन	01-10-96
65	जैसी 183227वाई	सुबेदार & अखैतनिक लैं	दलजीत सिंह नांग्लिया	01-09-96
66	जैसी 183253ए	सुबेदार & अखैतनिक लैं	धमेन्द्र सिंह	01-12-96

67	जेसी 185357ए	सुबेदार & अवैतनिक लें	ज्ञान चन्द	01-01-97
68	जेसी 203499एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	गुरबचपन सिंह	01-01-97
69	जेसी 174001एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	गुरहर भजन सिंह मंगनिहानी	01-09-96
70	जेसी 147789एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	हरदयाल सिंह	01-01-97
71	जेसी 152060वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	हरी सिंह	01-10-96
72	जेसी 177092एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	जग राम	01-10-96
73	जेसी 192537एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	जगनाथ घवाड़	01-09-96
74	जेसी 129068वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	जगदीश राघ	01-09-96
75	जेसी 175540पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	जोगिन्द्र सिंह	01-09-96
76	जेसी 129768एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	कबल सिंह	01-11-96
77	जेसी 135202डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	करतार सिंह राना	01-11-96
78	जेसी 179196एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	कृषल नारायणन	01-09-96
79	जेसी 185355पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	लाल मल	01-01-97
80	जेसी 180423एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	मेहर सिंह	01-11-96
81	जेसी 197469एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	नन्दन सिंह	01-01-97
82	जेसी 148072डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	नरेन्द्र सिंह चन्द	01-10-96
83	जेसी 183252एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लें	प्रताप सिंह तंवर	01-12-96
84	जेसी 202353एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	राधे श्याम घादवा	01-01-97
85	जेसी 163000के	सुबेदार & अवैतनिक लें	राजाराम बघाराम सिंदे	01-10-96
86	जेसी 139348एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	राम शंकर सिंह	01-11-96
87	जेसी 179189डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	रणजीत सिंह धालिवाल	01-09-96
88	जेसी 185356एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लें	रहापाल सिंह	01-01-97
89	जेसी 177608एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	सरणजीत सिंह	01-01-97
90	जेसी 166990एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	शतबीर सिंह चौहान	01-10-96
91	जेसी 169687पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुह्रमणिचन कुप्पन	01-12-96
92	जेसी 201263पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुसदेव चन्द धीमान	01-11-96

93	जेसी 193388पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुखदेव सिंह	01-12-96
94	जेसी 203585डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुरज भान	01-11-96
95	जेसी 169887एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सूर्यपाल	01-09-96

कोर आफ वायू रक्षा तोपखाना

96	जेसी 124503वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	हरदम सिंह	01-09-96
97	जेसी 124040पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कलरी कण्डी शिवानन्दन	01-10-96
98	जेसी 135152पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कोरम्बेत सुकुन्दन	01-10-96
99	जेसी 129856एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राजिन्द्र सिंह	01-01-97
100	जेसी 121436एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	उदय सिंह तंवर	01-10-96
101	जेसी 197501डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बाबू लाल तोमर	01-10-96
102	जेसी 178759पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	चंकोरपाल सिंह मुल्लर	01-09-96
103	जेसी 217358पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	धीर सिंह	01-12-96
104	जेसी 185345एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जसवन्त सिंह	01-11-96
105	जेसी 179187एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कुमार गुरंग	01-09-96
106	जेसी 174143के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम रत्न	01-10-96
107	जेसी 183226डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रेवत सिंह	01-01-97
108	जेसी 186687एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुन्दर सिंह	01-12-96
109	जेसी 201734एब्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	त्रिलोक सिंह	01-10-96

मद्रास इन्जिनीयर ग्रुप

110	जेसी 138992ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	आरोक्षम अरुलाण्डु	01-12-96
111	जेसी 128667एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जी मणी	01-12-96
112	जेसी 128681वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गब्रियेल इसाक	01-10-96
113	जेसी 125997ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कृष्णन लक्षमणन	01-11-96
114	जेसी 133424एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मदारी वेलायुधन	01-12-96
115	जेसी 128671पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	माप्राणतकारन औसेफ जोर्ज	01-12-96

116	जेसी 932691एन	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	मारिघप्यन गधा	01-09-96
117	जेसी 127287एफ	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	राम रेड्डी चासुदेव रेड्डी	01-10-96
118	जेसी 144109पी	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	रकमासामी नटेशन	01-10-96
119	जेसी 128674एच	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	रतिनम कलैमणी	01-11-96
120	जेसी 96447एम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	वन्धिप्रदिल शंकरन मोहना कुमार	01-10-96
121	जेसी 129013पी	सुबेदार & अखैतनिक लें	गोपिनाथन विजयन	01-11-96
122	जेसी 159588वाई	सुबेदार & अखैतनिक लें	कारी गौडा चौडे गौडा	01-10-96
123	जेसी 162390एल	सुबेदार & अखैतनिक लें	कुट्टन पिले श्रीधरन	01-11-96
124	जेसी 126323पी	सुबेदार & अखैतनिक लें	परशुरामन नटराजन	01-09-96
125	जेसी 191299एक्स	सुबेदार & अखैतनिक लें	रमन वरतराजन	01-01-97
126	जेसी 159636एन	सुबेदार & अखैतनिक लें	तिरुचेल्वम अन्धोणिस्वामी	01-01-97
127	जेसी 156567एक्स	सुबेदार & अखैतनिक लें	वेदगिरि चन्द्रशैखरन	01-01-97

बंगाल इन्जिनीयर ग्रुप

128	जेसी 92684वाई	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	अक्तर हुसैन	01-09-96
129	जेसी 123560एन	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	अमरिक सिंह बैदवान	01-10-96
130	जेसी 126036एल	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	अजाद सिंह	01-10-96
131	जेसी 99947पी	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	बलदेव सिंह	01-12-96
132	जेसी 122800ए	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	दलद्वीर सिंह	01-01-97
133	जेसी 099946एम	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	कारा सिंह	01-10-96
134	जेसी 91743एन	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	दर्शन सिंह हंस	01-09-96
135	जेसी 142244के	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	सुरदेव सिंह	01-09-96
136	जेसी 159693पी	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	सुरनाम सिंह	01-01-97
137	जेसी 156654एल	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	इकबाल सिंह	01-12-96
138	जेसी 125793एन	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	कोण्डराम राजू राजा रेड्डी	01-10-96
139	जेसी 105526एल	सुबेदार मेजर & अखैतनिक लें	लीला धर चिरिघा	01-01-97

140	जेसी 156452के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मान सिंह	01-12-96
141	जेसी 93193पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहन लाल	01-11-96
142	जेसी 142245एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नारायण सिंह	01-09-96
143	जेसी 65639एघ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नारायणन अष्टाजी	01-09-96
144	जेसी 125753एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	निजामुद्दीन खान	01-10-96
145	जेसी 125786एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	प्रमा नैद	01-10-96
146	जेसी 154142ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	प्रेम सिंह	01-11-96
147	जेसी 93670एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राधा कृष्णन	01-12-96
148	जेसी 99943वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम दरस	01-11-96
149	जेसी 123566पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम खिल्लारी	01-11-96
150	जेसी 125754पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम किशन	01-12-96
151	जेसी 156637एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम प्रसाद सिंह	01-12-96
152	जेसी 159751एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम सरण सिंह	01-01-97
153	जेसी 126060एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सैकन्दर सिंह पान	01-01-97
154	जेसी 123610एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	समीन्दर सिंह	01-10-96
155	जेसी 149983वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सतनारायण सिंह	01-12-96
156	जेसी 126285के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुखदेव सिंह	01-12-96
157	जेसी 01496पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तंका राजन	01-12-96
158	जेसी 156469एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	उदयवीर सिंह	01-01-97
159	जेसी 207690एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	आरोकिधम सेबास्ट्यन	01-09-96
160	जेसी 153765एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	डूडू उमापती शास्त्री	01-11-96
161	जेसी 191443एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कीर्ती सिंह	01-01-97
162	जेसी 166833वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोती राम धापा	01-01-97
163	जेसी 133640वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	एन डी पवार	01-12-96
164	जेसी 139783पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शोभन सिंह	01-01-97

बंबई इन्जिनीयर ग्रुप

165	जेसी 138840वाई	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	आत्माराम घण्टे	01-11-96
166	जेसी 163178ए	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	दलबीर सिंह	01-01-97
167	जेसी 138829ए	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	दीपक सिंह	01-10-96
168	जेसी 126329डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	जोगिन्द्र सिंह	01-12-96
169	जेसी 138820एल	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	ओंकार सिंह	01-11-96
170	जेसी 159493वाई	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	राम मेहर	01-12-96
171	जेसी 138844पी	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	सुरजीत सिंह	01-11-96
172	जेसी 191611पी	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	अजीत सिंह	01-01-97
173	जेसी 191706पी	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	गोविंद प्रसाद त्रिपाठी	01-01-97
174	जेसी 170448एम	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	रमेश सिंदे	01-12-96
175	जेसी 163137डब्ल्यू	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	शिवाजी मोरे	01-10-96
176	जेसी 177009पी	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	सचिन्दर सिंह	01-10-96
177	जेसी 159946वाई	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	तुकाराम बाबू धिकाने	01-11-96
178	जेसी 160389एक्स	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	वर्गीस सीएम	01-12-96

कोर आफ सिग्नल

179	जेसी 154224एच	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	बलदेव दत्त	01-11-96
180	जेसी 102593एल	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	बलराज सिंह राणोट	01-12-96
181	जेसी 154202के	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	बेटापुदी शिचन नारायणा	01-11-96
182	जेसी 137246एल	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	बृह्मणा वेंकटा सुब्बय्या	01-10-96
183	जेसी 154366ए	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	दर्शन सिंह	01-01-97
184	जेसी 154176एन	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	हरी राम	01-10-96
185	जेसी 102586पी	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	जानकी दास	01-09-96
186	जेसी 154272एच	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	जठेय राम	01-01-97
187	जेसी 153466वाई	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	जीतपाल सिंह	01-11-96

188	जेसी 188261एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जोज डीएम	01-12-96
189	जेसी 49414डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	काम्यता प्रसाद शास्त्री	01-11-96
190	जेसी 145960ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सेता राम नोद	01-12-96
191	जेसी 154209एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कृष्णा कुमार शर्मा	01-11-96
192	जेसी 209062एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जलन मिस्त्री	01-12-96
193	जेसी 154199पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मेजर सिंह	01-10-96
194	जेसी 154223ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मान चन्द	01-11-96
195	जेसी 158141पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मीजाक्षी सुन्दरम शण्मुगम	01-12-96
196	जेसी 180974वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहमद हुसैन खान	01-10-96
197	जेसी 135258एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुन्शी राम	01-10-96
198	जेसी 141146एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	नियामत मसीह	01-11-96
199	जेसी 154434एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम आश्रय प्रसाद	01-01-97
200	जेसी 133229एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम प्रबोध झा	01-10-96
201	जेसी 141150ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रामजी लाल	01-11-96
202	जेसी 102590एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रत्न चन्द राजपुत	01-12-96
203	जेसी 98019एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिंगाडा सिंह	01-10-96
204	जेसी 145982वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिव पाल	01-01-97
205	जेसी 194836एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	श्याम बाबू श्रीवास्तव	01-01-97
206	जेसी 154266पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुदागर सिंह	01-01-97
207	जेसी 146005पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुखदेव सिंह भुल्लर	01-09-96
208	जेसी 99061एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुरजा राम	01-01-97
209	जेसी 192105डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अनन्ता कुमार नाथ	01-10-96
210	जेसी 196151एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बहादुर सिंह भण्डारी	01-01-97
211	जेसी 180979एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दयेनी भागीरथी पत्रो	01-10-96
212	जेसी 209065वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	गुलाब सिंह शेखावत	01-12-96
213	जेसी 197709वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जगदीश प्रसाद	01-01-97

214	जेसी 186031 डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	जमीत सिंह	01-12-96
215	जेसी 209055पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	मदन लाल	01-09-96
216	जेसी 180977एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	महावीर सिंह	01-11-96
217	जेसी 181009एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	रघुवीर सिंह ठाकुर	01-12-96
218	जेसी 186038ए	सुबेदार & अवैतनिक लें	राज नारायण राम	01-01-97
219	जेसी 208003एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	शिव बरण माली	01-09-96
220	जेसी 197726वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुरेश चन्द्र लाल	01-10-96
221	जेसी 198026एबस	सुबेदार & अवैतनिक लें	विक्राम सिंह	01-01-97
ब्रिगेड अफ गार्ड्स				
222	जेसी 122739पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	अत्तर सिंह	01-11-96
223	जेसी 169331एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	छोटे लाल उपाध्याय	01-01-97
224	जेसी 132925एबस	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	कुरियन अब्दुलहाम	01-01-97
225	जेसी 130767डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	लेहना सिंह	01-12-96
226	जेसी 128231एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	मीन चन्द शर्मा	01-11-96
227	जेसी 122748डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	रणवीर सिंह	01-12-96
228	जेसी 144923पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	बिहारी सिंह	01-09-96
229	जेसी 192355एबस	सुबेदार & अवैतनिक लें	छेत्राम चौधरी	01-11-96
230	जेसी 192357एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	दिदार सिंह	01-12-96
231	जेसी 153598एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	जबर सिंह भदौरिया	01-11-96
232	जेसी 204240वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	कामादार सिंह	01-10-96
233	जेसी 192359एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	मोहन लाल	01-01-97
234	जेसी 180675ए	सुबेदार & अवैतनिक लें	रकमानन्द राय	01-09-96
235	जेसी 180673पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	विजय सिंह	01-09-96
वेराइट रेजिमेंट				
236	जेसी 133859एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	अबासाहेब मालुंघे	01-01-97

237	जेसी 126615एकस	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	बिजेन्द्र सिंह	01-07-96
238	जेसी 136935ऐ	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	कालू राम	01-10-96
239	जेसी 122428एफ	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	रमेश सिंह	01-01-97
240	जेसी 212476एघ	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	अमर सिंह	01-12-96
241	जेसी 194510एम	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	बलवान सिंह	01-10-96
242	जेसी 163607डब्ल्यू	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	भगवान दास	01-10-96
243	जेसी 196370के	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	बिधी चन्द	01-10-96
244	जेसी 200967एम	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	दधी दत्त पाठक	01-01-97
245	जेसी 164090पी	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	मदन लाल	01-10-96
246	जेसी 193420एफ	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	मोहर सिंह	01-10-96
247	जेसी 201791वाई	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	राम सरण	01-12-96
248	जेसी 163591डब्ल्यू	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	शान्ति कुमार	01-10-96
249	जेसी 200964वाई	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	सिम्हर नाथ	01-10-96
250	जेसी 201783ऐ	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	एसपी पोखियाल	01-11-96

पजाब रेजिमेंट

251	जेसी 124578डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	अवतार सिंह	01-11-96
252	जेसी 105238वाई	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	मल्कीधत सिंह	01-01-97
253	जेसी 105482के	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	बाबू सिंह	01-11-96
254	जेसी 181954एकस	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	बलवर्त सिंह	01-01-97
255	जेसी 171807एफ	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	बीर चन्द	01-09-96
256	जेसी 178462एन	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	दिवान चन्द	01-09-96
257	जेसी 185708के	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	ज्ञान चन्द	01-01-97
258	जेसी 164737एल	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	सुरधरन सिंह	01-01-97
259	जेसी 179258एफ	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	कुलदीप सिंह	01-09-96
260	जेसी 62518डब्ल्यू	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	मदन लाल घर्मा कौशिक	01-12-96
261	जेसी 166033ऐ	सुबेदार &	मोहर चन्द	01-10-96

262	जेसी 180850के	सुबेदार & अवैतनिक लें	औमप्रकाश दहिघा	01-11-96
263	जेसी 208003एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	प्रकाश चन्द	01-11-96
264	जेसी 130782एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	प्यारा सिंह	01-11-96
265	जेसी 192877एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	राजिन्द्र सिंह	01-09-96
266	जेसी 178430एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुर्य सिंह	01-09-96

मद्रास रेजिमेंट

267	जेसी 104183एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	चाको एल	01-09-96
268	जेसी 115692एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	लक्षमणन घेरिन्जाडी	01-10-96
269	जेसी 115708एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	एन चन्द्रन	01-01-97
270	जेसी 128536एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	एस शशिकुमारन नायर	01-10-96
271	जेसी 105262पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	शैल इस्मैल	01-09-96
272	जेसी 105253एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	तिम्मराघन	01-09-96
273	जेसी 201012के	सुबेदार & अवैतनिक लें	मत्तार्ई केजे	01-11-96
274	जेसी 145035एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुण्डरपालिल पतोडी जयचन्द्रन	01-11-96
275	जेसी 129413एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुरिन्दर नारायणा मोहना दसि	01-12-96
276	जेसी 135543ऐ	सुबेदार & अवैतनिक लें	पी नागराजन	01-09-96
277	जेसी 145031एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	पी उन्नी नायर	01-11-96
278	जेसी 135563एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	जायन लक्षमणन	01-12-96
279	जेसी 168819एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	शंकरन नंबिघार राघरोत	01-01-97

ग्रेनेडियर्स

280	जेसी 148352के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	ऑंकार सिंह चदेल	01-01-97
281	जेसी 164026एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	श्री राम कोटवाल	01-11-96
282	जेसी 193609बार्ड	सुबेदार & अवैतनिक लें	असर सिंह	01-12-96
283	जेसी 164473पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	भारत सिंह सुहलर	01-10-96

284	जेसी 196848 डब्ल्यू	सुबेदार & अथैतनिक लैं	बूदटा मल	01-12-96
285	जेसी 144546पी	सुबेदार & अथैतनिक लैं	धीसा राम	01-11-96
286	जेसी 164490पी	सुबेदार & अथैतनिक लैं	हवा सिंह	01-09-96
287	जेसी 180698एफ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	जोन्कू नाथ	01-10-96
288	जेसी 196401वाई	सुबेदार & अथैतनिक लैं	मदन लाल	01-12-96
289	जेसी 130794ए	सुबेदार & अथैतनिक लैं	मोहन सिंह	01-09-96
290	जेसी 173144ए	सुबेदार & अथैतनिक लैं	मूल चन्द	01-11-96
291	जेसी 179273 डब्ल्यू	सुबेदार & अथैतनिक लैं	राज पाल सिंह	01-12-96
292	जेसी 164751एक्स	सुबेदार & अथैतनिक लैं	शिव सिंह	01-12-96
293	जेसी 164933एल	सुबेदार & अथैतनिक लैं	मोहन लाल	01-11-96
मगता लार्डट इन्फेन्ट्री				
294	जेसी 107703वाई	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	आनन्दराव निकम	01-12-96
295	जेसी 98857एफ	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	संभाजी बिसूरकर	01-10-96
296	जेसी 149392एक्स	सुबेदार & अथैतनिक लैं	कोण्डीराम मोरे	01-01-97
297	जेसी 152442एच	सुबेदार & अथैतनिक लैं	सदाशिव काशिद	01-01-97
298	जेसी 117543एक्स	सुबेदार & अथैतनिक लैं	शंकर रामाजी मोरे	01-12-96
राजपुताना राईफल				
299	जेसी 152422एन	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	भंवर सिंह	01-09-96
300	जेसी 173002एच	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	पेमा राम	01-10-96
301	जेसी 173005एन	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	सत्या प्रकाश	01-01-97
302	जेसी 152484एफ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	हजारी सिंह	01-12-96
303	जेसी 192707 डब्ल्यू	सुबेदार & अथैतनिक लैं	केशी राम	01-12-96
304	जेसी 205530एच	सुबेदार & अथैतनिक लैं	लाल सिंह	01-12-96
305	जेसी 193717ए	सुबेदार & अथैतनिक लैं	महेन्दर सिंह	01-01-97
306	जेसी 204268एन	सुबेदार & अथैतनिक लैं	मोहन सिंह	01-01-97
307	जेसी 145445एन	सुबेदार & अथैतनिक लैं	नाबल सिंह	01-11-96

308	जेसी 192380 डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	शुबीर सिंह	01-01-97
309	जेसी 160888 एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	रकमबीर सिंह	01-10-96
310	जेसी 169148 वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	रिसाल सिंह	01-11-96
राजपुत रेजिमेंट				
311	जेसी 45765 एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	इन्द्र दत्त मिश्रा	01-09-96
312	जेसी 122047 ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	सवाई सिंह	01-12-96
313	जेसी 173014 एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	तरसेम सिंह	01-01-97
314	जेसी 183436 डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	दत्ता राम	01-11-96
315	जेसी 192588 वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	धर्म पाल सिंह मलिक	01-10-96
316	जेसी 159170 डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	हनुमान सिंह	01-12-96
317	जेसी 173858 एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	वीरेन्द्र नाथ शर्मा	01-12-96
जाट रेजिमेंट				
318	जेसी 140553 एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	उदा राम	01-10-96
319	जेसी 178564 के	सुबेदार & अवैतनिक लें	बलवर्त सिंह मलिक	01-12-96
320	जेसी 192416 के	सुबेदार & अवैतनिक लें	दिवान सिंह वर्मा	01-10-96
321	जेसी 188658 पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	खिपाली राम	01-01-97
322	जेसी 176304 ए	सुबेदार & अवैतनिक लें	मूल चन्द	01-10-96
323	जेसी 175985 एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	शैमप्रकाश कुण्ड	01-10-96
324	जेसी 157842 वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	राघु सिंह	01-01-97
325	जेसी 168544 एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	राजिन्द्र प्रसाद	01-10-96
326	जेसी 179370 एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	राजपाल सिंह	01-01-97
327	जेसी 183001 एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	शतबीर सिंह	01-11-96
328	जेसी 175975 एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुबे सिंह	01-09-96
329	जेसी 176310 एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुमेर सिंह	01-10-96
330	जेसी 184349 पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	उमराव सिंह	01-09-96

सिख रेजिमेंट

331	जेसी 125369एल	सुबेदार मेजर & अनाधत उल्हा खान अवैतनिक लें	01-12-96
332	जेसी 127105एच	सुबेदार मेजर & बिर्शाबर दास अवैतनिक लें	01-01-97
333	जेसी 117739एल	सुबेदार मेजर & नाहर सिंह अवैतनिक लें	01-01-97
334	जेसी 145102एक्स	सुबेदार मेजर & सन्तोक सिंह अवैतनिक लें	01-10-96
335	जेसी 117729एफ	सुबेदार मेजर & सन्तोख सिंह अवैतनिक लें	01-09-96
336	जेसी 163888एक्स	सुबेदार & बलबीर सिंह अवैतनिक लें	01-12-96
337	जेसी 201039एच	सुबेदार & जगतार सिंह अवैतनिक लें	01-01-97
338	जेसी 183125एच	सुबेदार & करम सिंह अवैतनिक लें	01-12-96
339	जेसी 167213पी	सुबेदार & कुलवंत सिंह अवैतनिक लें	01-09-96
340	जेसी 169278एफ	सुबेदार & रणजीत सिंह जसराटिघा अवैतनिक लें	01-09-96

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

341	जेसी 100590ए	सुबेदार मेजर & अर्जन सिंह अवैतनिक लें	01-11-96
342	जेसी 105720एम	सुबेदार मेजर & दिलबाग सिंह अवैतनिक लें	01-11-96
343	जेसी 163900एन	सुबेदार मेजर & गुरमीत सिंह अवैतनिक लें	01-09-96
344	जेसी 173202वाई	सुबेदार & बलदेव सिंह अवैतनिक लें	01-11-96
345	जेसी 155706के	सुबेदार & किशन सिंह अवैतनिक लें	01-11-96
346	जेसी 151344डब्ल्यू	सुबेदार & कृष्ण सिंह अवैतनिक लें	01-10-96
347	जेसी 178593वाई	सुबेदार & मोहन सिंह अवैतनिक लें	01-09-96
348	जेसी 164579एफ	सुबेदार & हर्षन सिंह अवैतनिक लें	01-11-96

डोगरा रेजिमेंट

349	जेसी 114141पी	सुबेदार मेजर & भजन सिंह अवैतनिक लें	01-10-96
350	जेसी 126607वाई	सुबेदार मेजर & जगपाल चन्द अवैतनिक लें	01-01-97
351	जेसी 149453के	सुबेदार मेजर & प्रीतम चन्द अवैतनिक लें	01-12-96

352	जेसी 115795एल	सुबेदार मेजर & सीता राम अवैतनिक लें	01-01-97
353	जेसी 155715एल	सुबेदार & बाबू राम अवैतनिक लें	01-01-97
354	जेसी 163671एन	सुबेदार & गंगा राम केशव अवैतनिक लें	01-01-97
355	जेसी 192637डब्ल्यू	सुबेदार & गोपाल दास अवैतनिक लें	01-12-96
356	जेसी 188523एन	सुबेदार & होशिघार सिंह अवैतनिक लें	01-01-97
357	जेसी 205164के	सुबेदार & ईश्वर दास अवैतनिक लें	01-10-96
358	जेसी 205952एन	सुबेदार & कबल सिंह सैलारिया अवैतनिक लें	01-01-97
359	जेसी 205958एफ	सुबेदार & करम दत्त अवैतनिक लें	01-12-96
360	जेसी 201086ए	सुबेदार & सुन्शी राम अवैतनिक लें	01-11-96
361	जेसी 201979एल	सुबेदार & पिघार सिंह राना अवैतनिक लें	01-11-96
362	जेसी 196265एन	सुबेदार & रोशन लाल अवैतनिक लें	01-01-97
363	जेसी 192634एच	सुबेदार & सन्त सिंह बैंस अवैतनिक लें	01-12-96
364	जेसी 188400एफ	सुबेदार & सोम दत्त शर्मा अवैतनिक लें	01-12-96
365	जेसी 19244 डब्ल्यू	सुबेदार & सुरम सिंह अवैतनिक लें	01-10-96
366	जेसी 201063वाई	सुबेदार & जुल्फी राम अवैतनिक लें	01-12-96

गडवाल राईफल्स

367	जेसी 159247एन	सुबेदार मेजर & भारत सिंह चौधरी अवैतनिक लें	01-10-96
368	जेसी 127322वाई	सुबेदार मेजर & लक्ष्मन सिंह अवैतनिक लें	01-09-96
369	जेसी 128389के	सुबेदार मेजर & त्रिलोचन प्रसाद अवैतनिक लें	01-01-97
370	जेसी 188531एम	सुबेदार & गोविंद सिंह रावत अवैतनिक लें	01-09-96
371	जेसी 178999एम	सुबेदार & अईएनडीएआर सिंह गुसाईं अवैतनिक लें	01-09-96
372	जेसी 205185ए	सुबेदार & नन्दन सिंह अवैतनिक लें	01-09-96
373	जेसी 208395एल	सुबेदार & पदम सिंह परस्वान अवैतनिक लें	01-09-96
374	जेसी 164818एल	सुबेदार & प्रेम प्रकाश अवैतनिक लें	01-09-96

375	जेसी 175072ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रेम सिंह रावत	01-09-96
376	जेसी 216867एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राजेन्द्र सिंह	01-12-96

कुमाऊ रेजिमेंट

377	जेसी 178617एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	भणी सहाया	01-10-96
378	जेसी 145140एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बिशन सिंह	01-10-96
379	जेसी 149111डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	चान्दगी राम	01-11-96
380	जेसी 148483पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दत्ता राम	01-11-96
381	जेसी 145573एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	लाल बहादुर शाही	01-11-96
382	जेसी 145571ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	माधो सिंह	01-11-96
383	जेसी 151382एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहन सिंह	01-10-96
384	जेसी 145568ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिव राज सिंह	01-10-96
385	जेसी 192466पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अंगद प्रसाद उपाध्य	01-01-97
386	जेसी 180777डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	भोम सिंह	01-10-96
387	जेसी 166100ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दिवान सिंह	01-09-96
388	जेसी 167266एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दिवान सिंह	01-09-96
389	जेसी 192468ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हर सिंह	01-09-96
390	जेसी 156936के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हयात सिंह	01-09-96

391	जेसी 140946एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जगन्नाथ भट्ट	01-10-96
392	जेसी 185871एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जगन्नाथ पाण्डे	01-01-97
393	जेसी 164990एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जीवन सिंह	01-01-97
394	जेसी 185816एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कनवर सिंह कोरंगा	01-09-96
395	जेसी 192657के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	महावीर सिंह	01-01-97
396	जेसी 199304एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोहन सिंह कण्वाल	01-12-96
397	जेसी 199299एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोती राम	01-01-97
398	जेसी 185870एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	पूरण सिंह बंगारी	01-10-96
399	जेसी 185869एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम प्रकाश	01-12-96
400	जेसी 199313एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम सिंह	01-10-96
401	जेसी 188688एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सोबरण सिंह	01-12-96
402	जेसी 172003वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सूर्या बाली सिंह	01-12-96
403	जेसी 196569एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	त्रिलोक सिंह	01-10-96

आसाम रेजिमेंट

404	जेसी 117284ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	होम बहादुर राना	01-12-96
405	जेसी 106072के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	द्वांगबुंग कामबोल अनाल	01-09-96
406	जेसी 107321पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	धुशील अनाल	01-01-97
407	जेसी 109442पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	चांगशूल डेलठा अनाल	01-01-97
408	जेसी 124674एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दानीधल माओ	01-09-96
409	जेसी 155100एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	थरम बहादुर मसदाम	01-12-96
410	जेसी 159259एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लालधुंगतुंग हमार	01-09-96
411	जेसी 148509वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रेम बहादुर ऐत्री	01-12-96

बिहार रेजिमेंट

412	जेसी 125102वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बुधराय मरणडी	01-11-96
-----	----------------	-------------------------------	--------------	----------

413	जेसी 135812एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राजदेव सिंह	01-09-96
414	जेसी 137060एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रतन सिंह	01-09-96
415	जेसी 113989पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रघुान सिंह माव	01-10-96
416	जेसी 123389ऐ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अंबिका गिरि	01-09-96
417	जेसी 183085एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बाली राम तिवारी	01-01-97
418	जेसी 177814एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बशिष्ठ सिंह	01-09-96
419	जेसी 167481वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	फडिक कुन्दर	01-11-96
420	जेसी 142824वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	नरहरी नाथक	01-10-96
421	जेसी 205255एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शशि धर सिंह	01-11-96
422	जेसी 179020एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शिव बच्यन प्रसाद	01-09-96
423	जेसी 282868के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शिव रतन राम	01-09-96
424	जेसी 178653एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शिव नाथ प्रसाद सिंह	01-11-96
महारा रेजिमेंट				
425	जेसी 106786एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तशोक माडे	01-10-96
426	जेसी 121932पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	रकमा चन्द्र बेहेरा	01-12-96
427	जेसी 117682एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	बाशिकान्त चवान	01-12-96
428	जेसी 104834डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुधाकर नन्दजी गवई	01-09-96
429	जेसी 194702के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	भगवान सिंह	01-12-96
430	जेसी 152957एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बीरबल सिंह	01-11-96
431	जेसी 151803के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दलीप सिंह	01-01-97
432	जेसी 143716एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	गुरु दयाल सिंह	01-01-97
433	जेसी 175451डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लाल सिंह	01-09-96
434	जेसी 181890एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	पारभती लाल	01-10-96
435	जेसी 175436एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रसुवा राम	01-01-97
436	जेसी 170000के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम अन्तार	01-09-96

437	जेसी 181884के	सुबेदार अवैतनिक लैं	रोहिताक	01-09-96
438	जेसी 152958एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शेर सिंह	01-09-96
439	जेसी 143715वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुखपाल सिंह	01-01-97
जम्मू एवं कश्मीर राईफलस				
440	जेसी 175106एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अमर नाथ	01-10-96
441	जेसी 185857एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दर्शन सिंह	01-09-96
442	जेसी 155785के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुरमेल सिंह	01-10-96
443	जेसी 178321वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जसवन्त सिंह	01-10-96
444	जेसी 127092डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुम्मा मोहमद	01-12-96
445	जेसी 178090एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	केहर सिंह	01-01-97
446	जेसी 183126एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लेख राज	01-11-96
447	जेसी 178123एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मदन लाल	01-09-96
448	जेसी 112657वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोहमद हुसैन	01-10-96
449	जेसी 155819एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	निरंजन सिंह	01-09-96
450	जेसी 185096एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	ओंकार सिंह	01-10-96
451	जेसी 71644के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	राम प्रसाद तिवारी	01-10-96
452	जेसी 192879एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रतन चन्द	01-12-96
453	जेसी 175118एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	संघरण सिंह जमवाल	01-12-96
454	जेसी 193086एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	तरसेम सिंह	01-10-96
455	जेसी 185090डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	विद्या राज	01-10-96
लकाश स्कार्स				
456	जेसी 163961एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	तेवांग सुरब	01-11-96
जम्मू एवं कश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री				
457	जेसी 95797एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	ग्याष लाल सेन	01-10-96

458	जेसी 165932ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जोध सिंह	01-11-96
459	जेसी 97377एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शादी लाल	01-12-96
460	जेसी 136973पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बंशी लाल	01-11-96
461	जेसी 168923वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बोध राज	01-11-96
462	जेसी 151445के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कृष्ण लाल सख्खिया	01-01-97
463	जेसी 172647वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मेजर सिंह	01-01-97
464	जेसी 171793एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	नानक सिंह	01-01-97
465	जेसी 168921एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश भगत	01-09-96
466	जेसी 151447पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रीतम सिंह	01-10-96
467	जेसी 169440एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सरकारी लाल	31-10-96
468	जेसी 178329एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शाम सिंह	01-01-97
3 गोरखा राईफलस				
469	जेसी 194726एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बिश्वनाथ पर्मा	01-12-96
470	जेसी 155529पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	किशन बहादुर थापा	01-12-96
4 गोरखा राईफलस				
471	जेसी 133366एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	तरुन कुमार थापा	01-11-96
472	जेसी 143786ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहन सिंह थापा	01-12-96
473	जेसी 125234के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	प्रकाश चन्द	01-12-96
474	जेसी 143787एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुरीन्दर कुमार	01-01-97
475	जेसी 193948डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बीर बहादुर श्रेष्ठा	01-12-96
476	जेसी 192565एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दिल बिक्रम गुरुंग	01-10-96
477	जेसी 192584ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जग्गीन्दर सिंह थापा	01-09-96
5 गोरखा राईफलस				
478	जेसी 179856ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दीपक कुमार लामा	01-11-96

479	जेसी 153978के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शिव प्रसाद राना	01-09-96
480	जेसी 138724एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	स्टैंद्रा सिंह सुरंग	01-12-96
481	जेसी 204390पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अजीत कुमार नागरकोटी	01-01-97
482	जेसी 183120एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दलजीत सिंह थापा	01-01-97
483	जेसी 156446डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दन बहादुर पुन	01-10-96
484	जेसी 208474ते	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दिल काजी सुरंग	01-01-97
485	जेसी 152645एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जीत बहादुर सुरंग	01-12-96
486	जेसी 183552वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जीत बहादुर सुरंग	01-01-97
487	जेसी 172645एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	खिल बहादुर थापा	01-10-96
488	जेसी 169474एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मान बहादुर थापा	01-01-97
489	जेसी 149590एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुखित बहादुर सुरंग	01-11-96
490	जेसी 156144के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	नारायण सिंह राना	01-10-96
491	जेसी 181936पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	प्रेम बहादुर थापा	01-01-97
492	जेसी 152647एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शेर बहादुर सुरंग	01-01-97
493	जेसी 168627एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुधी बहादुर थापा	01-10-96
494	जेसी 188719एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	धन बहादुर थापा	01-01-97
495	जेसी 157939एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	तुल बहादुर सुरंग	01-11-96

B गोरखा राईफल्स

496	जेसी 112674वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	आम बहादुर थापा	01-11-96
497	जेसी 164104एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दिनेश सिंह राना	01-10-96
498	जेसी 147526एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हर्क बहादुर सुरंग	01-11-96
499	जेसी 172071एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	खडक बहादुर सुरंग	01-11-96
500	जेसी 153054एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लेम बहादुर सुरंग	01-11-96
501	जेसी 153053पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कुल बहादुर पुन	01-10-96
502	जेसी 169294वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लोक बहादुर अली	01-12-96

503	जेसी 193541ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	लोक बहादुर थापा	01-10-96
504	जेसी 178337ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मिल बहादुर गुरुंग	01-09-96
505	जेसी 167321वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मों प्रसाद थापा	01-01-97
506	जेसी 145621ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	नारायण बहादुर गुरुंग	01-10-96
507	जेसी 169300एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	नारायण प्रसाद गुरुंग	01-01-97
508	जेसी 147533एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	विजय सिंह थापा	01-01-97
9 गौरखा राईफल्स				
509	जेसी 154854एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	द्वे बहादुर साहू	01-01-97
510	जेसी 286041एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जय बहादुर चन्द	01-09-96
11 गौरखा राईफल्स				
511	जेसी 129554डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहन कुमार राय	01-11-96
512	जेसी 188734डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	धूमि राज सुबा	01-09-96
513	जेसी 159339ए	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बीरसैन लिंबू	01-09-96
514	जेसी 159348पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	धनग लिंबू	01-01-97
515	जेसी 196642वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दिल बहादुर लिंबू	01-01-97
घांजिक इन्फेन्ट्री रेजिमेंट				
516	जेसी 127127एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	आतिमूलम पलणियप्पन	01-11-96
517	जेसी 130670एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जसबन्त सिंह	01-09-96
518	जेसी 127225एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	वज दिहारी सिंह	01-10-96
519	जेसी 129154एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	विश्वास पत्तटिल	01-01-97
520	जेसी 175873एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	गोविंद सिंह रावत	01-12-96
521	जेसी 175878एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जीत पाल सिंह	01-12-96
522	जेसी 102470वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	केदार सिंह	01-01-97
523	जेसी 166014पी	सुबेदार & अवैतनिक लैं	चक्रम बहादुर राव	01-01-97

524	जेसी 174046एम	सुबेडार & अर्वातनिक लें	तरलोक सिंह	01-12-96
सेना सेवा कोर(पूर्वी)				
525	जेसी 175312एम	सुबेदार मेजर & अर्वातनिक लें	आजाईब सिंह	01-12-96
526	जेसी 175313पी	सुबेदार मेजर & अर्वातनिक लें	दन चरण सिंह	01-01-97
527	जेसी 177720डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अर्वातनिक लें	हरमेशपाल सिंह परमार	01-11-96
528	जेसी 165562ए	सुबेदार मेजर & अर्वातनिक लें	रवीन्द्र नाथ राय	01-01-97
529	जेसी 177716एन	सुबेदार मेजर & अर्वातनिक लें	रामनिवास शर्मा	01-09-96
530	जेसी 177713ए	सुबेदार मेजर & अर्वातनिक लें	सुमेर सिंह सुशवाह	01-09-96
531	जेसी 177718वाई	सुबेदार मेजर & अर्वातनिक लें	वेद सिंह घादक	01-12-96
532	जेसी 192756एम	सुबेदार & अर्वातनिक लें	अजय कुमार सिंह	01-09-96
533	जेसी 192821एफ	सुबेदार & अर्वातनिक लें	बिशन दास	01-12-96
534	जेसी 190414ए	सुबेदार & अर्वातनिक लें	धरमपाल जाखड	01-11-96
535	जेसी 190997एच	सुबेदार & अर्वातनिक लें	गुलजार जोन सन्डू	01-11-96
536	जेसी 192755के	सुबेदार & अर्वातनिक लें	गुरदेव सिंह	01-09-96
537	जेसी 189921एफ	सुबेदार & अर्वातनिक लें	खेम चन्द सुमन	01-12-96
538	जेसी 199555डब्ल्यू	सुबेदार & अर्वातनिक लें	मणी राम	01-11-96
539	जेसी 190409पी	सुबेदार & अर्वातनिक लें	ओम प्रकाश बरक	01-11-96
540	जेसी 189947डब्ल्यू	सुबेदार & अर्वातनिक लें	प्रीतम सिंह	01-12-96
541	जेसी 190433एल	सुबेदार & अर्वातनिक लें	राम धरी राम	01-11-96
542	जेसी 192793ए	सुबेदार & अर्वातनिक लें	रमेश कुमार शर्मा	01-11-96
543	जेसी 192791पी	सुबेदार & अर्वातनिक लें	श्रीराम निघोला	01-11-96
544	जेसी 192815एन	सुबेदार & अर्वातनिक लें	स्वदेश कुमार दरगार	01-01-97
545	जेसी 200501के	सुबेदार & अर्वातनिक लें	वर्गीस एस	01-01-97

546	जेसी 198928एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	वेण्कटेश होलवराजू	01-09-96
सेना सेवा कोर(पशु परिवहण)				
547	जेसी 150604के	रिसालदार मेजर & अवैतनिक लैं	टेक चन्द	01-10-96
548	जेसी 185377एम	रिसालदार & अवैतनिक लैं	बलवीर सिंह	01-10-96
549	जेसी 177441एल	रिसालदार & अवैतनिक लैं	भिकम चन्द	01-10-96
550	जेसी 185392एच	रिसालदार & अवैतनिक लैं	चन्द राम	01-01-97
551	जेसी 185369पी	रिसालदार & अवैतनिक लैं	दया राम रजक	01-10-96
552	जेसी 185376एल	रिसालदार & अवैतनिक लैं	सिरोदन	01-12-96
553	जेसी 185372पी	रिसालदार & अवैतनिक लैं	शुशि राम	01-11-96
554	जेसी 171170एच	रिसालदार & अवैतनिक लैं	मूल सिंह	01-09-96
555	जेसी 183271एक्स	रिसालदार & अवैतनिक लैं	ओम प्रकाश	01-11-96
556	जेसी 185384पी	रिसालदार & अवैतनिक लैं	राम अबतार राम	01-01-97
557	जेसी 171161एफ	रिसालदार & अवैतनिक लैं	राम रवि यादव	01-09-96
558	जेसी 171171एल	रिसालदार & अवैतनिक लैं	राम धयन सिंह	01-09-96
559	जेसी 185375एच	रिसालदार & अवैतनिक लैं	राम लाल राम	01-12-96
560	जेसी 171634पी	रिसालदार & अवैतनिक लैं	रवीन्द्र राय	01-12-96
561	जेसी 177439एन	रिसालदार & अवैतनिक लैं	सुभाष चन्द	01-10-96
562	जेसी 171167एच	रिसालदार & अवैतनिक लैं	सुरीन्द्र कुमार	01-09-96
सेना सेवा कोर(धार्मिक परिवहण)				
563	जेसी 165575एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	भोज राज चर्मा	01-11-96
564	जेसी 165546एच	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सेमित सिंह	01-09-96
565	जेसी 165549डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	उत्तम चवान	01-11-96
566	जेसी 190483डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	अमरिक सिंह	01-12-96
567	जेसी 194399एन	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बैजनाथ प्रसाद मेहता	01-12-96

568	जेसी 190109एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	बैष्णव चरण समन	01-10-96
569	जेसी 190331पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	बल्ली राम	01-11-96
570	जेसी 194894एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	भंवर सिंह	01-01-97
571	जेसी 190443ए	सुबेदार & अवैतनिक लें	बिन्देश्वर बैठा	01-11-96
572	जेसी 190452डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	चन्द्र भान	01-12-96
573	जेसी 190101एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	चिन्मोन सेना राजकुमार	01-09-96
574	जेसी 197551एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	देश राज	01-11-96
575	जेसी 206222एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	जी मारी सुच	01-11-96
576	जेसी 194360एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	गिरधारी राम	01-01-97
577	जेसी 199519एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	गुलाब सिंह	01-01-97
578	जेसी 206442ए	सुबेदार & अवैतनिक लें	हरेन्द ठाकुर	01-01-97
579	जेसी 194866ए	सुबेदार & अवैतनिक लें	हरनेक सिंह	01-10-96
580	जेसी 190100वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	जगदीश प्रसाद	01-09-96
581	जेसी 194860वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	खजान सिंह	01-11-96
582	जेसी 209780एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	खेता राम एससुटीहर	01-12-96
583	जेसी 192325एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	किरण चन्द्र बिश्वास	01-11-96
584	जेसी 190440एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	कृष्ण चन्द	01-11-96
585	जेसी 190299पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	लाल चन्द	01-09-96
586	जेसी 199450एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	मणिरचेरिप्पाहल सदानन्दन	01-01-97
587	जेसी 199478डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लें	सुखितपार सिंह	01-01-97
588	जेसी 190280एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	नधु राम जाटव	01-09-96
589	जेसी 192102के	सुबेदार & अवैतनिक लें	परशु राम प्रसाद	01-09-96
590	जेसी 192332एचएस	सुबेदार & अवैतनिक लें	प्रकाश चन्द	01-11-96
591	जेसी 197543एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	प्रमोद कुमार झा	01-09-96
592	जेसी 192092एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	राधे सिंह	01-09-96

593	जेसी 217348के	सुबेदार & अवैतनिक लें	रघुनाथ प्रसाद सिंह	01-11-96
594	जेसी 190127एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	राजेन्द्र चन्द्र चन्दा	01-09-96
595	जेसी 190440एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	राम चन्द्र ठाकुर	01-11-96
596	जेसी 190317एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	राम फल	01-11-96
597	जेसी 194380पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	राम सकल बराध	01-01-97
598	जेसी 190098एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	रामेश्वर लाल	01-09-96
599	जेसी 190324वाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	सेवा सिंह	01-11-96
600	जेसी 190442एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	शिव नन्रायन	01-11-96
601	जेसी 190275एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	तांडनिलुणी कुरियाकोस	01-10-96
602	जेसी 190122एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लें	टांक राम	01-09-96
सेना चिकित्सक वर्ग				
603	जेसी 170043एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	अजीत सिंह	01-10-96
604	जेसी 170068एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	भगत सिंह	01-10-96
605	जेसी 169651डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	बिजाय कुमार घोष	01-11-96
606	जेसी 178389ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	चीरन स्करिया मेघ	01-10-96
607	जेसी 170139डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	दलबीर सिंह	01-01-97
608	जेसी 169653एफ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	ज्ञान चन्द	01-11-96
609	जेसी 183714वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	जोगिन्द्र सिंह	01-01-97
610	जेसी 170042वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	कोठ्याप्पी नाडार चेरिया पिले	01-09-96
611	जेसी 178394एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	मोहन लाल	01-10-96
612	जेसी 131530एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	महेन्द्र सिंह	01-09-96
613	जेसी 170143एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	नमो नारायण राघ	01-12-96
614	जेसी 160132एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	परशू राम भक्ता	01-11-96
615	जेसी 169649के	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	पेरुमल पाल स्वामी,	01-10-96
616	जेसी 178392ए	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	राधे श्याम	01-10-96
617	जेसी 170047एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लें	राज कुमार	01-11-96

618	जेसी 170148एल	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	राम फल	01-12-96
619	जेसी 169654के	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	समशेर सिंह	01-12-96
620	जेसी 180152एफ	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	शंकर लाल	01-01-97
621	जेसी 196023एल	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	भगवती प्रसाद सिंह	01-10-96
622	जेसी 198357वाई	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	दानीयल सी	01-09-96
623	जेसी 219951डब्ल्यू	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	दुर्गा दासि	01-01-97
624	जेसी 219993एच	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	पघस लामर फेरणान्डेस	01-11-96
625	जेसी 196018ए	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	रुप सिंह	01-09-96
626	जेसी 215227एफ	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	रोशन लाल	01-12-96

मैनां ओर्डनेस कोर

627	जेसी 173539एफ	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	अबदुल हाफिज खान	01-11-96
628	जेसी 176759डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	बलराम सिंह	01-01-97
629	जेसी 173607के	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	देब राम	01-12-96
630	जेसी 173594एक्स	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	दर्श राज	01-09-96
631	जेसी 44789एल	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	केदार नाथ बर्मा	01-10-96
632	जेसी 173608एम	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	मधुरा सिंह राना	01-12-96
633	जेसी 186838डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	मोहमद समिचुल्ला	01-10-96
634	जेसी 173514पी	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	नवाब खान	01-09-96
635	जेसी 173590एफ	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	राधे श्याम बर्मा	01-10-96
636	जेसी 173538वाई	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	रकमकृष्ण रेडिघार रामलिंगम	01-09-96
637	जेसी 49431डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अश्वेतनिक लैं	रामजी उपाध्याय	01-09-96
638	जेसी 183334ए	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	बलदेव सिंह	01-01-97
639	जेसी 186836एन	सुबेदार & अश्वेतनिक लैं	चन्द्र एसकिरण पिले पी	01-01-97

640	जेसी 187224एघ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	दर्शन लाल सहॉटा	01-11-96
641	जेसी 186916एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	हरजीन्दर सिंह	01-09-96
642	जेसी 192139के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	जीत राम धादव	01-11-96
643	जेसी 187715वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कुरिधन केटी	01-11-96
644	जेसी 187063एल	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोहम्मद हस्मत अली	01-09-96
645	जेसी 198575एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	मोहन लाल समुद्रिया	01-09-96
646	जेसी 183331एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रमन कुटि नाथर केवी	01-11-96
647	जेसी 187038एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शैलेश दास	01-12-96
648	जेसी 196112के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शंकर प्रसाद	01-01-97
649	जेसी 187135एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लैं	शिव स्वरूप शर्मा	01-12-96
650	जेसी 187200वाई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुरेन्द्र प्रताप सिंह	01-12-96
651	जेसी 183679एफ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	समिन्दर सिंह	01-11-96
कोर आफ वेधुत एवं प्रांशिक इन्जनीयर				
652	जेसी 167020रे	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	अनूप सिंह	01-09-96
653	जेसी 184201डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	घरण सिंह	01-01-97
654	जेसी 179084एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	धर्म सिंह राना	01-10-96
655	जेसी 122451एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गिरधारी लाल धापा	01-09-96
656	जेसी 46803एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गिरिजा प्रसाद शुक्ला	01-10-96
657	जेसी 122537एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	गुरनाम सिंह	01-12-96
658	जेसी 174088वाई	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	हरिहर प्रसाद सुबे	01-10-96
659	जेसी 120974पी	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जगदीश सिंह	01-12-96
660	जेसी 85980एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	जेपी उपाध्याय	01-01-97
661	जेसी 179126एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	कंवर सिंह	01-10-96
662	जेसी 179064एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मंगल सिंह	01-11-96
663	जेसी 44596एल	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मेदिनी प्रसाद मिश्रा	01-11-96
664	जेसी 120973एम	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	मोहर सिंह	01-12-96

665	जेसी 122567एल	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	पीएम हरिधाकोस	01-10-96
666	जेसी 122535एच	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	राम मेहर सिंह रंगी	01-12-96
667	जेसी 122652एन	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	रोशन लाल मील	01-10-96
668	जेसी 182330एक्स	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	रुकम धन्व गोयल	01-10-96
669	जेसी 190906वाई	सुबेदार मेजर & अथैतनिक लैं	शशिशेखरन नाथर थैरुलप्पन	01-12-96
670	जेसी 206789एल	सुबेदार & अथैतनिक लैं	बाबू लाल	01-10-96
671	जेसी 210257एच	सुबेदार & अथैतनिक लैं	बाबू लाल	01-12-96
672	जेसी 202254ऐ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	बलवत सिंह	01-10-96
673	जेसी 201286डब्ल्यू	सुबेदार & अथैतनिक लैं	बतन सिंह	01-10-96
674	जेसी 202278के	सुबेदार & अथैतनिक लैं	भूष सिंह	01-09-96
675	जेसी 214096एच	सुबेदार & अथैतनिक लैं	ब्रोजेन्द्र नाथ बासक	01-12-96
676	जेसी 207310एक्स	सुबेदार & अथैतनिक लैं	बूदटा सिंह	01-09-96
677	जेसी 202277एफ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	दवी राम	01-09-96
678	जेसी 191186पी	सुबेदार & अथैतनिक लैं	दिवान धन्व	01-10-96
679	जेसी 206426एफ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	गोरा सिंह	31-08-96
680	जेसी 222018ऐ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	गौतम सिंह	01-10-96
681	जेसी 191107एक्स	सुबेदार & अथैतनिक लैं	सुरमीत सिंह	01-11-96
682	जेसी 210270एम	सुबेदार & अथैतनिक लैं	हरजीत राम	01-12-96
683	जेसी 207312एच	सुबेदार & अथैतनिक लैं	इब्रार अहम्मद	01-11-96
684	जेसी 198621एफ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	जगतर सिंह	01-12-96
685	जेसी 202291के	सुबेदार & अथैतनिक लैं	जन शैव	01-10-96
686	जेसी 162645ऐ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	जषेद सिंह राना	01-12-96
687	जेसी 207298एफ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	जीत सिंह कुक्कू	01-11-96
688	जेसी 187005ऐ	सुबेदार & अथैतनिक लैं	कनगराज डेविड	01-12-96
689	जेसी 197379पी	सुबेदार & अथैतनिक लैं	मदन लाल शर्मा	01-09-96

690	जेसी 145471 उच्छ्र	सुबेदार & अवैतनिक लें	मनमूल सिंह	01-01-97
691	जेसी 158290 एच	सुबेदार & अवैतनिक लें	मारिसुद्ध सन्तानम	01-11-96
692	जेसी 222445 उच्छ्र	सुबेदार & अवैतनिक लें	महेन्द्र सिंह	01-10-96
693	जेसी 199413 बाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	नरेन्द्र नाथ पत्तार	01-09-96
694	जेसी 204504 पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	निर्मल चन्द्र	01-10-96
695	जेसी 202522 बाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	ओम प्रकाश	01-11-96
696	जेसी 221099 एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लें	पोस पाल सिंह	01-01-97
697	जेसी 222506 एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	पूरण सिंह	01-12-96
698	जेसी 213791 एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	पूर्ण राम बागिया	01-01-97
699	जेसी 203424 एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	राम भगवान ठाकुर	01-09-96
700	जेसी 202219 एक्स	सुबेदार & अवैतनिक लें	राम सुरत	01-12-96
701	जेसी 222348 बाई	सुबेदार & अवैतनिक लें	राम उचित सिंह	01-01-97
702	जेसी 202481 गे	सुबेदार & अवैतनिक लें	रामेश्वर सिंह	01-01-97
703	जेसी 199429 के	सुबेदार & अवैतनिक लें	रंजन कुमार मेधी	01-10-96
704	जेसी 203416 एम	सुबेदार & अवैतनिक लें	रोहिताश्व मोहलदा	01-12-96
705	जेसी 199410 एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	शिव नन्दायन	01-09-96
706	जेसी 199424 एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	श्री राम सिंह यादव	01-09-96
707	जेसी 198829 पी	सुबेदार & अवैतनिक लें	तेज सिंह चौहान	01-09-96
708	जेसी 190920 एल	सुबेदार & अवैतनिक लें	तारा चन्द्र	01-10-96
709	जेसी 214117 एन	सुबेदार & अवैतनिक लें	त्रिलोक चन्द्र	01-01-97
710	जेसी 147929 के	सुबेदार & अवैतनिक लें	वसुधेय परसप्यार भाई	01-11-96
711	जेसी 135828 एफ	सुबेदार & अवैतनिक लें	वगैस सीतरी	01-12-96

सेना शिक्षा कौर

712	जेसी 127981एन	सुबेदार मेजर & भैरव दल पन्तोला अवैतनिक लें	01-01-97
713	जेसी 125075एफस	सुबेदार मेजर & दिलबाग सिंह हुधवार अवैतनिक लें	01-10-96
714	जेसी 125093डब्ल्यू	सुबेदार मेजर & जितेन चन्द्र देबनाथ अवैतनिक लें	01-01-97
715	जेसी 137677एफस	सुबेदार मेजर & खगेन्द्र बन्ता अवैतनिक लें	01-01-97
716	जेसी 141098एफ	सुबेदार मेजर & नेल्लिकल थोमस अब्रहाम अवैतनिक लें	01-10-96
717	जेसी 137683एल	सुबेदार मेजर & तुल्सी राम घादव अवैतनिक लें	01-11-96
718	जेसी 187688एन	सुबेदार & बणी सिंह जाखंड अवैतनिक लें	01-11-96
719	जेसी 156183एच	सुबेदार & छोटे लाल जाटव अवैतनिक लें	01-12-96
720	जेसी 171004पी	सुबेदार & दिनेशन नल्लन्धी अवैतनिक लें	01-12-96
721	जेसी 193371एफ	सुबेदार & पक्कीरी जघपाल अवैतनिक लें	01-09-96
722	जेसी 193370वाई	सुबेदार & राजिन्द्र सिंह अवैतनिक लें	01-09-96

रीमाउंट एवं वेटिनरी कौर

723	आरवी 7598एम	रिसालदार मेजर & नयन सिंह अवैतनिक लें	01-11-96
724	आरवी 7648वाई	रिसालदार & बदरी लाल मीना अवैतनिक लें	01-12-96
725	आरवी 7577एच	रिसालदार & राज कुमार अवैतनिक लें	01-09-96
726	आरवी 7627एच	रिसालदार & सेवा राम अवैतनिक लें	01-10-96

असूचना कौर

727	जेसी 170090वाई	सुबेदार मेजर & ओम प्रकाश वर्मा अवैतनिक लें	01-10-96
728	जेसी 144769एम	सुबेदार मेजर & रघुबीर सिंह अवैतनिक लें	01-11-96
729	जेसी 144785के	सुबेदार मेजर & घतीन्द्र चन्द अवैतनिक लें	01-01-97

730	जे.सी. 194257 डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बलदेव चन्द वर्मा	01-12-96
731	जे.सी. 168328 एच	सुबेदार & अवैतनिक लैं	रेखा राम बरकेशिघा	01-01-97
732	जे.सी. 186623 ऐ	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुरजीत सिंह	01-01-97

सैना पुलिस कौर

733	जे.सी. 146816 एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सुलवन्त सिंह	01-10-96
734	जे.सी. 146817 ऐ	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	राम लाल सिंह	01-11-96
735	जे.सी. 197634 एम	सुबेदार & अवैतनिक लैं	बुधी बहादुर सुल्गा	01-09-96
736	जे.सी. 191987 डब्ल्यू	सुबेदार & अवैतनिक लैं	कुलतार चन्द परमार	01-09-96

सैना शारिरिक प्रशिक्षण कौर

737	जे.सी. 169498 आई	सुबेदार & अवैतनिक लैं	उमैद सिंह रावत	21-09-96
-----	------------------	--------------------------	----------------	----------

प्रधोनिघर कौर

738	जे.सी. 147678 एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	शक्ती सिंह	01-12-96
739	जे.सी. 188754 के	सुबेदार & अवैतनिक लैं	सुरेश पाल	01-09-96

रक्षा सुरक्षा कौर

740	जे.सी. 111063 एक्स	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	दरबान सिंह	11-09-96
741	जे.सी. 114244 एन	सुबेदार मेजर & अवैतनिक लैं	सरदार सिंह	01-10-96

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रूप में

आर्मड कॉर

1	जेसी 127788पी	रिसालदार मेजर	चन्द्रपाल सिंह	01-09-96
2	जेसी 135892के	रिसालदार मेजर	दुर्गा सिंह	01-10-96
3	जेसी 126626के	रिसालदार मेजर	सुशताक आहमद	01-11-96
तोपखाना रेजिमेंट				
4	जेसी 133912एन	सुबेदार मेजर	आजाईब सिंह	01-01-97
5	जेसी 143888डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अब्दुल सिंह घादर	01-09-96
6	जेसी 110395पी	सुबेदार मेजर	अमर सिंह	01-10-96
7	जेसी 123954एम	सुबेदार मेजर	अनर सिंह	01-12-96
8	जेसी 106948एच	सुबेदार मेजर	अमरिक सिंह	01-09-96
9	जेसी 139243डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह	01-01-97
10	जेसी 145844एफस	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह	01-12-96
11	जेसी 139331एम	सुबेदार मेजर	दलजीत सिंह	01-09-96
12	जेसी 135163एफ	सुबेदार मेजर	दन पाल	01-11-96
13	जेसी 133300डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दिलबाग सिंह	01-10-96
14	जेसी 143895एम	सुबेदार मेजर	शुबचन सिंह परमार	01-01-97
15	जेसी 123448एफ	सुबेदार मेजर	हीरा कुमार चौकी	01-12-96
16	जेसी 146768एच	सुबेदार मेजर	इन्दर सिंह तंवर	01-01-97
17	जेसी 135118पी	सुबेदार मेजर	ईश्वर सिंह	01-12-96
18	जेसी 123516के	सुबेदार मेजर	जगदीश सिंह	01-10-96
19	जेसी 126171वाई	सुबेदार मेजर	करम चन्द	01-10-96
20	जेसी 133992डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	माधवन रवी	01-01-97
21	जेसी 135426पी	सुबेदार मेजर	महम्मद बाबू केदारी	01-01-97
22	जेसी 111878वाई	सुबेदार मेजर	नरेन्द्र कुमार शर्मा	01-10-96
23	जेसी 160017एम	सुबेदार मेजर	ओमकार सिंह	01-10-96
24	जेसी 133893एन	सुबेदार मेजर	पी अब्दुल कादर	01-09-96
25	जेसी 139296पी	सुबेदार मेजर	पेरिधकरुप्पन पेरिधकरुप्पन	01-11-96
26	जेसी 123482एफ	सुबेदार मेजर	रामामामी वैमण्णा	01-01-97
27	जेसी 134783एल	सुबेदार मेजर	रमील चन्द	01-09-96
28	जेसी 143864एम	सुबेदार मेजर	रुप सिंह	01-01-97
29	जेसी 135143एन	सुबेदार मेजर	शिव चरण सिंह	01-09-96
वायु रक्षा तोपखाना-कॉर				
30	जेसी 104607वाई	सुबेदार मेजर	भीम सिंह	01-10-96
31	जेसी 106688एच	सुबेदार मेजर	शुलजार सिंह	01-09-96
32	जेसी 114479ए	सुबेदार मेजर	शुष्पारा	01-01-97
33	जेसी 120362एफस	सुबेदार मेजर	केपी विजया कुमारन	01-09-96
34	जेसी 129855ए	सुबेदार मेजर	विश्वनाथ सिंह सुशवाह	01-12-96

असाधारण इन्जिनीयर गट

35	जेसी 102851 एफ	सुबेदार मेजर	किजककेवोट्टील गोपालन	01-09-96
36	जेसी 97289 एम	सुबेदार मेजर	मेट्टा विष्णुसुती	01-10-96
37	जेसी 95780 वाई	सुबेदार मेजर	पेरियतम्बी वेन्कटरामन	01-09-96
38	जेसी 95788 एल	सुबेदार मेजर	उण्णिकृष्णन टी	01-09-96

बंगाल इन्जिनीयर गट

39	जेसी 126063 पी	सुबेदार मेजर	अबदुल जब्बार	01-10-96
40	जेसी 65111 एल	सुबेदार मेजर	अरवा मलिकार्जुना	01-11-96
41	जेसी 64234 एल	सुबेदार मेजर	बी घनहल्ली कडलप्पा	01-12-96
42	जेसी 125797 के	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह	01-10-96
43	जेसी 139782 एम	सुबेदार मेजर	बंशी धर दंदिपाल	01-01-97
44	जेसी 124154 ऐ	सुबेदार मेजर	भगवति प्रसाद पन्त	01-10-96
45	जेसी 86317 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भुवन चन्द्र	01-09-96
46	जेसी 124306 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हुट्टा सिंह	01-11-96
47	जेसी 123564 के	सुबेदार मेजर	उज्जु सिंह	01-10-96
48	जेसी 143939 वाई	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह	01-11-96
49	जेसी 58948 एच	सुबेदार मेजर	गंगाधरन केके	01-09-96
50	जेसी 124312 के	सुबेदार मेजर	गोपाल दत्त	01-09-96
51	जेसी 119716 एच	सुबेदार मेजर	गोपी चन्द माली	01-11-96
52	जेसी 126085 एन	सुबेदार मेजर	गोवर्धन दास	01-10-96
53	जेसी 124992 पी	सुबेदार मेजर	हर सिंह एमईएचआरए	01-10-96
54	जेसी 124146 एफ	सुबेदार मेजर	हघात राम लोहार	01-10-96
55	जेसी 191451 ऐ	सुबेदार मेजर	जगत चन्द्र	01-12-96
56	जेसी 105535 एम	सुबेदार मेजर	जगत सिंह महार	01-01-97
57	जेसी 125787 ऐ	सुबेदार मेजर	जगजीत सिंह सेखोन	01-10-96
58	जेसी 126068 एन	सुबेदार मेजर	जोगिन्द्र सिंह	01-11-96
59	जेसी 126082 ऐ	सुबेदार मेजर	के कृष्णन नायर वेणुगोपालन	01-11-96
60	जेसी 93020 एक्स	सुबेदार मेजर	कमल नयन सुप्ता	01-09-96
61	जेसी 68353 वाई	सुबेदार मेजर	कोचप्पुरत अर्द्धप बाबू	01-09-96
62	जेसी 85532 पी	सुबेदार मेजर	कोच्चुकुटि पाप्पच्यन	01-11-96
63	जेसी 126031 एम	सुबेदार मेजर	कुलदीप कुमार	01-10-96
64	जेसी 126033 एक्स	सुबेदार मेजर	कुलवंत सिंह	01-12-96
65	जेसी 84601 एल	सुबेदार मेजर	कुलवंत सिंह	01-09-96
66	जेसी 98383 एच	सुबेदार मेजर	कुन्दन सिंह बोरा	01-01-97
67	जेसी 123926 ऐ	सुबेदार मेजर	लक्ष्मण दास	01-09-96
68	जेसी 142138 एल	सुबेदार मेजर	लाजपत राघु बर्मा	01-11-96
69	जेसी 52630 पी	सुबेदार मेजर	एम नागेश्वर राव	01-11-96
70	जेसी 123944 एच	सुबेदार मेजर	मेधू के वी	01-12-96
71	जेसी 121217 एम	सुबेदार मेजर	मेहंगा सिंह	01-09-96
72	जेसी 78989 एल	सुबेदार मेजर	नन्दा बल्लभ	01-01-97
73	जेसी 126032 पी	सुबेदार मेजर	नन्दाधन सिंह जासड	01-10-96
74	जेसी 52629 एन	सुबेदार मेजर	ओंकार सिंह	01-09-96
75	जेसी 99369 एल	सुबेदार मेजर	पंगा चरण सुरती	01-11-96
76	जेसी 88862 वाई	सुबेदार मेजर	पणिकहोरी रामन श्रीधरन	01-09-96
77	जेसी 99452 एच	सुबेदार मेजर	प्यारा सिंह बैस	01-09-96
78	जेसी 98304 एल	सुबेदार मेजर	प्रहलाद सिंह मेहता	01-09-96
79	जेसी 123601 एन	सुबेदार मेजर	प्रेम नन्दाधन बर्मा	01-11-96

80	जेसी 29948एफस	सुबेदार मेजर	प्रीतिम सिंह	01-12-96
81	जेसी 95476पी	सुबेदार मेजर	सुतनपुरकल वर्गीस सालेस	01-11-96
82	जेसी 48411 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पुसुवन वीटिल नन्दापणन	01-10-96
83	जेसी 67392एफ	सुबेदार मेजर	पूजिष्कुन्नील परमेश्वरन सहदेवन	01-11-96
84	जेसी 88938के	सुबेदार मेजर	समरुद्दीन खान	01-10-96
85	जेसी 58404एन	सुबेदार मेजर	राधबीर सिंह	01-01-97
86	जेसी 97173एल	सुबेदार मेजर	राम सिंह	01-12-96
87	जेसी 64981वाई	सुबेदार मेजर	रिषी कुमार	01-09-96
88	जेसी 119729ए	सुबेदार मेजर	शाम सिंह	01-11-96
89	जेसी 125757एच	सुबेदार मेजर	श्री नाथ सिंह	01-10-96
90	जेसी 92706एम	सुबेदार मेजर	सुभाष चन्द्र	01-09-96
91	जेसी 49382वाई	सुबेदार मेजर	सुखर श्रीनिवास राघवन गोविन्दराजन	01-09-96
92	जेसी 186196के	सुबेदार मेजर	सुरज सिंह	01-01-97
93	जेसी 67357एच	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्र पाल सिंह	01-09-96
94	जेसी 147658एन	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्र प्रसाद	01-10-96
95	जेसी 125793वाई	सुबेदार मेजर	सुर्जीत सिंह	01-10-96
96	जेसी 99419एल	सुबेदार मेजर	तेजपाल सिंह	01-10-96
97	जेसी 99471एन	सुबेदार मेजर	वलिमवितेवर तंकवेडू	01-10-96
98	जेसी 54116के	सुबेदार मेजर	वेण्णमठतिल मोहम्मद अहम्मद	01-09-96
99	जेसी 123554ए	सुबेदार मेजर	वेंकटरामा जयपाल	01-10-96
100	जेसी 92698एन	सुबेदार मेजर	विजय बहादुर सिंह	01-10-96
101	जेसी 165275 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	विजयकुमारन वरिकले कोलेप्रा	01-11-96

101 बई इन्जिनीयर ग्रुप

102	जेसी 125669एम	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह	01-11-96
103	जेसी 146584के	सुबेदार मेजर	अन्कुश पत्तटिल	01-01-97
104	जेसी 138835एन	सुबेदार मेजर	बीर सिंह	01-11-96
105	जेसी 143415एक्स	सुबेदार मेजर	सुरदेव सिंह	01-12-96
106	जेसी 138837वाई	सुबेदार मेजर	हरी प्रसाद तिवारी	01-12-96
107	जेसी 124398एन	सुबेदार मेजर	संभाजी जमदादे	01-01-97
108	जेसी 124966एन	सुबेदार मेजर	सरूप सिंह	01-01-97
109	जेसी 125651 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह जनगल	01-10-96

109 क्रोर आफ सिग्नल

110	जेसी 139242के	सुबेदार मेजर	बभित्त सिंह	01-11-96
111	जेसी 154227 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह	01-11-96
112	जेसी 141145पी	सुबेदार मेजर	भवानी राम	01-10-96
113	जेसी 154196एफ	सुबेदार मेजर	विक्रम सिंह	01-09-96
114	जेसी 154180 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गोपान्त पिले चन्द्रशेखरन पिले	01-09-96
115	जेसी 98017एफ	सुबेदार मेजर	काली अरण उपगती	01-10-96
116	जेसी 154179एफ	सुबेदार मेजर	मनमोहन सिंह बिंब	01-09-96
117	जेसी 132681वाई	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह मेगी	01-09-96
118	जेसी 133210पी	सुबेदार मेजर	सुरारी प्रसाद श्रीवास्तव	01-12-96
119	जेसी 154288एफ	सुबेदार मेजर	निर्मल कुमार धोष	01-01-97
120	जेसी 157065एफ	सुबेदार मेजर	ओमप्रकाश सडक	01-01-97
121	जेसी 154178एल	सुबेदार मेजर	ओमप्रकाश	01-10-96
122	जेसी 182573एक्स	सुबेदार मेजर	पीजूष कान्ती मिश्रा	01-09-96
123	जेसी 148265एफ	सुबेदार मेजर	रघुवीर सिंह	01-01-97
124	जेसी 146183पी	सुबेदार मेजर	राज मल	01-09-96
125	जेसी 153468के	सुबेदार मेजर	राजिन्द्र सिंह	01-12-96

126	जेसी 154205एक्स	सुबेदार मेजर	श्याम सिंह	01-10-96
127	जेसी 98022एम्	सुबेदार मेजर	सचरी सुब्र पिच्चाई	01-09-96
128	जेसी 107154डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	शिव सहाय दुबे	01-12-96
129	जेसी 154221पी	सुबेदार मेजर	शिवगंगा प्रेम कुमार	01-11-96
130	जेसी 98031के विंगड आफ हाईम	सुबेदार मेजर	सुदर्शन कुमार	01-01-97
131	जेसी 124384एम्	सुबेदार मेजर	कौतचिरा पंतन पुरा चन्द्रशेखर नाथर	01-10-96
पैराइट रेजिमेंट				
132	जेसी 127423एम्	सुबेदार मेजर	सुलाम शब्बीर खान	01-11-96
मकास रेजिमेंट				
133	जेसी 114095एल	सुबेदार मेजर	श्याम ठहादुर सिंह	01-10-96
134	जेसी 137029पी	सुबेदार मेजर	तंकुवेरु वरदन	01-09-96
135	जेसी 114409एफ	सुबेदार मेजर	विक्रमन	01-09-96
मैनेडियर्स				
136	जेसी 102195के	सुबेदार मेजर	दीप सिंह	01-10-96
137	जेसी 143558एक्स	सुबेदार मेजर	मान सिंह सिंसिनवार	01-12-96
मराठा लाईट इन्फेन्ट्री				
138	जेसी 157819एल	सुबेदार मेजर	किशन विरैहा बट्टी	01-12-96
राजपुत रेजिमेंट				
139	जेसी 155316एफ	सुबेदार मेजर	गिरराज सिंह	01-11-96
140	जेसी 118830एन	सुबेदार मेजर	जसवन्त सिंह	01-10-96
जाट रेजिमेंट				
141	जेसी 139599के	सुबेदार मेजर	श्री राम बर्मा	01-11-96
डोगरा रेजिमेंट				
142	जेसी 103510एफ	सुबेदार मेजर	छातेज नारगू	01-10-96
गडवाल राईफल्स				
143	जेसी 110090पी	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्र सिंह	01-01-97
कुमाऊ रेजिमेंट				

144	जेसी 173987एल	सुबेदार मेजर	बीरबल सिंह	01-12-96
145	जेसी 145567एएस	सुबेदार मेजर	इन्द्र सिंह	01-09-96
असम रेजिमेंट				
146	जेसी 110709ए	सुबेदार मेजर	रबिलाल विश्वकर्मा	01-09-96
बिहार रेजिमेंट				
147	जेसी 135827डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सत्या नारायण घोष	01-10-96
महार रेजिमेंट				
148	जेसी 104250एएस	सुबेदार मेजर	अमर नाथ	01-09-96
149	जेसी 110956वाई	सुबेदार मेजर	झाड़ू राव	01-09-96
150	जेसी 111012एच	सुबेदार मेजर	शेषी राव	01-09-96
1 गोरखा राईफल्स				
151	जेसी 138560एल	सुबेदार मेजर	इन्द्र जंग थापा	01-10-96
4 गोरखा राईफल्स				
152	जेसी 139685पी	सुबेदार मेजर	मदन मोहन	01-11-96
153	जेसी 104263एल	सुबेदार मेजर	सुन्दर सिंह सुरंग	01-09-96
11 गोरखा राईफल्स				
154	जेसी 108212एएस	सुबेदार मेजर	गुंजा बहादुर राय	01-12-96
प्रांशिक इन्फेन्ट्री रेजिमेंट				
155	जेसी 128113एन	सुबेदार मेजर	पीताम्बर सिंह	01-09-96
156	जेसी 127126वाई	सुबेदार मेजर	टीसी राजामणी	01-10-96
सेना सेवा कोर (पूर्वी)				
157	जेसी 187457के	सुबेदार मेजर	अमर सिंह	01-12-96
158	जेसी 171300ए	सुबेदार मेजर	दरोगा सिंह	01-11-96
159	जेसी 183806एल	सुबेदार मेजर	हरबंस सिंह	01-01-97
160	जेसी 175311के	सुबेदार मेजर	कैलाश चन्द शर्मा	01-10-96
161	जेसी 175310एफ	सुबेदार मेजर	कोल्लन्धेरी पुनम चोटिल राजेन्द्रन	01-10-96
162	जेसी 177721वाई	सुबेदार मेजर	लेख राज	01-12-96
163	जेसी 171306एफ	सुबेदार मेजर	मेहर सिंह	01-12-96
164	जेसी 161991के	सुबेदार मेजर	नरेन्द्र कुमार दास	01-12-96
165	जेसी 177714एन	सुबेदार मेजर	रामेश्वर लाल कुमार	01-09-96
166	जेसी 175900ए	सुबेदार मेजर	श्री कृष्णा सिंह	01-11-96
167	जेसी 181642डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	टी एन श्रुन्ती	01-09-96
सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)				
168	जेसी 177453ए	रिसालदार मेजर	राम कुमार डाकुर अकेला	01-10-96

मैना मैदा काँग्रेस प्रौद्योगिक परिवर्तन:

169	जैसी 16554एएल	सुबेदार मेजर	श्रीराम सिंह	01-09-96
170	जैसी 160519पी	सुबेदार मेजर	मैना राम जाट	01-10-96
171	जैसी 165551एल	सुबेदार मेजर	पारशु राम	01-12-96
172	जैसी 165576ए	सुबेदार मेजर	राज मणी वर्मा	01-11-96
173	जैसी 165542पी	सुबेदार मेजर	सुरतान सिंह	01-10-96
मैना चिकित्सा कोर				
174	जैसी 146454एफ	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	01-09-96
175	जैसी 178290पी	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह दुःखा	01-10-96
176	जैसी 169615एल	सुबेदार मेजर	चम्पि डी बेंकटा रेड्डी	01-09-96
177	जैसी 170152पी	सुबेदार मेजर	चेल्लप्पन पिले गोपीनाथन नायर	01-01-97
178	जैसी 178296डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	डॉ. चरण राम	01-10-96
179	जैसी 170149एल	सुबेदार मेजर	गोपी राम	01-12-96
180	जैसी 178413एल	सुबेदार मेजर	गुरदपाल सिंह	01-12-96
181	जैसी 170144पी	सुबेदार मेजर	गुरुमुख सिंह	01-12-96
182	जैसी 169646एल	सुबेदार मेजर	हरी मिश्र	01-10-96
183	जैसी 169942एम	सुबेदार मेजर	हरी सिंह	01-12-96
184	जैसी 170048ए	सुबेदार मेजर	कनवर सिंह	01-10-96
185	जैसी 170045एम	सुबेदार मेजर	मधुरा प्रसाद	01-11-96
186	जैसी 170044के	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह	01-09-96
187	जैसी 169652वाई	सुबेदार मेजर	सुरलो प्रसाद पॉल,	01-12-96
188	जैसी 170146ए	सुबेदार मेजर	मुटियप्पुरन कुटिनारायणन नायर	01-11-96
189	जैसी 192271के	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह मल्लि	01-01-97
190	जैसी 169647एल	सुबेदार मेजर	पुख राज	01-11-96
191	जैसी 161090एकम	सुबेदार मेजर	पुतिघपरम्बत माधवन	01-09-96
192	जैसी 179619ए	सुबेदार मेजर	सखराज सिंह यादव	01-01-97
193	जैसी 192268के	सुबेदार मेजर	सर्वदेव सिंह	01-10-96
194	जैसी 182782एकस	सुबेदार मेजर	श्री पती सिंह	01-09-96
195	जैसी 178223के	सुबेदार मेजर	श्याम प्रकाश	01-10-96
196	जैसी 170215एल	सुबेदार मेजर	सुकुमार बिश्वास	01-09-96
197	जैसी 192269एम	सुबेदार मेजर	सुशील सुखरजी	01-11-96
198	जैसी 178293एच	सुबेदार मेजर	तारा चन्द्र	01-10-96

सैना ऑर्डनेंस कोर

199	जेसी 175726वाई	सुबेदार मेजर	अन्बणीकुटि पीटी	01-10-96
200	जेसी 175712वाई	सुबेदार मेजर	भोला नाथ	01-09-96
201	जेसी 165697एफ	सुबेदार मेजर	बिश्वनाथ घादव	01-09-96
202	जेसी 173537डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गिरराज सिंह	01-09-96
203	जेसी 175662वाई	सुबेदार मेजर	नरेश प्रसाद सिंह	01-10-96
204	जेसी 173496एक्स	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश राघ	01-09-96
205	जेसी 165698के	सुबेदार मेजर	राम स्वरुप	01-09-96
206	जेसी 176713एन	सुबेदार मेजर	आर मौर्घा	01-10-96
207	जेसी 175715एम	सुबेदार मेजर	त्रिवकणी सिंह	01-01-97
208	जेसी 173497ए	सुबेदार मेजर	वीवीआर राव	01-11-96

वैद्युत एवं यांत्रिक इन्जिनियर

209	जेसी 122637वाई	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह	01-11-96
210	जेसी 130331एल	सुबेदार मेजर	बलेश्वर राम	01-01-97
211	जेसी 120969के	सुबेदार मेजर	ईश्वर सिंह	01-10-96
212	जेसी 122636डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	करन सिंह	01-11-96
213	जेसी 131239वाई	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	01-12-96
214	जेसी 150481एच	सुबेदार मेजर	पी एस उत्तया	01-12-96
215	जेसी 165883एक्स	सुबेदार मेजर	राज बल सिंह	01-10-96
216	जेसी 122635एन	सुबेदार मेजर	राम प्यारे त्रिपाठी	01-11-96
217	जेसी 179129एफ	सुबेदार मेजर	सरदार सिंह	01-11-96
218	जेसी 121001एल	सुबेदार मेजर	शिवाजी कदम	01-11-96
219	जेसी 174009एफ	सुबेदार मेजर	उतम सिंह पतिघाल	01-10-96
220	जेसी 165523एफ	सुबेदार मेजर	वी कदम	01-10-96

सैना शिक्षा कोर

221	जेसी 136142एक्स	सुबेदार मेजर	तशोक कुमार जैन	01-01-97
222	जेसी 156182ए	सुबेदार मेजर	बिजय नन्रायन तिवारी	01-12-96
223	जेसी 133336पी	सुबेदार मेजर	ई एन एमत अघारी	28-07-96
224	जेसी 125001एल	सुबेदार मेजर	मोहन चन्द्र त्रिपाठी	01-11-96
225	जेसी 147843एन	सुबेदार मेजर	राज किशोर त्रिपाठी	01-01-97
226	जेसी 134007एल	सुबेदार मेजर	सरदार सिंह तर्घ	01-01-97

सैना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

227	जेसी 124702एम	सुबेदार मेजर	रोशन लाल	01-12-96
-----	---------------	--------------	----------	----------

रक्षा सुरक्षा कोर

227	जेसी 125018डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एन मोहम्मद	01-12-96
228	जेसी 111065एच	सुबेदार मेजर	राम सेवक मिश्र	01-09-96
229	जेसी 100326एल	सुबेदार मेजर	सुधिश्टीर सिंह	01-01-97

आर्मिड कोर

1	जे.सी. 184088एम	रिसालदार	अजमेर सिंह	01-11-96
2	जे.सी. 162065एल	रिसालदार	अमर सिंह	01-09-96
3	जे.सी. 171251एच	रिसालदार	अमर सिंह	01-11-96
4	जे.सी. 194143एल	रिसालदार	अमरिक सिंह	01-10-96
5	जे.सी. 168703पी	रिसालदार	बलराज सिंह	01-09-96
6	जे.सी. 177479पी	रिसालदार	बलवत सिंह	01-10-96
7	जे.सी. 170298एफ	रिसालदार	बिशन सिंह	01-11-96
8	जे.सी. 160818एन	रिसालदार	बिश्वनाथ सिंह	01-10-96
9	जे.सी. 154843डब्ल्यू	रिसालदार	हमीर सिंह	01-11-96
10	जे.सी. 211487एच	रिसालदार	हनुमान सिंह	01-09-96
11	जे.सी. 175800पी	रिसालदार	हरदीप सिंह	01-11-96
12	जे.सी. 194114डब्ल्यू	रिसालदार	जरनाईल सिंह	01-11-96
13	जे.सी. 189569एच	रिसालदार	जीत सिंह	01-11-96
14	जे.सी. 195357एन	रिसालदार	कल्याण सिंह	01-01-97
15	जे.सी. 140594एक्स	रिसालदार	करनैल सिंह	01-09-96
16	जे.सी. 141672डब्ल्यू	रिसालदार	कंश्मीर सिंह	01-12-96
17	जे.सी. 181359एन	रिसालदार	खुब चन्द	01-10-96
18	जे.सी. 163582पी	रिसालदार	किरण सिंह	01-10-96
19	जे.सी. 196753डब्ल्यू	रिसालदार	क्रिपा शंकर सिंह	01-10-96
20	जे.सी. 155761एम	रिसालदार	कुवरपाल सिंह	01-10-96
21	जे.सी. 211464एफ	रिसालदार	लक्षमन सिंह	01-10-96
22	जे.सी. 148240के	रिसालदार	महेन्द्र सिंह	01-09-96
23	जे.सी. 195342एल	रिसालदार	महु सिंह	01-12-96
24	जे.सी. 195364के	रिसालदार	मेख राज	01-09-96
25	जे.सी. 152041एन	रिसालदार	मोहन सिंह	01-10-96
26	जे.सी. 44854ए	रिसालदार	महेन्द्र सिंह रेशम	01-01-97
27	जे.सी. 128902ए	रिसालदार	सुंताज अली	01-09-96
28	जे.सी. 168664एफ	रिसालदार	नसीब सिंह	01-10-96
29	जे.सी. 211454एक्स	रिसालदार	नधु राम	01-01-97
30	जे.सी. 200780ए	रिसालदार	ओम प्रकाश	01-11-96
31	जे.सी. 206580ए	रिसालदार	परधोत्तम दासि	01-10-96
32	जे.सी. 195377एफ	रिसालदार	रघुनाथ सिंह राठोर	01-11-96
33	जे.सी. 163581एम	रिसालदार	राजपाल सिंह तंवर	01-11-96
34	जे.सी. 170285के	रिसालदार	आर सी चौधरी	01-09-96
35	जे.सी. 183597वाई	रिसालदार	राम प्रकाश कुशवाहा	01-10-96
36	जे.सी. 173768एम	रिसालदार	आर एस नारा	01-11-96
37	जे.सी. 194122पी	रिसालदार	रकमेश्वर सिंह	01-09-96
38	जे.सी. 194148वाई	रिसालदार	रमाल सिंह	01-12-96
39	जे.सी. 203235एफ	रिसालदार	रतन चन्द	01-09-96
40	जे.सी. 162049एन	रिसालदार	सर्वीज सिंह	01-11-96
41	जे.सी. 146141एम	रिसालदार	सर्वीजीत सिंह	01-10-96
42	जे.सी. 200701ए	रिसालदार	मन्धा नारायण सिंह	01-10-96
43	जे.सी. 200687वाई	रिसालदार	शंर सिंह	01-10-96
44	जे.सी. 152074वाई	रिसालदार	सोम दत्त शर्मा	01-11-96
45	जे.सी. 161355एम	रिसालदार	सुरपाल सिंह	01-10-96
46	जे.सी. 195365एम	रिसालदार	सुर्य राम	01-12-96
47	जे.सी. 171780एफ	रिसालदार	उदय पाल सिंह	01-10-96
48	जे.सी. 151215एम	रिसालदार	वी लक्षमन	01-10-96
49	जे.सी. 171289वाई	रिसालदार	वतन सिंह	

तीर्थस्वाजा रेजिमेंट

50	जे.सी. 223349 एन	सुबेदार	अभय सिंह	01-01-97
51	जे.सी. 169926 वाई	सुबेदार	अजब सिंह	01-10-96
52	जे.सी. 195834 एल	सुबेदार	अजीत सिंह	01-10-96
53	जे.सी. 149904 वाई	सुबेदार	अमर सिंह	01-11-96
54	जे.सी. 179195 के	सुबेदार	अमर सिंह	01-09-96
55	जे.सी. 179203 एक्स	सुबेदार	अमीर सिंह घाडव	01-11-96
56	जे.सी. 197604 पी	सुबेदार	अजनानी कुमार सिंह	01-01-97
57	जे.सी. 193407 पी	सुबेदार	तशोक कुमार	01-01-97
58	जे.सी. 179201 एम	सुबेदार	बाबू राम	01-11-96
59	जे.सी. 178705 एन	सुबेदार	बहादुर सिंह	01-01-97
60	जे.सी. 158519 डब्ल्यू	सुबेदार	बकशीश सिंह	01-11-96
61	जे.सी. 190528 एल	सुबेदार	बलबीर सिंह	01-11-96
62	जे.सी. 171032 एफ	सुबेदार	बलबीर सिंह राव	01-09-96
63	जे.सी. 178776 पी	सुबेदार	बलदेव नाथ	01-11-96
64	जे.सी. 176266 पी	सुबेदार	बलदेव सिंह	01-10-96
65	जे.सी. 195141 एम	सुबेदार	बलदेव सिंह	01-11-96
66	जे.सी. 195147 एन	सुबेदार	बलदेव सिंह	01-10-96
67	जे.सी. 214425 एन	सुबेदार	बलकार सिंह	01-10-96
68	जे.सी. 183254 एच	सुबेदार	बलवर्त सिंह	01-12-96
69	जे.सी. 180443 एफ	सुबेदार	बंशी लाल	01-12-96
70	जे.सी. 179186 एच	सुबेदार	बंशी राम	01-09-96
71	जे.सी. 175539 ऐ	सुबेदार	बिलि राम एस	01-09-96
72	जे.सी. 214396 के	सुबेदार	भगत राम	01-01-97
73	जे.सी. 184563 एक्स	सुबेदार	भगवान जाधव	01-10-96
74	जे.सी. 177893 एन	सुबेदार	भगवान सिंह	01-10-96
75	जे.सी. 185343 ऐ	सुबेदार	भज राम घाडव	01-12-96
76	जे.सी. 148118 एन	सुबेदार	भंवर सिंह राठौर	01-09-96
77	जे.सी. 209342 वाई	सुबेदार	भारत चन्द	01-09-96
78	जे.सी. 176439 एफ	सुबेदार	भूपती कुमार सिंघा	01-10-96
79	जे.सी. 226067 ऐ	सुबेदार	बिंशबर सिंह	01-12-96
80	जे.सी. 178812 पी	सुबेदार	घमन लाल	01-01-97
81	जे.सी. 195137 के	सुबेदार	चन्द्र भान आपटील	01-12-96
82	जे.सी. 158516 एच	सुबेदार	चरण सिंह	01-09-96
83	जे.सी. 225512 एफ	सुबेदार	छत्रभुज चितोले	01-12-96
84	जे.सी. 226029 के	सुबेदार	दलिपा राम	01-10-96
85	जे.सी. 171435 एफ	सुबेदार	दर्शन सिंह	01-12-96
86	जे.सी. 193409 ऐ	सुबेदार	दर्शन सिंह	01-11-96
87	जे.सी. 169793 एन	सुबेदार	डी सी सिंदे	01-01-97
88	जे.सी. 186663 एफ	सुबेदार	देवसुनी सिंह घाडव	01-12-96
89	जे.सी. 186728 के	सुबेदार	देव राज मेहरा	01-12-96
90	जे.सी. 157605 पी	सुबेदार	धीसा राम	01-01-97
91	जे.सी. 197434 डब्ल्यू	सुबेदार	जी बी रामचन्द्र	01-10-96
92	जे.सी. 226090 एन	सुबेदार	गिरजा शंकर पार्मा	01-10-96
93	जे.सी. 169006 एफ	सुबेदार	गोपाल सिंह	01-10-96
94	जे.सी. 176255 एच	सुबेदार	गुलाब सिंह भकौरिया	01-01-97
95	जे.सी. 177888 एच	सुबेदार	गुलजार सिंह सन्ड	01-10-96
96	जे.सी. 183244 वाई	सुबेदार	गुरदयाल राम	01-12-96
97	जे.सी. 226448 एफ	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01-11-96

98	जैसी 223321 एन	सुबेदार	हंस राज	01-09-96
99	जैसी 177684 डब्ल्यू	सुबेदार	हरभजन सिंह	01-12-96
100	जैसी 203529 पी	सुबेदार	हरभजन सिंह	01-01-97
101	जैसी 171347 एल	सुबेदार	हरी सिंह	01-01-97
102	जैसी 183232 के	सुबेदार	हरजीत सिंह लिट	01-10-96
103	जैसी 198677 वाई	सुबेदार	हवा सिंह कुलहर	01-11-96
104	जैसी 182024 एच	सुबेदार	हीरा लाल	01-12-96
105	जैसी 221257 एच	सुबेदार	होशियार सिंह	01-12-96
106	जैसी 169977 एम	सुबेदार	जगदीश चन्द	01-10-96
107	जैसी 158323 एन	सुबेदार	जागीर सिंह	01-10-96
108	जैसी 181024 डब्ल्यू	सुबेदार	जगजीत सिंह	01-12-96
109	जैसी 179197 पी	सुबेदार	जसवन्त सिंह	01-09-96
110	जैसी 184505 एम	सुबेदार	जसवन्त सिंह	01-09-96
111	जैसी 203536 एल	सुबेदार	केलाश सिंह शोखाबत	01-09-96
112	जैसी 206208 एच	सुबेदार	काम सिंह ठाकुर	01-12-96
113	जैसी 179192 डब्ल्यू	सुबेदार	कारी वेंकटा रमणा	01-09-96
114	जैसी 177891 एच	सुबेदार	कौशल किशोर	01-10-96
115	जैसी 165532 एच	सुबेदार	केहर मान गुरुंग	01-12-96
116	जैसी 221212 एच	सुबेदार	केसर सिंह	01-01-97
117	जैसी 183249 एम	सुबेदार	केसर सिंह पाल	01-12-96
118	जैसी 185366 एफ	सुबेदार	सुशी राम घादवा	01-11-96
119	जैसी 223593 एन	सुबेदार	किसमत सिंह	01-11-96
120	जैसी 186685 ऐ	सुबेदार	केके दासप्पान पिले	01-11-96
121	जैसी 183251 पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह सन्दू	01-12-96
122	जैसी 200261 एक्स	सुबेदार	कुलतार चन्द	01-09-96
123	जैसी 183234 पी	सुबेदार	कनवर सिंह भदोरिया	01-11-96
124	जैसी 173328 वाई	सुबेदार	लछमन सिंह	01-10-96
125	जैसी 157466 डब्ल्यू	सुबेदार	लाल सिंह	01-10-96
126	जैसी 217571 वाई	सुबेदार	लन्केश्वर दाम	01-09-96
127	जैसी 225674 एम	सुबेदार	एल नीला	01-09-96
128	जैसी 171359 ऐ	सुबेदार	मदन गोपाल	01-01-97
129	जैसी 175541 एक्स	सुबेदार	मदन नागोंकार	01-09-96
130	जैसी 177882 एफ	सुबेदार	माधो सिंह भट्टी	01-09-96
131	जैसी 179194 एफ	सुबेदार	महावीर सिंह	01-09-96
132	जैसी 183247 एम	सुबेदार	मेजर सिंह भुल्लर	01-12-96
133	जैसी 180477 पी	सुबेदार	माखन सिंह	01-01-97
134	जैसी 175301 ऐ	सुबेदार	मान सिंह	01-12-96
135	जैसी 214397 एम	सुबेदार	मंगा राम	01-11-96
136	जैसी 190533 डब्ल्यू	सुबेदार	मंसूर खान	01-01-97
137	जैसी 154609 ऐ	सुबेदार	मार्कण्डे राघ	01-11-96
138	जैसी 180737 एल	सुबेदार	मत्ताई शोमस	01-12-96
139	जैसी 174852 वाई	सुबेदार	एम वी अण्णन्ना	01-09-96
140	जैसी 180568 वाई	सुबेदार	मोहन लाल शर्मा	01-12-96
141	जैसी 175549 के	सुबेदार	सुशी राम ठाकुर	01-11-96
142	जैसी 145854 एफ	सुबेदार	एन ए राघप्पा	01-12-96
143	जैसी 200407 एल	सुबेदार	निकका राम	01-01-97
144	जैसी 175507 एच	सुबेदार	जिजू राम	01-01-97
145	जैसी 190541 पी	सुबेदार	निर्मल सिंह	01-12-96
146	जैसी 148113 पी	सुबेदार	जिमान सिंह	01-09-96
147	जैसी 226621 ऐ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-09-96
148	जैसी 193481 डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश घादवा	01-01-97
149	जैसी 214936 एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-01-97

150	जेसी 175544एल	सुबेदार	अँकार सिंह चौहान	01-10-96
151	जेसी 151881एफ	सुबेदार	पाल सिंह	01-11-96
152	जेसी 171380एच	सुबेदार	पंडित सूर्यवंशी	01-10-96
153	जेसी 199054डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम सिंह भासु	01-11-96
154	जेसी 186495एन	सुबेदार	पीएस बमलिंगप्पा	01-12-96
155	जेसी 185349एफ	सुबेदार	पूरण चन्द्र पाण्डे	01-01-97
156	जेसी 180398ए	सुबेदार	पूर्णा बहादुर राय	01-12-96
157	जेसी 177887ए	सुबेदार	राजेन्द्र प्रताप	01-09-96
158	जेसी 183230वाई	सुबेदार	राजेन्द्र कुमार शर्मा	01-10-96
159	जेसी 183248पी	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद	01-12-96
160	जेसी 190582वाई	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	01-09-96
161	जेसी 135005पी	सुबेदार	राजू तंगवेल्ल	01-11-96
162	जेसी 198278के	सुबेदार	राम रोधर सिंह	01-01-97
163	जेसी 186379एल	सुबेदार	राम बिहारी प्रसाद	01-12-96
164	जेसी 199100ए	सुबेदार	राम चन्द	01-09-96
165	जेसी 226614के	सुबेदार	राम चन्द	01-11-96
166	जेसी 154736एच	सुबेदार	राम गोपाल ब्रिजवंशी	01-11-96
167	जेसी 169023एफ	सुबेदार	राम कृष्ण पराशर	01-11-96
168	जेसी 178841के	सुबेदार	राम मेहर सिंह घादव	01-11-96
169	जेसी 183250एम	सुबेदार	राम राज घादव	01-11-96
170	जेसी 183224एल	सुबेदार	राम एसकेजीवन सिंह	01-10-96
171	जेसी 205848ए	सुबेदार	राम सिंह घादव	01-09-96
172	जेसी 185340ए	सुबेदार	रामचन्द्रन नायर एम	01-12-96
173	जेसी 186746एम	सुबेदार	रामेन्द्र सिंह घादव	01-11-96
174	जेसी 226058वाई	सुबेदार	रमेश चन्द	01-12-96
175	जेसी 183245पी	सुबेदार	रणजीत सिंह	01-12-96
176	जेसी 225242एम	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01-11-96
177	जेसी 182837ए	सुबेदार	राशन लाल	01-11-96
178	जेसी 176197के	सुबेदार	सबरूप सिंह	01-01-97
179	जेसी 183240एच	सुबेदार	सदा ब्रिज घादव	01-11-96
180	जेसी 200234एन	सुबेदार	संसार सिंह	01-01-97
181	जेसी 179188एन	सुबेदार	सन्तोष सिंह नागरा	01-09-96
182	जेसी 198694वाई	सुबेदार	सरण दासि	01-10-96
183	जेसी 186370डब्ल्यू	सुबेदार	सरदार सिंह	01-12-96
184	जेसी 172235एक्स	सुबेदार	सरदल सिंह	01-09-96
185	जेसी 160637एच	सुबेदार	शक्ति राम	01-01-97
186	जेसी 186563डब्ल्यू	सुबेदार	सतपाल सिंह पूणिघा	01-01-97
187	जेसी 186684एम	सुबेदार	सत्या राम घादव	01-11-96
188	जेसी 149353वाई	सुबेदार	एसमीएस सुशवाह	01-10-96
189	जेसी 177690के	सुबेदार	श्री चन्द	01-09-96
190	जेसी 185348वाई	सुबेदार	एस आण्टणी	01-12-96
191	जेसी 157616एफ	सुबेदार	एस संबन्धम	01-11-96
192	जेसी 180402एम	सुबेदार	साधु पाल सिंह	01-09-96
193	जेसी 177889एल	सुबेदार	सुख सिंह	01-10-96
194	जेसी 183257डब्ल्यू	सुबेदार	सुदर्शन सिंह घादव	01-11-96
195	जेसी 202357वाई	सुबेदार	सुनील कुमार	01-10-96
196	जेसी 176427एम	सुबेदार	सुनील सिंह	01-10-96
197	जेसी 206498ए	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01-09-96
198	जेसी 177879वाई	सुबेदार	लाल चन्द	01-11-96
199	जेसी 180671एम	सुबेदार	टीजीएनएम नागर	01-09-96
200	जेसी 226433वाई	सुबेदार	उदय चन्द	01-10-96
201	जेसी 175508ए	सुबेदार	वसन्त औनाडे	01-09-96

202	जेसी 190519एफ	सुबेदार	विजया सन्देश मिले	01-12-96
203	जेसी 190527एफ	सुबेदार	वीरेन्द्र प्रसाद प्रमा	01-12-96
204	जेसी 163003डब्ल्यू	सुबेदार	विश्वनाथ सिंह भडौरिया	01-01-97
205	जेसी 167076एफ	सुबेदार	वासन सिंह	01-11-96
206	जेसी 200291पी	सुबेदार	घद गम	01-10-96
207	जेसी 157554एम	सुबेदार	घशचन्त सिंह पारहर	01-09-96
वायु रक्षा तीपखाना				
208	जेसी 151858एन	सुबेदार	अक्रम शिवराम सूतर	01-09-96
209	जेसी 175274एफ	सुबेदार	भवन मिस्त्री	01-01-97
210	जेसी 185353के	सुबेदार	भवन सिंह	01-12-96
211	जेसी 171114के	सुबेदार	बी पी सिद्धगौडा	01-12-96
212	जेसी 161336एल	सुबेदार	धर्म वीर	01-01-97
213	जेसी 201662वाई	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01-01-97
214	जेसी 183239एन	सुबेदार	हरमेश सिंह	01-11-96
215	जेसी 135448एन	सुबेदार	जागीर सिंह	01-10-96
216	जेसी 171102पी	सुबेदार	जेअमन सिंह	01-09-96
217	जेसी 185359एल	सुबेदार	जनक राज	01-01-97
218	जेसी 175516वाई	सुबेदार	कदरा सिन्हा	01-10-96
219	जेसी 169184एच	सुबेदार	कनदन मूरती	01-11-96
220	जेसी 148129ए	सुबेदार	के पी रामदास	01-10-96
221	जेसी 152711के	सुबेदार	कुंभ सिंह	01-09-96
222	जेसी 195164एन	सुबेदार	लाखन सिंह भण्डारी	01-10-96
223	जेसी 179178के	सुबेदार	लेख राज गुलेरिया	01-09-96
224	जेसी 178891पी	सुबेदार	मान कुमार चैत्री	01-01-97
225	जेसी 226319एफ	सुबेदार	एमएस अंबघा	01-12-96
226	जेसी 151005डब्ल्यू	सुबेदार	परमजीत सिंह	01-01-97
227	जेसी 185342एक्स	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01-12-96
228	जेसी 198263एफ	सुबेदार	फणीन्द्र कुमार राय	01-09-96
229	जेसी 185363एन	सुबेदार	प्रताप सिंह	01-01-97
230	जेसी 156262एक्स	सुबेदार	राजन पी ई	01-10-96
231	जेसी 163256ए	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद एमके	01-11-96
232	जेसी 160036एक्स	सुबेदार	राम शरण सिंह	01-11-96
233	जेसी 147694एल	सुबेदार	राम सिंह	01-09-96
234	जेसी 152706डब्ल्यू	सुबेदार	राम सुरत पाण्डे	01-09-96
235	जेसी 158481एक्स	सुबेदार	रकमबीर सिंह	01-10-96
236	जेसी 186649पी	सुबेदार	रनधीर सिंह खोला	01-12-96
237	जेसी 183243डब्ल्यू	सुबेदार	रोहिताश्व घादवा	01-12-96
238	जेसी 157970डब्ल्यू	सुबेदार	समशेर सिंह मांग्रा	01-11-96
239	जेसी 183317ए	सुबेदार	शेर सिंह	01-11-96
240	जेसी 170937एक्स	सुबेदार	श्रीधरन राघरात	01-11-96
241	जेसी 195173पी	सुबेदार	एसआरअईकृष्णा प्रताप सिंह	01-09-96
242	जेसी 197439पी	सुबेदार	तरसेम लाल	01-09-96
243	जेसी 167665एक्स	सुबेदार	उधबीर सिंह	01-12-96
244	जेसी 161359एन	सुबेदार	वैष्णवधन कुलन्दार	01-11-96
245	जेसी 190535एफ	सुबेदार	खड्डीबीर सिंह	01-12-96
मद्रास इंजिनीयर ग्रूप				
246	जेसी 127069एच	सुबेदार	ए बी वगीस	01-11-96
247	जेसी 159971एक्स	सुबेदार	अरुंधन मणी माधवन	01-12-96

248	जेसी 172052एम	सुबेदार	बी पेम्मघा	01-11-96
249	जेसी 162409ए 162409ए	सुबेदार	चिन्नामन्म वेंकन	01-01-97
250	जेसी 139748एफ	सुबेदार	जी आर नासुड	01-11-96
251	जेसी 158586पी	सुबेदार	के करुपघा	01-11-96
252	जेसी 139745वाई	सुबेदार	केके भारतीधन	01-11-96
253	जेसी 197045डब्ल्यू	सुबेदार	लोकित्ताक्षन के	01-01-97
254	जेसी 159743के	सुबेदार	एम मार्काण्डेधन	01-12-96
255	जेसी 156604ए	सुबेदार	पी फ्रान्सिस	01-01-97
256	जेसी 154093एन	सुबेदार	पी के कण्णन	01-11-96
257	जेसी 198943एक्स	सुबेदार	रंगास्वामी मुरुलिराज	01-09-96
258	जेसी 156615एम	सुबेदार	आर दावीद	01-11-96
259	जेसी 207442एल	सुबेदार	शंकरन गोविनाधन पिल्ले	01-11-96
260	जेसी 138953एफ	सुबेदार	तंगप्पन पिल्ले पीके	01-11-96

बंगाल इन्जिनियर ग्रुप

261	जेसी 163217एन	सुबेदार	अजीत सिंह	01-09-96
262	जेसी 130465के	सुबेदार	डी भद्रन	01-12-96
263	जेसी 123555एच	सुबेदार	देवराजन चन्द्र हसन	01-12-96
264	जेसी 207676पी	सुबेदार	धीराज सिंह	01-11-96
265	जेसी 166834एफ	सुबेदार	ललन सिंह	01-12-96
266	जेसी 207673एम	सुबेदार	मान सिंह	01-12-96
267	जेसी 179812एफ	सुबेदार	मधुरा दत्त धर्मा	01-11-96
268	जेसी 177083डब्ल्यू	सुबेदार	नारायण दत्त	01-11-96
269	जेसी 171474ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-10-96
270	जेसी 140024ए	सुबेदार	पी एस दोड्डगौडा	01-11-96
271	जेसी 207705वाई	सुबेदार	पीएचन कुमार जैन	01-12-96
272	जेसी 140924एल	सुबेदार	प्यारे लाल कुकेर्ती	01-01-97
273	जेसी 207736एम	सुबेदार	सदानन्दन पी	01-01-97
274	जेसी 207778एल	सुबेदार	एस वैकटा सत्यम	01-12-96
275	जेसी 207715एच	सुबेदार	एस मुरुगेशन	01-12-96
276	जेसी 146208डब्ल्यू	सुबेदार	सिरोमणी मोसस	01-09-96
277	जेसी 191393एफ	सुबेदार	तरसेम लाल	01-09-96
278	जेसी 207759ए	सुबेदार	वेदसुब्रह्मसाई प्रकाशम	01-09-96
279	जेसी 207754एफ	सुबेदार	वी सी जोषवा	01-12-96

बंबई इन्जिनियर ग्रुप

280	जेसी 171604एक्स	सुबेदार	बबन कीरदन	01-10-96
281	जेसी 160385एफ	सुबेदार	बाबुराव जाधव	01-12-96
282	जेसी 186268एन	सुबेदार	चन्द्र शंखर द्विवेदी	01-10-96
283	जेसी 170449पी	सुबेदार	दत्तात्रेय भोसले	01-01-97
284	जेसी 166904पी	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01-11-96
285	जेसी 191703एफ	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01-11-96
286	जेसी 159501एम	सुबेदार	गुरधरन सिंह	01-11-96
287	जेसी 191654के	सुबेदार	हरनेक सिंह	01-09-96
288	जेसी 160397डब्ल्यू	सुबेदार	जयराम मटकर	01-01-97
289	जेसी 163159पी	सुबेदार	जसवन्त सिंह	01-10-96
290	जेसी 165346एम	सुबेदार	माई राम सिंगल	01-11-96
291	जेसी 170430डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01-11-96
292	जेसी 191661ए	सुबेदार	पीएमटी मलवा सिंह	01-12-96
293	जेसी 171599एक्स	सुबेदार	रघुनाथ सिंह	01-12-96
294	जेसी 182580वाई	सुबेदार	शमराव बोलाके	01-09-96

295 जेसी 191634 डब्ल्यू	सुबेदार	एस वैष्णु लक्ष्मन	01-01-77
296 जेसी 171618 एक्स	सुबेदार	तुकाराम पत्तिल	01-01-97
16314 एक्स	सुबेदार	वसन्त सिंदे	01-09-96
17277 पी	सुबेदार	वी माने	01-11-96
निल			
0166 डब्ल्यू	सुबेदार	अमर सिंह पांचाल	01-10-96
8229 एफ	सुबेदार	अमरजीत	01-01-97
6146 एक्स	सुबेदार	अरखिता मिश्री	01-10-96
5694 एच	सुबेदार	ए चेल्लप्पा	01-09-96
9060 ऐ	सुबेदार	ए देवीदास राव	01-11-96
6029 वार्ड	सुबेदार	बदल राम	01-12-96
8808 के	सुबेदार	बागीन्द्र सिंघा	01-12-96
2071 एन	सुबेदार	बाला दत्त	01-12-96
2186 एन	सुबेदार	भगवान सिंह	01-12-96
8706 एक्स	सुबेदार	भवान सिंह	01-12-96
4809 वार्ड	सुबेदार	भीम बहादुर तमंग	01-12-96
1271 के	सुबेदार	बिशन सिंह मंकोटी	01-12-96
5747 एफ	सुबेदार	दर्शन बैंस	01-12-96
6006 पी	सुबेदार	डीतर्घी सिंह	01-01-97
6047 एफ	सुबेदार	दया नंद	01-11-96
3017 एच	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार	01-01-97
2195 पी	सुबेदार	डी राम चौधरी	01-10-96
5988 एच	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01-10-96
2979 पी	सुबेदार	धीरेन्द्र कुमार सिंह	01-09-96
5915 एन	सुबेदार	गाईकवाद् नागेश	01-09-96
2065 ऐ	सुबेदार	गंगा दयाल सिंह	01-01-97
7380 डब्ल्यू	सुबेदार	जोर्ज कुटि सीवी	01-12-96
5003 के	सुबेदार	गंधर्ब सिंह	01-11-96
5961 एफ	सुबेदार	गुरमेल सिंह चहल	01-11-96
1272 एम	सुबेदार	गुरुनाथन	01-10-96
3079 एच	सुबेदार	गुस्वामी रंगराज	01-10-96
3490 एफ	सुबेदार	हर नाथ त्रिपाठी	01-11-96
1054 एम	सुबेदार	हरदयाल सिंह	01-09-96
718 ऐ	सुबेदार	हरदवारी लाल	01-01-97
1844 पी	सुबेदार	हरी सिंह	01-10-96
1028 एम	सुबेदार	इमान सिंह खैत्री	01-01-97
1066 एफ	सुबेदार	जगदीश राम	01-01-97
1125 के	सुबेदार	जगदीश चन्द	01-01-97
731 के	सुबेदार	जगदीश चन्द	01-10-96
028 डब्ल्यू	सुबेदार	जगमला राम	01-11-96
693 ऐ	सुबेदार	जगवीर सिंह	01-12-96
058 एच	सुबेदार	जय सिंह	01-11-96
306 एक्स	सुबेदार	जनाधिन एनसी	01-09-96
1976 के	सुबेदार	जरनाईल सिंह	01-11-96
986 डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिन्द्र लाल	01-10-96
053 के	सुबेदार	कमेर चन्द	01-09-96
302 एफ	सुबेदार	कन्हया लाल	01-01-97
180 एम	सुबेदार	कन्हया लाल	01-11-96
025 एच	सुबेदार	कण्णज कुमार सत्रामी	01-10-96

343	जेसी 197725डब्ल्यू	सुबेदार	विश्वन चन्द्र	01-09-96
344	जेसी 198696वाई	सुबेदार	के.आर. विजयन	01-12-96
345	जेसी 182208डब्ल्यू	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01-09-96
346	जेसी 179727वाई	सुबेदार	लाल मोहन राय	01-09-96
347	जेसी 182219एन	सुबेदार	लोगी चन्द्र	01-12-96
348	जेसी 182289एम	सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01-09-96
349	जेसी 197730एफ	सुबेदार	माम राज	01-11-96
350	जेसी 182181पी	सुबेदार	मनजीत सिंह भाजवा	01-11-96
351	जेसी 197739डब्ल्यू	सुबेदार	मधु एम	01-01-97
352	जेसी 179737एच	सुबेदार	नेहर सिंह	01-01-97
353	जेसी 214226ए	सुबेदार	एम जगन्नाथन	01-12-96
354	जेसी 192029पी	सुबेदार	मोहन सिंह	01-01-97
355	जेसी 181013के	सुबेदार	महेन्द्र सिंह गुलेरिया	01-12-96
356	जेसी 185992एल	सुबेदार	एमपीएस चौहान	01-11-96
357	जेसी 180972एन	सुबेदार	सुखराम सिंह	01-10-96
358	जेसी 188307ए	सुबेदार	सुरगोशन विश्वनाथन	01-01-97
359	जेसी 186027एन	सुबेदार	नागेश्वर प्रसाद सिंह घादव	01-10-96
360	जेसी 196150ए	सुबेदार	नन्दा बल्लभ	01-11-96
361	जेसी 186002एफ	सुबेदार	पखीन्द्र कालिता	01-09-96
362	जेसी 212135एक्स	सुबेदार	फूल सिंह	01-09-96
363	जेसी 182187डब्ल्यू	सुबेदार	प्रफुल्ला कुमार परीदा	01-09-96
364	जेसी 209067के	सुबेदार	प्रताप सिंह	01-01-97
365	जेसी 186052एम	सुबेदार	आर एम जाफर	01-10-96
366	जेसी 180993के	सुबेदार	राज कुमार बर्मा	01-10-96
367	जेसी 185990ए	सुबेदार	राज पाल	01-11-96
368	जेसी 209061एच	सुबेदार	राम ऐधर मौर्धा	01-11-96
369	जेसी 186013एन	सुबेदार	राम राम मिश्रा	01-12-96
370	जेसी 182185एल	सुबेदार	राम बहादुर	01-12-96
371	जेसी 182216ए	सुबेदार	राम बिलाश महतो	01-01-97
372	जेसी 186024ए	सुबेदार	राम चन्द्र सिंह	01-10-96
373	जेसी 192129ए	सुबेदार	राम गोपाल	01-10-96
374	जेसी 180982एक्स	सुबेदार	राम लाल	01-11-96
375	जेसी 181003ए	सुबेदार	राम सिंगासन राय	01-11-96
376	जेसी 198013ए	सुबेदार	रामदासन औषी	01-10-96
377	जेसी 212137एच	सुबेदार	रमेश चन्द्र	01-11-96
378	जेसी 188123एफ	सुबेदार	रामेश्वर लाल बी	01-11-96
379	जेसी 186037एक्स	सुबेदार	रामजी सिंह	01-01-97
380	जेसी 187974एफ	सुबेदार	आर मोहमद	01-01-97
381	जेसी 209063एन	सुबेदार	रविन्द्रन सी पी	01-12-96
382	जेसी 209064डब्ल्यू	सुबेदार	रोशन लाल मोहल	01-12-96
383	जेसी 202786ए	सुबेदार	सन्तोश कुमार कार	01-11-96
384	जेसी 212136ए	सुबेदार	सत्या पाल	01-10-96
385	जेसी 187963पी	सुबेदार	शंकर सिंह	01-10-96
386	जेसी 192072डब्ल्यू	सुबेदार	शेर सिंह	01-12-96
387	जेसी 181245एच	सुबेदार	शिव पूजन राम	01-12-96
388	जेसी 180975एफ	सुबेदार	श्रवण कुमार	01-10-96
389	जेसी 212138एल	सुबेदार	श्री चन्द्र	01-11-96
390	जेसी 197995एल	सुबेदार	इयाम लाल नपित	01-10-96
391	जेसी 187949एच	सुबेदार	शिवा रमन एल	01-01-97
392	जेसी 206756ए	सुबेदार	सोबत सिंह	01-01-97
393	जेसी 181005एल	सुबेदार	सोहन पाल	01-11-96

394	जेसी 187970एल	सुबेदार	सोम दत्त	01-01-97
395	जेसी 188169के	सुबेदार	सूरसेन मोहनती	01-11-96
396	जेसी 196158एम	सुबेदार	ठाकुर दसि	01-11-96
397	जेसी 172834एक्स	सुबेदार	टी शिवस्वामी	01-12-96
398	जेसी 181012एफ	सुबेदार	विजया शंकर मिश्रा	01-12-96
399	जेसी 182188वाई	सुबेदार	यशपाल सिंह	01-11-96
बिगोड आफ गार्डिस				
400	जेसी 192347वाई	सुबेदार	बाबू राम सिंह	01-01-97
401	जेसी 184222एम	सुबेदार	बालमीक प्रसाद पटेल	01-12-96
402	जेसी 185600एफ	सुबेदार	भागमल	01-01-97
403	जेसी 167121एच	सुबेदार	चन्द्र मौली प्रसाद शुक्ला	01-12-96
404	जेसी 180674एक्स	सुबेदार	हंस राज	01-09-96
405	जेसी 187687पी	सुबेदार	केदार सिंह घादव	01-10-96
406	जेसी 165990एक्स	सुबेदार	एम उस्मान खान	01-10-96
407	जेसी 180686एम	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01-10-96
408	जेसी 172973एफ	सुबेदार	रती राम	01-10-96
409	जेसी 174898एफ	सुबेदार	सनम राय	01-09-96
410	जेसी 169109ए	सुबेदार	संभू नाथ	01-11-96
411	जेसी 154956वाई	सुबेदार	सरनाम सिंह नरवारिया	01-09-96
412	जेसी 155603एल	सुबेदार	सुबेदार सिंह	01-10-96
413	जेसी 192356ए	सुबेदार	सुरजा राम	01-12-96
पैराशूट रेजिमेंट				
414	जेसी 184931एफ	सुबेदार	दहलू राम	01-09-96
415	जेसी 173134डब्ल्यू	सुबेदार	धुकल सिंह	01-10-96
416	जेसी 164915एच	सुबेदार	मोहम्मद इकबाल	01-12-96
417	जेसी 188356एच	सुबेदार	प्रभा नैद	01-10-96
418	जेसी 148291एक्स	सुबेदार	राम राज	01-10-96
419	जेसी 192516पी	सुबेदार	शंकर दसि	01-12-96
420	जेसी 194511पी	सुबेदार	सुरजीत सिंह घदेल	01-10-96
पर्जाब रेजिमेंट				
421	जेसी 185471एक्स	सुबेदार	अमरिक सिंह	01-10-96
422	जेसी 179260वाई	सुबेदार	धर्म चन्द मलिक	01-10-96
423	जेसी 179259के	सुबेदार	जयपाल सिंह	01-09-96
424	जेसी 194525पी	सुबेदार	सन्जीवन सिंह	01-09-96
मद्रास रेजिमेंट				
425	जेसी 171819डब्ल्यू	सुबेदार	ए मीनाक्षी सुन्दरम	01-12-96
426	जेसी 164024ए	सुबेदार	ए एल पेरुमल	01-11-96
427	जेसी 164025एच	सुबेदार	गंगाधरन पिल्लै	01-12-96
428	जेसी 175324एफ	सुबेदार	गोपीनाथन कुंजी	01-10-96
429	जेसी 168519के	सुबेदार	एम सेप्पेरुमल	01-09-96
430	जेसी 141775पी	सुबेदार	पी एम वीरन	01-11-96
431	जेसी 160864एच	सुबेदार	आर पालुपामी	01-11-96

432	जेसी 171820एल	सुबेदार	आर प्रभाकरन	01-11-96
433	जेसी 164022पी	सुबेदार	रकमकृष्ण पिले जी	01-10-96
434	जेसी 155632ऐ	सुबेदार	सुब्रमणी	01-12-96
435	जेसी 167151ऐ	सुबेदार	वी मोहन	01-11-96
मेनेडिचेर्स				
436	जेसी 167171एन	सुबेदार	बालक राम गुलेरिया	01-11-96
437	जेसी 192907ऐ	सुबेदार	गुरबचन सिंह	01-01-97
438	जेसी 196399एम	सुबेदार	हरी सिंह	01-11-96
439	जेसी 145427एल	सुबेदार	जीत सिंह	01-11-96
440	जेसी 193688डब्ल्यू	सुबेदार	रूप चन्द राना	01-11-96
441	जेसी 192362एन	सुबेदार	शेर सिंह गुण्डले	01-10-96
मरात्ता लाईट इन्फेन्ट्री				
442	जेसी 179298एच	सुबेदार	दत्त यवान	01-12-96
443	जेसी 184292एल	सुबेदार	जनार्धन	01-10-96
444	जेसी 155646ऐ	सुबेदार	तुलसीराम भास्के	01-11-96
445	जेसी 171704एच	सुबेदार	विष्णु घादव	01-12-96
446	जेसी 142943पी	सुबेदार	पशवन्त हाके	01-10-96
राजपुत्ताना राईफल्स				
447	जेसी 208311एम	सुबेदार	अमी लाल	01-11-96
448	जेसी 193715पी	सुबेदार	इन्दर सिंह	01-01-97
449	जेसी 201869वाई	सुबेदार	मैशी राम पंवार	01-11-96
450	जेसी 196471एक्स	सुबेदार	ममशेर सिंह	01-12-96
451	जेसी 132428पी	सुबेदार	सिराज अहम्मद	01-11-96
452	जेसी 203686वाई	सुबेदार	सीता राम शर्मा	01-12-96
राजपुत रेजिमेंट				
453	जेसी 192591वाई	सुबेदार	भोला नाथ राम	01-12-96
454	जेसी 164967वाई	सुबेदार	ही राम	01-09-96
455	जेसी 74719एफ	सुबेदार	इन्द्र नाथ द्विवेदी	01-09-96
456	जेसी 151259एन	सुबेदार	मोहीन्दर सिंह	01-12-96
457	जेसी 192590डब्ल्यू	सुबेदार	प्रताप भान सिंह चौहान	01-11-96
458	जेसी 156008एच	सुबेदार	रूप सिंह	01-01-97
459	जेसी 145461एल	सुबेदार	साधु सिंह	01-12-96
460	जेसी 192592एफ	सुबेदार	सोबरण सिंह	01-01-97
461	जेसी 185753डब्ल्यू	सुबेदार	सुदामा सिंह	01-12-96
462	जेसी 205552एफ	सुबेदार	सुन्दर लाल	01-11-96
जाट रेजिमेंट				
463	जेसी 185180एक्स	सुबेदार	इन्दर जीत	01-09-96
464	जेसी 177986ऐ	सुबेदार	कपूर सिंह	01-09-96
465	जेसी 183006एम	सुबेदार	केसर राम	01-01-97
466	जेसी 184339एल	सुबेदार	महाबीर प्रसाद	01-11-96

467	जेसी 184995एम	सुबेदार	राम मेहर	01-10-96
468	जेसी 159001पी	सुबेदार	राम फूल	01-12-96
सिस रेजिमेंट				
469	जेसी 192935ऐ	सुबेदार	बलविन्द्र सिंह	01-12-96
सिस लाईट इन्फेन्ट्री				
470	जेसी 151341एघ	सुबेदार	सुरमेल सिंह	01-12-96
471	जेसी 155702एन	सुबेदार	हरनाम सिंह	01-09-96
472	जेसी 152878एफ	सुबेदार	जोगिन्द्र सिंह	01-01-97
473	जेसी 196864एन	सुबेदार	करतार सिंह	01-12-96
474	जेसी 196499एक्स	सुबेदार	सामुवेल बी मसीह	01-11-96
475	जेसी 151342एल	सुबेदार	सोहन सिंह	01-09-96
476	जेसी 152127एम	सुबेदार	सुरीन्दर सिंह	01-11-96
डोगरा रेजिमेंट				
477	जेसी 192632एघ	सुबेदार	बलवीर सिंह परमार	01-11-96
478	जेसी 166080एक्स	सुबेदार	बणी सिंह	01-10-96
479	जेसी 192443एन	सुबेदार	धर्म सिंह	01-01-97
480	जेसी 179379एघ	सुबेदार	गिरधारी लाल	01-11-96
481	जेसी 163669डब्ल्यू	सुबेदार	हरी राम	01-09-96
482	जेसी 166084एन	सुबेदार	हेम सिंह	01-11-96
483	जेसी 201979एन	सुबेदार	जोगिन्द्र सिंह	01-11-96
484	जेसी 192441एघ	सुबेदार	करतार सिंह बनिघाल	01-12-96
485	जेसी 205169एघ	सुबेदार	कृष्ण चन्द पर्मा	01-11-96
486	जेसी 167466के	सुबेदार	ओंकार सिंह	01-01-97
487	जेसी 163665ऐ	सुबेदार	परस राम	01-01-97
488	जेसी 192631पी	सुबेदार	प्यार चन्द राना	01-09-96
489	जेसी 196521एक्स	सुबेदार	रमेश चन्द	01-11-96
490	जेसी 204116एक्स	सुबेदार	रमेश चन्द	01-01-97
491	जेसी 192643के	सुबेदार	रणजीत सिंह	01-11-96
492	जेसी 205167एक्स	सुबेदार	रेशाम सिंह	01-11-96
493	जेसी 173038एफ	सुबेदार	सन्त राम	01-12-96
494	जेसी 192442एल	सुबेदार	सवरण सिंह काला	01-12-96
495	जेसी 185795एघ	सुबेदार	शक्ती चन्द पर्मा	01-11-96
496	जेसी 194524एम	सुबेदार	शेर सिंह	01-11-96
497	जेसी 167237वाई	सुबेदार	सोजम दावा	01-10-96
498	जेसी 167235एन	सुबेदार	सोनम जांगबो बोध	01-09-96
499	जेसी 184407एन	सुबेदार	तिलक राज	01-11-96
गडवाल राईफल्स				
500	जेसी 155396के	सुबेदार	गबर सिंह	01-10-96
501	जेसी 155395पी	सुबेदार	इन्दर सिंह	01-12-96
502	जेसी 188528एम	सुबेदार	कृष्ण चन्दर उपाध्य	01-10-96
503	जेसी 168576एल	सुबेदार	लज्जा राम	01-11-96
504	जेसी 175385वाई	सुबेदार	मंगल राम	01-01-97

कुमाऊँ रेजिमेंट

505 जेसी 188687के	सुबेदार	अभाई सिंह	01-11-96
506 जेसी 193016के	सुबेदार	अंबिका सिंह	01-12-96
507 जेसी 203762एच	सुबेदार	आनन्द सिंह	01-12-96
508 जेसी 205637एक्स	सुबेदार	बदरी दत्त	01-11-96
509 जेसी 169224ए	सुबेदार	चिन्ता मणी	01-09-96
510 जेसी 152591डब्ल्यू	सुबेदार	हयात सिंह	01-12-96
511 जेसी 152180एक्स	सुबेदार	जनक सिंह	01-11-96
512 जेसी 193015पी	सुबेदार	कन्हैया मिश्रा	01-11-96
513 जेसी 171754एन	सुबेदार	मनमूल सिंह	01-11-96
514 जेसी 193017एम	सुबेदार	मूल चन्द	01-01-97
515 जेसी 188686एफ	सुबेदार	रामजी सिंह घादवा	01-10-96

असाम रेजिमेंट

516 जेसी 151402पी	सुबेदार	बल बहादुर धापा	01-11-96
517 जेसी 137852एफ	सुबेदार	मान बहादुर छेत्री	01-12-96

बिहार रेजिमेंट

518 जेसी 184459के	सुबेदार	देव कुमार सिंह	01-10-96
519 जेसी 205259के	सुबेदार	राजेन्द्र सिंह	01-11-96
520 जेसी 173927वाई	सुबेदार	श्री नाथ मोहनती	01-01-97
521 जेसी 159269एम	सुबेदार	सुद्ध बंश राय	01-12-96

महारा रेजिमेंट

522 जेसी 183097एफ	सुबेदार	अमिलाल घादवा	01-11-96
523 जेसी 175438एम	सुबेदार	चन्द्र सिंह	01-12-96
524 जेसी 193019एक्स	सुबेदार	दया नैद नजीर	01-01-97
525 जेसी 184476के	सुबेदार	गोविंद	01-11-96
526 जेसी 193020एम	सुबेदार	एस डी एस रंगू	01-01-97
527 जेसी 192683एल	सुबेदार	स्वरण सिंह पठानिया	01-12-96
528 जेसी 169433एक्स	सुबेदार	बीरपाल सिंह	01-01-97

जम्मु एवं कश्मीर राईफल्स

529 जेसी 202133वाई	सुबेदार	भगवान सिंह	01-11-96
530 जेसी 188565ए	सुबेदार	हुकम सिंह	01-11-96
531 जेसी 193892पी	सुबेदार	जगदीश सिंह	01-11-96
532 जेसी 193895एच	सुबेदार	मल्लीधत सिंह	01-11-96
533 जेसी 178119एल	सुबेदार	नधु सिंह	01-01-97
534 जेसी 193878एच	सुबेदार	सुधीन्दर सिंह	01-09-96
535 जेसी 193887के	सुबेदार	सन्देश कुमार धदवाल	01-11-96
536 जेसी 193894ए	सुबेदार	सीता राम	01-10-96
537 जेसी 155787पी	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01-12-96
538 जेसी 185867एफ	सुबेदार	टेक चन्द	01-11-96
539 जेसी 193891एम	सुबेदार	घश पोल बर्मा	01-11-96

नागा रेजिमेन्ट

540	जेसी 185066ए	सुबेदार	जगदीश चन्द्र पन्त	01-11-96
541	जेसी 185068एल	सुबेदार	उमैद सिंह सामन्त	01-12-96
जम्मू एंव कश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री				
542	जेसी 203854पी	सुबेदार	धुनी लाल	01-01-97
543	जेसी 185106डब्ल्यू	सुबेदार	हुकम चन्द	01-10-96
544	जेसी 144605डब्ल्यू	सुबेदार	मोहमद अजम	01-10-96
545	जेसी 203859एन	सुबेदार	मोहमद दिल पजीर खान	01-01-97
546	जेसी 183136पी	सुबेदार	नजीर आहम्मद शाह	01-01-97
547	जेसी 128606पी	सुबेदार	सत पाल	01-09-96
548	जेसी 203855के	सुबेदार	सुरदेव	01-12-96
1 गोरखा राईफलस				
549	जेसी 172039एक्स	सुबेदार	छोक बहादुर थापा	01-01-97
550	जेसी 188573वाई	सुबेदार	हरी नैद वर्मा	01-01-97
3 गोरखा राईफलस				
551	जेसी 190007डब्ल्यू	सुबेदार	बल बहादुर गुरुंग	01-12-96
552	जेसी 169469डब्ल्यू	सुबेदार	बल कृष्णा थापा	01-09-96
553	जेसी 190009एफ	सुबेदार	दल बहादुर थापा	01-01-97
554	जेसी 188702एन	सुबेदार	जीत बहादुर थापा	01-11-96
555	जेसी 194738एच	सुबेदार	खैबा सिंह गुरुंग	01-12-96
556	जेसी 152621एच	सुबेदार	हर्का बहादुर गुरुंग	01-12-96
557	जेसी 205383एल	सुबेदार	कृष्णा बहादुर कर्की	01-11-96
558	जेसी 194725एल	सुबेदार	नैद किशोर चौबे	01-12-96
559	जेसी 184493के	सुबेदार	प्रसाद पुन	01-12-96
560	जेसी 152619एल	सुबेदार	प्रताप सिंह गुरुंग	01-09-96
561	जेसी 180926वाई	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01-01-97
562	जेसी 190008वाई	सुबेदार	सदकल बहादुर गुरुंग	01-12-96
563	जेसी 184494एम	सुबेदार	तुल बहादुर पुन	01-12-96
4 गोरखा राईफलस				
564	जेसी 193967एफ	सुबेदार	अलोक श्रेष्ठा	01-10-96
565	जेसी 194719एक्स	सुबेदार	भीम बहादुर टीअमन	01-01-97
566	जेसी 180911डब्ल्यू	सुबेदार	भीम प्रसाद गुरुंग	01-10-96
567	जेसी 167530डब्ल्यू	सुबेदार	हुधी बल गुरुंग	01-12-96
568	जेसी 147524एफ	सुबेदार	दल बहादुर थापा	01-10-96
569	जेसी 178600एम	सुबेदार	हर्का बहादुर राना	01-10-96
570	जेसी 193968के	सुबेदार	कनवर लाल कोहली	01-01-97
571	जेसी 193957एक्स	सुबेदार	नर प्रसाद गुरुंग	01-10-96

5 गोरखा राईफलस

572 जेसी 180810एच	सुबेदार	भक्ता बहादुर गुरुंग	01-01-97
573 जेसी 167310एम	सुबेदार	चित्र बहादुर गुरुंग	01-01-97
574 जेसी 157961पी	सुबेदार	नन्दा बहादुर थापा	01-01-97
575 जेसी 155149डब्ल्यू	सुबेदार	रण बहादुर थापा	01-12-96
576 जेसी 168631डब्ल्यू	सुबेदार	सिरि प्रसाद गुरुंग	01-10-96
577 जेसी 155153वाई	सुबेदार	टेक बहादुर पुन	01-10-96
578 जेसी 204216एच	सुबेदार	उदय बहादुर गुरुंग	01-11-96

8 गोरखा राईफलस

579 जेसी 183158एन	सुबेदार	भगत राज रोक	01-01-97
580 जेसी 180912वाई	सुबेदार	दल बहादुर थापा	01-01-97
581 जेसी 147537वाई	सुबेदार	मोहन बहादुर गुरुंग	01-01-97
582 जेसी 156137एन	सुबेदार	नील बहादुर आले	01-10-96
583 जेसी 144624एफ	सुबेदार	टक बहादुर गुरुंग	01-12-96
584 जेसी 178155डब्ल्यू	सुबेदार	तिलक प्रसाद गुरुंग	01-12-96

9 गोरखा राईफलस

585 जेसी 145191एफ	सुबेदार	बल बहादुर छेत्री	01-10-96
586 जेसी 201207डब्ल्यू	सुबेदार	धरणी धर पत्नी	01-01-97
587 जेसी 196936एम	सुबेदार	गंगा बहादुर बस्नेट	01-12-96
588 जेसी 188587वाई	सुबेदार	हेम बहादुर क्षत्री	01-10-96
589 जेसी 185125एफ	सुबेदार	ईश्वर बहादुर छेत्री	01-10-96
590 जेसी 152613के	सुबेदार	झलक बहादुर साही	01-12-96
591 जेसी 156158के	सुबेदार	किष्ण बहादुर छेत्री	01-01-97
592 जेसी 188586डब्ल्यू	सुबेदार	मोद्रेन लामा	01-09-96
593 जेसी 172061एच	सुबेदार	नन्दा बहादुर छेत्री	01-01-97
594 जेसी 194723ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-11-96
595 जेसी 158458के	सुबेदार	फौदा बहादुर ठाकुरी	01-10-96
596 जेसी 196937पी	सुबेदार	शंकर शाही	01-12-96
597 जेसी 155524डब्ल्यू	सुबेदार	तेम बहादुर छेत्री	01-10-96
598 जेसी 194724एच	सुबेदार	उदय नन्दाधन भट्टा	01-12-96

11 गोरखा राईफलस

599 जेसी 192500के	सुबेदार	बिष्णु गुरुंग	01-09-96
600 जेसी 205765पी	सुबेदार	दन बहादुर राघ	01-09-96
601 जेसी 181952एम	सुबेदार	ध्यान प्रसाद राघ	01-12-96
602 जेसी 167951एम	सुबेदार	दिलीप सुबा	01-12-96
603 जेसी 148585एल	सुबेदार	फौ बहादुर थापा	01-10-96
604 जेसी 171779ए	सुबेदार	मदन दिल राघ	01-12-96
605 जेसी 152243पी	सुबेदार	मोहन सिंग लिंबू	01-10-96
606 जेसी 173965पी	सुबेदार	पद्मा प्रसाद लिंबू	01-12-96
607 जेसी 181953पी	सुबेदार	तहल सिंग गुरुंग	01-10-96

पॉलिमर इन्फेन्ट्री रेजिमेंट				
608	जेसी 141439एच	सुबेदार	जमर सिंह	01-01-97
609	जेसी 168793एफ	सुबेदार	बालाकृष्णन	01-11-96
610	जेसी 183675एल	सुबेदार	भगवान दास	01-10-96
611	जेसी 160844पी	सुबेदार	बोध राह शर्मा	01-09-96
612	जेसी 168778एम	सुबेदार	हुटा सिंह	01-11-96
613	जेसी 189697ए	सुबेदार	धर्म चन्द	01-10-96
614	जेसी 194217पी	सुबेदार	हरी चन्द	01-10-96
615	जेसी 164486एम	सुबेदार	जैसी राम	01-11-96
616	जेसी 167134ए	सुबेदार	मनोहर सिंह नेगी	01-01-97
617	जेसी 194197एम	सुबेदार	माता राम	01-12-96
618	जेसी 163864एन	सुबेदार	मेहर चन्द	01-11-96
619	जेसी 127125डब्ल्यू	सुबेदार	एन वरदराजन	01-11-96
620	जेसी 184132एल	सुबेदार	नेतर पाल शर्मा	01-10-96
621	जेसी 174857वाई	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01-10-96
622	जेसी 151106के	सुबेदार	प्रभा नैक	01-11-96
623	जेसी 184141एम	सुबेदार	पी चन्द	01-01-97
624	जेसी 157753ए	सुबेदार	पी भीमगौडा मालगौडा	01-11-96
625	जेसी 183674एच	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01-10-96
626	जेसी 167128एम	सुबेदार	सुद्धबीर सिंह	01-11-96
सैन्य सैन्य कौशल प्रवर्धन				
627	जेसी 192779एन	सुबेदार	अबदुल शुकर माहताब	01-11-96
628	जेसी 200549एफ	सुबेदार	अच्युतन मदाशिवम पिले	01-11-96
629	जेसी 199001एक्स	सुबेदार	अंबादास गजभिघे	01-10-96
630	जेसी 190436वाई	सुबेदार	अमित कुमार बन्धु	01-11-96
631	जेसी 199553एल	सुबेदार	ए पी कुमार	01-10-96
632	जेसी 192778एल	सुबेदार	ए इरुदयराज	01-11-96
633	जेसी 190377एक्स	सुबेदार	अर्जुन सिंह जसराटिया	01-09-96
634	जेसी 190405वाई	सुबेदार	तशोक कुमार राजपुत	01-11-96
635	जेसी 193201एक्स	सुबेदार	अन्ना दासिन के	01-11-96
636	जेसी 189985एम	सुबेदार	अवधीष कुमार पाल	01-11-96
637	जेसी 192792एक्स	सुबेदार	अवानी कुमार साहा	01-11-96
638	जेसी 204909ए	सुबेदार	बी एम राजू	01-11-96
639	जेसी 190369वाई	सुबेदार	भक्तावर सिंह	01-09-96
640	जेसी 192514एल	सुबेदार	बलदेव सिंह	01-01-97
641	जेसी 190093पी	सुबेदार	चनार्सी प्रसाद	01-10-96
642	जेसी 192799एफ	सुबेदार	डी नारायण पाण्डे	01-12-96
643	जेसी 190407के	सुबेदार	भगवान सिंह तोमर	01-11-96
644	जेसी 190385डब्ल्यू	सुबेदार	भिक्रम सिंह	01-10-96
645	जेसी 193243एच	सुबेदार	बिजय कुमार मोहनती	01-10-96
646	जेसी 171660डब्ल्यू	सुबेदार	बिंबाधर पटनायक	01-01-97
647	जेसी 190431ए	सुबेदार	बीरबल राम	01-11-96
648	जेसी 190429एच	सुबेदार	बीरपाल सिंह	01-11-96
649	जेसी 189942एक्स	सुबेदार	बूट्टा राम	01-10-96
650	जेसी 199365ए	सुबेदार	घरण दास	01-12-96
651	जेसी 190372वाई	सुबेदार	छोटे लाल उपाध्य	01-09-96
652	जेसी 189914एल	सुबेदार	सी एन धोमस	01-11-96
653	जेसी 171670ए	सुबेदार	गणेश प्रसाद सिंह	01-11-96

क्र.सं. सं. 190418 सं.सं.	सं.सं.	नाम	दि.सं.
655	जे.सी. 190417 ए.न.	सुबेदार	जोर्ज कोशी
656	जे.सी. 190401 ए.घ.	सुबेदार	ज्ञान चन्द
657	जे.सी. 197414 ए.घ.	सुबेदार	गोपाल सिंह
658	जे.सी. 197416 ए.न.	सुबेदार	जी पी गोपीनाथन पिले
659	जे.सी. 190397 ए.ल.	सुबेदार	जी सामिबकणु
660	जे.सी. 190424 के.	सुबेदार	हरभजन सिंह
661	जे.सी. 195253 ए.ब.स.	सुबेदार	हरी पाल सिंह
662	जे.सी. 200935 वाई.	सुबेदार	हरमीन्दर कुमार
663	जे.सी. 192774 पी.	सुबेदार	ईश्वर सिंह दहिघा
664	जे.सी. 192812 ऐ.	सुबेदार	ईश्वर सिंह पहल
665	जे.सी. 197431 ए.घ.	सुबेदार	जागीर सिंह
666	जे.सी. 192769 के.	सुबेदार	जोरावर सिंह लसरिया
667	जे.सी. 192758 ए.ब.स.	सुबेदार	जोसफ डी
668	जे.सी. 192807 पी.	सुबेदार	कल्लप्पा महार
669	जे.सी. 190426 पी.	सुबेदार	करनैल सिंह गिल
670	जे.सी. 190410 के.	सुबेदार	करनैल सिंह सिद्ध
671	जे.सी. 200504 ए.ब.स.	सुबेदार	काशीनाथ देबनाथ
672	जे.सी. 192797 ड.ब्ल्यू.	सुबेदार	कृष्ण कुमार चौहान
673	जे.सी. 192808 ए.ब.स.	सुबेदार	कुलवंत सिंह
674	जे.सी. 189984 के.	सुबेदार	लाल मान
675	जे.सी. 192806 ए.म.	सुबेदार	मल्कीधत सिंह
676	जे.सी. 190412 पी.	सुबेदार	एम ए सुत्तप्पा
677	जे.सी. 189941 पी.	सुबेदार	मेवा लाल गुप्ता
678	जे.सी. 192809 ऐ.	सुबेदार	एमजी पुरुषोत्तमन नायर
679	जे.सी. 199577 पी.	सुबेदार	मोहन लाल
680	जे.सी. 189943 ऐ.	सुबेदार	मोहीन्दर सिंह
681	जे.सी. 190413 ए.ब.स.	सुबेदार	सुलप्पा राव
682	जे.सी. 189946 ए.न.	सुबेदार	सुन्ही राम
683	जे.सी. 197422 ए.फ.	सुबेदार	नकेनक राम
684	जे.सी. 204938 ए.घ.	सुबेदार	नैद किशोर भराल
685	जे.सी. 192804 ए.फ.	सुबेदार	नन्दन सिंह कुमायन
686	जे.सी. 192803 वाई.	सुबेदार	नीलमणी सिंघा
687	जे.सी. 190435 ड.ब्ल्यू.	सुबेदार	पारुत् राम जयसवाल
688	जे.सी. 190384 ए.न.	सुबेदार	पी एस मिश्रा
689	जे.सी. 200538 वाई.	सुबेदार	परीमल कुमार जाना
690	जे.सी. 190432 ए.घ.	सुबेदार	परसु राम
691	जे.सी. 192783 ड.ब्ल्यू.	सुबेदार	पी ए रामचन्द्रन
692	जे.सी. 190427 ए.ब.स.	सुबेदार	पी एन करुणाकरा कुरुप
693	जे.सी. 192789 ए.ब.स.	सुबेदार	प्रभू दयाल स्वामी
694	जे.सी. 190422 वाई.	सुबेदार	प्रकाश चन्द
695	जे.सी. 197425 पी.	सुबेदार	राधा सिंह
696	जे.सी. 197413 ऐ.	सुबेदार	राज किशोर सिंह
697	जे.सी. 192772 के.	सुबेदार	राजेन्दर सिंह
698	जे.सी. 192753 वाई.	सुबेदार	राजपाल सिंह
699	जे.सी. 143072 ए.म.	सुबेदार	राजू मीपी
700	जे.सी. 189944 ए.घ.	सुबेदार	राम दन
701	जे.सी. 197430 ऐ.	सुबेदार	राम किशन बडवे
702	जे.सी. 192790 ए.म.	सुबेदार	राम लाल
703	जे.सी. 192795 ए.ल.	सुबेदार	राम सकल घादव
704	जे.सी. 197410 ए.म.	सुबेदार	रामकृष्णन टी
705	जे.सी. 190408 ए.म.	सुबेदार	रामदास शाक्या

706	जेसी 143071के	सुबेदार	रकमेश्वर चन्द सिपाघा	01-09-96
707	जेसी 199546पी	सुबेदार	रणजीत सिंह	01-09-96
708	जेसी 190379एच	सुबेदार	रणविजय प्रसाद सिंह	01-09-96
709	जेसी 190404डब्ल्यू	सुबेदार	सामिनाथन महालिंगम	01-11-96
710	जेसी 200502एम	सुबेदार	संपूर्ण नैद	01-01-97
711	जेसी 193172एन	सुबेदार	एस बी बेलावाडी	01-09-96
712	जेसी 200503पी	सुबेदार	सन्त राम वर्मा	01-01-97
713	जेसी 197429एल	सुबेदार	सन्तोष सिंह रेहल	01-01-97
714	जेसी 192770वाई	सुबेदार	सन्तोष कुमार	01-09-96
715	जेसी 190371डब्ल्यू	सुबेदार	शतबीर सिंह	01-09-96
716	जेसी 192754एफ	सुबेदार	शतबीर सिंह	01-09-96
717	जेसी 190411एम	सुबेदार	एसबी माघायरी	01-11-96
718	जेसी 197394ए	सुबेदार	शाम सिंह	01-11-96
719	जेसी 189945एल	सुबेदार	शंकर सिंह दरोछ	01-11-96
720	जेसी 189986पी	सुबेदार	शार्क सिंह	01-12-96
721	जेसी 200526डब्ल्यू	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01-01-97
722	जेसी 199570एल	सुबेदार	शिव प्रसाद	01-10-96
723	जेसी 190392एम	सुबेदार	एस लक्षमन तुकाराम	01-10-96
724	जेसी 197418वाई	सुबेदार	शिव दत्त पधालनी	01-12-96
725	जेसी 190375एम	सुबेदार	श्याम सुगरी मिश्रा	01-09-96
726	जेसी 192782एन	सुबेदार	एस बी बसवराज	01-11-96
727	जेसी 189974ए	सुबेदार	सोणी राम	01-10-96
728	जेसी 192611एक्स	सुबेदार	सोपान निम्बोलकर	01-01-97
729	जेसी 198931एम	सुबेदार	एस वेलप्पन	01-11-96
730	जेसी 190430एक्स	सुबेदार	सुभान अल्लाह	01-11-96
731	जेसी 190378ए	सुबेदार	सुल्तान सिंह रोसावन	01-09-96
732	जेसी 190419वाई	सुबेदार	सुरत सिंह कोसिलघा	01-11-96
733	जेसी 193164पी	सुबेदार	सुरीन्दर पाल	01-11-96
734	जेसी 199589के	सुबेदार	सुरीन्दर सिंह	01-01-97
735	जेसी 160594वाई	सुबेदार	स्वराज्यापाल सिंह	01-12-96
736	जेसी 190428ए	सुबेदार	टी पी सिंह यहल	01-11-96
737	जेसी 189864एल	सुबेदार	ठाडुर साह	01-01-97
738	जेसी 190376पी	सुबेदार	टी देका	01-09-96
739	जेसी 190434एन	सुबेदार	तंकप्पन नाघर एन	01-11-96
740	जेसी 200496के	सुबेदार	थोमस जोर्ज	01-10-96
741	जेसी 190395ए	सुबेदार	टिखु राम	01-11-96
742	जेसी 190400ए	सुबेदार	उदघा शंकर घोष	01-11-96
743	जेसी 200506एच	सुबेदार	उमा शंकर गिरि	01-11-96
744	जेसी 190406एफ	सुबेदार	विजया सिंह	01-11-96
745	जेसी 192794एच	सुबेदार	वी कुलकर्णी	01-11-96
746	जेसी 190425एम	सुबेदार	घशोदा कुमार सिन्हा राघ	01-11-96
747	जेसी 197411पी	सुबेदार	घोगेन्द्र सिंह	01-11-96
748	जेसी 192786के	सुबेदार	जैल सिंह	01-11-96
सैना सेवा कोर (पशु परिवहन)				
749	जेसी 177438एल	रिसालदार	बलबीर सिंह	01-10-96
750	जेसी 177440पी	रिसालदार	भेरा राम	01-11-96
751	जेसी 185370के	रिसालदार	भूप सिंह	01-11-96
752	जेसी 177442एन	रिसालदार	बिन्देश्वर शाह	01-10-96
753	जेसी 185384के	रिसालदार	भिर्शबर	01-12-96
754	जेसी 185389एम	रिसालदार	डी लक्ष्मी नारायणा	01-01-97
755	जेसी 171188एल	रिसालदार	दुर्गा चौधरी	01-09-96

756	जेसी 181710के	रिसालदार	हरपाल सिंह	01-09-96
757	जेसी 185371एच	रिसालदार	हवा सिंह	01-11-96
758	जेसी 185393एल	रिसालदार	जगत सिंह	01-01-97
759	जेसी 168087ऐ	रिसालदार	के डी राजा	01-09-96
760	जेसी 171653ऐ	रिसालदार	कंवर सिंह	01-12-96
761	जेसी 185987एक्स	रिसालदार	करुणन	01-12-96
762	जेसी 176859एफ	रिसालदार	सर्का बहादुर साही	01-11-96
763	जेसी 183289वाई	रिसालदार	किशन लाल	01-11-96
764	जेसी 185380एन	रिसालदार	मलै कोलन्दाई	01-12-96
765	जेसी 181710डब्ल्यू	रिसालदार	माता दीन	01-09-96
766	जेसी 185400डब्ल्यू	रिसालदार	प्यारे	01-11-96
767	जेसी 181717एन	रिसालदार	पीएनएस पिले	01-09-96
768	जेसी 171166ऐ	रिसालदार	प्रताप सिंह	01-09-96
769	जेसी 185390एक्स	रिसालदार	राम लुभाया	01-01-97
770	जेसी 181716एल	रिसालदार	रकमेश्वर लाल	01-09-96
771	जेसी 185391ऐ	रिसालदार	सत पाल	01-01-97
772	जेसी 171163एम	रिसालदार	श्याम राव दाहू तिबिले	01-09-96
773	जेसी 195385एम	रिसालदार	सुबे सिंह	01-12-96
774	जेसी 185381डब्ल्यू	रिसालदार	सुरजा बहादुर लिंबू	01-12-96
775	जेसी 171638एल	रिसालदार	तिलक बहादुर सुरंग	01-01-97
776	जेसी 185379वाई	रिसालदार	वीवी अब्दुल हाम पाको	01-11-96

सेना सेवा कोर(धार्मिक परिवर्तन)

777	जेसी 194856डब्ल्यू	सुबेदार	अबदुल हमीद	01-12-96
778	जेसी 190141एच	सुबेदार	अभय चन्द्र ओझा	01-09-96
779	जेसी 199446के	सुबेदार	ए दनवाडे	01-10-96
780	जेसी 197561एल	सुबेदार	अमर सिंह	01-12-96
781	जेसी 190316ऐ	सुबेदार	अमर सिंह बंगालिया	01-11-96
782	जेसी 194864पी	सुबेदार	अन्बरगु	01-12-96
783	जेसी 194317ऐ	सुबेदार	बजरंग सिंह सेखावत	01-09-96
784	जेसी 190095वाई	सुबेदार	बल गोविंद राम किशोर	01-09-96
785	जेसी 190226वाई	सुबेदार	बाला प्रसाद घादव	01-10-96
786	जेसी 194362एम	सुबेदार	बलदेव राज	01-01-97
787	जेसी 190328पी	सुबेदार	बलदेव सिंह	01-11-96
788	जेसी 197550वाई	सुबेदार	भगवान गार्जे	01-12-96
789	जेसी 194377पी	सुबेदार	भगवान कास	01-01-97
790	जेसी 214570एल	सुबेदार	भारत सिंह	01-01-97
791	जेसी 194365ऐ	सुबेदार	भाध सिंह	01-01-97
792	जेसी 190443पी	सुबेदार	भुशन प्रसाद	01-11-96
793	जेसी 199443डब्ल्यू	सुबेदार	बिन्द्र बान	01-09-96
794	जेसी 190183पी	सुबेदार	चरण दासि	01-09-96
795	जेसी 194321ऐ	सुबेदार	चेन्नप्पन	01-12-96
796	जेसी 190281पी	सुबेदार	छब्बी नाथ	01-09-96
797	जेसी 190478एल	सुबेदार	छोटे लाल	01-12-96
798	जेसी 190465एन	सुबेदार	छोद राम	01-12-96
799	जेसी 190468एफ	सुबेदार	दन देव राही	01-12-96
800	जेसी 190154ऐ	सुबेदार	धर्म दासि	01-10-96
801	जेसी 190464एल	सुबेदार	धर्म पाल	01-12-96
802	जेसी 190152पी	सुबेदार	धर्म सिंह	01-10-96
803	जेसी 194861पी	सुबेदार	धर्म सिंह	01-10-96
804	जेसी 190486के	सुबेदार	धम सिंह रावत	01-12-96

805	जेसी 190446 एच	सुबेदार	दीन दयाल	01-11-96
806	जेसी 190312 के	सुबेदार	दोले राम	01-11-96
807	जेसी 190273 डब्ल्यू	सुबेदार	गजे सिंह	01-09-96
808	जेसी 197559 एन	सुबेदार	गणेश प्रसाद सिंह	01-12-96
809	जेसी 199454 एच	सुबेदार	गोपाल सिंह	01-01-97
810	जेसी 203477 के	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01-09-96
811	जेसी 190481 एल	सुबेदार	ग्यान दास	01-12-96
812	जेसी 194888 वाई	सुबेदार	हमीद अली	01-01-97
813	जेसी 190463 एच	सुबेदार	हरभजन सिंह	01-12-96
814	जेसी 190175 डब्ल्यू	सुबेदार	हरेन्द्र सिंह	01-09-96
815	जेसी 194374 एफ	सुबेदार	हरेराम यादव	01-01-97
816	जेसी 190108 एल	सुबेदार	हरी हर बरीक	01-10-96
817	जेसी 194849 ऐ	सुबेदार	हरी राम	01-09-96
818	जेसी 190089 एल	सुबेदार	हरनेक सिंह	01-09-96
819	जेसी 190263 एम	सुबेदार	जगनाथ सिंह	01-09-96
820	जेसी 190084 एम	सुबेदार	जगदीश	01-09-96
821	जेसी 197554 पी	सुबेदार	जगदीश चन्द्र	01-11-96
822	जेसी 199467 ऐ	सुबेदार	जसुना सिंह	01-12-96
823	जेसी 190322 एन	सुबेदार	जेरोण पी	01-11-96
824	जेसी 194865 एक्स	सुबेदार	जीत राम	01-12-96
825	जेसी 190441 के	सुबेदार	कबिलेश	01-11-96
826	जेसी 194891 वाई	सुबेदार	काली दास	01-10-96
827	जेसी 190086 एक्स	सुबेदार	कमल सिंह	01-09-96
828	जेसी 206444 के	सुबेदार	कामता प्रसाद सिंह	01-09-96
829	जेसी 194370 एल	सुबेदार	कपूर सिंह	01-01-97
830	जेसी 194359 एम	सुबेदार	करम चन्द्र	01-01-97
831	जेसी 197549 के	सुबेदार	केदार नाथ	01-09-96
832	जेसी 190179 एम	सुबेदार	केसर सिंह	01-09-96
833	जेसी 190142 एल	सुबेदार	खेदरु प्रसाद	01-10-96
834	जेसी 190132 एफ	सुबेदार	किरपा सिंह	01-10-96
835	जेसी 190470 वाई	सुबेदार	कीरपाल सिंह	01-12-96
836	जेसी 194308 वाई	सुबेदार	के एम महालिंगम	01-10-96
837	जेसी 190326 के	सुबेदार	कुलबीर सिंह	01-11-96
838	जेसी 194555 डब्ल्यू	सुबेदार	कुन्ज लाल	01-10-96
839	जेसी 194867 एच	सुबेदार	कनवर पाल सिंह	01-09-96
840	जेसी 199486 एल	सुबेदार	लाल चन्द्र	01-11-96
841	जेसी 197556 ऐ	सुबेदार	लाल चन्द्र राम यादव	01-11-96
842	जेसी 190303 एच	सुबेदार	ललता प्रसाद पटेल	01-10-96
843	जेसी 194338 डब्ल्यू	सुबेदार	लक्षमन सिंह	01-01-97
844	जेसी 199491 ऐ	सुबेदार	लोकनाथ पाण्डे	01-01-97
845	जेसी 190279 एक्स	सुबेदार	महन्त राम	01-09-96
846	जेसी 199524 डब्ल्यू	सुबेदार	महेन्द्र प्रकाश	01-09-96
847	जेसी 194890 डब्ल्यू	सुबेदार	महेन्द्रन के	01-10-96
848	जेसी 190091 एच	सुबेदार	महिपाल सिंह	01-09-96
849	जेसी 190155 एच	सुबेदार	मंगल दास	01-10-96
850	जेसी 206447 एक्स	सुबेदार	मंगे राम	01-11-96
851	जेसी 194846 एम	सुबेदार	मनमोहन लाल	01-12-96
852	जेसी 199471 एच	सुबेदार	मधुरा राम	01-11-96
853	जेसी 190454 एफ	सुबेदार	मेहर चन्द्र	01-12-96
854	जेसी 190136 एक्स	सुबेदार	मिनिस्वामी गुणशीखरन	01-10-96
855	जेसी 202672 पी	सुबेदार	मोहन राम भाकर	01-10-96

853	जे.सी. 194362 डब्ल्यू	सुबेदार	मूल राज	01-01-97
857	जे.सी. 190490 एम	सुबेदार	मोरे वसन्त	01-01-97
858	जे.सी. 194916 ऐ	सुबेदार	सुन्शी लाल जाटव	01-10-96
859	जे.सी. 190458 एक्स	सुबेदार	नागोजी राव गंगाधर राव	01-12-96
860	जे.सी. 194398 एल	सुबेदार	एन एन रेड्डी	01-09-96
861	जे.सी. 190476 ऐ	सुबेदार	एन बालन	01-12-96
862	जे.सी. 190477 एच	सुबेदार	नारायण सिंह	01-12-96
863	जे.सी. 194918 एल	सुबेदार	नारायण सोपजी ककुलते	01-01-97
864	जे.सी. 190449 डब्ल्यू	सुबेदार	नेक राम	01-11-96
865	जे.सी. 190329 एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-11-96
866	जे.सी. 190327 एम	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01-11-96
867	जे.सी. 194376 एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-01-97
868	जे.सी. 203467 ऐ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-12-96
869	जे.सी. 190457 पी	सुबेदार	पी घोषाकी	01-12-96
870	जे.सी. 190282 एक्स	सुबेदार	परमेश्वर सिंह	01-09-96
871	जे.सी. 194361 के	सुबेदार	प्रताप सिंह	01-01-97
872	जे.सी. 203463 के	सुबेदार	पी गजानन	01-11-96
873	जे.सी. 190459 ऐ	सुबेदार	पेरुमल	01-12-96
874	जे.सी. 202665 वाई	सुबेदार	प्रमोद सिंह चौहान	01-01-97
875	जे.सी. 194354 एन	सुबेदार	प्रताप सिंह	01-09-96
876	जे.सी. 190114 वाई	सुबेदार	प्रेम सागर	01-10-96
877	जे.सी. 190475 एक्स	सुबेदार	पूरण सिंह	01-12-96
878	जे.सी. 197557 एच	सुबेदार	राज बीर सिंह	01-12-96
879	जे.सी. 190222 डब्ल्यू	सुबेदार	राज मल	01-10-96
880	जे.सी. 197541 एक्स	सुबेदार	राजा राम	01-09-96
881	जे.सी. 194893 के	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद घाटक	01-12-96
882	जे.सी. 206225 एच	सुबेदार	राम बहादुर सिंह	01-12-96
883	जे.सी. 190439 एम	सुबेदार	राम चन्द्र सिंह	01-11-96
884	जे.सी. 190479 एन	सुबेदार	राम चरण हसाई राम	01-12-96
885	जे.सी. 194892 एफ	सुबेदार	राम कुमार	01-11-96
886	जे.सी. 199513 के	सुबेदार	राम कुमार घमार	01-10-96
887	जे.सी. 190461 एक्स	सुबेदार	राम प्रकाश	01-12-96
888	जे.सी. 190314 पी	सुबेदार	राम सिंह	01-11-96
889	जे.सी. 190088 एच	सुबेदार	राम स्वरूप	01-09-96
890	जे.सी. 199444 वाई	सुबेदार	रामाधर राघ	01-12-96
891	जे.सी. 197553 एम	सुबेदार	रामेश्वर प्रसाद सिंह	01-11-96
892	जे.सी. 190482 एन	सुबेदार	रामजी लाल	01-12-96
893	जे.सी. 190462 ऐ	सुबेदार	रणजीत सिंह	01-12-96
894	जे.सी. 199447 एम	सुबेदार	रणजीत सिंह	01-12-96
895	जे.सी. 194358 के	सुबेदार	रेशन लाल	01-01-97
896	जे.सी. 190311 एफ	सुबेदार	सन्त राम	01-10-96
897	जे.सी. 190105 एक्स	सुबेदार	शशांका शेखर मैती	01-09-96
898	जे.सी. 199453 ऐ	सुबेदार	शतीश चन्द्र	01-01-97
899	जे.सी. 194320 ऐ	सुबेदार	शान्ति मरुप	01-12-96
900	जे.सी. 190093 एन	सुबेदार	शेर सिंह	01-09-96
901	जे.सी. 194886 एन	सुबेदार	शेर सिंह	01-09-96
902	जे.सी. 190106 ऐ	सुबेदार	शिव राम	01-09-96
903	जे.सी. 190216 पी	सुबेदार	श्री भगवान	01-10-96
904	जे.सी. 190489 एक्स	सुबेदार	श्री राम जट्ट	01-01-97
905	जे.सी. 194379 ऐ	सुबेदार	सोहन पाल पाली	01-01-97
906	जे.सी. 190191 एन	सुबेदार	श्री पत्नी राम	01-10-96
907	जे.सी. 194323 एन	सुबेदार	सुखबीर सिंह	01-01-97

क्र.सं.	पदवी	नाम	सुबेदार	सुबेदार	दिनांक
908	जे.सी.	197537पी	सुबेदार	सुखदेव तापडे	01-10-96
910	जे.सी.	190447एल	सुबेदार	सुन्दर सिंह	01-11-96
911	जे.सी.	190087ऐ	सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह	01-09-96
912	जे.सी.	190330एम	सुबेदार	सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा	01-11-96
913	जे.सी.	190487एम	सुबेदार	सुरजीत कुमार	01-01-97
914	जे.सी.	190323डब्ल्यू	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01-11-96
915	जे.सी.	194857वाई	सुबेदार	तंगराज रामचन्द्रन	01-09-96
916	जे.सी.	194879एक्स	सुबेदार	वी रमन भाई	01-11-96
917	जे.सी.	194364वाई	सुबेदार	वासुदेवन नाथर के	01-01-97
918	जे.सी.	190458एल	सुबेदार	घट्टनाथ सिंह	01-11-96
919	जे.सी.	194851एक्स	सुबेदार	प्रोगेन्द्र चौधरी	01-11-96
920	जे.सी.	190444वाई	सुबेदार	प्रोगेन्द्र प्रसाद	01-11-96

सैना चिकित्सा कोर

921	जे.सी.	213891डब्ल्यू	सुबेदार	आजीत सिंह	01-09-96
922	जे.सी.	216261एफ	सुबेदार	अमर पाल सिंह	01-11-96
923	जे.सी.	198361एफ	सुबेदार	अपूर्वा मोहन सुखरजी	01-10-96
924	जे.सी.	198140पी	सुबेदार	तशोक कुमार	01-11-96
925	जे.सी.	201370डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू राम	01-09-96
926	जे.सी.	213942वाई	सुबेदार	बल बहादुर गुरुंग	01-01-97
927	जे.सी.	216239डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह	01-12-96
928	जे.सी.	206702वाई	सुबेदार	बिशन सिंह	01-09-96
929	जे.सी.	223219एल	सुबेदार	बिज लाल	01-11-96
930	जे.सी.	198082डब्ल्यू	सुबेदार	सीबीआर चौहान	01-11-96
931	जे.सी.	217601एल	सुबेदार	धर्म पाल	01-01-97
932	जे.सी.	198368वाई	सुबेदार	गणेश सुरेन्द्रन नाथर	01-11-96
933	जे.सी.	213898ऐ	सुबेदार	गिरधारी लाल	01-11-96
934	जे.सी.	214877डब्ल्यू	सुबेदार	गोविन्दन पी	01-10-96
935	जे.सी.	214836एम	सुबेदार	हरभजन सिंह	01-09-96
936	जे.सी.	213938डब्ल्यू	सुबेदार	हरी किशन	01-12-96
937	जे.सी.	213924डब्ल्यू	सुबेदार	इन्दर पोल सिंह	01-09-96
938	जे.सी.	170148वाई	सुबेदार	ईश्वर सिंह	01-11-96
939	जे.सी.	198313एफ	सुबेदार	जे बांध्योपाध्याय	01-12-96
940	जे.सी.	201343एम	सुबेदार	जसवन्त राय	01-01-97
941	जे.सी.	217600एच	सुबेदार	जोगिन्द्र सिंह	01-01-97
942	जे.सी.	198311डब्ल्यू	सुबेदार	करुणाकरन नंबियार एम	01-12-96
943	जे.सी.	196020एक्स	सुबेदार	केशव दत्त कण्ठपाल	01-09-96
944	जे.सी.	198127एल	सुबेदार	सडक सिंह कार्की	01-12-96
945	जे.सी.	196004ऐ	सुबेदार	कीकर सिंह बैस	01-01-97
946	जे.सी.	198309वाई	सुबेदार	किशन सिंह कार्की	01-12-96
947	जे.सी.	213886एल	सुबेदार	लघ्मन सिंह	01-09-96
948	जे.सी.	213922एल	सुबेदार	लघ्मण सिंह	01-09-96
949	जे.सी.	198080एल	सुबेदार	लक्ष्मन निंबालकार	01-10-96
950	जे.सी.	213934ऐ	सुबेदार	माधव सिंह	01-12-96
951	जे.सी.	213887एन	सुबेदार	महेन्द्र सिंह पादव	01-09-96
952	जे.सी.	198300डब्ल्यू	सुबेदार	मणी राम महातो	01-12-96
953	जे.सी.	198132डब्ल्यू	सुबेदार	एम पी अरुमंगम	01-01-97
954	जे.सी.	196029एन	सुबेदार	सुन्शी लाल सिंसिनवार	01-10-96
955	जे.सी.	214829डब्ल्यू	सुबेदार	नगेन्द्र झा	01-09-96

956	जेसी 206686एम	सुबेदार	नन्दन सिंह भण्डारी	01-09-96
957	जेसी 213981के	सुबेदार	नटेश जयरामन	01-11-96
958	जेसी 217345एफ	सुबेदार	नावल किशोर सिंह	01-09-96
959	जेसी 213902एक्स	सुबेदार	नोपरम दिलीप	01-11-96
960	जेसी 198307एन	सुबेदार	गुरु सिंह चन्द्र समल	01-11-96
961	जेसी 213927के	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-11-96
962	जेसी 214839ए	सुबेदार	पद्म दत्त बाउराय	01-11-96
963	जेसी 214893एन	सुबेदार	पारस नाथ राय	01-11-96
964	जेसी 214843एच	सुबेदार	पी वी जनाबा	01-12-96
965	जेसी 198076एच	सुबेदार	पीकेआर नाथर	01-11-96
966	जेसी 219991एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह	01-09-96
967	जेसी 198079डब्ल्यू	सुबेदार	पुरुषोत्तम सिंह राना	01-09-96
968	जेसी 213903ए	सुबेदार	राज किशोर साहु	01-11-96
969	जेसी 214892एल	सुबेदार	राम दास राम	01-11-96
970	जेसी 213885के	सुबेदार	राम निवास उपाध्याय	01-09-96
971	जेसी 195986एल	सुबेदार	राम सागर पाण्डे	01-10-96
972	जेसी 208556ए	सुबेदार	राम सिंह	01-10-96
973	जेसी 198358एफ	सुबेदार	राम सुरेश ओझा	01-09-96
974	जेसी 138322वाई	सुबेदार	रकमा शंकर पाण्डे	01-12-96
975	जेसी 213923एन	सुबेदार	रमन	01-09-96
976	जेसी 214889एल	सुबेदार	रमेश चन्द्र	01-12-96
977	जेसी 213929पी	सुबेदार	रमेश चन्द्र	01-11-96
978	जेसी 213935एच	सुबेदार	राउत पुष्प राज	01-12-96
979	जेसी 198072एम	सुबेदार	रुद्रप्पा वी मदिवालर	01-09-96
980	जेसी 214878वाई	सुबेदार	जालिम सिंह राठौर	01-11-96
981	जेसी 215226एम	सुबेदार	संसार चन्द्र	01-11-96
982	जेसी 223220ए	सुबेदार	मरख प्रसाद	01-12-96
983	जेसी 217342एन	सुबेदार	सत बीर सिंह	01-01-97
984	जेसी 213939वाई	सुबेदार	एस सी शैललाल	01-12-96
985	जेसी 198078एन	सुबेदार	शिव मूर्ती पाण्डे	01-09-96
986	जेसी 213901पी	सुबेदार	श्री किशन	01-11-96
987	जेसी 217151वाई	सुबेदार	सिपाही लाल	01-09-96
988	जेसी 201375पी	सुबेदार	एस लाक्रा	01-12-96
989	जेसी 196022एच	सुबेदार	सुभाष चन्द्र शर्मा	01-10-96
990	जेसी 206687पी	सुबेदार	सुभाष चन्द्र	01-11-96
991	जेसी 215230पी	सुबेदार	सुभाष चन्द्र	01-11-96
992	जेसी 198008एक्स	सुबेदार	सुन्दरा राज अन्टणी	01-11-96
993	जेसी 196021ए	सुबेदार	सुरेन्द्र साह	01-09-96
994	जेसी 214842ए	सुबेदार	तरलोक सिंह	01-12-96
995	जेसी 206685के	सुबेदार	त्रिभुवन नाथ शर्मा	01-09-96
सेना और्डनेंस कोर				
996	जेसी 187046एल	सुबेदार	अब्दुल्ला सुरेशी	01-11-96
997	जेसी 187205एक्स	सुबेदार	ए सुभान	01-09-96
998	जेसी 187181वाई	सुबेदार	ए एन नाथडू	01-11-96
999	जेसी 187201एफ	सुबेदार	ए गिरि	01-01-97
1000	जेसी 187096डब्ल्यू	सुबेदार	आलम सिंह	01-01-97
1001	जेसी 187254ए	सुबेदार	अमर सिंह	01-10-96
1002	जेसी 193558एन	सुबेदार	आशा राम जाटव	01-05-96
1003	जेसी 186917एन	सुबेदार	आशु सिंह	01-10-96
1004	जेसी 213132डब्ल्यू	सुबेदार	अनर सिंह घाटव	01-01-97

1005	जेसी 191868ए	सुबेदार	बी दुर्गोधन	01-12-96
1006	जेसी 202449एल	सुबेदार	ब्रह्म नजी सिंह	01-01-97
1007	जेसी 187242एल	सुबेदार	बाबू लाल	01-11-96
1008	जेसी 223138एल	सुबेदार	बच्चन सिंह	01-12-96
1009	जेसी 191803एम	सुबेदार	बछी राम	01-12-96
1010	जेसी 202471डब्ल्यू	सुबेदार	बकशी राम	01-10-96
1011	जेसी 191790ए	सुबेदार	बालाकृष्णन नायर	01-10-96
1012	जेसी 187137पी	सुबेदार	भाग सिंह	01-11-96
1013	जेसी 186991पी	सुबेदार	भगत सिंह मिसिनवार	
1014	जेसी 187035वाई	सुबेदार	भगीरथ सिंह	01-09-96
1015	जेसी 223171एच	सुबेदार	बी जे नाथू	01-09-96
1016	जेसी 187240ए	सुबेदार	बिजन राम शर्मा	01-09-96
1017	जेसी 186968एफ	सुबेदार	बिनोद चन्द्र कालिता	01-12-96
1018	जेसी 186988पी	सुबेदार	बिहवा नाथ राम	01-09-96
1019	जेसी 187109एच	सुबेदार	बिहव नाथ आरज्या	01-12-96
1020	जेसी 187198एम	सुबेदार	ब्रिज मोहन	01-11-96
1021	जेसी 187142ए	सुबेदार	ब्रिता राम	01-11-96
1022	जेसी 223192वाई	सुबेदार	चन्द्र बहादुर लिंबू	01-10-96
1023	जेसी 191768पी	सुबेदार	छिन्नी सिंह	01-09-96
1024	जेसी 213131एन	सुबेदार	चित्र बहादुर राना	01-12-96
1025	जेसी 186923वाई	सुबेदार	दवेन्द्र सिंह धीमा	01-11-96
1026	जेसी 187243एन	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01-12-96
1027	जेसी 197911एम	सुबेदार	धरमवीर सिंह	01-12-96
1028	जेसी 187165एफ	सुबेदार	धमी राम घोगी	01-11-96
1029	जेसी 186999एफ	सुबेदार	दीपक रंजन डे	01-10-96
1030	जेसी 204730एम	सुबेदार	दुध सिंह	01-11-96
1031	जेसी 187124एक्स	सुबेदार	दुधेश्वर सिंह	01-09-96
1032	जेसी 187025पी	सुबेदार	दुनी चन्द्र	01-11-96
1033	जेसी 193528डब्ल्यू	सुबेदार	फकीर सिंह	01-01-97
1034	जेसी 183894एम	सुबेदार	गंगाधरन के	01-11-96
1035	जेसी 192140वाई	सुबेदार	घनश्याम नाथ	01-01-97
1036	जेसी 187225एल	सुबेदार	गोपाल प्रसाद सिन्हा	01-12-96
1037	जेसी 189748एच	सुबेदार	गोविंद लाल	01-01-97
1038	जेसी 187707एच	सुबेदार	गोविंद राम	01-09-96
1039	जेसी 187037के	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01-10-96
1040	जेसी 223164एम	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01-01-97
1041	जेसी 199401के	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01-09-96
1042	जेसी 191802के	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01-11-96
1043	जेसी 187252पी	सुबेदार	गुरमुख सिंह	01-09-96
1044	जेसी 187266पी	सुबेदार	हनुमान सिंह	01-01-97
1045	जेसी 187094एल	सुबेदार	हर महेन्द्र सिंह	01-10-96
1046	जेसी 186992एक्स	सुबेदार	हरचरण सिंह	01-11-96
1047	जेसी 183335एच	सुबेदार	हरेन्द्र प्रसाद	01-01-97
1048	जेसी 187095एन	सुबेदार	हरेन्द्र प्रसाद सिंह	01-09-96
1049	जेसी 186945ए	सुबेदार	हरिश चन्द्र घाण्डे	01-01-97
1050	जेसी 223155एल	सुबेदार	हर्ष सिंह	01-11-96
1051	जेसी 104600वाई	सुबेदार	होशिघार सिंह चौहान	01-10-96
1052	जेसी 187194डब्ल्यू	सुबेदार	इन्द्र कपाल श्रीवास	01-09-96
1053	जेसी 187199पी	सुबेदार	ईश्वर सिंह	01-11-96
1054	जेसी 187734के	सुबेदार	जगदीश चन्द्र	01-09-96
1055	जेसी 187070एफ	सुबेदार	जगदीश कर्मा	01-11-96
1056	जेसी 187187ए	सुबेदार	जनक सिंह	01-01-97

1057	जेसी 187735एन	सुबेदार	जसपाल	01-09-96
1058	जेसी 180508के	सुबेदार	जसवन्त सिंह	01-11-96
1059	जेसी 187220एम	सुबेदार	झिनाकु घादव	01-10-96
1060	जेसी 223211वाई	सुबेदार	जोगिन्द्र राय	01-12-96
1061	जेसी 186944एक्स	सुबेदार	जोगिन्द्र सिंह	01-12-96
1062	जेसी 187275डब्ल्यू	सुबेदार	जेएसएम ठाकुर	01-12-96
1063	जेसी 187269एच	सुबेदार	कदम मोहन तुकाराम	01-09-96
1064	जेसी 186606ए	सुबेदार	के टी होसमणी	01-09-96
1065	जेसी 198597डब्ल्यू	सुबेदार	कमला रंजन मंडल	01-09-96
1066	जेसी 191757एच	सुबेदार	कामिनी कुमारी सिन्हा	01-12-96
1067	जेसी 187015एल	सुबेदार	कार्तिकेयन पीके	01-12-96
1068	जेसी 221735एफ	सुबेदार	खीमा राम	01-11-96
1069	जेसी 223157डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्ण कुमार	01-12-96
1070	जेसी 187039पी	सुबेदार	कृष्णन केवी	01-12-96
1071	जेसी 223212एफ	सुबेदार	कुलबहादुर गुरंग	01-12-96
1072	जेसी 186915एच	सुबेदार	कुलदीप चन्द	01-09-96
1073	जेसी 223210एन	सुबेदार	लछमन सिंह	01-11-96
1074	जेसी 187079डब्ल्यू	सुबेदार	मदन लाल शर्मा	01-09-96
1075	जेसी 223172एल	सुबेदार	मदन मोहन	01-10-96
1076	जेसी 187013ए	सुबेदार	मदन मोहन लाल	01-10-96
1077	जेसी 187196एफ	सुबेदार	माधवानंद राना	01-11-96
1078	जेसी 186714ए	सुबेदार	महावीर सिंह	01-09-96
1079	जेसी 191747वाई	सुबेदार	मल्कीत सिंह	01-10-96
1080	जेसी 204421एन	सुबेदार	मंगे राम	01-09-96
1081	जेसी 183320के	सुबेदार	मत्तई केए	01-11-96
1082	जेसी 187000एच	सुबेदार	मोहन लाल तर्प	01-11-96
1083	जेसी 187007पी	सुबेदार	मोहन लाल कटाल	01-12-96
1084	जेसी 191765एफ	सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01-11-96
1085	जेसी 187002एन	सुबेदार	नन्दा सिंह	01-12-96
1086	जेसी 187044ए	सुबेदार	नन्दजी राम	01-10-96
1087	जेसी 191865एम	सुबेदार	नरेन्द्र सिंह गुलेरिया	01-11-96
1088	जेसी 187218पी	सुबेदार	नेम सिंह	01-09-96
1089	जेसी 191764वाई	सुबेदार	नेत राम	01-11-96
1090	जेसी 187074एक्स	सुबेदार	नीला कान्ता बरुवा	01-11-96
1091	जेसी 199634एल	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-09-96
1092	जेसी 187269एम	सुबेदार	परमेश्वरन मोहनन पिल्ले	01-01-97
1093	जेसी 193568एक्स	सुबेदार	पारस राम	01-11-96
1094	जेसी 191763डब्ल्यू	सुबेदार	प्रकाश सिंह	01-10-96
1095	जेसी 191804पी	सुबेदार	पवार देवीचन्द	01-01-97
1096	जेसी 214469एल	सुबेदार	पी श्रीरामुलु	01-09-96
1097	जेसी 187068के	सुबेदार	वी महण्णा	01-11-96
1098	जेसी 198574पी	सुबेदार	पौख पाल	01-01-97
1099	जेसी 221689एक्स	सुबेदार	पूनम चन्द	01-11-96
1100	जेसी 187046डब्ल्यू	सुबेदार	प्रफुल्ला कुमार साह	01-12-96
1101	जेसी 187010एम	सुबेदार	प्रसाद टीके	01-09-96
1102	जेसी 191876वाई	सुबेदार	प्रताप सिंह खरा	01-01-97
1103	जेसी 195523एच	सुबेदार	प्रेम चन्द	01-09-96
1104	जेसी 187234एम	सुबेदार	पूर्णा चन्द्र मोहनती	01-12-96
1105	जेसी 187024एम	सुबेदार	आर गोविन्द राव	01-11-96
1106	जेसी 187716एफ	सुबेदार	रघुनाथ प्रसाद रायत	01-12-96
1107	जेसी 194468वाई	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद जोशी	01-12-96
1108	जेसी 186989एक्स	सुबेदार	राजिन्द्र सिंह धोत्र	01-10-96

1109	जेसी 187175वाई	सुबेदार	राम भजन साह	01-10-96	
1110	जेसी 183376एम	सुबेदार	राम फल	01-11-96	
1111	जेसी 187097वाई	सुबेदार	राम सनेही सिंह	01-12-96	
1112	जेसी 187161एल	सुबेदार	राम सरुप	01-11-96	
1113	जेसी 187069एम	सुबेदार	राम शंकर चौधरी	01-11-96	
1114	जेसी 223137एच	सुबेदार	राम सिंह	01-12-96	
1115	जेसी 197081एन	सुबेदार	राम सिंह सुनौला	01-10-96	
1116	जेसी 187274एन	सुबेदार	राम स्वरूप घादव	01-12-96	
1117	जेसी 187139ऐ	सुबेदार	रामायण प्रसाद	01-12-96	
1118	जेसी 187154पी	सुबेदार	रामचन्द्र कृष्णाजी गुडलकार	01-12-96	
1119	जेसी 187090पी	सुबेदार	रामधीराज राम	01-12-96	
1120	जेसी 193567पी	सुबेदार	रमेश चन्द्र दुबे	01-11-96	
1121	जेसी 186835एल	सुबेदार	रकमेश्वर दयाल घादव	01-01-97	
1122	जेसी 204742एफ	सुबेदार	रामजी लाल	01-12-96	
1123	जेसी 200134एच	सुबेदार	रामजी प्रसाद शर्मा	01-12-96	
1124	जेसी 199406एच	सुबेदार	रामनारायण शर्मा	01-11-96	
1125	जेसी 187064एन	सुबेदार	रमधीर सिंह	01-09-96	
1126	जेसी 187273एल	सुबेदार	अरपीएस रावत	01-11-96	
1127	जेसी 193569ऐ	सुबेदार	साधु चरण जरीका	01-11-96	
1128	जेसी 198566डब्ल्यू	सुबेदार	समरेन्द्र धर	01-12-96	
1129	जेसी 187089ऐ	सुबेदार	सामुवेल केजी	01-12-96	
1130	जेसी 223153ऐ	सुबेदार	सार नाथ तिवारी	01-10-96	
1131	जेसी 214155के	सुबेदार	सर्बानिन्दा बोरा	01-01-97	
1132	जेसी 187055एम	सुबेदार	शर्वन सिंह	01-09-96	
1133	जेसी 186993ऐ	सुबेदार	एस डी भाई	01-12-96	
1134	जेसी 198600एल	सुबेदार	शक्ति राम	01-10-96	
1135	जेसी 187045एच	सुबेदार	सतनाम सिंह	01-10-96	
1136	जेसी 187736पी	सुबेदार	सतपाल	01-09-96	
1137	जेसी 187258वाई	सुबेदार	शिव जनम शर्मा	01-09-96	
1138	जेसी 187080एल	सुबेदार	शेष नाथ परबत	01-10-96	
1139	जेसी 187267एक्स	सुबेदार	सरवन कुमार घादव	01-01-97	
1140	जेसी 187136एम	सुबेदार	एसएन कर्माकर	01-10-96	
1141	जेसी 187738ऐ	सुबेदार	सुदम काम्बले	01-10-96	
1142	जेसी 180625पी	सुबेदार	सुन्दर लाल	01-11-96	
1143	जेसी 193522पी	सुबेदार	सुरज भान रंगरा	01-11-96	
1144	जेसी 221688पी	सुबेदार	सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा	01-12-96	
1145	जेसी 187179एफ	सुबेदार	सुरेश चन्द्र	01-10-96	
1146	जेसी 198591पी	सुबेदार	सुरजा राम नहेलिघा	01-01-97	
1147	जेसी 187034डब्ल्यू	सुबेदार	तारलोचन सिंह	01-09-96	
1148	जेसी 186952डब्ल्यू	सुबेदार	तेज राम	01-10-96	
1149	जेसी 198598वाई	सुबेदार	टिनिघस टिरु	01-09-96	
1150	जेसी 187232एफ	सुबेदार	टीएम रेड्डी	01-11-96	
1151	जेसी 187182एफ	सुबेदार	टी केलप्पन	01-12-96	
1152	जेसी 192153डब्ल्यू	सुबेदार	वगता राम गोदारा	01-11-96	
1153	जेसी 191775एल	सुबेदार	विजय सिंह राजपुत	01-10-96	
1154	जेसी 187126एच	सुबेदार	विजय कुमार शर्मा	01-09-96	
1155	जेसी 191869डब्ल्यू	सुबेदार	वी गिरि	01-12-96	
1156	जेसी 187003डब्ल्यू	सुबेदार	सुहृबीर सिंह गुसाई	01-01-97	
1157	जेसी 187219एक्स	सुबेदार	जिला सिंह भागल	01-09-96	

संयुक्त राज्य प्रांतिक इन्जिनियर

1158	जेसी 203418एक्स	सुबेदार	अबदुल ममद खान	01-01-97
1159	जेसी 206790ए	सुबेदार	अबदुल मन्तार शेख	01-10-96
1160	जेसी 201332ए	सुबेदार	अफमल मसीह	01-10-96
1161	जेसी 214119वाई	सुबेदार	अजाईब सिंह	01-01-97
1162	जेसी 209278एम	सुबेदार	अमृत लाल	01-01-97
1163	जेसी 202266पी	सुबेदार	अनन्त पाल सिंह	01-09-96
1164	जेसी 198617वाई	सुबेदार	आत्मा सिंह	01-12-96
1165	जेसी 211804वाई	सुबेदार	आत्मा सिंह	01-12-96
1166	जेसी 209274डब्ल्यू	सुबेदार	अजाद सिंह	01-11-96
1167	जेसी 210271पी	सुबेदार	बाबू राम	01-12-96
1168	जेसी 209229के	सुबेदार	बाबू लाल	01-11-96
1169	जेसी 160238वाई	सुबेदार	बदरी प्रसाद	01-10-96
1170	जेसी 209271एच	सुबेदार	बहादुर सिंह	01-01-97
1171	जेसी 203414एफ	सुबेदार	बालाराम सरकार	01-11-96
1172	जेसी 199419ए	सुबेदार	बलदेव सिंह	01-09-96
1173	जेसी 201290वाई	सुबेदार	बाली राम पाण्डे	01-11-96
1174	जेसी 218907ए	सुबेदार	बाल्मीकी सिंह	01-09-96
1175	जेसी 204509एन	सुबेदार	बालू दान	01-12-96
1176	जेसी 188946एफ	सुबेदार	बलवर्त सिंह	01-11-96
1177	जेसी 201297एच	सुबेदार	बलवर्त सिंह	01-12-96
1178	जेसी 198622के	सुबेदार	बलवर्त सिंह पठानिया	01-01-97
1179	जेसी 215135एच	सुबेदार	बलविन्द्र सिंह	01-11-96
1180	जेसी 217279के	सुबेदार	बंकायती	01-01-97
1181	जेसी 160706एन	सुबेदार	बंशीधर नायक	01-11-96
1182	जेसी 202223ए	सुबेदार	भगवान सिंह	01-12-96
1183	जेसी 202228वाई	सुबेदार	भोगराम बोरा	01-01-97
1184	जेसी 201285एन	सुबेदार	भोपाल सिंह	01-10-96
1185	जेसी 213776डब्ल्यू	सुबेदार	बिकर सिंह	01-10-96
1186	जेसी 190933एच	सुबेदार	बिमल चन्द्र सरकार	01-12-96
1187	जेसी 209276एफ	सुबेदार	बिपत सिंह	01-01-97
1188	जेसी 201312एम	सुबेदार	बिपुल चन्द्र भुयान	01-09-96
1189	जेसी 204505एक्स	सुबेदार	बिरेल चन्द्र भारतीया	01-10-96
1190	जेसी 167698एच	सुबेदार	बिशन सिंह थापा	01-09-96
1191	जेसी 201293एम	सुबेदार	हुधी चन्द्र शर्मा	01-11-96
1192	जेसी 217284पी	सुबेदार	बी एस बी रेड्डी	01-12-96
1193	जेसी 201299एन	सुबेदार	चन्द्र पाल सिंह चौहान	01-01-97
1194	जेसी 213777वाई	सुबेदार	चन्द्र शेखर मिश्रा	01-10-96
1195	जेसी 222178ए	सुबेदार	चरनजीत सिंह	01-11-96
1196	जेसी 207297वाई	सुबेदार	चवान दगाडू	01-09-96
1197	जेसी 198603वाई	सुबेदार	चावडा पीठा	01-09-96
1198	जेसी 213700वाई	सुबेदार	चना राम	01-01-97
1199	जेसी 207318के	सुबेदार	चुन्नी लाल	01-01-97
1200	जेसी 176161एल	सुबेदार	डी कोवर	
1201	जेसी 207319एम	सुबेदार	दरोगा पाण्डे	01-01-97
1202	जेसी 221892एन	सुबेदार	दीप चन्द्र	01-11-96
1203	जेसी 191126ए	सुबेदार	दंड बक्ष	01-10-96
1204	जेसी 190926एम	सुबेदार	दंश राज गुलेरिया	01-11-96
1205	जेसी 201292के	सुबेदार	दंड राज	01-11-96
1206	जेसी 202528एन	सुबेदार	दंड राज	01-01-97

1207	जेसी 263425एन	सुबेदार	डो किस्तघा	01-10-96
1208	जेसी 219851वाई	सुबेदार	द्वी चन्द्र शर्मा	01-11-96
1209	जेसी 190930पी	सुबेदार	धर्म पाल बैस	01-12-96
1210	जेसी 221888एल	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01-11-96
1211	जेसी 202272एच	सुबेदार	धरमवीर सिंह त्यागी	01-09-96
1212	जेसी 201321एन	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01-10-96
1213	जेसी 188947के	सुबेदार	दीना नाथ साहू	01-11-96
1214	जेसी 213779के	सुबेदार	दुली चन्द्र	01-01-97
1215	जेसी 221684पी	सुबेदार	दुर्गा सिंह	01-09-96
1216	जेसी 211662एम	सुबेदार	गजेन्द्र नाथ	01-12-96
1217	जेसी 198613एच	सुबेदार	गणेश चन्द्र पाण्डे	01-10-96
1218	जेसी 181504ए	सुबेदार	हर नन्दायन सिंह	01-01-97
1219	जेसी 202234एम	सुबेदार	हरबंस लाल	01-01-97
1220	जेसी 221882के	सुबेदार	हरबंस सिंह	01-09-96
1221	जेसी 191121एफ	सुबेदार	हर्बलास राम	01-10-96
1222	जेसी 202508एम	सुबेदार	हरेन्द्र चन्द्र दाम	01-01-97
1223	जेसी 207316वाई	सुबेदार	हरेश्वर सिंह घादव	01-01-97
1224	जेसी 221901के	सुबेदार	हरी चन्द्र	01-01-97
1225	जेसी 207317एफ	सुबेदार	हरफूल सिंह	01-01-97
1226	जेसी 162640एफ	सुबेदार	हीरा सिंह	01-09-96
1227	जेसी 191173एक्स	सुबेदार	होशियार सिंह	01-10-96
1228	जेसी 195639एम	सुबेदार	इन्दर देव भारती	01-09-96
1229	जेसी 202218पी	सुबेदार	जाफर अली बैग	01-12-96
1230	जेसी 209277के	सुबेदार	जगदीश चन्द्र	01-01-97
1231	जेसी 176052वाई	सुबेदार	जगदीश मिश्रा	01-01-97
1232	जेसी 158229एल	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01-09-96
1233	जेसी 190630के	सुबेदार	जय नारायण झा	01-09-96
1234	जेसी 201317एल	सुबेदार	जलालुद्दीन लस्कर	01-01-97
1235	जेसी 198614एल	सुबेदार	जनार्धन लाल श्रीवास्तव	01-11-96
1236	जेसी 183966पी	सुबेदार	जनार्धन सिंह	01-11-96
1237	जेसी 224116वाई	सुबेदार	जीत सिंह	01-12-96
1238	जेसी 190923वाई	सुबेदार	जीत राम	01-11-96
1239	जेसी 191117वाई	सुबेदार	जोगेश चन्द्र महिलारी	01-09-96
1240	जेसी 181498एक्स	सुबेदार	जोमफ	01-12-96
1241	जेसी 167677एम	सुबेदार	कल्लू राम	01-12-96
1242	जेसी 197373के	सुबेदार	कन्हरी राम घादवे	01-09-96
1243	जेसी 202253पी	सुबेदार	करन सिंह पुनिघा	01-10-96
1244	जेसी 177543एफ	सुबेदार	काशी नाथ भक्ता	01-10-96
1245	जेसी 202231वाई	सुबेदार	कंश्मीर सिंह	01-01-97
1246	जेसी 202544एक्स	सुबेदार	केवल राम	01-10-96
1247	जेसी 200013के	सुबेदार	खजान सिंह	01-01-97
1248	जेसी 182311एम	सुबेदार	खेदार राम	01-10-96
1249	जेसी 213778एफ	सुबेदार	सुशाल राम	01-01-97
1250	जेसी 210247वाई	सुबेदार	किशनपोल सिंह	01-10-96
1251	जेसी 202235पी	सुबेदार	केओ जोर्ज	01-01-97
1252	जेसी 202267एक्स	सुबेदार	कोमल सिंह	01-10-96
1253	जेसी 202215एफ	सुबेदार	केपी रामचन्द्रन	01-11-96
1254	जेसी 202347एल	सुबेदार	कृपण चन्द्र	01-10-96
1255	जेसी 202551एन	सुबेदार	कृपण दत्त	01-10-96
1256	जेसी 202225एल	सुबेदार	कुदतन पिले जनार्धना कुरुप	01-01-97
1257	जेसी 201296ए	सुबेदार	एल सैकिघा	01-12-96
1258	जेसी 190927पी	सुबेदार	लाल जी	01-11-96

1259	जेसी 222034 एक्स	सुबेदार	लाल मोहर सिंह	01-01-97
1260	जेसी 190832 पी	सुबेदार	ललन प्रसाद	01-09-96
1261	जेसी 195617 एच	सुबेदार	लेख राम	01-01-97
1262	जेसी 207314 एन	सुबेदार	लोकीन्दर राज	01-12-96
1263	जेसी 206429 पी	सुबेदार	लुदार सिंह	01-11-96
1264	जेसी 176184 एम	सुबेदार	एम सरकरा पाणी	01-11-96
1265	जेसी 199428 एफ	सुबेदार	मदबर सिंह भटी	01-10-96
1266	जेसी 202230 डब्ल्यू	सुबेदार	माधवन पिले के	01-01-97
1267	जेसी 169028 ऐ	सुबेदार	मधुसुदन बानर्जी	01-09-96
1268	जेसी 206430 के	सुबेदार	महाबीर सिंह	01-12-96
1269	जेसी 218911 एच	सुबेदार	महेन्द्र पाल सिंह	01-09-96
1270	जेसी 201331 एक्स	सुबेदार	एम अपत	01-10-96
1271	जेसी 200586 एल	सुबेदार	मल्कीत सिंह	01-09-96
1272	जेसी 202280 एफ	सुबेदार	मान सिंह	01-10-96
1273	जेसी 191125 एक्स	सुबेदार	मणी राम	01-10-96
1274	जेसी 200609 पी	सुबेदार	मनशा प्रसाद गुप्ता	01-09-96
1275	जेसी 202549 डब्ल्यू	सुबेदार	मूल चन्द	01-10-96
1276	जेसी 206433 एक्स	सुबेदार	एम सोलमन	01-12-96
1277	जेसी 200591 डब्ल्यू	सुबेदार	सुनील	01-10-96
1278	जेसी 190837 एन	सुबेदार	एमवी चन्द्रन	01-11-96
1279	जेसी 190831 एम	सुबेदार	नामदेव टी	01-09-96
1280	जेसी 222176 पी	सुबेदार	नैद बिहारी जोशी	01-09-96
1281	जेसी 167782 एच	सुबेदार	नन्दाधन दत्त शक्ति	01-09-96
1282	जेसी 199430 वाई	सुबेदार	नारायणा	01-10-96
1283	जेसी 222181 ऐ	सुबेदार	नन्दाधन पीके	01-12-96
1284	जेसी 207311 ऐ	सुबेदार	नेताजी पवार	01-10-96
1285	जेसी 221896 के	सुबेदार	नीलकान्ता सिंघा	01-12-96
1286	जेसी 203429 के	सुबेदार	निर्मल चन्द	01-11-96
1287	जेसी 176001 डब्ल्यू	सुबेदार	निर्मल सिंह	01-11-96
1288	जेसी 203428 एफ	सुबेदार	निर्मल सिंह	01-11-96
1289	जेसी 200589 वाई	सुबेदार	औ याको घोडन्नान	01-10-96
1290	जेसी 201333 एच	सुबेदार	ओम चन्द	01-10-96
1291	जेसी 177530 के	सुबेदार	ओम प्रकाश	01-09-96
1292	जेसी 206434 ऐ	सुबेदार	ओंकार सिंह	01-12-96
1293	जेसी 204501 एफ	सुबेदार	पद्मनाभन दसिन	01-11-96
1294	जेसी 202216 के	सुबेदार	पन्धानन सिंह	01-12-96
1295	जेसी 225311 एच	सुबेदार	परमा विजया	01-11-96
1296	जेसी 201328 एक्स	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01-09-96
1297	जेसी 202480 एक्स	सुबेदार	परसु राम सिंह	01-11-96
1298	जेसी 221891 एल	सुबेदार	पती राम उपाध्य	01-11-96
1299	जेसी 190919 डब्ल्यू	सुबेदार	पतित पबन धर	01-10-96
1300	जेसी 198619 के	सुबेदार	फैलैल सिंह	01-12-96
1301	जेसी 200592 वाई	सुबेदार	प्यार चन्द भुरिया	01-10-96
1302	जेसी 218908 एच	सुबेदार	पोन्नुस्वामी अशोकन	01-10-96
1303	जेसी 206787 ऐ	सुबेदार	प्रभू नाथ मिश्रा	01-09-96
1304	जेसी 169020 ऐ	सुबेदार	प्रकाश सिंह कटोच	01-09-96
1305	जेसी 207293 एच	सुबेदार	प्रताप सिंह	01-11-96
1306	जेसी 207309 एच	सुबेदार	प्रताप सिंह	01-09-96
1307	जेसी 222585 एच	सुबेदार	प्रेम चन्द	01-12-96
1308	जेसी 206432 पी	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01-12-96
1309	जेसी 222346 एन	सुबेदार	प्रसन्ता कुमार मित्र	01-01-97
1310	जेसी 204503 एम	सुबेदार	प्रण सिंह शान्त्री	01-09-96

1311	जेसी 202217एम	सुबेदार	पी प्रभाकरन	01-12-96	
1312	जेसी 201329ए	सुबेदार	खमरुल हसन	01-09-96	
1313	जेसी 190833एक्स	सुबेदार	रबीन्द्र प्रसाद जयसवाल	01-10-96	
1314	जेसी 201284एल	सुबेदार	राज सिंह	01-10-96	
1315	जेसी 200612पी	सुबेदार	राजगोपाल राजेन्द्रन	01-12-96	
1316	जेसी 181432एफ	सुबेदार	राजेन्द्र प्रसाद	01-12-96	
1317	जेसी 199427वाई	सुबेदार	राजिन्द्र प्रसाद शर्मा	01-10-96	
1318	जेसी 169045ए	सुबेदार	राजिन्द्र सिंह	01-01-97	
1319	जेसी 221883एम	सुबेदार	राजिन्द्र सिंह	01-09-96	
1320	जेसी 221895एफ	सुबेदार	राम अवतार राध	01-12-96	
1321	जेसी 214116एल	सुबेदार	राम बह्यन सिंह	01-01-97	
1322	जेसी 170772के	सुबेदार	राम बिहारी सिंह	01-11-96	
1323	जेसी 191029एच	सुबेदार	राम चन्द्र	01-11-96	
1324	जेसी 191122के	सुबेदार	राम चन्द्र साहू	01-10-96	
1325	जेसी 217771पी	सुबेदार	राम गोपाल	01-12-96	
1326	जेसी 221881एफ	सुबेदार	राम केदार मौर्या	01-09-96	
1327	जेसी 202529एच	सुबेदार	राम कुमार	01-01-97	
1328	जेसी 202255एच	सुबेदार	राम कुमार स्वामी	01-11-96	
1329	जेसी 200642वाई	सुबेदार	राम लगन पास्वान	01-09-96	
1330	जेसी 176183के	सुबेदार	राम लाल शर्मा	01-10-96	
1331	जेसी 200641डब्ल्यू	सुबेदार	राम लोचन द्विवेदी	01-09-96	
1332	जेसी 221886ए	सुबेदार	राम लोक	01-13-96	
1333	जेसी 202257एन	सुबेदार	राम नाथ प्रसाद महतो	01-01-97	
1334	जेसी 158864के	सुबेदार	राम पाल	01-12-96	
1335	जेसी 201318एन	सुबेदार	राम फाल	01-01-97	
1336	जेसी 190922डब्ल्यू	सुबेदार	राम प्रसाद सिंह	01-11-96	
1337	जेसी 214095ए	सुबेदार	राम प्रताप सिंह वर्मा	01-10-96	
1338	जेसी 197381एच	सुबेदार	राम सहाय बखेल	01-01-97	
1339	जेसी 221923एच	सुबेदार	राम सिलोणे तिवारी	01-01-97	
1340	जेसी 169044एक्स	सुबेदार	राम सिंह	01-11-96	
1341	जेसी 202279एम	सुबेदार	राम सिधा दोहरे	01-10-96	
1342	जेसी 206428एम	सुबेदार	रामदेव सिंह	01-10-96	
1343	जेसी 200588डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चन्द्र	01-10-96	
1344	जेसी 200627के	सुबेदार	रकमेश्वर	01-09-96	
1345	जेसी 197384डब्ल्यू	सुबेदार	रकमेश्वर दयाल	01-11-96	
1346	जेसी 218899एम	सुबेदार	रणजीत कुमार करमाकर	01-09-96	
1347	जेसी 202276वाई	सुबेदार	रणजीत सिंह	01-09-96	
1348	जेसी 195640एफ	सुबेदार	रसाल सिंह राना	01-09-96	
1349	जेसी 206793एन	सुबेदार	रशपाल सिंह	01-11-96	
1350	जेसी 190983डब्ल्यू	सुबेदार	एस विश्वनाथन पिले	01-12-96	
1351	जेसी 214004एक्स	सुबेदार	सहदेव प्रसाद	01-09-96	
1352	जेसी 209275वाई	सुबेदार	सैज्जन सिंह	01-11-96	
1353	जेसी 199417पी	सुबेदार	संपूरण सिंह भाजवा	01-09-96	
1354	जेसी 221894वाई	सुबेदार	सनन्दा कुमार समल	01-12-96	
1355	जेसी 191123एम	सुबेदार	एस सिलुवस्वामी	01-10-96	
1356	जेसी 181439एल	सुबेदार	सत्यपाल सिंह	01-11-96	
1357	जेसी 225142एम	सुबेदार	शैल मौलाली	01-12-96	
1358	जेसी 206435एच	सुबेदार	संभू प्रसाद राध	01-12-96	
1359	जेसी 202221पी	सुबेदार	एस सुरेश रामाजी	01-12-96	
1360	जेसी 199420पी	सुबेदार	एस संगराम	01-09-96	
1361	जेसी 201291एफ	सुबेदार	शिव दयाल पाठक	01-11-96	
1362	जेसी 271900एफ	सुबेदार	शिव राध सिंह	01-01-97	

1365	जेसी 199421ए	सुबेदार	श्री पाल आण्टाल	01-09-96
1364	जेसी 218850डब्ल्यू	सुबेदार	श्रीपती बंसोदे	01-10-96
1365	जेसी 202282एम	सुबेदार	श्याम सुन्दर	01-10-96
1366	जेसी 195628ए	सुबेदार	एस सी तरिघप्पा	01-01-97
1367	जेसी 181430डब्ल्यू	सुबेदार	सीता राम द्विवेदी	01-09-96
1368	जेसी 214098एन	सुबेदार	सोम राज	01-11-96
1369	जेसी 189194पी	सुबेदार	सोमशेखरा फणीरप्पा किट्टूर	01-12-96
1370	जेसी 222179एच	सुबेदार	सुभाष चन्द्र	01-11-96
1371	जेसी 203430वाई	सुबेदार	सुबे सिंह	01-11-96
1372	जेसी 222033पी	सुबेदार	सुभाष कुण्डू	01-01-97
1373	जेसी 211741एफ	सुबेदार	सुबीर कुमार अधिकारी	01-10-96
1374	जेसी 211785वाई	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01-10-96
1375	जेसी 214118डब्ल्यू	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01-01-97
1376	जेसी 190925के	सुबेदार	सुरज प्रकाश शर्मा	01-11-96
1377	जेसी 211805एफ	सुबेदार	सुरम सिंह	01-01-97
1378	जेसी 202539एम	सुबेदार	सुरेश कुमार	01-01-97
1379	जेसी 202271ए	सुबेदार	सुरेश कुमार नायक	01-09-96
1380	जेसी 201315ए	सुबेदार	सुरवे अर्जुन गोपाल राव	01-01-97
1381	जेसी 160239एफ	सुबेदार	ठकर सिंह	01-11-96
1382	जेसी 188960एन	सुबेदार	तंगवेत्तु आर	01-11-96
1383	जेसी 210144ए	सुबेदार	त्रिलोचन	01-11-96
1384	जेसी 206427के	सुबेदार	टी आर बंडी	01-09-96
1385	जेसी 199425एन	सुबेदार	तुलसाराम चौधरी	01-10-96
1386	जेसी 221885एक्स	सुबेदार	उमेश सिंह	01-09-96
1387	जेसी 170762ए	सुबेदार	उमेश चौधरी	01-09-96
1388	जेसी 207307एक्स	सुबेदार	वेद प्रकाश	01-09-96
1389	जेसी 206431एम	सुबेदार	वेद प्रकाश	01-12-96
1390	जेसी 206794डब्ल्यू	सुबेदार	वी कुमार	01-11-96
1391	जेसी 194767एक्स	सुबेदार	विह्वनाथ	01-12-96
1392	जेसी 182389एक्स	सुबेदार	वलायती राम कीर	01-11-96
1393	जेसी 166438एल	सुबेदार	वी षेणुगोपाल	01-11-96
1394	जेसी 198620वाई	सुबेदार	पश पोल	01-12-96
1395	जेसी 202222एक्स	सुबेदार	पशवन्त सिंह	01-12-96
1396	जेसी 153352एन	सुबेदार	योगेन्द्र सिंह	01-12-96
1397	जेसी 199421एक्स	सुबेदार	योगीन्द्र पोल शर्मा	01-09-96
1398	जेसी 165859एफ	सुबेदार	पुसुल किशोर गौतम	01-09-96

सेना शिक्षक कोर

1399	जेसी 173397पी	सुबेदार	आदिनाथ चौधरी	01-10-96
1400	जेसी 152293ए	सुबेदार	अवतार सिंह	01-11-96
1401	जेसी 198473एफ	सुबेदार	बच्चन सिंह बिष्ट	01-09-96
1402	जेसी 152289एक्स	सुबेदार	बैष्णव चरण साहू	01-09-96
1403	जेसी 200555एल	सुबेदार	बसन्त कुमार राना	01-09-96
1404	जेसी 183212डब्ल्यू	सुबेदार	चन्द्र पाल	01-11-96
1405	जेसी 173420एक्स	सुबेदार	डीके भट्टाचार्य	01-09-96
1406	जेसी 198432एक्स	सुबेदार	गोभर सिंह सुरंग	01-12-96
1407	जेसी 105325एक्स	सुबेदार	सुरदेव सिंह लाबा	01-01-97
1408	जेसी 167026डब्ल्यू	सुबेदार	हरमेश सिंह	01-12-96
1409	जेसी 185300एल	सुबेदार	हिमांशु कुमार नाथ	01-01-97
1410	जेसी 170980वाई	सुबेदार	इन्द्र पाल सिंह	01-01-97

1411	जेसी 183286के	सुबेदार	जगदानन्द झा	01-11-96
1412	जेसी 198418वाई	सुबेदार	जगत पाल मिश्रा	01-10-96
1413	जेसी 200570ए	सुबेदार	जगदीश चन्द्र शर्मा	01-11-96
1414	जेसी 152306एम	सुबेदार	जज्जर सिंह	01-12-96
1415	जेसी 178967पी	सुबेदार	काली शरण त्यागी	01-01-97
1416	जेसी 158038के	सुबेदार	के रविन्द्रन	01-01-97
1417	जेसी 180205पी	सुबेदार	करमेल सिंह	01-01-97
1418	जेसी 198397ए	सुबेदार	करतार सिंह	01-09-96
1419	जेसी 217191ए	सुबेदार	केएन दामोदरन नाथर	01-09-96
1420	जेसी 200557डब्ल्यू	सुबेदार	कुलदीप सिंह बंवाईत	01-09-96
1421	जेसी 176625एन	सुबेदार	कुलतार चन्द कटोथ	01-12-96
1422	जेसी 158042एम	सुबेदार	मंगल सिंह बंसाल	01-01-97
1423	जेसी 200556एन	सुबेदार	मात्तुकुटि केएम	01-09-96
1424	जेसी 198395पी	सुबेदार	निजासुद्दीन अहम्मद	01-09-96
1425	जेसी 156188एफ	सुबेदार	राधा कान्त सिंह	01-01-97
1426	जेसी 166797वाई	सुबेदार	रघुबीर सिंह घादवा	01-11-96
1427	जेसी 203361एन	सुबेदार	राम कैलाश सिंह	01-12-96
1428	जेसी 198394एम	सुबेदार	राम नारायण राम	01-09-96
1429	जेसी 194819एन	सुबेदार	राम परषण्णा सिंह	01-12-96
1430	जेसी 195185के	सुबेदार	रामायण प्रसाद	01-10-96
1431	जेसी 183188एल	सुबेदार	रणबीर सिंह	01-09-96
1432	जेसी 160042एल	सुबेदार	अरबीएस सुशवाह	01-10-96
1433	जेसी 152310पी	सुबेदार	रोशन लाल घादवा	01-12-96
1434	जेसी 160044डब्ल्यू	सुबेदार	शतीश कुमार शर्मा	01-11-96
1435	जेसी 217192एच	सुबेदार	शालिक राम एच	01-10-96
1436	जेसी 170994वाई	सुबेदार	शिव नाथ सिंह	01-01-97
1437	जेसी 193348एन	सुबेदार	एस वाई रामण्णा	01-09-96
1438	जेसी 156184एल	सुबेदार	सुभाष सिंह	01-12-96
1439	जेसी 152260पी	सुबेदार	सुर्पा प्रताप शर्मा	01-10-96
1440	जेसी 156196ए	सुबेदार	विश्वभर दयाल शर्मा	01-01-97

रिमाउंट एवं वेटिनरी कोर

1441	आरवी 7628एल	रिसालदार	जी तंकछ्यन	01-11-96
1442	आरवी 7629एन	रिसालदार	जोन कुरुसप्पा	01-12-96
1443	आरवी 7617वाई	रिसालदार	कृष्णा लाल दोहारे	01-12-96
1444	आरवी 7625एक्स	रिसालदार	महावीर सिंह	01-10-96
1445	आरवी 7664डब्ल्यू	रिसालदार	मेघ नाथ	01-01-97
1446	आरवी 7630एच	रिसालदार	राज करन चौहान	01-10-96
1447	आरवी 7642एक्स	रिसालदार	जाहिद हुसैन	01-11-96

आसूचना कोर

1448	जेसी 164868डब्ल्यू	सुबेदार	अमर जंग थापा	01-12-96
1449	जेसी 162948एच	सुबेदार	भगत सिंह कार्की	01-10-96
1450	जेसी 183269एल	सुबेदार	दवी लाल प्रसाद	01-01-97
1451	जेसी 166225एक्स	सुबेदार	गनपत सिंह भट्टी	01-01-97
1452	जेसी 162944वाई	सुबेदार	गोविन्द राजलु सक्कागोपाल	01-11-96
1453	जेसी 162941एल	सुबेदार	खेम सिंह	01-10-96
1454	जेसी 166224पी	सुबेदार	लाखन सिंह	01-01-97
1455	जेसी 179996एल	सुबेदार	एस अंबरसन	01-09-96
1456	जेसी 164869वाई	सुबेदार	शेर सिंह राठौर	01-12-96

कोर आफ सैना पुलिस

1457	जेसी 193322वाई	सुबेदार	बी ए एस एन सिंह	01-10-96
1458	जेसी 191989एफ	सुबेदार	दया सिंह चावरिया	01-12-96
1459	जेसी 193324के	सुबेदार	गणपती एम	01-01-97
1460	जेसी 193325एम	सुबेदार	हवा सिंह	01-01-97
1461	जेसी 193323एफ	सुबेदार	इन्दरजीत सिंह	01-11-96
1462	जेसी 210125पी	सुबेदार	रती राम	01-12-96
1463	जेसी 201591एच	सुबेदार	शतबीर सिंह	01-11-96
1464	जेसी 202664डब्ल्यू	सुबेदार	टी एम पिले	01-11-96
1465	जेसी 192001पी	सुबेदार	तेज बहादुर बुरातौकी	01-12-96
1466	जेसी 193311एम	सुबेदार	टेक सिंह राना	01-11-96
1467	जेसी 217147डब्ल्यू	सुबेदार	उमेश चन्द्र दास	01-09-96

सैना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1468	जेसी 153083एम	सुबेदार	दिलबर सिंह भण्डारी	01-11-96
1469	जेसी 209279पी	सुबेदार	परमानन्द	01-11-96
1470	जेसी 174209पी	सुबेदार	शेर बहादुर	01-09-96

रक्षा एसईसीयुआरआईटीवाई कोर

1471	जेसी 111759एच	सुबेदार	हरी शनार	01-12-96
1472	जेसी 124742एन	सुबेदार	दिला राम	01-12-96
1473	जेसी 124729एक्स	सुबेदार	ज्ञान सिंह	01-01-97
1474	जेसी 138422के	सुबेदार	बंशी माझी	01-01-97
1475	जेसी 101242के	सुबेदार	हुकुमा राम	01-10-96
1476	जेसी 141050पी	सुबेदार	बाबू खान	01-01-97
1478	जेसी 147036एच	सुबेदार	राजमाणिकम	01-01-97
1479	जेसी 125028ए	सुबेदार	हर सिंह	01-01-97

प्रादेशिक सैना

1480	टीजे 2726	सुबेदार	तेजा सिंह	01-09-96
1481	टीजे 2297एल	सुबेदार	गुरधर प्रसाद	01-08-96

अधैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में

आर्मीड कोर

1	जेसी 235706एक्स	नायब रिसालदार	सी सुर्पा नारायण शास्त्री	01-11-96
2	जेसी 189624एन	नायब रिसालदार	गुलदेव सिंह	01-11-96
3	जेसी 235720के	नायब रिसालदार	गुलजार खान	01-01-97
4	जेसी 203202डब्ल्यू	नायब रिसालदार	हरबंस लाल	01-12-96
5	जेसी 236246एन	नायब रिसालदार	हुस्सैन खान	01-01-97
6	जेसी 235603वाई	नायब रिसालदार	जरनाईल सिंह	01-12-96
7	जेसी 225057के	नायब रिसालदार	केशी राम	01-01-97
8	जेसी 236199एफ	नायब रिसालदार	एम सुलैमान खान	01-01-97
9	जेसी 211541एल	नायब रिसालदार	पी काशिनाडार	01-01-97
10	जेसी 219133पी	नायब रिसालदार	सुलैमान खान	01-01-97

रेजिमेंट आफ तोपखाना

11	जेसी 257473एफ	नायब सुबेदार	बचन सिंह	01-04-96
12	जेसी 257403एच	नायब सुबेदार	बलवर्त सिंह	01-04-96
13	जेसी 257374वाई	नायब सुबेदार	भजन लाल	01-03-96
14	जेसी 226855के	नायब सुबेदार	दर्शन सिंह	01-03-96
15	जेसी 257653के	नायब सुबेदार	गिरेन्द्र सिंह	01-03-96
16	जेसी 255616एक्स	नायब सुबेदार	गुरनाम सिंह	01-02-96
17	जेसी 226732एक्स	नायब सुबेदार	जगदेव सिंह	01-07-96
18	जेसी 225523एन	नायब सुबेदार	जगदीश चन्द्र	01-07-96
19	जेसी 206494पी	नायब सुबेदार	जैषी राम	01-03-96
20	जेसी 255792एफ	नायब सुबेदार	जन्स राज	01-04-96
21	जेसी 256282ए	नायब सुबेदार	जोगिन्द्र सिंह	01-05-96
22	जेसी 226331एच	नायब सुबेदार	जोहरी सिंह सुशवाह	01-02-96
23	जेसी 257390डब्ल्यू	नायब सुबेदार	के शंकरन मोहनन	01-06-96
24	जेसी 255914वाई	नायब सुबेदार	कृष्णा बहादुर गुरुंग	01-04-96
25	जेसी 257283पी	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01-05-96
26	जेसी 225405ए	नायब सुबेदार	लालकाजी तमग	01-03-96
27	जेसी 226076एफ	नायब सुबेदार	मदन सिंह	01-03-96
28	जेसी 186429एल	नायब सुबेदार	मणी बी	01-02-96
29	जेसी 223650के	नायब सुबेदार	मनजीत सिंह	01-07-96
30	जेसी 256895ए	नायब सुबेदार	मोहन सिंह गुरुंग	01-05-96
31	जेसी 226409एल	नायब सुबेदार	नैद राम	01-04-96
32	जेसी 256627डब्ल्यू	नायब सुबेदार	पारस राम चंदेल	01-06-96
33	जेसी 257106पी	नायब सुबेदार	प्रकाश चन्द्र	01-03-96
34	जेसी 257017पी	नायब सुबेदार	राजबीर सिंह	01-08-95
35	जेसी 256652पी	नायब सुबेदार	रक्षा पाल सिंह	01-05-96
36	जेसी 223311के	नायब सुबेदार	राम कुमार घादव	01-08-96
37	जेसी 255341पी	नायब सुबेदार	राम स्वरुप	01-08-96
38	जेसी 226042एम	नायब सुबेदार	रमेश सिंह चौहान	01-04-96
39	जेसी 226627एफ	नायब सुबेदार	रत्ननाम सिंह	01-06-96
40	जेसी 202303एक्स	नायब सुबेदार	शेर सिंह	01-06-96

41	जेसी 224752एम	नायब सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह	01-04-96
42	जेसी 206201वाई	नायब सुबेदार	सुरेश घादव	01-05-96
43	जेसी 256620एम	नायब सुबेदार	वीपीपी राजेन्द्रन	01-08-96

वायू रक्षा तोपखाना

44	जेसी 223923एफ	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01-03-96
45	जेसी 256369एफ	नायब सुबेदार	गौरंगा चन्द्र सरकार	01-08-96
46	जेसी 200211एम	नायब सुबेदार	लाभू राम	01-02-96
47	जेसी 256362एक्स	नायब सुबेदार	महेन्द्र पाल सिंह	01-08-96
48	जेसी 199132एच	नायब सुबेदार	एन एन पाण्डे	01-02-96
49	जेसी 226655एन	नायब सुबेदार	राम प्रसाद	01-03-96
50	जेसी 256149वाई	नायब सुबेदार	राम प्रताप	01-02-96
51	जेसी 226510एच	नायब सुबेदार	रणबीर सिंह	01-05-96

मद्रास इन्जिनियर ग्रुप

52	जेसी 225778एन	नायब सुबेदार	बी वीरास्वामी	01-12-96
53	जेसी 305073पी	नायब सुबेदार	सी अलक्साण्डर	01-09-96
54	जेसी 207535ए	नायब सुबेदार	चिन्नराज	01-10-96
55	जेसी 308165पी	नायब सुबेदार	धनशेखरन	01-10-96
56	जेसी 219295ए	नायब सुबेदार	के एलुमलाई	01-11-96
57	जेसी 225777एल	नायब सुबेदार	एम वेन्कटेशा	01-10-96
58	जेसी 219301एच	नायब सुबेदार	नन्नायणन नायर के पी	01-12-96
59	जेसी 210346एफ	नायब सुबेदार	पटान सुभणी खान	01-11-96

बंगाल इन्जिनियर ग्रुप

60	जेसी 209539पी	नायब सुबेदार	अमरिक सिंह	01-12-96
61	जेसी 140875एन	नायब सुबेदार	ए गीवर्गीस जोन	01-01-97
62	जेसी 191519डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बठितर सिंह	01-09-96
63	जेसी 210648एन	नायब सुबेदार	बदरी सिंह	01-11-96
64	जेसी 202904एच	नायब सुबेदार	बकशीश सिंह	01-12-96
65	जेसी 325618एच	नायब सुबेदार	बी रामचन्द्र	01-01-97
66	जेसी 209474एम	नायब सुबेदार	बलदेव सिंह	01-09-96
67	जेसी 191392वाई	नायब सुबेदार	चन्द्र देव सिंह	01-09-96
68	जेसी 191521एन	नायब सुबेदार	जगत राम	01-11-96
69	जेसी 210642ए	नायब सुबेदार	कुलदीप चन्द	01-09-96
70	जेसी 226981डब्ल्यू	नायब सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01-11-96
71	जेसी 325898एफ	नायब सुबेदार	ऑंकार चन्द अवस्थी	01-12-96
72	जेसी 210664एम	नायब सुबेदार	सत्या नैद	01-12-96
73	जेसी 325492एन	नायब सुबेदार	श्री गोविंद पाण्डे	01-10-96

बंबई इन्जिनियर ग्रुप

74	जेसी 347076के	नायब सुबेदार	बनारसी लाल	01-12-96
75	जेसी 347120एच	नायब सुबेदार	दिलवर सिंह	01-12-96
76	जेसी 219621एक्स	नायब सुबेदार	केवल कृष्णन सिंह	01-11-96
कोर आफ सिग्नल				
77	जेसी 367811डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अमर सिंह	01-09-96

78	जेसी 367983एल	नायब सुबेदार	अमर सिंह बैरागी	01-10-96	
79	जेसी 368206पी	नायब सुबेदार	बलजीत सिंह	01-11-96	
80	जेसी 368818एम	नायब सुबेदार	भंवर सिंह	01-10-96	
81	जेसी 367457एम	नायब सुबेदार	भूमी चन्द	01-09-96	
82	जेसी 368019डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बिहारी लाल तिवारी	01-12-96	
83	जेसी 368841ए	नायब सुबेदार	बीरैन्द्र नाथ बिश्वास	01-09-96	
84	जेसी 368837एक्स	नायब सुबेदार	बीरैन्द्र नाथ दत्ता	01-10-96	
85	जेसी 368478पी	नायब सुबेदार	चरनजीत सिंह	01-12-96	
86	जेसी 368018एन	नायब सुबेदार	छोद राम कुम्हार	01-01-97	
87	जेसी 368616एल	नायब सुबेदार	टी एम पूवया	01-01-97	
88	जेसी 368046ए	नायब सुबेदार	गजाधर प्रसाद	01-10-96	
89	जेसी 223820एच	नायब सुबेदार	हरभजन सिंह	01-11-96	
90	जेसी 368213एल	नायब सुबेदार	हरीपाल सिंह	01-01-97	
91	जेसी 220439के	नायब सुबेदार	जगन नाथ प्रसाद शाक्या	01-01-97	
92	जेसी 221331वाई	नायब सुबेदार	जय नन्दाधन राय	01-01-97	01-01-97
93	जेसी 221327डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जनक किशोर सिंह	01-12-96	
94	जेसी 367545एच	नायब सुबेदार	जोगिन्द्र सिंह	01-10-96	
95	जेसी 368009एम	नायब सुबेदार	कामता प्रसाद बच्चन सिंह	01-01-97	01-01-97
96	जेसी 221317एम	नायब सुबेदार	कनाई लाल गोवला	01-07-96	
97	जेसी 367194वाई	नायब सुबेदार	केश्मीर सिंह	01-09-96	
98	जेसी 369122एन	नायब सुबेदार	लाला राम शाक्या	01-11-96	
99	जेसी 367554के	नायब सुबेदार	मैना सिन्हा	01-09-96	
100	जेसी 368015ए	नायब सुबेदार	मेघनाथ तिवारी	01-12-96	
101	जेसी 368839एच	नायब सुबेदार	मोती राम जाट	01-09-96	
102	जेसी 367838एन	नायब सुबेदार	नरीन्द्र सिंह	01-01-97	
103	जेसी 212107एल	नायब सुबेदार	एन पाण्डे	01-10-96	
104	जेसी 368012एच	नायब सुबेदार	निर्मल कुमार पोल	01-11-96	01-11-96
105	जेसी 368618डब्ल्यू	नायब सुबेदार	परमजीत सिंह	01-01-97	
106	जेसी 368022डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रताप सिंह	01-01-97	01-01-97
107	जेसी 367195एफ	नायब सुबेदार	राम धरी सिंह	01-11-96	
108	जेसी 368919ए	नायब सुबेदार	रंगस्वामी सेन्नकेशवन	01-10-96	
109	जेसी 369301एम	नायब सुबेदार	शेर सिंह घादव	01-12-96	
110	जेसी 221295वाई	नायब सुबेदार	उमार्शंकर शर्मा	01-09-96	
111	जेसी 368904एक्स	नायब सुबेदार	विक्रमन नायर आर	01-12-96	01-12-96
	पंजाब रेजिमेंट				
112	जेसी 428090डब्ल्यू	नायब सुबेदार	चरण सिंह	01-01-97	
113	जेसी 212477एल	नायब सुबेदार	हरदयाल सिंह	01-01-97	01-01-97
114	जेसी 212490पी	नायब सुबेदार	जगत सिंह	01-01-97	
115	जेसी 201792एफ	नायब सुबेदार	सुरीन्द्र मोहन	01-12-96	
	मेनेडिसेंस				
116	जेसी 448024पी	नायब सुबेदार	धुरा राम	01-01-97	
117	जेसी 448075एच	नायब सुबेदार	नधु राम	01-11-96	
	मरात्ता लाईट इन्फेन्ट्री				
118	जेसी 216770ए	नायब सुबेदार	चौधरी महादेव	01-09-96	
119	जेसी 220917एच	नायब सुबेदार	घेल्लप्पा पाटील	01-01-97	

राजपुताना राईफल

120 जेसी 218462वाई नायब सुबेदार महावीर प्रसाद 01-10-96

राजपुत रेजिमेंट

121 जेसी 478277वाई नायब सुबेदार दुर्गा सिंह 01-11-96

122 जेसी 219696पी नायब सुबेदार गौरी सहाये 01-09-96

123 जेसी 216822एल नायब सुबेदार किशन सिंह राजपुत 01-11-96

124 जेसी 205889के नायब सुबेदार राम अवतार सिंह 01-01-97

125 जेसी 204059एफ नायब सुबेदार उदय भान सिंह 01-11-96
जाट रेजिमेंट

126 जेसी 488249के नायब सुबेदार हरपाल सिंह 01-09-96

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

127 जेसी 221001ए नायब सुबेदार रेशम सिंह 01-12-96
डोगरा रेजिमेंट

128 जेसी 518005के नायब सुबेदार हंस राज 01-09-96

129 जेसी 205188एन नायब सुबेदार जगत सिंह 01-11-96

130 जेसी 222721एन नायब सुबेदार जगदीश कुमार 01-01-97

131 जेसी 518324डब्ल्यू नायब सुबेदार केवल कृषन 01-12-96

132 जेसी 518151के नायब सुबेदार रघुपाल सिंह 01-11-96

133 जेसी 518283एक्स नायब सुबेदार रमेल चन्द्र चौहान 01-01-97

134 जेसी 518199एक्स नायब सुबेदार रण सिंह 01-09-96

135 जेसी 518314एम नायब सुबेदार सुदर्शन कुमार 01-12-96

गडवाल राईफल

136 जेसी 199275एच नायब सुबेदार उत्तर सिंह नेगी 01-12-96

137 जेसी 528042एल नायब सुबेदार ग्यान सिंह दानु 01-12-96

138 जेसी 218306पी नायब सुबेदार जगदीश सिंह सुसाई 01-11-96

139 जेसी 218014एम नायब सुबेदार मनबर सिंह 01-11-96

140 जेसी 216595डब्ल्यू नायब सुबेदार मोहन सिंह 01-11-96

141 जेसी 224249पी नायब सुबेदार राम प्रसाद पुरोहित 01-12-96
कुमाऊ रेजिमेंट

142 जेसी 216897एच नायब सुबेदार जीत सिंह 01-01-97
असाम रेजिमेंट

143 जेसी 548037एफ नायब सुबेदार कमल सिंह पठानिया 01-09-96

144 जेसी 205238एन नायब सुबेदार एल दारलॉग 01-01-97

145 जेसी 548018एक्स नायब सुबेदार एम सी मोस्वामी 01-01-97

146	जेसी 282833एन बिहार रेजिमेंट	नायब सुबेदार	नीरु राम	01-12-96	
147	जेसी 224582एन	नायब सुबेदार	तरुन कुमार मोण्डल	01-10-96	
148	जेसी 219770एल	नायब सुबेदार	भगवान चन्द्र बिश्वास	01-11-96	
149	जेसी 558071पी	नायब सुबेदार	इन्द्रजीत मिश्रा	01-10-96	
150	जेसी 218037एन	नायब सुबेदार	नन्दन सिंह	01-12-96	
जम्मू एवं कश्मीर राईफलस					
151	जेसी 211315एन	नायब सुबेदार	जी सुस्तफा	01-09-96	
152	जेसी 218361एल	नायब सुबेदार	होशियार सिंह		01-01-97
153	जेसी 210368पी	नायब सुबेदार	मदन लाल	01-01-97	
154	जेसी 570100पी	नायब सुबेदार	राजकुमार	01-01-97	
1 गोरखा राईफलस					
155	जेसी 222827ए	नायब सुबेदार	भक्ता राम गुरंग	01-01-97	
156	जेसी 602011एच	नायब सुबेदार	हरी प्रसाद थापा	01-12-96	
157	जेसी 221062एक्स	नायब सुबेदार	जगत बहादुर पुन	01-01-97	
158	जेसी 602020के	नायब सुबेदार	सर्का बहादुर राना	01-12-96	
159	जेसी 602008एच	नायब सुबेदार	पदम बहादुर गुरंग	01-12-96	
160	जेसी 602055ए	नायब सुबेदार	पूर्ण बहादुर गुरंग	01-12-96	
161	जेसी 224316पी	नायब सुबेदार	शेर जंग गुरंग	01-01-97	
4 गोरखा राईफलस					
162	जेसी 196660एफ घांत्रिक इन्फेन्ट्री रेजिमेंट	नायब सुबेदार	बेम बहादुर थापा		01-11-96
163	जेसी 518127वाई	नायब सुबेदार	भारत उपाध्याय	01-01-97	
164	जेसी 208354एफ	नायब सुबेदार	जगपाल सिंह		01-09-96
165	जेसी 418148पी सैना सेवा कोर(पूर्ति)	नायब सुबेदार	साधु सिंह	01-01-97	
166	जेसी 640093पी	नायब सुबेदार	भीम सिंह राजपुत	01-10-96	
167	जेसी 640027एक्स सैना सेवा कोर(घांत्रिक परिवहण)	नायब सुबेदार	विश्वनाथन नायर रे		01-10-96
168	जेसी 660483पी	नायब सुबेदार	गबर सिंह	01-09-96	
169	जेसी 660520वाई	नायब सुबेदार	ज्ञान सिंह	01-12-96	
170	जेसी 660499एम	नायब सुबेदार	जोध सिंह वालदिया		01-12-96
171	जेसी 660157एफ	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश राम		01-09-96
172	जेसी 660444एल	नायब सुबेदार	राम किशन		01-11-96

सैना चिकित्सा कोर

173	जेसी 691010एम	नायब सुबेदार	बिइव नाथ राम	01-09-96	
174	जेसी 690972के	नायब सुबेदार	चन्द्रकान्त	01-09-96	
175	जेसी 691008पी	नायब सुबेदार	होशिघार सिंह	01-11-96	
176	जेसी 691030ए	नायब सुबेदार	ललन प्रसाद राय	01-10-96	
177	जेसी 691033एम	नायब सुबेदार	मदन मोहन पालाई		01-11-96
178	जेसी 691011पी	नायब सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01-09-96	
179	जेसी 691012एक्स	नायब सुबेदार	मोहमद इलियास	01-09-96	
180	जेसी 691032एल	नायब सुबेदार	रामकीरपाल सिंह	01-11-96	
181	जेसी 690979एन	नायब सुबेदार	सत पाल		01-12-96
182	जेसी 690919वाई	नायब सुबेदार	शेर सिंह	01-09-96	

सैना औईनेस कोर

183	जेसी 221609एल	नायब सुबेदार	दौलत राम	01-11-96	
184	जेसी 722058के	नायब सुबेदार	राजेन्द्र साहनी	01-11-96	
185	जेसी 214458वाई	नायब सुबेदार	सुधीर चन्द्र तालुकदार	01-11-96	

वैद्युत एवं घांत्रिक इन्जिनियर

186	जेसी 225129एच	नायब सुबेदार	धुपेन्द्रा सिंह तंवर	01-12-96	
187	जेसी 224107एक्स	नायब सुबेदार	डी जी बाघ	01-09-96	
188	जेसी 747127ए	नायब सुबेदार	गोपीनाथन नायर एमके	01-01-97	
189	जेसी 747094वाई	नायब सुबेदार	सुरदपाल सिंह सन्डू	01-01-97	
190	जेसी 749013एन	नायब सुबेदार	नानु राम जाट	01-09-96	
191	जेसी 749217ए	नायब सुबेदार	नानु राम नेत्र	01-11-96	
192	जेसी 748575वाई	नायब सुबेदार	एस सायबप्पा	01-01-97	
193	जेसी 748053एच	नायब सुबेदार	शेश नरायन मिश्र	01-12-96	
194	जेसी 747027पी	नायब सुबेदार	सुभाष चन्द्र	01-10-96	
195	जेसी 749020के	नायब सुबेदार	सुनिल कुमार डे	01-10-96	
196	जेसी 749212एफ	नायब सुबेदार	उदय सिंह चौहान		01-11-96

रिमाउंट एवं वेटिनरी कोर

197	जेसी 797012एच	नायब रिमालदार	जगदेव सिंह	01-11-96	
-----	---------------	---------------	------------	----------	--

आसूचना कोर

198	जेसी 810096एच	नायब सुबेदार	कमल बहादुर आले		01-11-96
-----	---------------	--------------	----------------	--	----------

कोर आफ सैना पुलिस

199	जेसी 818043वाई	नायब सुबेदार	बिगु नाथ सिंह	01-11-96	
200	जेसी 219953एफ	नायब सुबेदार	राज बल जमादार	01-01-97	
201	जेसी 214552एच	नायब सुबेदार	राम नन्दायन त्रिपाठी	01-12-96	
202	जेसी 818064पी	नायब सुबेदार	तुलसी राम	01-09-96	

सैना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

203	जेसी 211813ए	नायब सुबेदार	टेक बहादुर राना	01-01-97
-----	--------------	--------------	-----------------	----------

सैना डाक सेवा

204	जेसी 834099एम	नायब सुबेदार	शंकर सिंह	01-12-96
-----	---------------	--------------	-----------	----------

रक्षा सुरक्षा कोर

205	जेसी 840304एफ	नायब सुबेदार	औमपाल सिंह	01-12-96
206	जेसी 225973एल	नायब सुबेदार	जय चन्द्र	01-12-96
207	जेसी 840415वाई	नायब सुबेदार	होशिघार सिंह	01-01-97
208	जेसी 199228के	नायब सुबेदार	मंगे राम	01-10-96
209	जेसी 211837के	नायब सुबेदार	पी गनेशन	01-01-97
210	जेसी 840391ए	नायब सुबेदार	समशेर सिंह	11-11-96
211	जेसी 217592पी	नायब सुबेदार	गमाली सी	01-01-97

[सं. ए/43432/आर डी 97/ए जी/सी डब्ल्यू 2]

एम. एस. सोखण्डा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 2(E).—On the eve of Republic Day 1997, the President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs on retirement under Para 179 of Regulations for the Army, 1987, with effect from the dates shown against their names :—

TO BE HONORARY CAPTAINS

ARMoured CORPS

1	JC 122343L	RIS MAJ & HONY LT	AJEET SINGH	01-12-96
2	JC 141677P	RIS MAJ & HONY LT	GIAN CHAND PARIHAR	01-11-96
3	JC 128219A	RIS MAJ & HONY LT	KHIM SINGH	01-09-96
4	JC 119300L	RIS MAJ & HONY LT	MAJOR SINGH	01-09-96
5	JC 127801A	RIS MAJ & HONY LT	RAM KISHAN	01-10-96
6	JC 163585H	RIS & HONY LT	BIJENDRA SINGH	01-09-96
7	JC 203258H	RIS & HONY LT	DALIP SINGH	01-09-96
8	JC 145262X	RIS & HONY LT	FATEH SINGH	01-10-96
9	JC 168682K	RIS & HONY LT	JAI CHAND KADYAN	01-12-96
10	JC 177481Y	RIS & HONY LT	MADAN PAL SINGH	01-10-96
11	JC 200810M	RIS & HONY LT	SANKAR SINGH	01-10-96
12	JC 200881P	RIS & HONY LT	SARVJIT SINGH	01-09-96
13	JC 134540A	RIS & HONY LT	VIJAI SINGH RATHORE	01-12-96

REGIMENT OF ARTILLERY

14	JC 136056M	SUB MAJ & HONY LT	BASALINGAPPA B. BARAGALI	01-11-96
15	JC 119816N	SUB MAJ & HONY LT	BHIM BAHADUR RAI	01-01-97
16	JC 136199M	SUB MAJ & HONY LT	DAN BAHADUR SINGH	01-01-97
17	JC 118388H	SUB MAJ & HONY LT	DAYA NAND	01-11-97
18	JC 118243H	SUB MAJ & HONY LT	GABAR SINGH RAWAT	01-09-97
19	JC 119884F	SUB MAJ & HONY LT	HARBHAJAN SINGH	01-12-96
20	JC 124461F	SUB MAJ & HONY LT	KALI CHARAN	01-10-96
21	JC 128843Y	SUB MAJ & HONY LT	KOLLAM PARAMBIL V. MATHEW	01-01-97
22	JC 130500F	SUB MAJ & HONY LT	LAKHA SINGH	01-01-97
23	JC 123520M	SUB MAJ & HONY LT	LAXMIDATT PANT	01-01-97
24	JC 128649K	SUB MAJ & HONY LT	MALKIAT SINGH	01-01-97
25	JC 133994F	SUB MAJ & HONY LT	MAN SINGH	01-01-97
26	JC 135029L	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SINGH JAKHMI	01-01-97
27	JC 144291A	SUB MAJ & HONY LT	MANGIT RAM	01-01-97
28	JC 112355M	SUB MAJ & HONY LT	MANHARI PUTHIYA V. GOPALAN	01-10-96
29	JC 109021M	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-09-96
30	JC 127823Y	SUB MAJ & HONY LT	NIRANJAN SINGH	01-09-96
31	JC 123791K	SUB MAJ & HONY LT	PRAKASH CHAND	01-09-96
32	JC 135145Y	SUB MAJ & HONY LT	PARMESHWAR	01-09-96
33	JC 128831K	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	01-10-96
34	JC 143897X	SUB MAJ & HONY LT	RAJ BAKSH SINGH	01-10-96
35	JC 134671L	SUB MAJ & HONY LT	RAJ DEO SINGH	01-10-96
36	JC 118281Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJE RAM	01-10-96
37	JC 119902Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA PRASAD YADAV	01-01-97
38	JC 152016Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM CHANDER	01-12-96
39	JC 124080W	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN SINGH	01-09-96
40	JC 128196K	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN SINGH	01-01-97
41	JC 139622A	SUB MAJ & HONY LT	ROOP RAM	01-01-97

42	JC 127020M	SUB MAJ & HONY LT	SEWA DASS	01-12-96
43	JC 130734L	SUB MAJ & HONY LT	SHANGARA SINGH	01-10-96
44	JC 144750W	SUB MAJ & HONY LT	SHIV SINGH	01-01-97
45	JC 132954N	SUB MAJ & HONY LT	SHIVAJI GAIKWAD	01-09-96
46	JC 136211H	SUB MAJ & HONY LT	SHRI VIKRAMA SINGH	01-01-97
47	JC 144295W	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM LAL KAIRY	01-12-96
48	JC 133801Y	SUB MAJ & HONY LT	SURAT SINGH	01-09-96
49	JC 123679X	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH	01-10-96
50	JC 116590N	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK SINGH	01-09-96
51	JC 132955W	SUB MAJ & HONY LT	TV JOY	01-12-96
52	JC 118277W	SUB MAJ & HONY LT	UMMED SINGH	01-01-97
53	JC 108744P	SUB MAJ & HONY LT	VASANT RAWOOL	01-11-96
54	JC 106680W	SUB MAJ & HONY LT	VIJAI SINGH	01-10-96
55	JC 168431A	SUB & HONY LT	AMARJEET SINGH	01-01-97
56	JC 155548A	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-10-96
57	JC 185350W	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-01-97
58	JC 193600W	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-11-96
59	JC 148672Y	SUB & HONY LT	AMIRTHAM PETER	01-11-96
60	JC 185365Y	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	01-11-96
61	JC 197509H	SUB & HONY LT	BALVIR SINGH	01-09-96
62	JC 169912Y	SUB & HONY LT	BHUP NARAIN SINGH	01-12-96
63	JC 183237H	SUB & HONY LT	BRAHMA NAND SHARMA	01-11-96
64	JC 197493H	SUB & HONY LT	CHANDER MOHAN	01-10-96
65	JC 183227Y	SUB & HONY LT	DALJIT SINGH NANGLIA	01-09-96
66	JC 183253A	SUB & HONY LT	DHARMENDRA SINGH	01-12-96
67	JC 185357A	SUB & HONY LT	GIAN CHAND	01-97

68	JC 203499H	SUB & HONY LT	GURBACHAN SINGH	01-01-97
69	JC 174001M	SUB & HONY LT	GURHAR BHAJAN SINGH MANIHANI	01-09-96
70	JC 147789L	SUB & HONY LT	HARDIAL SINGH	01-01-97
71	JC 152060Y	SUB & HONY LT	HARI SINGH	01-10-96
72	JC 177892L	SUB & HONY LT	JAG RAM	01-10-96
73	JC 190537M	SUB & HONY LT	JAGANNATH CHAVAN	01-09-96
74	JC 129068Y	SUB & HONY LT	JAGDISH RAI	01-09-96
75	JC 175540P	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-09-96
76	JC 129768M	SUB & HONY LT	KABAL SINGH	01-11-96
77	JC 155202W	SUB & HONY LT	KARTAR SINGH RANA	01-11-96
78	JC 179196M	SUB & HONY LT	KOOVAL NARAYANAN	01-09-96
79	JC 105355P	SUB & HONY LT	LAL MALL	01-01-97
80	JC 100423N	SUB & HONY LT	MEHAR SINGH	01-11-96
81	JC 197469H	SUB & HONY LT	NANDAN SINGH	01-01-97
82	JC 140072W	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH CHAND	01-10-96
83	JC 103252X	SUB & HONY LT	PARTAP SINGH TANWAR	01-12-96
84	JC 202353H	SUB & HONY LT	RADHEY SHYAM YADAVA	01-01-97
85	JC 163000K	SUB & HONY LT	RAJARAM BACHARAM SHINDE	01-10-96
86	JC 139340N	SUB & HONY LT	RAM SHANKAR SINGH	01-11-96
87	JC 179189W	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH DHALIWAL	01-09-96
88	JC 105356X	SUB & HONY LT	RASHPAL SINGH	01-01-97
89	JC 177608M	SUB & HONY LT	SARANJIT SINGH	01-01-97
90	JC 166990L	SUB & HONY LT	SATBIR SINGH CHAUHAN	01-10-96
91	JC 169687P	SUB & HONY LT	SUBRAMANIAN KUPPAN	01-12-96
92	JC 201263P	SUB & HONY LT	SUKHDEV CHAND DHIMAN	01-11-96
93	JC 193308P	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-12-96

94	JC 203585W	SUB & HONY LT	SURAJ BHAN	01-11-96
95	JC 169887L	SUB & HONY LT	SURYAPAL	01-09-96
CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY				
96	JC 124503Y	SUB MAJ & HONY LT	HARDUM SINGH	01-09-96
97	JC 124040P	SUB MAJ & HONY LT	KALARI KANDI SIVANANDAN	01-10-96
98	JC 135152P	SUB MAJ & HONY LT	KORAMBETH MUKUNDAN	01-10-96
99	JC 129856H	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-01-97
100	JC 121436N	SUB MAJ & HONY LT	UDAI SINGH TANWAR	01-10-96
101	JC 197501W	SUB & HONY LT	BABU LAL TOMER	01-10-96
102	JC 170759P	SUB & HONY LT	CHAMKAURPAL SINGH BHULLAR	01-09-96
103	JC 217550P	SUB & HONY LT	DHEER SINGH	01-12-96
104	JC 105345L	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-11-96
105	JC 179187L	SUB & HONY LT	KUMAR GURUNG	01-09-96
106	JC 174143K	SUB & HONY LT	RAM RATTAN	01-10-96
107	JC 183226W	SUB & HONY LT	REWET SINGH	01-01-97
108	JC 106607L	SUB & HONY LT	SUNDER SINGH	01-12-96
109	JC 201734X	SUB & HONY LT	TRILOK SINGH	01-10-96

MADRAS ENGINEER GROUP

110	JC 138992A	SUB MAJ & HONY LT	AROKIAM ARULANDU	01-12-96
111	JC 120667M	SUB MAJ & HONY LT	B MANI	01-12-96
112	JC 120601Y	SUB MAJ & HONY LT	GABRIEL ISAAC	01-10-96
113	JC 125997A	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNAN LAKSHMANAN	01-11-96
114	JC 133424L	SUB MAJ & HONY LT	MADARI VELAYUDHAN	01-12-96
115	JC 120671P	SUB MAJ & HONY LT	MAPRANATHKARAN OUSEPH GEORGE	01-12-96

116	JC 98269N	SUB MAJ & HONY LT	MARIAPPAN RADHA	01-09-96
117	JC 127287F	SUB MAJ & HONY LT	RAMAREDDY VASUDEVA REDDY	01-10-96
118	JC 144109P	SUB MAJ & HONY LT	RAMASAMY NATESAN	01-10-96
119	JC 128674H	SUB MAJ & HONY LT	RATHINAM KALAIMANI	01-11-96
120	JC 96447M	SUB MAJ & HONY LT	VANCHIPRAYIL SANKARAN MOHANA KUMAR	01-10-96
121	JC 129013P	SUB & HONY LT	GOPINADHAN VIJAYAN	01-11-96
122	JC 159588Y	SUB & HONY LT	KARI GOWDA CHOWDE GOWDA	01-10-96
123	JC 162390L	SUB & HONY LT	KUTTAN PILLAI SREEDHARAN	01-11-96
124	JC 126323P	SUB & HONY LT	PARASURAMAN NATARAJAN	01-09-96
125	JC 191299X	SUB & HONY LT	RAMAN VARATHARAJAN	01-01-97
126	JC 159636N	SUB & HONY LT	THIRUCHELVAM ANTHONYSAMY	01-01-97
127	JC 156567X	SUB & HONY LT	VEDAGIRI CHANDRASEKERAN	01-01-97
BENGAL ENGINEER GROUP				
128	JC 92684Y	SUB MAJ & HONY LT	AKHTAR HUSEN	01-09-96
129	JC 123560N	SUB MAJ & HONY LT	AMRIK SINGH BAIDWAN	01-10-96
130	JC 126036L	SUB MAJ & HONY LT	AZAD SINGH	01-10-96
131	JC 99947P	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV SINGH	01-12-96
132	JC 122808A	SUB MAJ & HONY LT	DALBIR SINGH	01-01-97
133	JC 099946M	SUB MAJ & HONY LT	DARA SINGH	01-10-96
134	JC 91743N	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH HANS	01-09-96
135	JC 142244K	SUB MAJ & HONY LT	GURDEV SINGH	01-09-96
136	JC 159693P	SUB MAJ & HONY LT	GURNAM SINGH	01-01-97
137	JC 156654L	SUB MAJ & HONY LT	IQBAL SINGH	01-12-96
138	JC 125733N	SUB MAJ & HONY LT	KONDRAM RAJU RAJA REDDY	01-10-96
139	JC 105526L	SUB MAJ & HONY LT	LILA DHAR CHIMRIA	01-01-97

क्र.सं.	पद	नाम	दिनांक
140	JC 156452K	SUB MAJ & MAN SINGH HONY LT	01-12-96
141	JC 93193P	SUB MAJ & MOHAN LAL HONY LT	01-11-96
142	JC 142245M	SUB MAJ & NARAYAN SINGH HONY LT	01-09-96
143	JC 65639H	SUB MAJ & NARAYANAN AYYAZHIYON HONY LT	01-09-96
144	JC 125753M	SUB MAJ & NIZAMUDDIN KHAN HONY LT	01-10-96
145	JC 125786X	SUB MAJ & PARMA NAND HONY LT	01-10-96
146	JC 154142A	SUB MAJ & PREM SINGH HONY LT	01-11-96
147	JC 93670L	SUB MAJ & RADHA KRISHNAM HONY LT	01-12-96
148	JC 99943Y	SUB MAJ & RAM DARAS HONY LT	01-11-96
149	JC 123566P	SUB MAJ & RAM KHILIARI HONY LT	01-11-96
150	JC 125754P	SUB MAJ & RAM KISHAN HONY LT	01-12-96
151	JC 156637L	SUB MAJ & RAM PRASAD SINGH HONY LT	01-12-96
152	JC 159751M	SUB MAJ & RAM SARAN SINGH HONY LT	01-01-97
153	JC 126060F	SUB MAJ & SAKANDAR SINGH PAN HONY LT	01-01-97
154	JC 123610N	SUB MAJ & SAMINDER SINGH HONY LT	01-10-96
155	JC 149903Y	SUB MAJ & SATNARAIN SINGH HONY LT	01-12-96
156	JC 126285K	SUB MAJ & SUKHDEV SINGH HONY LT	01-12-96
157	JC 01496P	SUB MAJ & SETHANBAI RAJAN HONY LT	01-12-96
158	JC 156469X	SUB MAJ & SUDAJIVIR SINGH HONY LT	01-01-97
159	JC 207690F	SUB MAJ & SURESH AROOKIAM SABASTIAN HONY LT	01-09-96
160	JC 153765X	SUB MAJ & SURESH DUBDU UMAPATHY SASTRY HONY LT	01-11-96
161	JC 191443F	SUB MAJ & SURESH SINGH HONY LT	01-01-97
162	JC 166033Y	SUB MAJ & MOTA RAM THAPA HONY LT	01-01-97
163	JC 133640Y	SUB MAJ & SURESH PAWAR HONY LT	01-12-96
164	JC 139783P	SUB MAJ & SURESH SINGH HONY LT	01-01-97

BOMBAY ENGINEER GROUP

165	JC 138840Y	SUB MAJ & HONY LT	ATMARAM CHANDE	01-11-96
166	JC 163178A	SUB MAJ & HONY LT	DALBIR SINGH	01-01-97
167	JC 138829A	SUB MAJ & HONY LT	DEEPAK SINGH	01-10-96
168	JC 126329W	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-12-96
169	JC 138820L	SUB MAJ & HONY LT	ONKAR SINGH	01-11-96
170	JC 159493Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM MEHAR	01-12-96
171	JC 138844P	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH	01-11-96
172	JC 191611P	SUB & HONY LT	AJIT SINGH	01-01-97
173	JC 191706P	SUB & HONY LT	GOVIND PRASAD TRIPATHI	01-01-97
174	JC 170448M	SUB & HONY LT	RAMESH SHINDE	01-12-96
175	JC 163137W	SUB & HONY LT	SHIVAJI MORE	01-10-96
176	JC 177059P	SUB & HONY LT	SWINDER SINGH	01-10-96
177	JC 159946Y	SUB & HONY LT	TUKARAM BABU CHIKANE	01-11-96
178	JC 160389X	SUB & HONY LT	VARGHESE CM	01-12-96
CORPS OF SIGNALS				
179	JC 154224H	SUB MAJ & HONY LT	BALDEV DATT	01-11-96
180	JC 102593L	SUB MAJ & HONY LT	BAIRAJ SINGH RANUAT	01-12-96
181	JC 134202K	SUB MAJ & HONY LT	BETHAPUDI SIVAN NARAYANA	01-11-96
182	JC 137246L	SUB MAJ & HONY LT	BUDDANA VENKATA SUBRAYYA	01-10-96
183	JC 154366A	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH	01-01-97
184	JC 154176N	SUB MAJ & HONY LT	HARI RAM	01-10-96
185	JC 102586P	SUB MAJ & HONY LT	JANKI DASS	01-09-96
186	JC 154272H	SUB MAJ & HONY LT	JATHAY RAM	01-01-97
187	JC 153466Y	SUB MAJ & HONY LT	JITPAL SINGH	01-11-96

188	JC 188261H	SUB MAJ & HONY LT	JOHN TM	01-12-96
189	JC 49414W	SUB MAJ & HONY LI	KAMPTA PRASAD SHASTRI	01-11-96
190	JC 145960A	SUB MAJ & HONY LT	KHETA RAM NOD	01-12-96
191	JC 154209N	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA KUMAR SHARMA	01-11-96
192	JC 209062L	SUB MAJ & HONY LT	LALAN MISTRY	01-12-96
193	JC 154199P	SUB MAJ & HONY LT	MAJOR SINGH	01-10-96
194	JC 154223A	SUB MAJ & HONY LT	MAN CHAND	01-11-96
195	JC 158141P	SUB MAJ & HONY LT	MEENAKSHI SUNDARAM SHANMUGAM	01-12-96
196	JC 180974Y	SUB MAJ & HONY LT	MOHD HUSSAIN KHAN	01-10-96
197	JC 135258F	SUB MAJ & HONY LT	MUNSHI RAM	01-10-96
198	JC 141146X	SUB MAJ & HONY LT	NIAMAT MASIH	01-11-96
199	JC 154434H	SUB MAJ & HONY LT	RAM ASHRAY PRASAD	01-01-97
200	JC 133229N	SUB MAJ & HONY LT	RAM PRABODH JHA	01-10-96
201	JC 141150A	SUB MAJ & HONY LT	RAMJI LAL	01-11-96
202	JC 102590X	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN CHAND RAJPUT	01-12-96
203	JC 98019M	SUB MAJ & HONY LT	SHINGARA SINGH	01-10-96
204	JC 145982Y	SUB MAJ & HONY LT	SHIV PAL	01-01-97
205	JC 194836H	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM BABU SRIVASTAW	01-01-97
206	JC 154266P	SUB MAJ & HONY LT	SUDAGAR SINGH	01-01-97
207	JC 146085P	SUB MAJ & HONY LT	SUKHDEV SINGH BHULLER	01-09-96
208	JC 99061X	SUB MAJ & HONY LT	SURJA RAM	01-01-97
209	JC 192105W	SUB & HONY LT	ANANTA KUMAR NATH	01-10-96
210	JC 196151H	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH BHANDARI	01-01-97
211	JC 180979X	SUB & HONY LT	DAYENI BHAGIRATHI PATRO	01-10-96
212	JC 209065Y	SUB & HONY LT	GULAB SINGH SEKHAWAT	01-12-96
213	JC 197709Y	SUB & HONY LT	JAGDISH PRASAD	01-01-97

214	JC 186031W	SUB & HONY LT	JAMIT SINGH	& T.J. YNDH	01-12-96
215	JC 209055P	SUB & HONY LT	CAHAR DADAN LAL	& T.J. YNDH	01-09-96
216	JC 180977M	SUB & HONY LT	MANAVIR SINGH	& T.J. YNDH	01-11-96
217	JC 181009F	SUB & HONY LT	RAJESH SINGH	& T.J. YNDH	01-12-96
218	JC 186038A	SUB & HONY LT	YRASHI NARAYAN RAM	& T.J. YNDH	01-01-97
219	JC 208803L	SUB & HONY LT	SHIBU BARAN MAE I	& T.J. YNDH	01-09-96
220	JC 197726Y	SUB & HONY LT	SURBH CHANDRA	& T.J. YNDH	01-10-96
221	JC 198026X	SUB & HONY LT	MARADHUVISHRAM SINGH	& T.J. YNDH	01-01-97
THE BRIGADE OF GUARDS		HALLI MIA		& T.J. YNDH	
222	JC 122739P	SUB MAJ & HONY LT	ATTAR SINGH	& T.J. YNDH	01-11-96
223	JC 169331F	SUB MAJ & HONY LT	CHHOTU TAMAIN	& T.J. YNDH	01-01-97
224	JC 132925X	SUB MAJ & HONY LT	KURIAN ABRAHAM	& T.J. YNDH	01-01-97
225	JC 130767W	SUB MAJ & HONY LT	LEHNA SINGH	& T.J. YNDH	01-12-96
226	JC 128231F	SUB MAJ & HONY LT	MEEN CHAND SHARMA	& T.J. YNDH	01-11-96
227	JC 122748W	SUB MAJ & HONY LT	RANVIR SINGH	& T.J. YNDH	01-12-96
228	JC 144983P	SUB & HONY LT	BIHARI SINGH	& T.J. YNDH	01-09-96
229	JC 192355X	SUB & HONY LT	CHETRAM CHOUDHARI	& T.J. YNDH	01-11-96
230	JC 192357H	SUB & HONY LT	DIDAR SINGH	& T.J. YNDH	01-12-96
231	JC 155598L	SUB & HONY LT	JABAR SINGH BHADORIA	& T.J. YNDH	01-11-96
232	JC 204240Y	SUB & HONY LT	KAMADAR SINGH	& T.J. YNDH	01-10-96
233	JC 192359N	SUB & HONY LT	MOHAN LAL	& T.J. YNDH	01-01-97
234	JC 180675A	SUB & HONY LT	RAMANAND ROY	& T.J. YNDH	01-09-96
235	JC 180673P	SUB & HONY LT	VIJAI SINGH	& T.J. YNDH	01-09-96
THE PARACHUTE REGIMENT		YADAV		& T.J. YNDH	
236	JC 133859N	SUB MAJ & HONY LT	ABASAHEB SALUNKHE	& T.J. YNDH	01-01-97

237	JC 126615X	SUB MAJ & HONY LT	BRIJENDRA SINGH	01-09-96
238	JC 136935A	SUB MAJ & HONY LT	KALU RAM	01-10-96
239	JC 122428F	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH SINGH	01-01-97
240	JC 212476H	SUB & HONY LT	AMAR SINGH	01-12-96
241	JC 194510M	SUB & HONY LT	BALWAN SINGH	01-10-96
242	JC 163607W	SUB & HONY LT	BHAGWAN DASS	01-10-96
243	JC 196370K	SUB & HONY LT	BIDHI CHAND	01-10-96
244	JC 200967M	SUB & HONY LT	DEVI DATT PATHAK	01-01-97
245	JC 164090P	SUB & HONY LT	MADAN LAL	01-10-96
246	JC 193628F	SUB & HONY LT	MOHAR SINGH	01-10-96
247	JC 201791Y	SUB & HONY LT	RAM SARAN	01-12-96
248	JC 163591W	SUB & HONY LT	SHANTI KUMAR	01-10-96
249	JC 200964Y	SUB & HONY LT	SIMMAR NATH	01-10-96
250	JC 201783A	SUB & HONY LT	SP POKHRIYAL	01-11-96
THE PUNJAB REGIMENT				
251	JC 124578W	SUB MAJ & HONY LT	AVTAR SINGH	01-11-96
252	JC 105238Y	SUB MAJ & HONY LT	MALKIAT SINGH	01-01-97
253	JC 185482K	SUB & HONY LT	BABU SINGH	01-11-96
254	JC 181954X	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-01-97
255	JC 171807F	SUB & HONY LT	BIR CHAND	01-09-96
256	JC 178462N	SUB & HONY LT	DIWAN CHAND	01-09-96
257	JC 185708K	SUB & HONY LT	GIAN CHAND	01-01-97
258	JC 164737L	SUB & HONY LT	GURUCHARAN SINGH	01-01-97
259	JC 179258F	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	01-09-96
260	JC 62518W	SUB & HONY LT	MADAN LAL SHARMA KAUSHIK	01-12-96

261	JC 166033A	SUB & HONY LT	MEHAR CHAND	01-10-96
262	JC 180850K	SUB & HONY LT	OMPARKASH DAHIYA	01-11-96
263	JC 208003M	SUB & HONY LT	PARKASH CHAND	01-11-96
264	JC 130782L	SUB & HONY LT	PIARA SINGH	01-11-96
265	JC 192877N	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-09-96
266	JC 178430L	SUB & HONY LT	SUCHA SINGH	01-09-96

THE MADRAS REGIMENT

267	JC 104183N	SUB MAJ & HONY LT	CHACKO L	01-09-96
268	JC 115692M	SUB MAJ & HONY LT	LAKSHMANAN CHERINJANDI	01-10-96
269	JC 115708N	SUB MAJ & HONY LT	N CHANDRAN	01-01-97
270	JC 128536F	SUB MAJ & HONY LT	S SASIKUMARAN NAIR	01-10-96
271	JC 105262P	SUB MAJ & HONY LT	SHAIK ISHMAIL	01-09-96
272	JC 105253N	SUB MAJ & HONY LT	THIMMARAYAN	01-09-96
273	JC 201812K	SUB & HONY LT	MATHAI KJ	01-11-96
274	JC 145035X	SUB & HONY LT	MUNDACHALIL POTHODI JAYACHANDRAN	01-11-96
275	JC 129413F	SUB & HONY LT	MURINGOOR NARAYANA MOHANA DASS	01-12-96
276	JC 135543A	SUB & HONY LT	P NAGARAJAN	01-09-96
277	JC 145031F	SUB & HONY LT	P UNNI NAIR	01-11-96
278	JC 135563N	SUB & HONY LT	PACHAN LAKSHMANAN	01-12-96
279	JC 168819L	SUB & HONY LT	SANKARAN NAMBIAR RAYAROTH	01-01-97

THE GRENADIERS

280	JC 148352K	SUB MAJ & HONY LT	ONKAR SINGH CHANDEL	01-01-97
281	JC 164026L	SUB MAJ & HONY LT	SRI RAM KOTWAL	01-11-96
282	JC 193689Y	SUB & HONY LT	ATTAR SINGH	01-12-96
283	JC 164473P	SUB & HONY LT	BHARAT SINGH KULHAR	01-10-96

284	JC 196848W	SUB & HONY LT	BUTA MAL	01-12-96
285	JC 144546P	SUB & HONY LT	GHEESA RAM	01-11-96
286	JC 164498P	SUB & HONY LT	HAWA SINGH	01-09-96
287	JC 180698F	SUB & HONY LT	JONKU NATH	01-10-96
288	JC 196401Y	SUB & HONY LT	MADAN LAL	01-12-96
289	JC 130794A	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-09-96
290	JC 173144A	SUB & HONY LT	MOOL CHAND	01-11-96
291	JC 179273W	SUB & HONY LT	RAJ PAL SINGH	01-12-96
292	JC 164751X	SUB & HONY LT	SHIV SINGH	01-12-96
293	JC 164933L	SUB & HONY LT	SOHAN LAL	01-11-96
THE MARATHA LIGHT INFANTRY				
294	JC 107703Y	SUB MAJ & HONY LT	ANANDRAO NIKAM	01-12-96
295	JC 98857F	SUB MAJ & HONY LT	SAMBHAJI BISURKAR	01-10-96
296	JC 149392X	SUB & HONY LT	KONDIRAM MORE	01-01-97
297	JC 152442H	SUB & HONY LT	SADASHIV KASHID	01-01-97
298	JC 117543X	SUB & HONY LT	SHANKAR RAMAJI MORE	01-12-96
THE RAJPUTANA RIFLES				
299	JC 132422N	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR SINGH	01-09-96
300	JC 173002H	SUB MAJ & HONY LT	PEMA RAM	01-10-96
301	JC 173003N	SUB MAJ & HONY LT	SATYA PRAKASH	01-01-97
302	JC 152484F	SUB & HONY LT	HAZARI SINGH	01-12-96
303	JC 193707W	SUB & HONY LT	KANSHI RAM	01-12-96
304	JC 205530H	SUB & HONY LT	LAL SINGH	01-12-96
305	JC 193717A	SUB & HONY LT	MAHENDER SINGH	01-01-97
306	JC 204266N	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-01-97

307	JC 145445N	SUB & HONY LT	NAWAL SINGH	01-11-96
308	JC 192380W	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	01-01-97
309	JC 160888M	SUB & HONY LT	RAMBIR SINGH	01-10-96
310	JC 169148Y	SUB & HONY LT	RISAL SINGH	01-11-96

THE RAJPUT REGIMENT

311	JC 45765N	SUB MAJ & HONY LT	INDRA DATT MISHRA	01-09-96
312	JC 122047A	SUB MAJ & HONY LT	SAWAI SINGH	01-12-96
313	JC 173014X	SUB MAJ & HONY LT	TARSEM SINGH	01-01-97
314	JC 183436W	SUB & HONY LT	DATA RAM	01-11-96
315	JC 192588Y	SUB & HONY LT	DHARAM PAL SINGH MALIK	01-10-96
316	JC 159170W	SUB & HONY LT	HANUMAN SINGH	01-12-96
317	JC 173850F	SUB & HONY LT	VIRENDRA NATH SHARMA	01-12-96

THE JAT REGIMENT

318	JC 140553N	SUB MAJ & HONY LT	UDA RAM	01-10-96
319	JC 178564K	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH MALIK	01-12-96
320	JC 192416K	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH VERMA	01-10-96
321	JC 188658P	SUB & HONY LT	KHIALI RAM	01-01-97
322	JC 176304A	SUB & HONY LT	MOOL CHAND	01-10-96
323	JC 175985F	SUB & HONY LT	OMPARKASH KUNDU	01-10-96
324	JC 157842Y	SUB & HONY LT	RAI SINGH	01-01-97
325	JC 168544H	SUB & HONY LT	RAJINDER PARSHAD	01-10-96
326	JC 179370N	SUB & HONY LT	RAJPAL SINGH	01-01-97
327	JC 183001N	SUB & HONY LT	SATBIR SINGH	01-11-96
328	JC 175975X	SUB & HONY LT	SURE SINGH	01-09-96

329	JC 176310N	SUB & HONY LT	BUMER SINGH	01-10-96
330	JC 184349P	SUB & HONY LT	UMRAO SINGH	01-09-96
THE SIKH REGIMENT				
331	JC 125369L	SUB MAJ & HONY LT	ANAYAT ULLHA KHAN	01-12-96
332	JC 127105H	SUB MAJ & HONY LT	BISHMBER DASS	01-01-97
333	JC 117739L	SUB MAJ & HONY LT	NAHAR SINGH	01-01-97
334	JC 145102X	SUB MAJ & HONY LT	SANTOK SINGH	01-10-96
335	JC 117729F	SUB MAJ & HONY LT	SANTOKH SINGH	01-09-96
336	JC 163888X	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-12-96
337	JC 201039H	SUB & HONY LT	JAGTAR SINGH	01-01-97
338	JC 183125H	SUB & HONY LT	KARAM SINGH	01-12-96
339	JC 167213P	SUB & HONY LT	KULWANT SINGH	01-09-96
340	JC 169278F	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH JASROTIA	01-09-96
THE SIKH LIGHT INFANTRY				
341	JC 108598A	SUB MAJ & HONY LT	ARJAN SINGH	01-11-96
342	JC 105728M	SUB MAJ & HONY LT	DILBAGH SINGH	01-11-96
343	JC 163900N	SUB MAJ & HONY LT	GURMEET SINGH	01-09-96
344	JC 173202Y	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-11-96
345	JC 155706K	SUB & HONY LT	KISHAN SINGH	01-11-96
346	JC 151344W	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	01-10-96
347	JC 178593Y	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-09-96
348	JC 164579F	SUB & HONY LT	SARWAN SINGH	01-11-96
THE DOGRA REGIMENT				
349	JC 114141P	SUB MAJ & HONY LT	BHAJAN SINGH	01-10-96
350	JC 126607Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGPAL CHAND	01-01-97

351	JC 149453K	SUB MAJ & HONY LT	PRITAM CHAND	01-12-96
352	JC 115795L	SUB MAJ & HONY LT	SITA RAM	01-01-97
353	JC 155715L	SUB & HONY LT	BABU RAM	01-01-97
354	JC 163671N	SUB & HONY LT	GANGA RAM KASAB	01-01-97
355	JC 192637W	SUB & HONY LT	GOPAL DASS	01-12-96
356	JC 188523N	SUB & HONY LT	HOSHIAR SINGH	01-01-97
357	JC 205164K	SUB & HONY LT	ISHWAR DASS	01-10-96
358	JC 205952N	SUB & HONY LT	KABAL SINGH SALARIA	01-01-97
359	JC 205958F	SUB & HONY LT	KARAM DATT	01-12-96
360	JC 201086A	SUB & HONY LT	MUNSHI RAM	01-11-96
361	JC 201978L	SUB & HONY LT	PIYAR SINGH RANA	01-11-96
362	JC 196265N	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	01-01-97
363	JC 192634H	SUB & HONY LT	SANT SINGH BAINS	01-12-96
364	JC 188400F	SUB & HONY LT	SOM DATT SHARMA	01-12-96
365	JC 192444W	SUB & HONY LT	SURAM SINGH	01-10-96
366	JC 201063Y	SUB & HONY LT	ZULFI RAM	01-12-96

THE GARHWAL RIFLES

367	JC 159247N	SUB MAJ & HONY LT	BHARAT SINGH CHAUDHARI	01-10-96
368	JC 127322Y	SUB MAJ & HONY LT	LAXMAN SINGH	01-09-96
369	JC 128389K	SUB MAJ & HONY LT	TRILOCHAN PRASAD	01-01-97
370	JC 188531M	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH RAWAT	01-09-96
371	JC 178999M	SUB & HONY LT	INDAR SINGH BUSAIN	01-09-96
372	JC 205185A	SUB & HONY LT	NANDAN SINGH	01-09-96
373	JC 208395L	SUB & HONY LT	PADAM SINGH PARSWAN	01-09-96
374	JC 164818L	SUB & HONY LT	PREM PRAKASH	01-09-96

375	JC 175072A	SUB & HONY LT	PREM SINGH RAWAT	01-09-96
376	JC 216867L	SUB & HONY LT	RAJENDRA SINGH	01-12-96
THE KUMAON REGIMENT				
377	JC 178617X	SUB MAJ & HONY LT	BHANI SAHAYA	01-10-96
378	JC 145140N	SUB MAJ & HONY LT	BISHAN SINGH	01-10-96
379	JC 149111W	SUB MAJ & HONY LT	CHANDGI RAM	01-11-96
380	JC 148483P	SUB MAJ & HONY LT	DATA RAM	01-11-96
381	JC 145573L	SUB MAJ & HONY LT	LAL BAHADUR SHAHI	01-11-96
382	JC 145571A	SUB MAJ & HONY LT	MADHO SINGH	01-11-96
383	JC 151382M	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN SINGH	01-10-96
384	JC 145568A	SUB MAJ & HONY LT	SHIV RAJ SINGH	01-10-96
385	JC 192466P	SUB & HONY LT	ANGAD PRASAD UPADHYAY	01-01-97
386	JC 180777W	SUB & HONY LT	BHOM SINGH	01-10-96
387	JC 166100A	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH	01-09-96
388	JC 167266N	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH	01-09-96
389	JC 192468A	SUB & HONY LT	HAR SINGH	01-09-96
390	JC 156936K	SUB & HONY LT	HAYAT SINGH	01-09-96
391	JC 160946L	SUB & HONY LT	JAGNATH BHATT	01-10-96
392	JC 185071L	SUB & HONY LT	JAGNATH PANDEY	01-01-97
393	JC 164990M	SUB & HONY LT	JIWAN SINGH	01-01-97
394	JC 105816N	SUB & HONY LT	KUNWAR SINGH KORANGA	01-09-96
395	JC 192657K	SUB & HONY LT	MAHAVIR SINGH	01-01-97
396	JC 199304M	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH KANYAL	01-12-96
397	JC 199299M	SUB & HONY LT	MOTI RAM	01-01-97
398	JC 185070H	SUB & HONY LT	PURAN SINGH BANGARI	01-10-96

399	JC 185069N	SUB & HONY LT	RAM PRAKASH	01-12-96
400	JC 199313N	SUB & HONY LT	RAM SINGH	01-10-96
401	JC 180688M	SUB & HONY LT	SOBARAN SINGH	01-12-96
402	JC 172003Y	SUB & HONY LT	SURYA BALI SINGH	01-12-96
403	JC 196569L	SUB & HONY LT	TRILOK SINGH	01-10-96

THE ASSAM REGIMENT

404	JC 117204A	SUB MAJ & HONY LT	HQM BAHADUR RANA	01-12-96
405	JC 106022K	SUB MAJ & HONY LT	HRANGBUNG KAMVOL ANAL	01-09-96
406	JC 107321P	SUB MAJ & HONY LT	THUNGSHEL ANAL	01-01-97
407	JC 109442P	SUB MAJ & HONY LT	WANGSHUL DELTHA ANAL	01-01-97
408	JC 124574L	SUB & HONY LT	DANIEL MAO	01-09-96
409	JC 156100M	SUB & HONY LT	DHRAM BAHADUR RAMDAM	01-12-96
410	JC 159259H	SUB & HONY LT	LALCHUNGHNUNG HMAR	01-09-96
411	JC 148509Y	SUB & HONY LT	PREM BAHADUR CHETRI	01-12-96

THE BIHAR REGIMENT

412	JC 125182Y	SUB MAJ & HONY LT	BUDHRAI MARANDI	01-11-96
413	JC 135817F	SUB MAJ & HONY LT	RAJDEO SINGH	01-09-96
414	JC 137060F	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN SINGH	01-09-96
415	JC 113989P	SUB MAJ & HONY LT	RUYAN SINGH SAW	01-10-96
416	JC 123389A	SUB & HONY LT	AMBIKA GIRI	01-09-96
417	JC 183085M	SUB & HONY LT	BALI RAM TIWARI	01-01-97
418	JC 177814N	SUB & HONY LT	RASHISHT SINGH	01-09-96
419	JC 167401Y	SUB & HONY LT	FADRICK KUJUR	01-11-96
420	JC 142824Y	SUB & HONY LT	NARAHARI NAIK	01-10-96
421	JC 205255N	SUB & HONY LT	SHASHI DHAR SINGH	01-11-96

422	JC 179020F	SUB & HONY LT	SHIO BACHAN PRASAD	01-09-96
423	JC 202068K	SUB & HONY LT	SHIW RATAN RAM	01-09-96
424	JC 178653H	SUB & HONY LT	VISHWA NATH PRASAD SINGH	01-11-96
THE MAHAR REGIMENT				
425	JC 106786H	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK MADE	01-10-96
426	JC 121932P	SUB MAJ & HONY LT	RAMA CHANDRA BEHERA	01-12-96
427	JC 117682F	SUB MAJ & HONY LT	SHASHIKANT CHAVAN	01-12-96
428	JC 104834W	SUB MAJ & HONY LT	SUDHAKAR NANDUJI GAWAJ	01-09-96
429	JC 194702K	SUB & HONY LT	BHAGWAN SINGH	01-12-96
430	JC 152957H	SUB & HONY LT	BIRBAL SINGH	01-11-96
431	JC 151803K	SUB & HONY LT	DALIP SINGH	01-01-97
432	JC 143716F	SUB & HONY LT	GURU DAYAL SINGH	01-01-97
433	JC 175451W	SUB & HONY LT	LAL SINGH	01-09-96
434	JC 181890X	SUB & HONY LT	PARBHATI LAL	01-10-96
435	JC 175436F	SUB & HONY LT	RAGHUWA RAM	01-01-97
436	JC 178080K	SUB & HONY LT	RAM AVTAR	01-09-96
437	JC 181884K	SUB & HONY LT	ROHITASH	01-09-96
438	JC 152958L	SUB & HONY LT	SHER SINGH	01-09-96
439	JC 143715Y	SUB & HONY LT	SUKHPAL SINGH	01-01-97
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES				
440	JC 175106H	SUB & HONY LT	AMAR NATH	01-10-96
441	JC 185857X	SUB & HONY LT	DARSHAN SINGH	01-09-96
442	JC 155785K	SUB & HONY LT	GURMEL SINGH	01-10-96
443	JC 178321Y	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-10-96
444	JC 127092W	SUB & HONY LT	JUMMA MOHD	01-12-96

445	JC 178090N	SUB & HONY LT	KEHAR SINGH	01-01-97
446	JC 183126L	SUB & HONY LT	LEKH RAJ	01-11-96
447	JC 178123N	SUB & HONY LT	MADAN LAL	01-09-96
448	JC 112657Y	SUB & HONY LT	MOHD HUSSAIN	01-10-96
449	JC 155819M	SUB & HONY LT	NIRANJAN SINGH	01-09-96
450	JC 185096X	SUB & HONY LT	ONKAR SINGH	01-10-96
451	JC 71644K	SUB & HONY LT	RAM PRASAD TIWARI	01-10-96
452	JC 193879L	SUB & HONY LT	RATTAN CHAND	01-12-96
453	JC 175110X	SUB & HONY LT	SAMPURAN SINGH JAMWAL	01-12-96
454	JC 193886F	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	01-10-96
455	JC 185090W	SUB & HONY LT	VIDIA RAJ	01-10-96
THE LADAKH SCOUTS				
456	JC 163961L	SUB & HONY LT	CHHEWANG NURBU	01-11-96
THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY				
457	JC 95797M	SUB MAJ & HONY LT	GWASH LAL SEN	01-10-96
458	JC 105832A	SUB MAJ & HONY LT	JODH SINGH	01-11-96
459	JC 97377L	SUB MAJ & HONY LT	SHADI LAL	01-12-96
460	JC 130873P	SUB & HONY LT	BANSI LAL	01-11-96
461	JC 168923Y	SUB & HONY LT	BODH RAJ	01-11-96
462	JC 151445E	SUB & HONY LT	KRISHAN LAL KHAJURIA	01-01-97
463	JC 172647Y	SUB & HONY LT	MAJOR SINGH	01-01-97
464	JC 171783H	SUB & HONY LT	NANAK SINGH	01-01-97
465	JC 168921N	SUB & HONY LT	DM PRAKASH BHAGAT	01-09-96
466	JC 151447P	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH	01-10-96
467	JC 169460F	SUB & HONY LT	SARDARI LAL	31-10-96
468	JC 178329L	SUB & HONY LT	SHAM SINGH	01-01-97

3 GORKHA RIFLES

469 JC 194726N	SUB & HONY LT	BISHWANATH SHARMA	01-12-96
470 JC 155529P	SUB & HONY LT	KISHAN BAHADUR THAPA	01-12-96

4 GORKHA RIFLES

471 JC 133366M	SUB MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR THAPA	01-11-96
472 JC 143786A	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN SINGH THAPA	01-12-96
473 JC 125234K	SUB MAJ & HONY LT	PARKASH CHAND	01-12-96
474 JC 143787H	SUB MAJ & HONY LT	SURINDRER KUMAR	01-01-97
475 JC 193948W	SUB & HONY LT	BIR BAHADUR SHRESTHA	01-12-96
476 JC 192505H	SUB & HONY LT	DIL BIKRAM GURUNG	01-10-96
477 JC 192504A	SUB & HONY LT	JAGINDER SINGH THAPA	01-09-96

5 GORKHA RIFLES

478 JC 179056A	SUB MAJ & HONY LT	DIPAK KUMAR LAMA	01-11-96
479 JC 156970K	SUB MAJ & HONY LT	SHIV PRASAD RANA	01-09-96
480 JC 130724F	SUB MAJ & HONY LT	STENDRA SINGH GURUNG	01-12-96
481 JC 204390P	SUB & HONY LT	AJIT KUMAR NAGARKOTI	01-01-97
482 JC 185120H	SUB & HONY LT	DALJIT SINGH THAPA	01-01-97
483 JC 156446W	SUB & HONY LT	DHAN BAHADUR PUN	01-10-96
484 JC 208474A	SUB & HONY LT	DIL KAJI GURUNG	01-01-97
485 JC 152645M	SUB & HONY LT	JIT BAHADUR GURUNG	01-12-96
486 JC 183552Y	SUB & HONY LT	JIT BAHADUR GURUNG	01-01-97
487 JC 172645N	SUB & HONY LT	KHIL BAHADUR THAPA	01-10-96
488 JC 169474F	SUB & HONY LT	MAN BAHADUR THAPA	01-01-97
489 JC 149590H	SUB & HONY LT	MUKTI BAHADUR GURUNG	01-11-96
490 JC 156144K	SUB & HONY LT	NARAIN SINGH RANA	01-10-96

491	JC 181936P	SUB & HONY LT	PREM BAHADUR THAPA	01-01-97
492	JC 152647X	SUB & HONY LT	SHER BAHADUR GURUNG	01-01-97
493	JC 168627N	SUB & HONY LT	SURYA BAHADUR THAPA	01-10-96
494	JC 188719F	SUB & HONY LT	THAN BAHADUR THAPA	01-01-97
495	JC 157959X	SUB & HONY LT	TUL BAHADUR GURUNG	01-11-96
8 GORKHA RIFLES				
496	JC 112674Y	SUB MAJ & HONY LT	DM BAHADUR THAPA	01-11-96
497	JC 164104X	SUB & HONY LT	DINESH SINGH RANA	01-10-96
498	JC 147526M	SUB & HONY LT	HARKA BAHADUR GURUNG	01-11-96
499	JC 172071M	SUB & HONY LT	KHARAK BAHADUR GURUNG	01-11-96
500	JC 153054X	SUB & HONY LT	KHEM BAHADUR GURUNG	01-11-96
501	JC 153053P	SUB & HONY LT	KUL BAHADUR PUN	01-10-96
502	JC 169294Y	SUB & HONY LT	LOK BAHADUR ALI	01-12-96
503	JC 183561A	SUB & HONY LT	LOK BAHADUR THAPA	01-10-96
504	JC 178337A	SUB & HONY LT	MIL BAHADUR GURUNG	01-09-96
505	JC 167321Y	SUB & HONY LT	MOM PARSAD THAPA	01-01-97
506	JC 145621A	SUB & HONY LT	NARAIN BAHADUR GURUNG	01-10-96
507	JC 169300F	SUB & HONY LT	NARAIN PRASAD GURUNG	01-01-97
508	JC 147533H	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH THAPA	01-01-97
9 GORKHA RIFLES				
509	JC 154854N	SUB & HONY LT	DEV BAHADUR SAHI	01-01-97
510	JC 206041X	SUB & HONY LT	JAI BAHADUR CHAND	01-09-96
11 GORKHA RIFLES				
511	JC 129554W	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN KUMAR RAI	01-11-96

512	JC 188734W	SUB & HONY LT	BHUMI RAJ SUBBA	01-09-96
513	JC 159339A	SUB & HONY LT	BIRSEN LIMBU	01-09-96
514	JC 159340P	SUB & HONY LT	DHANANG LIMBU	01-01-97
515	JC 196642Y	SUB & HONY LT	DIL BAHADUR LIMBU	01-01-97

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

516	JC 127127F	SUB MAJ & HONY LT	ATHIMOOLAM PALANIAPPAN	01-11-96
517	JC 130670L	SUB MAJ & HONY LT	JASWANT SINGH	01-09-96
518	JC 127225F	SUB MAJ & HONY LT	VAN BIHARI SINGH	01-10-96
519	JC 128154X	SUB MAJ & HONY LT	VJSHWAS PATIL	01-01-97
520	JC 175873F	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH RAWAT	01-12-96
521	JC 175870N	SUB & HONY LT	JIT PAL SINGH	01-12-96
522	JC 183670Y	SUB & HONY LT	KEHAR SINGH	01-01-97
523	JC 166014P	SUB & HONY LT	PADAM BAHADUR RANA	01-01-97
524	JC 174046M	SUB & HONY LT	TARLOK SINGH	01-12-96

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

525	JC 175312M	SUB MAJ & HONY LT	AJAIB SINGH	01-12-96
526	JC 175313P	SUB MAJ & HONY LT	DHAN CHARAN SINGH	01-01-97
527	JC 177720W	SUB MAJ & HONY LT	HARMESHPAL SINGH PARMAR	01-11-96
528	JC 165562A	SUB MAJ & HONY LT	RABINDRA NATH ROY	01-01-97
529	JC 177716N	SUB MAJ & HONY LT	RAMNIWAS SHARMA	01-09-96
530	JC 177713A	SUB MAJ & HONY LT	SUMER SINGH KUSHWAH	01-09-96
531	JC 177718Y	SUB MAJ & HONY LT	VED SINGH YADAV	01-12-96
532	JC 192756M	SUB & HONY LT	AJAI KUMAR SINGH	01-09-96
533	JC 192821F	SUB & HONY LT	BISHAN DASS	01-12-96
534	JC 190414A	SUB & HONY LT	DHARAMPAL JAKHAD	01-11-96

535	JC 198997H	SUB & HONY LT	GULZAR JOHN SANDHU	01-11-96
536	JC 192755K	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH	01-09-96
537	JC 189921F	SUB & HONY LT	KHEM CHAND SUMAN	01-12-96
538	JC 199555W	SUB & HONY LT	MANI RAM	01-11-96
539	JC 190409P	SUB & HONY LT	DM PRAKASH BARAK	01-11-96
540	JC 189947W	SUB & HONY LT	PRITAM SINGH	01-12-96
541	JC 190433L	SUB & HONY LT	RAM DHARI RAM	01-11-96
542	JC 192793A	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR SHARMA	01-11-96
543	JC 192791P	SUB & HONY LT	SHRIRAM NYOLA	01-11-96
544	JC 192815N	SUB & HONY LT	SWADESH KUMAR DARGAR	01-01-97
545	JC 200501K	SUB & HONY LT	VARGHESE S	01-01-97
546	JC 198928M	SUB & HONY LT	VENKATESA SELVARAJU	01-09-96
ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)				
547	JC 150604K	RIS MAJ & HONY LT	TEK CHAND	01-10-96
548	JC 185377M	RIS & HONY LT	BALBIR SINGH	01-10-96
549	JC 177441L	RIS & HONY LT	BHIKHAM CHAND	01-10-96
550	JC 185392H	RIS & HONY LT	CHAND RAM	01-01-97
551	JC 185369P	RIS & HONY LT	DAYA RAM RAJAK	01-10-96
552	JC 185376L	RIS & HONY LT	KHIRODHAN	01-12-96
553	JC 185372P	RIS & HONY LT	KHUNSI RAM	01-11-96
554	JC 171170H	RIS & HONY LT	MOOL SINGH	01-09-96
555	JC 183271X	RIS & HONY LT	DM PRAKASH	01-11-96
556	JC 185386P	RIS & HONY LT	RAM ABTAR RAM	01-01-97
557	JC 171161F	RIS & HONY LT	RAM DEO YADAV	01-09-96
558	JC 171171L	RIS & HONY LT	RAM DHAYAN SINGH	01-09-96
559	JC 185375H	RIS & HONY LT	RAM LAL RAM	01-12-96

560	JC 171634P	RIS & HONY LT	RAVINDRA RAY	01-12-96
561	JC 177439N	RIS & HONY LT	SUBASH CHAND	01-10-96
562	JC 171167H	RIS & HONY LT	SURINDER KUMAR	01-09-96
ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)				
563	JC 165575X	SUB MAJ & HONY LT	BHOJ RAJ SHARMA	01-11-96
564	JC 165546H	SUB MAJ & HONY LT	SUMIT SINGH	01-09-96
565	JC 165549W	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM CHAVAN	01-11-96
566	JC 190483W	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-12-96
567	JC 194399N	SUB & HONY LT	BAIJNATH PRASAD MEHTA	01-12-96
568	JC 190109N	SUB & HONY LT	BAISHNAB CHARAN SAMAL	01-10-96
569	JC 190331P	SUB & HONY LT	BALLI RAM	01-11-96
570	JC 194894M	SUB & HONY LT	BHANWAR SINGH	01-01-97
571	JC 190445A	SUB & HONY LT	BINDESHWAR BAITHA	01-11-96
572	JC 190452W	SUB & HONY LT	CHANDER BHAN	01-12-96
573	JC 190101F	SUB & HONY LT	CHINGLEN SENA RAJKUMAR	01-09-96
574	JC 197551F	SUB & HONY LT	DESH RAJ	01-11-96
575	JC 206222F	SUB & HONY LT	G MARI MUTHU	01-11-96
576	JC 194360F	SUB & HONY LT	GIRDHARI RAM	01-01-97
577	JC 199518H	SUB & HONY LT	GULAB SINGH	01-01-97
578	JC 206448A	SUB & HONY LT	HARENDRA THAKUR	01-01-97
579	JC 194866A	SUB & HONY LT	HARNEK SINGH	01-10-96
580	JC 190100Y	SUB & HONY LT	JAGDISH PRASAD	01-09-96
581	JC 194860Y	SUB & HONY LT	KHAZAN SINGH	01-11-96
582	JC 209788N	SUB & HONY LT	KHETA RAM SUTHAR	01-12-96
583	JC 190325F	SUB & HONY LT	KIRAN CHANDRA BISWAS	01-11-96

584	JC 190440F	SUB & HONY LT	KRISHAN CHAND	01-11-96
585	JC 190099P	SUB & HONY LT	LAL CHAND	01-09-96
586	JC 199450M	SUB & HONY LT	MANNICHERIPOLL SADANANDAN	01-01-97
587	JC 199478W	SUB & HONY LT	MUKHTIAR SINGH	01-01-97
588	JC 190280M	SUB & HONY LT	NATHU RAM JATAV	01-09-96
589	JC 190102K	SUB & HONY LT	PARASHU RAM PRASAD	01-09-96
590	JC 190332X	SUB & HONY LT	PRAKASH CHAND	01-11-96
591	JC 197543H	SUB & HONY LT	PRAMOD KUMAR JHA	01-09-96
592	JC 190092L	SUB & HONY LT	RADHEY SINGH	01-09-96
593	JC 217346K	SUB & HONY LT	RAGHUNATH PRASAD SINGH	01-11-96
594	JC 190103M	SUB & HONY LT	RAJENDRA CHANDRA CHANDA	01-09-96
595	JC 190448N	SUB & HONY LT	RAM CHANDRA THAKUR	01-11-96
596	JC 190317H	SUB & HONY LT	RAM PHAL	01-11-96
597	JC 194380P	SUB & HONY LT	RAM SAKAL BARAI	01-01-97
598	JC 190090M	SUB & HONY LT	RANE SHWAR LAL	01-09-96
599	JC 190324Y	SUB & HONY LT	SEWA SINGH	01-11-96
600	JC 190442M	SUB & HONY LT	SHEO NARAIN	01-11-96
601	JC 190275F	SUB & HONY LT	THODATHILONNY KURIAKOSE	01-10-96
602	JC 190122X	SUB & HONY LT	TOKH RAM	01-09-96
ARMY MEDICAL CORPS				
603	JC 170043F	SUB MAJ & HONY LT	AJIT SINGH	01-10-96
604	JC 170068N	SUB MAJ & HONY LT	BHAGAT SINGH	01-10-96
605	JC 169651W	SUB MAJ & HONY LT	BIJOY KUMAR GHOSH	01-11-96
606	JC 178389A	SUB MAJ & HONY LT	CHEERAN SKARIYA MATHEW	01-10-96
607	JC 170139W	SUB MAJ & HONY LT	DALBIR SINGH	01-01-97
608	JC 169653F	SUB MAJ & HONY LT	SIAN CHAND	01-11-96

609	JC 183714Y	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-01-97
610	JC 170042Y	SUB MAJ & HONY LT	KOCHAPPI NADAR CHERIYA PILLAI	01-09-96
611	JC 178394L	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN LAL	01-10-96
612	JC 131530L	SUB MAJ & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-09-96
613	JC 170143M	SUB MAJ & HONY LT	NAMD NARAIN RAI	01-12-96
614	JC 160132M	SUB MAJ & HONY LT	PARSHU RAM BHAKTA	01-11-96
615	JC 169649K	SUB MAJ & HONY LT	PERUMAL PAL SAMY	01-10-96
616	JC 178392A	SUB MAJ & HONY LT	RADHE SHYAM	01-10-96
617	JC 170047X	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR	01-11-96
618	JC 170148L	SUB MAJ & HONY LT	RAM PHAL	01-12-96
619	JC 169654K	SUB MAJ & HONY LT	SHAMSHER SINGH	01-12-96
620	JC 100152F	SUB MAJ & HONY LT	SHANKAR LAL	01-01-97
621	JC 196023L	SUB & HONY LT	BHAGAWATI PRASAD SINGH	01-10-96
622	JC 198357Y	SUB & HONY LT	DANIEL C	01-09-96
623	JC 219951W	SUB & HONY LT	DURGA DASS	01-01-97
624	JC 219993H	SUB & HONY LT	PIUS LAZAR FERNAIDES	01-11-96
625	JC 196018A	SUB & HONY LT	ROOP SINGH	01-09-96
626	JC 215227F	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	01-12-96

ARMY ORDNANCE CORPS

627	JC 173539F	SUB MAJ & HONY LT	ABDUL HAFIZ KHAN	01-11-96
628	JC 176759W	SUB MAJ & HONY LT	BALRAM SINGH	01-01-97
629	JC 173607K	SUB MAJ & HONY LT	DEBOO RAM	01-12-96
630	JC 173594X	SUB MAJ & HONY LT	DES RAJ	01-09-96
631	JC 44709L	SUB MAJ & HONY LT	KEDAR NATH SHARMA	01-10-96
632	JC 173600M	SUB MAJ & HONY LT	MATHURA SINGH RANA	01-12-96
633	JC 186838W	SUB MAJ & HONY LT	MOHD SAMIULLAH	01-10-96

634	JC 173514P	SUB MAJ & HONY LT	NAWAB KHAN	01-09-96
635	JC 173590F	SUB MAJ & HONY LT	RADHEY SHYAM SHARMA	01-10-96
636	JC 173538Y	SUB MAJ & HONY LT	RAMAKRISHNA REDDIAR RAMALINGAM	01-09-96
637	JC 49431W	SUB MAJ & HONY LT	RAMJI UPADHYAY	01-09-96
638	JC 183334A	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-01-97
639	JC 186836N	SUB & HONY LT	CHANDRA SEKARAN PILLAI P	01-01-97
640	JC 187224H	SUB & HONY LT	DARSHAN LAL SAHOTA	01-11-96
641	JC 186916L	SUB & HONY LT	HARJINDER SINGH	01-09-96
642	JC 192139K	SUB & HONY LT	JIT RAM YADAV	01-11-96
643	JC 187715Y	SUB & HONY LT	KURIAN KT	01-11-96
644	JC 187063L	SUB & HONY LT	MD HASMAT ALI	01-09-96
645	JC 198575X	SUB & HONY LT	MOHAN LAL SAMUDREA	01-09-96
646	JC 183331M	SUB & HONY LT	RAMAN KUTTY NAIR KV	01-11-96
647	JC 187038M	SUB & HONY LT	SAILESH DAS	01-12-96
648	JC 196112K	SUB & HONY LT	SANKAR PRASAD	01-01-97
649	JC 187155X	SUB & HONY LT	SHIV SWAROOP SHARMA	01-12-96
650	JC 187200Y	SUB & HONY LT	SURENDRA PRATAP SINGH	01-12-96
651	JC 183679F	SUB & HONY LT	ZAMINDAR SINGH	01-11-96
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS				
652	JC 167828A	SUB MAJ & HONY LT	ANUP SINGH	01-09-96
653	JC 184201W	SUB MAJ & HONY LT	CHARAN SINGH	01-01-97
654	JC 179084M	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM SINGH RANA	01-10-96
655	JC 122651L	SUB MAJ & HONY LT	GIRIDHARI LAL THAPA	01-09-96
656	JC 46803L	SUB MAJ & HONY LT	GIRIJA PRASAD SHUKLA	01-10-96
657	JC 122537N	SUB MAJ & HONY LT	GURNAM SINGH	01-12-96
658	JC 174080Y	SUB MAJ & HONY LT	HARJHAR PRASAD DUBEY	01-10-96
659	JC 120974P	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH SINGH	01-12-96

660	JC 55980M	SUB MAJ & HONY LT	JP UPADHYAYA	01-01-97
661	JC 179126N	SUB MAJ & HONY LT	KANWAR SINGH	01-10-96
662	JC 179086X	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SINGH	01-11-96
663	JC 44596L	SUB MAJ & HONY LT	MEDINI PRASAD MISHRA	01-11-96
664	JC 120973M	SUB MAJ & HONY LT	MOHAR SINGH	01-12-96
665	JC 122567L	SUB MAJ & HONY LT	PM KURIAKOSE	01-10-96
666	JC 122535H	SUB MAJ & HONY LT	RAM MEHAR SINGH RANGI	01-12-96
667	JC 122652N	SUB MAJ & HONY LT	ROSHAN LAL MEEL	01-10-96
668	JC 182330X	SUB MAJ & HONY LT	RUKAM CHAND GOYAL	01-10-96
669	JC 190906Y	SUB MAJ & HONY LT	SASISEKHARAN NAIR CHELLAPPAN	01-12-96
670	JC 206789L	SUB & HONY LT	BABU LAL	01-10-96
671	JC 210257H	SUB & HONY LT	BABU LAL	01-12-96
672	JC 202254A	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-10-96
673	JC 201286W	SUB & HONY LT	BATTAN SINGH	01-10-96
674	JC 202278K	SUB & HONY LT	BHUP SINGH	01-09-96
675	JC 214096H	SUB & HONY LT	BROJENDRA NATH BASAK	01-12-96
676	JC 207310X	SUB & HONY LT	BUTA SINGH	01-09-96
677	JC 202277F	SUB & HONY LT	DEVI RAM	01-09-96
678	JC 191186P	SUB & HONY LT	DIWAN CHAND	01-10-96
679	JC 206426F	SUB & HONY LT	GORA SINGH	31-08-96
680	JC 222018A	SUB & HONY LT	GOTAM SINGH	01-10-96
681	JC 191187X	SUB & HONY LT	GURMIT SINGH	01-11-96
682	JC 210270M	SUB & HONY LT	HARJIT RAM	01-12-96
683	JC 207312H	SUB & HONY LT	IBRAR AHMED	01-11-96
684	JC 198621F	SUB & HONY LT	JAGATTAR SINGH	01-12-96
685	JC 202281K	SUB & HONY LT	JAN VED	01-10-96

686	JC	162645A	SUB & HONY LT	JASHED SINGH RANA	01-12-96
687	JC	207298F	SUB & HONY LT	JIT SINGH KUKU	01-11-96
688	JC	187805A	SUB & HONY LT	KANAGARAJ DAVID	01-12-96
689	JC	197375P	SUB & HONY LT	MADAN LAL SHARMA	01-09-96
690	JC	165471W	SUB & HONY LT	MANPHUL SINGH	01-01-97
691	JC	158290H	SUB & HONY LT	MARIMUTHU SANTHANAM	01-11-96
692	JC	222445W	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH	01-10-96
693	JC	199413Y	SUB & HONY LT	NARENDRA NATH PATAR	01-09-96
694	JC	204504P	SUB & HONY LT	NIRMAL CHAND	01-10-96
695	JC	202522Y	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-11-96
696	JC	221899X	SUB & HONY LT	POKH PAL SINGH	01-01-97
697	JC	222586L	SUB & HONY LT	POORAN SINGH	01-12-96
698	JC	213781F	SUB & HONY LT	POORNA RAM BAGRIA	01-01-97
699	JC	203424L	SUB & HONY LT	RAM BHAGWAN THAKUR	01-09-96
700	JC	202219X	SUB & HONY LT	RAM SURAT	01-12-96
701	JC	222348Y	SUB & HONY LT	RAM UCHIT SINGH	01-01-97
702	JC	202401A	SUB & HONY LT	RAMESHWAR SINGH	01-01-97
703	JC	199429K	SUB & HONY LT	RANJAN KUMAR MEDHI	01-10-96
704	JC	203416M	SUB & HONY LT	ROHITASHAW MOHLDA	01-12-96
705	JC	199410L	SUB & HONY LT	SHED NARAIN	01-09-96
706	JC	199424L	SUB & HONY LT	SHRI RAM SINGH YADAVA	01-09-96
707	JC	190829P	SUB & HONY LT	TAIJ SINGH CHAUHAN	01-09-96
708	JC	190920L	SUB & HONY LT	TARA CHAND	01-10-96
709	JC	214117N	SUB & HONY LT	TRILOK CHAND	01-01-97
710	JC	147928K	SUB & HONY LT	VALLAPPA PARASAPPA RHOI	01-11-96
711	JC	135020F	SUB & HONY LT	VARGHESE CC	01-10-96

ARMY EDUCATION CORPS

712	JC 127981N	SUB MAJ & HONY LT	BHAIRAB DATT PANTOLA	01-01-97
713	JC 125075X	SUB MAJ & HONY LT	DILEAB SINGH BUDHWAR	01-10-96
714	JC 125083W	SUB MAJ & HONY LT	JITEN CHANDRA DEBNATH	01-01-97
715	JC 137677X	SUB MAJ & HONY LT	KHAGENDRA BANTA	01-01-97
716	JC 141058F	SUB MAJ & HONY LT	NELLYCKAL THOMAS ABRAHAM	01-10-96
717	JC 137683L	SUB MAJ & HONY LT	TULSHI RAM YADAV	01-11-96
718	JC 187680N	SUB & HONY LT	BANI SINGH JAKHAR	01-11-96
719	JC 156183H	SUB & HONY LT	CHHOTE LAL JATAV	01-12-96
720	JC 171004P	SUB & HONY LT	DINESHAN NALLANCHI	01-12-96
721	JC 193371F	SUB & HONY LT	PAKKIRI JAYAPAL	01-09-96
722	JC 193370Y	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-09-96

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

723	RV 7590M	RIS MAJ & HONY LT	NAIN SINGH	01-11-96
724	RV 7648Y	RIS & HONY LT	BADRI LAL MINA	01-12-96
725	RV 7577H	RIS & HONY LT	RAJ KUMAR	01-09-96
726	RV 7627H	RIS & HONY LT	SEWA RAM	01-10-96

THE INTELLIGENCE CORPS

727	JC 170090Y	SUB MAJ & HONY LT	DM PARKASH VERMA	01-10-96
728	JC 144769M	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	01-11-96
729	JC 144785K	SUB MAJ & HONY LT	YATERNDAR CHAND	01-01-97
730	JC 194257W	SUB & HONY LT	BALDEV CHAND SHARMA	01-12-96
731	JC 168320H	SUB & HONY LT	REKHA RAM BARKESIA	01-01-97
732	JC 186623A	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-01-97

CORPS OF MILITARY POLICE

733	JC 146816X	SUB MAJ & HONY LT	GULWANT SINGH	01-10-96
734	JC 146817A	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAL SINGH	01-11-96
735	JC 197634M	SUB & HONY LT	BUDHI BAHADUR GURUNG	01-09-96
736	JC 191987W	SUB & HONY LT	KULTAR CHAND PARMAR	01-09-96

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

737	JC 169490Y	SUB & HONY LT	UMED SINGH RAWAT	01-09-96
-----	------------	------------------	------------------	----------

THE PIONEER CORPS

738	JC 147678N	SUB MAJ & HONY LT	SHAKTI SINGH	01-12-96
739	JC 188754K	SUB & HONY LT	SURESH PAL	01-09-96

DEFENCE SECURITY CORPS

740	JC 111063X	SUB MAJ & HONY LT	DARWAN SINGH	11-09-96
741	JC 114244N	SUB MAJ & HONY LT	SARDAR SINGH	01-10-96

TO BE HONDRARY LIEUTENANTS

ARMoured CORPS

1	JC 127780P	RIS MAJ	CHANDRAPAL SINGH	01-09-96
2	JC 135892K	RIS MAJ	DURGA SINGH	01-10-96
3	JC 126626K	RIS MAJ	MUSHTAQ AHMAD	01-11-96

REGIMENT OF ARTILLERY

4	JC 133912N	SUB MAJ	AJAIB SINGH	01-01-97
5	JC 143888W	SUB MAJ	AKBAR SINGH YADAV	01-09-96
6	JC 110395P	SUB MAJ	AMAR SINGH	01-10-96
7	JC 123954M	SUB MAJ	AMAR SINGH	01-12-96
8	JC 106948H	SUB MAJ	AMRIK SINGH	01-09-96
9	JC 139243W	SUB MAJ	BHANWAR SINGH	01-01-97
10	JC 145844X	SUB MAJ	DALBIR SINGH	01-12-96
11	JC 139331M	SUB MAJ	DALJIT SINGH	01-09-96
12	JC 135163F	SUB MAJ	DHAN PAL	01-11-96
13	JC 133300W	SUB MAJ	DILBAG SINGH	01-10-96
14	JC 143895M	SUB MAJ	GURBACHAN SINGH PARMAR	01-01-97
15	JC 123448F	SUB MAJ	HIRA KUMAR CHHETRI	01-12-96
16	JC 146768H	SUB MAJ	INDER SINGH TANWAR	01-01-97
17	JC 135118P	SUB MAJ	ISHWAR SINGH	01-12-96
18	JC 123516K	SUB MAJ	JAGDISH SINGH	01-10-96
19	JC 126171Y	SUB MAJ	KARAM CHAND	01-10-96
20	JC 133992W	SUB MAJ	MADHAVAN RAVI	01-01-97
21	JC 135426P	SUB MAJ	MAGDUM BABU KEDARI	01-01-97
22	JC 111878Y	SUB MAJ	NARENDER KUMAR SHARMA	01-10-96
23	JC 160017M	SUB MAJ	OMKAR SINGH	01-10-96
24	JC 133893N	SUB MAJ	P ABDUL KADER	01-09-96
25	JC 139296P	SUB MAJ	PERIYAKARUPPAN PERIYAKARUPPAN	01-11-96
26	JC 123482F	SUB MAJ	RAMASAMY VEMANNA	01-01-97
27	JC 134783L	SUB MAJ	RASIL CHAND	01-09-96
28	JC 143864M	SUB MAJ	RUP SINGH	01-01-97
29	JC 135143N	SUB MAJ	SHIV CHARAN SINGH	01-09-96

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

30	JC 104607Y	SUB MAJ	BHIM SINGH	01-10-96
31	JC 106688H	SUB MAJ	GULZAR SINGH	01-09-96
32	JC 114479A	SUB MAJ	GURPIARA	01-01-97
33	JC 120362X	SUB MAJ	KP VIJAYA KUMARAN	01-09-96
34	JC 129855A	SUB MAJ	VISHWANATH SINGH KUSHWAH	01-12-96

MADRAS ENGINEER GROUP

35	JC 102051F	SUB MAJ	KIZHAKKEVEETIL GOPALAN	01-09-96
36	JC 97209M	SUB MAJ	METTA VISHNUMURTY	01-10-96
37	JC 95703Y	SUB MAJ	PERIYATHAMBI VENKATRAMAN	01-09-96
38	JC 95780L	SUB MAJ	UNNIKRISHNAN T	01-09-96

BENGAL ENGINEER GROUP

39	JC 126063P	SUB MAJ	ABDUL JABBAR	01-10-96
40	JC 65111L	SUB MAJ	ARAVA MALLIKARJUNA	01-11-96
41	JC 64234L	SUB MAJ	B YRANAHALLY KADLAPA	01-12-96
42	JC 125797K	SUB MAJ	BALDEV SINGH	01-10-96
43	JC 139782M	SUB MAJ	BANSI DHAR DANDRIYAL	01-01-97
44	JC 124154A	SUB MAJ	BHAGWATI PRASAD PANT	01-10-96
45	JC 86317W	SUB MAJ	BHUWAN CHANDRA	01-09-96
46	JC 124306W	SUB MAJ	BUTTA SINGH	01-11-96
47	JC 123564K	SUB MAJ	CHHAJU SINGH	01-10-96
48	JC 143939Y	SUB MAJ	DALBIR SINGH	01-11-96
49	JC 58948H	SUB MAJ	GANGADHARAN KK	01-09-96
50	JC 124312K	SUB MAJ	GOPAL DATT	01-09-96
51	JC 119716H	SUB MAJ	GOPI CHAND MALI	01-11-96
52	JC 126005N	SUB MAJ	GOVERDHAN DASS	01-10-96
53	JC 124992P	SUB MAJ	HAR SINGH MEHRA	01-10-96
54	JC 124146F	SUB MAJ	HAYAT RAM LOHAR	01-10-96
55	JC 191451A	SUB MAJ	JAGAT CHAND	01-12-96
56	JC 105535M	SUB MAJ	JAGAT SINGH MAHAR	01-01-97
57	JC 125787A	SUB MAJ	JAGJIT SINGH SEKHON	01-10-96
58	JC 126068N	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	01-11-96
59	JC 126082A	SUB MAJ	K KRISHNAN NAIR VENUGOPLAN	01-11-96
60	JC 93020X	SUB MAJ	KAMAL NAIN GUPTA	01-09-96
61	JC 68353Y	SUB MAJ	KOYEPURTH IYPE BABU	01-09-96
62	JC 85532P	SUB MAJ	KUCHUKUTTY PAPPACHAN	01-11-96
63	JC 126031M	SUB MAJ	KULDIP KUMAR	01-10-96
64	JC 126033X	SUB MAJ	KULWANT SINGH	01-12-96
65	JC 84601N	SUB MAJ	KULWANT SINGH	01-09-96
66	JC 98303H	SUB MAJ	KUNDAN SINGH BORA	01-01-97
67	JC 123926A	SUB MAJ	LACHHMAN DASS	01-09-96
68	JC 142138L	SUB MAJ	LAJPAT RAI SHARMA	01-11-96
69	JC 52630P	SUB MAJ	M NAGESHWAR RAO	01-11-96
70	JC 123944H	SUB MAJ	MATHEW K V	01-12-96
71	JC 121217M	SUB MAJ	MEHENGA SINGH	01-09-96
72	JC 78909L	SUB MAJ	NANDA BALLABH	01-01-97
73	JC 126032P	SUB MAJ	NARAIN SINGH JAKHAR	01-10-96
74	JC 52629N	SUB MAJ	ONKAR SINGH	01-09-96
75	JC 99369L	SUB MAJ	PANGA CHARAN MOORTHY	01-11-96
76	JC 88862Y	SUB MAJ	PANIKKASSERI RAMAN SREEDHARAN	01-09-96
77	JC 99452H	SUB MAJ	PIARA SINGH BAINS	01-09-96
78	JC 98304L	SUB MAJ	PRAHLAD SINGH MEHTA	01-09-96
79	JC 123601N	SUB MAJ	PREM NARAIN SHARMA	01-11-96
80	JC 99948X	SUB MAJ	PRITAM SINGH	01-12-96
81	JC 95476P	SUB MAJ	PUTHENPURAKAL VARGHESE SALACE	01-11-96
82	JC 48411W	SUB MAJ	PUTTUVAN VEETIL NARAYANAN	01-10-96
83	JC 67382F	SUB MAJ	PUZHICKUNNIL PARAMESWARAN SAHADEVAN	01-11-96
84	JC 88850K	SUB MAJ	QAMARUDDIN KHAN	01-10-96
85	JC 58404N	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH	01-01-97
86	JC 87173L	SUB MAJ	RAM SINGH	01-12-96
87	JC 64951Y	SUB MAJ	RISHI KUMAR	01-09-96

88	JC 119729A	SUB MAJ	SHAM SINGH	01-11-96
89	JC 125757H	SUB MAJ	SHRI NATH SINGH	01-10-96
90	JC 92706M	SUB MAJ	SUBASH CHANDER	01-09-96
91	JC 49382Y	SUB MAJ	SULUR SRINIVASA RAGHAVAN GOVINDARAJAN	01-09-96
92	JC 106196K	SUB MAJ	SURAJ SINGH	01-01-97
93	JC 67357H	SUB MAJ	SURENDRA PAL SINGH	01-09-96
94	JC 147650N	SUB MAJ	SURENDRA PRASAD	01-10-96
95	JC 125795Y	SUB MAJ	SURJEET SINGH	01-10-96
96	JC 99419L	SUB MAJ	TEJPAL SINGH	01-10-96
97	JC 99471N	SUB MAJ	VALZIVITTATHEVAR THANGAVELU	01-10-96
98	JC 54116K	SUB MAJ	VELLEMADATHIL MOHAMED AHAMED	01-09-96
99	JC 123554A	SUB MAJ	VENKATARAMA JAYAPAL	01-10-96
100	JC 92696N	SUB MAJ	VIJAY BAHADUR SINGH	01-10-96
101	JC 165275W	SUB MAJ	VIJAYARAGHAVAN VAKKILE KOLAPERA	01-11-96
BOMBAY ENGINEER GROUP				
102	JC 125669M	SUB MAJ	AMARJIT SINGH	01-11-96
103	JC 146584K	SUB MAJ	ANKUSH PATIL	01-01-97
104	JC 138835N	SUB MAJ	BIR SINGH	01-11-96
105	JC 143415X	SUB MAJ	GURDEV SINGH	01-12-96
106	JC 138837Y	SUB MAJ	HARI PRASAD TIWARI	01-12-96
107	JC 124398N	SUB MAJ	SAMBHAJI JAMADADE	01-01-97
108	JC 124966N	SUB MAJ	SARUP SINGH	01-01-97
109	JC 125651W	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH JANAGAL	01-10-96
CORPS OF SIGNALS				
110	JC 135262K	SUB MAJ	BACHITTAR SINGH	01-11-96
111	JC 154227W	SUB MAJ	BALDEV SINGH	01-11-96
112	JC 141145P	SUB MAJ	BHAWANI RAM	01-10-96
113	JC 154196F	SUB MAJ	BIKKAR SINGH	01-09-96
114	JC 154180W	SUB MAJ	GOLALAPILLAI CHANDRASEKARAN PILLAI	01-09-96
115	JC 98017F	SUB MAJ	KALI CHARAN UPRAITI	01-10-96
116	JC 154179F	SUB MAJ	MANMOHAN SINGH BIMBH	01-09-96
117	JC 102601Y	SUB MAJ	MOHAN SINGH NEGI	01-09-96
118	JC 133210P	SUB MAJ	MURARI PRASAD SHRIVASTWA	01-12-96
119	JC 154208F	SUB MAJ	NIRMAL KUMAR GHOSH	01-01-97
120	JC 157065F	SUB MAJ	OMPARKASH KHATK	01-01-97
121	JC 154175L	SUB MAJ	OMPRAKASH	01-10-96
122	JC 102573X	SUB MAJ	PIJUSH KANTI MITRA	01-09-96
123	JC 140265F	SUB MAJ	RAGHUVIR SINGH	01-01-97
124	JC 146183P	SUB MAJ	RAJ MAL	01-09-96
125	JC 153468K	SUB MAJ	RAJINDER SINGH	01-12-96
126	JC 154205X	SUB MAJ	RAM SINGH	01-10-96
127	JC 98022M	SUB MAJ	SAVARI MUTHU PITCHAI	01-09-96
128	JC 107134W	SUB MAJ	SHIV SAHAI DUBEY	01-12-96
129	JC 154221P	SUB MAJ	SHIVARAMA BREM KUMAR	01-11-96
130	JC 98021K	SUB MAJ	SUDARSHAN KUMAR	01-01-97
THE BRIGADE OF GUARDS				
131	JC 126384M	SUB MAJ	KOTHACHIRA PUTHAN PURA CHANDRASEKHARAN NAIR	01-10-96

THE PARACHUTE REGIMENT

132 JC 177433M SUB MAJ GULAM SHABRIR KHAN 01-11-96
THE MADRAS REGIMENT

133 JC 114095L SUB MAJ SHYAM BAHADUR SINGH 01-10-96
134 JC 137029P SUB MAJ THANGAVELU VARADHAN 01-09-96
135 JC 114409F SUB MAJ VIKRAMAN 01-09-96
THE GRENADIERS

136 JC 102195K SUB MAJ DIP SINGH 01-10-96
137 JC 143558X SUB MAJ MAN SINGH SINSINWAR 01-12-96
THE MARATHA LIGHT INFANTRY

138 JC 157819L SUB MAJ KISHAN VIRAIHA BATTI 01-12-96
THE RAJPUT REGIMENT

139 JC 105316F SUB MAJ GIRRAJ SINGH 01-11-96
140 JC 118830N SUB MAJ JASWANT SINGH 01-10-96

THE JAT REGIMENT

141 JC 139599K SUB MAJ SHREE RAM VERMA 01-11-96
THE DOGRA REGIMENT

142 JC 103510F SUB MAJ CHHATEN NARGU 01-10-96
THE GARHWAL RIFLES

143 JC 118098P SUB MAJ SURENDRA SINGH 01-01-97
THE KUMAON REGIMENT

144 JC 173907L SUB MAJ BIRBAL SINGH 01-12-96
145 JC 145567X SUB MAJ INDRA SINGH 01-09-96
THE ASSAM REGIMENT

146 JC 118709A SUB MAJ RABILAL VISHWAKARMA 01-09-96
THE BIHAR REGIMENT

147 JC 135007W SUB MAJ SATYA NARAYAN CHOUBEY 01-10-96

THE MAHAR REGIMENT

148 JC 104050X	SUB MAJ	AMAR NATH	01-09-96
149 JC 110956Y	SUB MAJ	BABU RAO	01-09-96
150 JC 111812H	SUB MAJ	SHESHI RAO	01-09-96
1 GORKHA RIFLES			

151 JC 138560L	SUB MAJ	INDRA JANG. THAPA	01-10-96
4 GORKHA RIFLES			

152 JC 139685P	SUB MAJ	MADAN MOHAN	01-11-96
153 JC 104263L	SUB MAJ	SUNDER SINGH GURUNG	01-09-96
11 GORKHA RIFLES			

154 JC 108812X	SUB MAJ	GUNJA BAHADUR RAI	01-12-96
THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT			

155 JC 128113N	SUB MAJ	PITAMBER SINGH	01-09-96
156 JC 127126Y	SUB MAJ	TC RAJAMANI	01-10-96
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)			

157 JC 187457K	SUB MAJ	AMAR SINGH	01-12-96
158 JC 171300A	SUB MAJ	DAROGA SINGH	01-11-96
159 JC 183806L	SUB MAJ	HARBANS SINGH	01-01-97
160 JC 175311K	SUB MAJ	KAILASH CHAND SHARMA	01-10-96
161 JC 175310F	SUB MAJ	KOLLANCHERRY PUTHAN VEETIL RAHENDRAN	01-10-96
162 JC 177721Y	SUB MAJ	LEKH RAJ	01-12-96
163 JC 171306F	SUB MAJ	MEHAR SINGH	01-12-96
164 JC 161991K	SUB MAJ	NARENDRA KUMAR DAS	01-12-96
165 JC 177714N	SUB MAJ	RAMESHWAR LAL KUMHAR	01-09-96
166 JC 175900A	SUB MAJ	SHRI KRISHNA SINGH	01-11-96
167 JC 181640W	SUB MAJ	TRIBHUWAN NATH TRIPATHI	01-09-96
ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)			

168 JC 177453A	RIS MAJ	RAM KUMAR THAKUR AKELA	01-11-96
ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)			

169 JC 165547L	SUB MAJ	GEETAM SINGH	01-09-96
170 JC 160519P	SUB MAJ	NAINA RAM JAT	01-10-96
171 JC 165551N	SUB MAJ	PARASHU RAM	01-12-96
172 JC 165576A	SUB MAJ	RAJ MANI VERMA	01-11-96
173 JC 165543P	SUB MAJ	SULTAN SINGH	01-10-96

ARMY MEDICAL CORPS

174	JC	146454F	SUB MAJ	BALBIR SINGH	01-09-96
175	JC	178390P	SUB MAJ	BALDEV SINGH DUKHA	01-10-96
176	JC	169615L	SUB MAJ	CHAPPIDI VENKATA REDDY	01-09-96
177	JC	170153P	SUB MAJ	CHELLAPPAN PILLAI GOPINATHAN NAIR	01-01-97
178	JC	178396W	SUB MAJ	DEO CHARAN RAM	01-10-96
179	JC	170149N	SUB MAJ	GOPI RAM	01-12-96
180	JC	170413L	SUB MAJ	GURDIYAL SINGH	01-12-96
181	JC	170144P	SUB MAJ	GURUMUKH SINGH	01-12-96
182	JC	169646L	SUB MAJ	HARI MITTAR	01-10-96
183	JC	109942M	SUB MAJ	HARI SINGH	01-12-96
184	JC	170048A	SUB MAJ	KUNWAR SINGH	01-10-96
185	JC	170045M	SUB MAJ	MATHURA PRASAD	01-11-96
186	JC	170044K	SUB MAJ	MOHINDER SINGH	01-09-96
187	JC	169652Y	SUB MAJ	MURALI PRASAD PAUL	01-12-96
188	JC	170146A	SUB MAJ	MUTTIAMPURATH KUTTINARAYANAN NAIR	01-11-96
189	JC	192271K	SUB MAJ	PARTAP SINGH MALLI	01-01-97
190	JC	169647N	SUB MAJ	PUKH RAJ	01-11-96
191	JC	161090X	SUB MAJ	PUTHIYAPARAMBATH MADHAVAN	01-09-96
192	JC	179610A	SUB MAJ	SAKHARAJ SINGH YADAV	01-01-97
193	JC	192268K	SUB MAJ	SARVADEO SINGH	01-10-96
194	JC	102783X	SUB MAJ	SHRI PATI SINGH	01-09-96
195	JC	170223K	SUB MAJ	SHYAM PARKASH	01-10-96
196	JC	170215L	SUB MAJ	SUKUMAR BISWAS	01-09-96
197	JC	192269M	SUB MAJ	SUSHIL MUKHERJEE	01-11-96
198	JC	178393H	SUB MAJ	TARA CHAND	01-10-96

ARMY ORDNANCE CORPS

199	JC	175726Y	SUB MAJ	ANTHONY KUTTY PT	01-10-96
200	JC	175712Y	SUB MAJ	BHOLA NATH	01-09-96
201	JC	165697F	SUB MAJ	BISWANATH YADAV	01-09-96
202	JC	173537W	SUB MAJ	GIRRAJ SINGH	01-09-96
203	JC	175662Y	SUB MAJ	NARESH PARSAD SINGH	01-10-96
204	JC	173496X	SUB MAJ	OM PRAKASH RAI	01-09-96
205	JC	165698K	SUB MAJ	RAM SWARUP	01-09-96
206	JC	176713N	SUB MAJ	RAMDULAR MAURYA	01-10-96
207	JC	175715M	SUB MAJ	TRIVENI SINGH	01-01-97
208	JC	173497A	SUB MAJ	VVR RAO	01-11-96

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

209	JC	122637Y	SUB MAJ	BALDEV SINGH	01-11-96
210	JC	130331L	SUB MAJ	BALESHWAR RAM	01-01-97
211	JC	120969K	SUB MAJ	ISHWAR SINGH	01-10-96
212	JC	122636W	SUB MAJ	KARAN SINGH	01-11-96
213	JC	131239Y	SUB MAJ	OM PRAKASH	01-12-96
214	JC	150481H	SUB MAJ	PUTHARIRA SOMAIAH UTHAIAH	01-12-96
215	JC	165893X	SUB MAJ	RAJ BAL SINGH	01-10-96
216	JC	122635N	SUB MAJ	RAM PYARE TRIPATHI	01-11-96

217	JC	179129F	SUB MAJ	SARDAR SINGH	01-11-96
218	JC	121001L	SUB MAJ	SHIVAJI KADAM	01-11-96
219	JC	174089F	SUB MAJ	UTTAM SINGH PATYAL	01-10-96
220	JC	165523F	SUB MAJ	VILAS KADAM	01-10-96
ARMY EDUCATION CORPS					
221	JC	136142X	SUB MAJ	ASHOK KUMAR JAIN	01-01-97
222	JC	156182A	SUB MAJ	BIJAI NARAIN TIWARI	01-12-96
223	JC	133336P	SUB MAJ	ELAVANTHIKAL NEELAKANDAN MONIAN ACHARI	28-07-96
224	JC	125081L	SUB MAJ	MOHAN CHANDRA TRIPATHI	01-11-96
225	JC	147043N	SUB MAJ	RAJ KISHORE TRIPATHI	01-01-97
226	JC	134007L	SUB MAJ	SARDAR SINGH ARYA	01-01-97
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS					
227	JC	124702M	SUB MAJ	ROSHAN LAL	01-12-96
DEFENCE SECURITY CORPS					
227	JC	125018W	SUB MAJ	NAZAR MOHAMMED	01-12-96
228	JC	111063H	SUB MAJ	RAM SEWAK MISHRA	01-09-96
229	JC	100326L	SUB MAJ	YUDHISHTIR SINGH	01-01-97

 TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR

ARMoured CORPS

1	JC	184008M	RIS	AJMER SINGH	01-11-96
2	JC	162065L	RIS	AMAR SINGH	01-09-96
3	JC	171251H	RIS	AMAR SINGH	01-11-96
4	JC	194143L	RIS	AMRIK SINGH	01-10-96
5	JC	168703P	RIS	BALRAJ SINGH	01-09-96
6	JC	177479P	RIS	BALWANT SINGH	01-10-96
7	JC	170298F	RIS	BISHAN SINGH	01-11-96
8	JC	160810N	RIS	BISHWANATH SINGH	01-10-96
9	JC	154843W	RIS	HAMIR SINGH	01-11-96
10	JC	211487H	RIS	HANUMAN SINGH	01-09-96
11	JC	175000P	RIS	HARDIP SINGH	01-11-96
12	JC	194114W	RIS	JARNAIL SINGH	01-11-96
13	JC	189569H	RIS	JIT SINGH	01-11-96
14	JC	195357N	RIS	KALYAN SINGH	01-01-97
15	JC	140594X	RIS	KARNAIL SINGH	01-09-96
16	JC	141672W	RIS	KASHMIR SINGH	01-12-96
17	JC	181359N	RIS	KHUB CHAND	01-10-96
18	JC	163582P	RIS	KIRPAL SINGH	01-10-96
19	JC	196753W	RIS	KRIPA SHANKER SINGH	01-10-96
20	JC	156761M	RIS	KUNWARPAL SINGH	01-10-96
21	JC	211464F	RIS	LAXMAN SINGH	01-10-96
22	JC	148240K	RIS	MAHENDRA SINGH	01-09-96
23	JC	195342L	RIS	MATU SINGH	01-12-96
24	JC	195364K	RIS	MEGH RAJ	01-09-96
25	JC	152041N	RIS	MOHAN SINGH	01-10-96
26	JC	44854A	RIS	MOHINDER SINGH RESHAM	01-01-97
27	JC	128902A	RIS	MUMTAZ ALI	01-09-96
28	JC	168664F	RIS	NASIB SINGH	01-10-96
29	JC	211454X	RIS	NATHU RAM	01-01-97
30	JC	200780A	RIS	OM PARKASH	01-11-96
31	JC	206580A	RIS	PARSHOTAM DASS	01-10-96
32	JC	195377F	RIS	RAGHUNATH SINGH RATHORE	01-11-96
33	JC	163581M	RIS	RAJPAL SINGH TANWAR	01-11-96
34	JC	170285K	RIS	RAM CHHABILA CHAUDHRY	01-09-96
35	JC	183597Y	RIS	RAM PRAKASH KUSHWAHA	01-10-96
36	JC	173768M	RIS	RAMESHAWAR SINGH NARA	01-11-96
37	JC	194122P	RIS	RAMESHWAR SINGH	01-09-96
38	JC	194146Y	RIS	RASAL SINGH	01-12-96
39	JC	203235F	RIS	RATTAN CHAND	01-09-96
40	JC	162049N	RIS	SARBAN SINGH	01-11-96
41	JC	148241M	RIS	SARBJIT SINGH	01-10-96
42	JC	200701A	RIS	SATYA NARAIN SINGH	01-10-96
43	JC	200687Y	RIS	SHER SINGH	01-10-96
44	JC	152074Y	RIS	SOM DATT SHARMA	01-11-96
45	JC	181355M	RIS	SUKHPAL SINGH	01-10-96
46	JC	195365M	RIS	THURU RAM	01-12-96
47	JC	173783F	RIS	UDAI PAL SINGH	01-10-96
48	JC	152015M	RIS	WAHATULE LAXMAN	01-10-96
49	JC	171269Y	RIS	WATTAN SINGH	01-09-96

REGIMENT OF ARTILLERY

50	JC	223349N	SUB	ABHAI SINGH	01-01-97
51	JC	169926Y	SUB	AJAB SINGH	01-10-96
52	JC	195034L	SUB	AJIT SINGH	01-10-96
53	JC	149904Y	SUB	AMAR SINGH	01-11-96
54	JC	179195K	SUB	AMAR SINGH	01-09-96
55	JC	179203X	SUB	AMIR SINGH YADAV	01-11-96
56	JC	197604P	SUB	ANJANI KUMAR SINGH	01-01-97
57	JC	193407P	SUB	ASHOK KUMAR	01-01-97
58	JC	179201M	SUB	RABU RAM	01-11-96
59	JC	178705N	SUB	BAHADUR SINGH	01-01-97
60	JC	158519W	SUB	BAKSHISH SINGH	01-11-96
61	JC	190528L	SUB	BALBIR SINGH	01-11-96
62	JC	171032F	SUB	BALBIR SINGH RAO	01-09-96
63	JC	178776P	SUB	BALDEV NATH	01-11-96
64	JC	176266P	SUB	BALDEV SINGH	01-10-96
65	JC	195141M	SUB	BALDEV SINGH	01-11-96
66	JC	195147N	SUB	BALDEV SINGH	01-10-96
67	JC	214425N	SUB	BALKAR SINGH	01-10-96
68	JC	183254H	SUB	BALWANT SINGH	01-12-96
69	JC	180443F	SUB	BANSI LAL	01-12-96
70	JC	179186H	SUB	RANSI RAM	01-09-96
71	JC	175539A	SUB	BELI RAM SUPPHYIA	01-09-96
72	JC	214396K	SUB	BHAGAT RAM	01-01-97
73	JC	184563X	SUB	BHAGWAN JADHAV	01-10-96
74	JC	177893N	SUB	BHAGWAN SINGH	01-10-96
75	JC	185343A	SUB	BHAJ RAM YADAV	01-12-96
76	JC	140118N	SUB	BHANWAR SINGH RATHORE	01-09-96
77	JC	209342Y	SUB	BHARAT CHAND	01-09-96
78	JC	176439F	SUB	BHUPATI KUMAR SINGHA	01-10-96
79	JC	226067A	SUB	BISHAMBER SINGH	01-12-96
80	JC	178012P	SUB	CHAMAN LAL	01-01-97
81	JC	195137K	SUB	CHANDER BHAN ANIL	01-12-96
82	JC	158516H	SUB	CHARAM SINGH	01-09-96
83	JC	225512F	SUB	CHATRABHUJ CHITOLE	01-12-96
84	JC	226029K	SUB	DALIPA RAM	01-10-96
85	JC	171435F	SUB	DARGHAN SINGH	01-12-96
86	JC	193409A	SUB	DARSHAN SINGH	01-11-96
87	JC	169793N	SUB	DATTARAM CHANDRARAO SHINDE	01-01-97
88	JC	186660F	SUB	DEOMUNI SINGH YADAVA	01-12-96
89	JC	186729K	SUB	DEV RAJ MEHRA	01-12-96
90	JC	157605P	SUB	GHISA RAM	01-01-97
91	JC	197434W	SUB	GHORPADE BABURAO RAMACHANDRA	01-10-96
92	JC	226090N	SUB	GIRJA SHANKAR SHARMA	01-10-96
93	JC	169006F	SUB	GOPAL SINGH	01-10-96
94	JC	176255H	SUB	GULAB SINGH BHADORIA	01-01-97
95	JC	177808H	SUB	GULZAR SINGH SANDHU	01-10-96
96	JC	183244Y	SUB	GURDIAL RAM	01-12-96
97	JC	226448F	SUB	GURNAM SINGH	01-11-96
98	JC	223321N	SUB	HANS RAT	01-09-96

99	JC	177684W	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-12-96
100	JC	203529P	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-01-97
101	JC	171347L	SUB	HARI SINGH	01-01-97
102	JC	183232K	SUB	HARJIT SINGH LIT	01-10-96
103	JC	190677Y	SUB	HAWA SINGH KULHAR	01-11-96
104	JC	182024H	SUB	HIRA LAL	01-12-96
105	JC	221257H	SUB	HOSHIAR SINGH	01-12-96
106	JC	169977M	SUB	JABDISH CHAND	01-10-96
107	JC	150323N	SUB	JAGIR SINGH	01-10-96
108	JC	181024W	SUB	JAGJIT SINGH	01-12-96
109	JC	179197P	SUB	JASWANT SINGH	01-09-96
110	JC	186505M	SUB	JASWANT SINGH	01-09-96
111	JC	203536L	SUB	KAILASH SINGH SHEKHAWAT	01-09-96
112	JC	206208H	SUB	KARAM SINGH THAKUR	01-12-96
113	JC	179192W	SUB	KARRI VENKATA RAMANA	01-09-96
114	JC	177091H	SUB	KAUSHAL KISHORE	01-10-96
115	JC	165532H	SUB	KEHAR MAN GURUNG	01-12-96
116	JC	221212H	SUB	KESAR SINGH	01-01-97
117	JC	183249X	SUB	KESHAR SINGH PAL	01-12-96
118	JC	185366F	SUB	KHUSHI RAM YADAV	01-11-96
119	JC	223593N	SUB	KISMET SINGH	01-11-96
120	JC	186685A	SUB	KK DASAPPAN PILLAI	01-11-96
121	JC	183251P	SUB	KULDIP SINGH SANDHU	01-12-96
122	JC	200261X	SUB	KULTAR CHAND	01-09-96
123	JC	183234P	SUB	KUNWAR SINGH BHADAURIA	01-11-96
124	JC	173328Y	SUB	LACHMAN SINGH	01-10-96
125	JC	157466W	SUB	LAL SINGH	01-10-96
126	JC	217571Y	SUB	LANKESWAR DAS	01-09-96
127	JC	225674M	SUB	LUTHER NEELA	01-09-96
128	JC	171359A	SUB	MADAN GOPAL	01-01-97
129	JC	175541X	SUB	MADAN NAGAONKAR	01-09-96
130	JC	177882F	SUB	MADHO SINGH BHATI	01-09-96
131	JC	179194F	SUB	MAHAVIR SINGH	01-09-96
132	JC	183247M	SUB	MAJOR SINGH BHULLAR	01-12-96
133	JC	180477P	SUB	MAKHAN SINGH	01-01-97
134	JC	175301A	SUB	MAN SINGH	01-12-96
135	JC	214397M	SUB	MANGA RAM	01-11-96
136	JC	190533W	SUB	MANSOOR KHAN	01-01-97
137	JC	154609A	SUB	MARKANDEY RAI	01-11-96
138	JC	186737L	SUB	MATHAI THOMAS	01-12-96
139	JC	174852Y	SUB	MAVINAVAR VENKAPPA APPANNA	01-09-96
140	JC	180568Y	SUB	MOHAN LAL SHARMA	01-12-96
141	JC	175549K	SUB	MUNSHI RAM THAKUR	01-11-96
142	JC	145854F	SUB	NAVI APPANNA RAYAPPA	01-12-96
143	JC	200409L	SUB	NIKKA RAM	01-01-97
144	JC	175509H	SUB	NIKU RAM	01-01-97
145	JC	190541P	SUB	NIRMAL SINGH	01-12-96
146	JC	148113P	SUB	NISHAN SINGH	01-09-96
147	JC	226621A	SUB	OM PARKASH	01-09-96
148	JC	193481W	SUB	OM PARKASH YADAVA	01-01-97
149	JC	214938H	SUB	OM PRAKASH	01-01-97
150	JC	175544L	SUB	ONKAR SINGH CHAUHAN	01-10-96

151	JC	151881F	SUB	PAL SINGH	01-11-96
152	JC	171380H	SUB	PANDIT SURYAWANSHI	01-10-96
153	JC	199054W	SUB	PREM SINGH BHAMU	01-11-96
154	JC	186495N	SUB	PS BASALINGAPPA	01-12-96
155	JC	185349F	SUB	PURAN CHANDRA PANDE	01-01-97
156	JC	180398A	SUB	PURNA BAHADUR RAI	01-12-96
157	JC	177887A	SUB	RAJENDER PRATAP	01-09-96
158	JC	183230Y	SUB	RAJENDRA KUMAR SHARMA	01-10-96
159	JC	183248P	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-12-96
160	JC	190582Y	SUB	RAJENDRA PRASAD TRIPATHI	01-09-96
161	JC	135085P	SUB	RAJU THANGAVELU	01-11-96
162	JC	198278K	SUB	RAM ADHAR SINGH	01-01-97
163	JC	186379L	SUB	RAM BIHARI PRASAD	01-12-96
164	JC	199100A	SUB	RAM CHAND	01-09-96
165	JC	226614K	SUB	RAM CHANDER	01-11-96
166	JC	154756H	SUB	RAM GOPAL BRIJVANSHI	01-11-96
167	JC	169023F	SUB	RAM KRISHAN PRASHER	01-11-96
168	JC	178841K	SUB	RAM MEHAR SINGH YADAV	01-11-96
169	JC	183250M	SUB	RAM RAJ YADAV	01-11-96
170	JC	183224L	SUB	RAM SAJIWAN SINGH	01-10-96
171	JC	205848A	SUB	RAM SINGH YADAV	01-09-96
172	JC	185360A	SUB	RAMCHANDRAN NAIR M	01-12-96
173	JC	186746M	SUB	RAMENDRA SINGH YADAV	01-11-96
174	JC	226058Y	SUB	RAMESH CHAND	01-12-96
175	JC	183245P	SUB	RANJIT SINGH	01-12-96
176	JC	225242X	SUB	RAVINDER SINGH	01-11-96
177	JC	182037A	SUB	ROSHAN LAL	01-11-96
178	JC	176197K	SUB	SAEROOP SINGH	01-01-97
179	JC	183248H	SUB	SADA BRIKSH YADAV	01-11-96
180	JC	200234N	SUB	SANSAR SINGH	01-01-97
181	JC	179188N	SUB	SANTOKH SINGH NAGRA	01-09-96
182	JC	190694Y	SUB	SARAN DASS	01-10-96
183	JC	186370W	SUB	SARDAR SINGH	01-12-96
184	JC	172235X	SUB	SARDUL SINGH	01-09-96
185	JC	160637H	SUB	SATI RAM	01-01-97
186	JC	186563W	SUB	SATPAL SINGH PUNIA	01-01-97
187	JC	186684X	SUB	SATYA RAM YADAV	01-11-96
188	JC	149353Y	SUB	SCS KUSHWAH	01-10-96
189	JC	177698K	SUB	SHRI CHAND	01-09-96
190	JC	185348Y	SUB	SINNAMUTHU ANTONY	01-12-96
191	JC	157616F	SUB	SIVAKURUNATHAN SAMBANTHAM	01-11-96
192	JC	180402X	SUB	SON PAL SINGH	01-09-96
193	JC	177889L	SUB	SUCHA SINGH	01-10-96
194	JC	183257W	SUB	SUDARSHAN SINGH YADAV	01-11-96
195	JC	202357Y	SUB	SURINDER KUMAR	01-10-96
196	JC	176427M	SUB	SURINDER SINGH	01-10-96
197	JC	206496A	SUB	SWARN SINGH	01-09-96
198	JC	177878Y	SUB	TARA CHAND	01-11-96
199	JC	198671M	SUB	TGNS NAIR	01-09-96
200	JC	226433Y	SUB	UDAI CHAND	01-10-96
201	JC	175508A	SUB	VASANT AUTADE	01-09-96
202	JC	190539X	SUB	VIJAYA CHANDRAN PILLAI	01-12-96

203	JC	190527H	SUB	VIRENDRA PRASAD SHARMA	01-12-96
204	JC	163008W	SUB	VISHWANATH SINGH BHADORIA	01-01-97
205	JC	167076F	SUB	WASSAN SINGH	01-11-96
206	JC	200291P	SUB	YAD RAM	01-10-96
207	JC	157554M	SUB	YASHWANT SINGH PARIHAR	01-09-96
CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY					
208	JC	151858N	SUB	AKARAM SHIVRAM SUTAR	01-09-96
209	JC	175274F	SUB	BHAWAN MISTRY	01-01-97
210	JC	185353K	SUB	BHAWAN SINGH	01-12-96
211	JC	171114K	SUB	BIRADAR PATIL SIDDAGOUDA	01-12-96
212	JC	161336L	SUB	DHARAM VIR	01-01-97
213	JC	201662Y	SUB	GURNAM SINGH	01-01-97
214	JC	183239N	SUB	HARMESH SINGH	01-11-96
215	JC	135448N	SUB	JAGIR SINGH	01-10-96
216	JC	171102P	SUB	JAMAN SINGH	01-09-96
217	JC	185359L	SUB	JANAK RAJ	01-01-97
218	JC	175516Y	SUB	KADURA SINHA	01-10-96
219	JC	169104H	SUB	KANDHAN MURTHY	01-11-96
220	JC	140129A	SUB	KATKAR PADMAKAR RAMDAS	01-10-96
221	JC	152711K	SUB	KUMBH SINGH	01-09-96
222	JC	195164N	SUB	LAKHAN SINGH BHANDARI	01-10-96
223	JC	179170K	SUB	LEKH RAJ GULERIA	01-09-96
224	JC	178891P	SUB	MAN KUMAR CHHETRI	01-01-97
225	JC	226319F	SUB	MS AMBAIAH	01-12-96
226	JC	151005W	SUB	PARAMJIT SINGH	01-01-97
227	JC	185342X	SUB	PARKASH CHAND	01-12-96
228	JC	198263F	SUB	PHANINDRA KUMAR ROY	01-09-96
229	JC	185363N	SUB	PRATAP SINGH	01-01-97
230	JC	156262X	SUB	RAJAN PANJU FZHUTHASSAN	01-10-96
231	JC	183236A	SUB	RAJENDRA PRASAD MK	01-11-96
232	JC	160036X	SUB	RAM SHARAN SINGH	01-11-96
233	JC	147694L	SUB	RAM SINGH	01-09-96
234	JC	152705W	SUB	RAM SURAT PANDEY	01-09-96
235	JC	158481X	SUB	RAMBIR SINGH	01-10-96
236	JC	106649P	SUB	RANDHIR SINGH KHOLA	01-12-96
237	JC	183243W	SUB	ROHITASHWA YADAVA	01-12-96
238	JC	157970W	SUB	SHAMSHER SINGH MONGRA	01-11-96
239	JC	183317A	SUB	SHER SINGH	01-11-96
240	JC	170937X	SUB	SREEDHARAN RAYAROTH	01-11-96
241	JC	195173P	SUB	SRIKRISHNA PRATAP SINGH	01-09-96
242	JC	197439P	SUB	TARSEM LAL	01-09-96
243	JC	167665X	SUB	UDHBIR SINGH	01-12-96
244	JC	161359M	SUB	VELAYUTHAM KULANDAI	01-11-96
245	JC	190535F	SUB	YUDHVIR SINGH	01-12-96
MADRAS ENGINEER GROUP					
246	JC	127069H	SUB	ANTHONY VAZHAPILLY VERGEHESE	01-11-96
247	JC	159971X	SUB	ARANGHAN MANI MADHAVAN	01-12-96
248	JC	170353M	SUB	BOPAGAH PEMMAIAH	01-11-96

249	JC	162404A	SUB	CHINNAPPAN MICHEAL	01-01-97
250	JC	139746F	SUB	GONBUNTLA RAMA NAYUDU	01-11-96
251	JC	156566P	SUB	K KARUPPAIAH	01-11-96
252	JC	139745Y	SUB	KODAPPULLY KOCHUKUTTAN BHARATHEEYAN	01-11-96
253	JC	197045W	SUR	LOHIDAKSHAN KANJIRAPARAMBIL	01-01-97
254	JC	159743K	SUB	MUNISWAMY MARKANDAYAN	01-12-96
255	JC	156604A	SUB	PERIANAYAGAM FRANCIS	01-01-97
256	JC	154095N	SUB	PINNATHEVAR KARUTHA KANNAN	01-11-96
257	JC	196943X	SUB	RANGASAMY SURULIRAJ	01-09-96
258	JC	156615M	SUB	RAYANUTHALA DAVEEDU	01-11-96
259	JC	207442L	SUB	SANKARAN GOPINADHAN PILLAI	01-11-96
260	JC	138953F	SUB	THANKAPPAN PILLAI PK	01-11-96

BENGAL ENGINEER GROUP

261	JC	163217N	SUB	AJIT SINGH	01-09-96
262	JC	130465K	SUB	D BHADRAN	01-12-96
263	JC	123555H	SUB	DEVARAJAN CHANDRA HASAN	01-12-96
264	JC	207676P	SUB	DHIRAJ SINGH	01-11-96
265	JC	166834F	SUB	LALAN SINGH	01-12-96
266	JC	207675M	SUB	MAN SINGH	01-12-96
267	JC	179812F	SUB	MATHURA DATT SHARMA	01-11-96
268	JC	177085W	SUB	NARAYAN DATT	01-11-96
269	JC	171474A	SUB	QM PRAKASH	01-10-96
270	JC	140824A	SUB	PATIL SHIVANGUDA DODDAGOUDA	01-11-96
271	JC	207705Y	SUB	PAVAN KUMAR JAIN	01-12-96
272	JC	140924L	SUB	PYARE LAL KUKRETI	01-01-97
273	JC	207756M	SUB	SADANANDAN P	01-01-97
274	JC	207778L	SUB	SATTARU VENKATA SATYAM	01-12-96
275	JC	207715H	SUB	SENGODAMUDALI MUGUBESAN	01-12-96
276	JC	146208W	SUB	SIRONMANI MOSES	01-09-96
277	JC	191393F	SUB	TERSAM LAL	01-09-96
278	JC	207759A	SUB	VEDAMUTHU SUSAI PRAKASASAM	01-09-96
279	JC	207754F	SUB	VETTIKIZHAKETHIL CHERIYAN JOSHUA	01-12-96

BOMBAY ENGINEER GROUP

280	JC	171604X	SUB	BARAN KIRDAT	01-10-96
281	JC	160385F	SUB	BABURAO JADHAV	01-12-96
282	JC	186268N	SUB	CHANDRA SHEKAR DWIVEDI	01-10-96
283	JC	170449P	SUB	DATTATRAY BHOSLE	01-01-97
284	JC	166904P	SUB	GURDIP SINGH	01-11-96
285	JC	191703F	SUR	GURMAIL SINGH	01-11-96
286	JC	159501M	SUB	GURUCHARAN SINGH	01-11-96
287	JC	191654K	SUB	HARNEK SINGH	01-09-96
288	JC	160397W	SUB	JAIRAM MATKAR	01-01-97
289	JC	163159P	SUB	JASWANT SINGH	01-10-96
290	JC	165346M	SUB	MAI RAM SINGAL	01-11-96
291	JC	170430W	SUB	QM PRAKASH SINGH	01-11-96
292	JC	191661A	SUB	PMT MALAWA SINGH	01-12-96
293	JC	171599X	SUB	RAGHUNATH SINGH	01-12-96
294	JC	182500Y	SUB	SHAMRAO BOLAKE	01-09-96
295	JC	191634W	SUB	SHINTRE VISHNU LAXMAN	01-01-97

296	JC	171618X	SUB	TUKARAM PATIL	01-01-97
297	JC	186314X	SUB	VASANT SHINDE	01-09-96
298	JC	197277P	SUB	VITHAL MANE	01-11-96
CORPS OF SIGNALS					
299	JC	188166W	SUB	AMAR SINGH PANCHAL	01-10-96
300	JC	198229F	SUB	AMARJIT	01-01-97
301	JC	196146X	SUB	ARAKHITA MISRO	01-10-96
302	JC	195694H	SUB	ARUMUGAM CHELLAPPA	01-09-96
303	JC	209060A	SUB	ASHTIKAR DEVIDAS RAO	01-11-96
304	JC	186029Y	SUB	BADLU RAM	01-12-96
305	JC	208808K	SUB	BAGINDRA SINGHA	01-12-96
306	JC	192071N	SUB	BALA DATT	01-12-96
307	JC	182186N	SUB	BHAGWAN SINGH	01-12-96
308	JC	198706X	SUB	BHAWAN SINGH	01-12-96
309	JC	194809Y	SUB	BHIM BAHADUR TAMANG	01-12-96
310	JC	181271K	SUB	BISHAN SINGH MANKOTI	01-12-96
311	JC	165747F	SUB	DARSHAN BAINS	01-12-96
312	JC	186036P	SUB	DARYA SINGH	01-01-97
313	JC	186047F	SUB	DAYA NAND	01-11-96
314	JC	188017H	SUB	DEVINDER KUMAR	01-01-97
315	JC	182195P	SUB	DHANNA RAM CHOUDHARY	01-10-96
316	JC	185988H	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-10-96
317	JC	180978P	SUB	DHIRENDRA KUMAR SINGH	01-09-96
318	JC	145915N	SUB	GAIKWAD NAGESH	01-09-96
319	JC	192065A	SUB	GANGA DEYAL SINGH	01-01-97
320	JC	207380W	SUB	GEORGE KUTTY CV	01-12-96
321	JC	186003K	SUB	GHANDHARB SINGH	01-11-96
322	JC	206961F	SUB	GURMAIL SINGH CHAHAL	01-11-96
323	JC	181272M	SUB	GURUNATHAN	01-10-96
324	JC	188079H	SUB	GURUSAMY RENGARAJ	01-10-96
325	JC	198490F	SUB	HAR NATH TRIPATHI	01-11-96
326	JC	209054M	SUB	HARDAYAL SINGH	01-09-96
327	JC	197718A	SUB	HARDWART LAL	01-01-97
328	JC	208844P	SUB	HARI SINGH	01-10-96
329	JC	192028M	SUB	IMAN SINGH CHHETRI	01-01-97
330	JC	209066F	SUB	JAGADISH RAM	01-01-97
331	JC	192125K	SUB	JAGDISH CHAND	01-10-96
332	JC	197731K	SUB	JAGDISH CHAND	01-10-96
333	JC	186028W	SUB	JAGMALA RAM	01-11-96
334	JC	195693A	SUB	JAGVIR SINGH	01-10-96
335	JC	209058H	SUB	JAI SINGH	01-11-96
336	JC	188306X	SUB	JANARDANAN NC	01-09-96
337	JC	180476K	SUB	JARNAIL SINGH	01-11-96
338	JC	187986W	SUB	JOBINDER LAL	01-10-96
339	JC	209053K	SUB	KAMER CHAND	01-09-96
340	JC	188302F	SUB	KANAHIYA LAL	01-01-97
341	JC	182180M	SUB	KANHYA LAL	01-11-96
342	JC	186025H	SUB	KANNAN KUMARA SWAMY	01-10-96
343	JC	197725W	SUB	KISHAN CHAND	01-09-96
344	JC	198696Y	SUB	KR VITAYAN	01-10-96
345	JC	182206W	SUB	KULDIP SINGH	01-09-96

346	JC	179727Y	SUB	LAL MOHAN RAI	01-09-96
347	JC	182219N	SUB	LOGI CHAND	01-12-96
348	JC	182289M	SUB	MAHENDER SINGH	01-09-96
349	JC	197730F	SUB	MAM RAJ	01-11-96
350	JC	182181P	SUB	MANJIT SINGH BAJWA	01-11-96
351	JC	197739W	SUB	MATHEW M	01-01-97
352	JC	179737H	SUB	MEHAR SINGH	01-01-97
353	JC	214226A	SUB	MICHEAL JAGANNATHAN	01-12-96
354	JC	192029P	SUB	MOHAN SINGH	01-01-97
355	JC	181013K	SUB	MOHINDER SINGH GULERIA	01-12-96
356	JC	185992L	SUB	MPS CHAUHAN	01-11-96
357	JC	180972N	SUB	MUKHRAM SINGH	01-10-96
358	JC	188307A	SUB	MURUGESAN VISVANATHAN	01-01-97
359	JC	186027N	SUB	NAGESWAR PRASAD SINGH YADAV	01-10-96
360	JC	196150A	SUB	NANDA BALLABH	01-11-96
361	JC	186002F	SUB	PAKHINDRA KALITA	01-09-96
362	JC	212135X	SUB	PHOOL SINGH	01-09-96
363	JC	182187W	SUB	PRAFULLA KUMAR PARIDA	01-09-96
364	JC	209067K	SUB	PRATAP SINGH	01-01-97
365	JC	186052M	SUB	RAHAMAN MOHAMMED JAFFAR	01-10-96
366	JC	180993K	SUB	RAJ KUMAR SHARMA	01-10-96
367	JC	185990A	SUB	RAJ PAL	01-11-96
368	JC	209061H	SUB	RAM ADHAR MORYA	01-11-96
369	JC	186013N	SUB	RAM ASRE MISHRA	01-12-96
370	JC	182185L	SUB	RAM BAHADUR	01-12-96
371	JC	182216A	SUB	RAM BILASH MAHTO	01-01-97
372	JC	186024A	SUB	RAM CHANDRA SINGH	01-10-96
373	JC	192129A	SUB	RAM GOPAL	01-10-96
374	JC	180982X	SUB	RAM LAL	01-11-96
375	JC	181003A	SUB	RAM SINGHASAN RAI	01-11-96
376	JC	198013A	SUB	RAMADASAN DRKATERI VEETIL	01-10-96
377	JC	212137H	SUB	RAMESH CHANDER	01-11-96
378	JC	188123F	SUB	RAMESHWAR LAL BHINCHAR	01-11-96
379	JC	186037X	SUB	RAMJEE SINGH	01-01-97
380	JC	187974F	SUB	RASHIR MOHAMMAD	01-01-97
381	JC	209063N	SUB	RAVEENDRAN CHERIKKA POYIL	01-12-96
382	JC	209064W	SUB	ROSHAN LAL MOHAL	01-12-96
383	JC	202786A	SUB	SANTOSH KUMAR KAR	01-11-96
384	JC	212136A	SUB	SATYA PAL	01-10-96
385	JC	187963P	SUB	SHANKAR SINGH	01-10-96
386	JC	192072W	SUB	SHER SINGH	01-12-96
387	JC	181245H	SUB	SHIO PUJAN RAM	01-12-96
388	JC	180975F	SUB	SHRAWAN KUMAR	01-10-96
389	JC	212138L	SUB	SHREE CHAND	01-11-96
390	JC	197995L	SUB	SHYAM LAL NAPIT	01-10-96
391	JC	187949H	SUB	SIVA RAMAN L	01-01-97
392	JC	206756A	SUB	SOBAT SINGH	01-01-97
393	JC	181005L	SUB	SOHAN PAL	01-11-96
394	JC	187970L	SUB	SOM DATT	01-01-97
395	JC	188169K	SUB	SURASEN MOHANTY	01-11-96
396	JC	196158M	SUB	THAKUR DASS	01-11-96

397	JC	172834X	SUB	THANGAMANI SIVASAMY	01-12-96
398	JC	181012F	SUB	VIJAYA SHANKER MISHRA	01-12-96
399	JC	182188Y	SUB	YESHPAL SINGH	01-11-96

THE BRIGADE OF GUARDS

400	JC	192347Y	SUB	BABU RAM SINGH	01-01-97
401	JC	184222M	SUB	BALMIK PRASAD PATEL	01-12-96
402	JC	185680F	SUB	BHAGMAL	01-01-97
403	JC	167121H	SUB	CHANDRA MAULI PRASAD SHYKLA	01-12-96
404	JC	180674X	SUB	HANS RAJ	01-09-96
405	JC	187687P	SUB	KEDAR SINGH YADAV	01-10-96
406	JC	165990X	SUB	MUHAMMAD USMAN KHAN	01-10-96
407	JC	180686M	SUB	PRAHLAD SINGH	01-10-96
408	JC	172973F	SUB	RATI RAM	01-10-96
409	JC	174898F	SUB	SANAM RAY	01-09-96
410	JC	169109A	SUB	SHAMBHU NATH	01-11-96
411	JC	154956Y	SUB	SIRNAD SINGH NARWARIYA	01-09-96
412	JC	155603L	SUB	SUBEDAR SINGH	01-10-96
413	JC	192356A	SUB	SURJA RAM	01-12-96

THE PARACHUTE REGIMENT

414	JC	184931F	SUB	DAHLU RAM	01-09-96
415	JC	173134W	SUB	DHUKAL SINGH	01-10-96
416	JC	164915H	SUB	MOHD IQBAL	01-12-96
417	JC	188356H	SUB	PARMA NAND	01-10-96
418	JC	148291X	SUB	RAM RAJ	01-10-96
419	JC	192516P	SUB	SHANKAR DASS	01-12-96
420	JC	194511P	SUB	SURJIT SINGH CHANDEL	01-10-96

THE PUNJAB REGIMENT

421	JC	185471X	SUB	AMRIK SINGH	01-10-96
422	JC	179260Y	SUB	DHARAM CHAND MALIK	01-10-96
423	JC	179259K	SUB	JAIPAUL SINGH	01-09-96
424	JC	194525P	SUB	SANJIWAN SINGH	01-09-96

THE MADRAS REGIMENT

425	JC	171819W	SUB	A MEENAKSHI SUNDARAM	01-12-96
426	JC	164024A	SUB	ARUNACHALAM LAKSHMANA PERUMAL	01-11-96
427	JC	164025H	SUB	GANGADHARAN PILAI	01-12-96
428	JC	175324F	SUB	GOPINATHAN KUNJI	01-10-96
429	JC	160519K	SUB	MURUGESA SEPPERUMAL	01-09-96
430	JC	141775P	SUB	PONNU MATHURAI VEERAN	01-11-96
431	JC	160864H	SUB	R PALUCHAMY	01-11-96
432	JC	171820L	SUB	R PRABHAKARAN	01-11-96
433	JC	164022P	SUB	RAMAKRISHNA PILLAI G	01-10-96
434	JC	155632A	SUB	SUBRAMANI	01-12-96
435	JC	167151A	SUB	V MOHAN	01-11-96

THE GRENADIERS

436	JC	167171N	SUB	BALAK RAM GULERIA	01-11-96
437	JC	192907A	SUB	GURBACHHAN SINGH	01-01-97
438	JC	196399M	SUB	HARI SINGH	01-11-96
439	JC	145427L	SUB	JIT SINGH	01-11-96
440	JC	193688W	SUB	ROOP CHAND RANA	01-11-96
441	JC	192362N	SUB	SHER SINGH GUNDLE	01-10-96

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

442	JC	179298H	SUB	DATTU CHAVAN	01-12-96
443	JC	184292L	SUB	JANARDHAN	01-10-96
444	JC	155646A	SUB	TULSHIRAM BHALKE	01-11-96
445	JC	171704H	SUB	VISHNU YADAV	01-12-96
446	JC	142943P	SUB	YESHWANT HAKE	01-10-96

THE RAJPUTANA RIFLES

447	JC	208311M	SUB	AMI LAL	01-11-96
448	JC	193715P	SUB	INDER SINGH	01-01-97
449	JC	201069Y	SUB	MUNSI RAM PANWAR	01-11-96
450	JC	196471X	SUB	SHAMSHER SINGH	01-12-96
451	JC	132428P	SUB	SIRAJ AHMD	01-11-96
452	JC	203686Y	SUB	SITA RAM SHARMA	01-12-96

THE RAJPUT REGIMENT

453	JC	192591Y	SUB	BHOLA NATH RAM	01-12-96
454	JC	164967Y	SUB	HEE RAM	01-09-96
455	JC	74719F	SUB	INDU NATH DWIVEDI	01-09-96
456	JC	151259N	SUB	MOHENDER SINGH	01-12-96
457	JC	192590W	SUB	PRATAP BHAN SINGH CHAUHAN	01-11-96
458	JC	156000H	SUB	ROOP SINGH	01-01-97
459	JC	145461L	SUB	SADHU SINGH	01-12-96
460	JC	192592F	SUB	SOBERAN SINGH	01-01-97
461	JC	185753W	SUB	SUDAMA SINGH	01-12-96
462	JC	205552F	SUB	SUNDER LAL	01-11-96

THE JAT REGIMENT

463	JC	185180X	SUB	INDAR JIT	01-09-96
464	JC	177986A	SUB	KAPUR SINGH	01-09-96
465	JC	183006M	SUB	KESHAR RAM	01-01-97
466	JC	184339L	SUB	MAHABIR PRASAD	01-11-96
467	JC	184995M	SUB	RAM MEHAR	01-10-96
468	JC	159001P	SUB	RAM PHUL	01-12-96

THE SIKH REGIMENT

469	JC	192955A	SUB	BALWINDER SINGH	01-12-96
-----	----	---------	-----	-----------------	----------

THE SIKH LIGHT INFANTRY

470	JC	151341H	SUB	GURMEL SINGH	01-12-96
471	JC	155702N	SUB	HARNAM SINGH	01-09-96
472	JC	152070F	SUB	JOGINDER SINGH	01-01-97
473	JC	196864N	SUB	KARTAR SINGH	01-12-96
474	JC	196499X	SUB	SAMUEL B MASIH	01-11-96
475	JC	151342L	SUB	SOHAN SINGH	01-09-96
476	JC	152127M	SUB	SURINDER SINGH	01-11-96

THE DOGRA REGIMENT

477	JC	192632H	SUB	BALVIR SINGH PARMAR	01-11-96
478	JC	166080X	SUB	BANI SINGH	01-10-96
479	JC	192443N	SUB	DHARAM SINGH	01-01-97
480	JC	179379H	SUB	GIRDHARI LAL	01-11-96
481	JC	163669W	SUB	HARI RAM	01-09-96
482	JC	166084N	SUB	HEM SINGH	01-11-96
483	JC	201979N	SUB	JOGINDER SINGH	01-11-96
484	JC	192441H	SUB	KARTAR SINGH BANYAL	01-12-96
485	JC	205169H	SUB	KRISHAN CHAND SHARMA	01-11-96
486	JC	167466K	SUB	ONKAR SINGH	01-01-97
487	JC	163665A	SUB	PARS RAM	01-01-97
488	JC	192631P	SUB	PIAR CHAND RANA	01-09-96
489	JC	196521X	SUB	RAMESH CHAND	01-11-96
490	JC	204116X	SUB	RAMESH CHAND	01-01-97
491	JC	192643K	SUB	RANJIT SINGH	01-11-96
492	JC	205167X	SUB	RASHAM SINGH	01-11-96
493	JC	173038F	SUB	SANT RAM	01-12-96
494	JC	192442L	SUB	SAWARN SINGH KALA	01-12-96
495	JC	185795H	SUB	SHAKTI CHAND SHARMA	01-11-96
496	JC	194524M	SUB	SHER SINGH	01-11-96
497	JC	167237Y	SUB	SONAM DAWA	01-10-96
498	JC	167235N	SUB	SONAM ZANGBO BODH	01-09-96
499	JC	184407N	SUB	TILAK RAJ	01-11-96

THE GARHWAL RIFLES

500	JC	155396K	SUB	GABAR SINGH	01-10-96
501	JC	155395P	SUB	INDAR SINGH	01-12-96
502	JC	180528M	SUB	KRISHAN CHANDAR UPADHYAY	01-10-96
503	JC	168576L	SUB	LAZZA RAM	01-11-96
504	JC	175305Y	SUB	MANGAT RAM	01-01-97

THE KUMAON REGIMENT

505	JC	188607K	SUB	ABHAI SINGH	01-11-96
506	JC	193016K	SUB	AMBIKA SINGH	01-12-96
507	JC	203762H	SUB	ANAND SINGH	01-12-96
508	JC	205637X	SUB	BADRI DATT	01-11-96
509	JC	169224A	SUB	CHINTA MANI	01-09-96
510	JC	152591W	SUB	HAYAT SINGH	01-12-96

511	JC	152180X	SUB	JANAK SINGH	01-11-96
512	JC	193015P	SUB	KANHEYA MISHRA	01-11-96
513	JC	171754N	SUB	MANPHOOL SINGH	01-11-96
514	JC	193017M	SUB	PHOOL CHAND	01-01-97
515	JC	188686F	SUB	RAMJI SINGH YADAV	01-10-96
THE ASSAM REGIMENT					
516	JC	151402P	SUB	BAL BAHADUR THAPA	01-11-96
517	JC	137852F	SUB	MAN BAHADUR CHETRI	01-12-96
THE BIHAR REGIMENT					
518	JC	184459K	SUB	DEW KUMAR SINGH	01-10-96
519	JC	205259K	SUB	RAJENDER SINGH	01-11-96
520	JC	173927Y	SUB	TRI NATH MOHANTY	01-01-97
521	JC	159269M	SUB	YUDH BANSH RAI	01-12-96
THE MAHAR REGIMENT					
522	JC	183097F	SUB	AMILAL YADAVA	01-11-96
523	JC	175438M	SUB	CHANDER SINGH	01-12-96
524	JC	193019X	SUB	DAYA NAND NASIR	01-01-97
525	JC	184476K	SUB	GOVIND	01-11-96
526	JC	193020M	SUB	SALUNKE DADA SAHEB RANGU	01-01-97
527	JC	192683L	SUB	SWARAN SINGH PATHANIA	01-12-96
528	JC	169433X	SUB	VIRPAL SINGH	01-01-97
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES					
529	JC	202133Y	SUB	BHAGWAN SINGH	01-11-96
530	JC	188565A	SUB	HUKAM SINGH	01-11-96
531	JC	193892P	SUB	JAGDISH SINGH	01-11-96
532	JC	193895H	SUB	MALKIAT SINGH	01-11-96
533	JC	178119L	SUB	NATHU SINGH	01-01-97
534	JC	193878H	SUB	PUSHINDAR SINGH	01-09-96
535	JC	193887K	SUB	SANDESH KUMAR DHADWAL	01-11-96
536	JC	193894A	SUB	SITA RAM	01-10-96
537	JC	155787P	SUB	SURJIT SINGH	01-12-96
538	JC	185867F	SUB	TEK CHAND	01-11-96
539	JC	193891M	SUB	YASH PAUL SHARMA	01-11-96
THE NAGA REGIMENT					
540	JC	185066A	SUB	JAGDISH CHANDRA PANT	01-11-96
541	JC	185068L	SUB	UMED SINGH SAMANT	01-12-96
THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY					
542	JC	203854P	SUB	CHUNI LAL	01-01-97
543	JC	185106W	SUB	HUKAM CHAND	01-10-96
544	JC	144605W	SUB	MOHD AZAM	01-10-96

545	JC	203859N	SUB	MOHD DIL PAZIR KHAN	01-01-97
546	JC	183136P	SUB	NAZIER AHMED SHAH	01-01-97
547	JC	128606P	SUB	SAT PAL	01-09-96
548	JC	203855K	SUB	SUKHDEV	01-12-96
GORKHA RIFLES					
549	JC	172039X	SUB	CHOK BAHADUR THAPA	01-01-97
550	JC	188573Y	SUB	HARI NAND VERMA	01-01-97
GORKHA RIFLES					
551	JC	190807W	SUB	BAL BAHADUR GURUNG	01-12-96
552	JC	169469W	SUB	BAL KRISHNA THAPA	01-09-96
553	JC	190809F	SUB	DAL BAHADUR THAPA	01-01-97
554	JC	188702N	SUB	JIT BAHADUR THAPA	01-11-96
555	JC	194738H	SUB	KHAMBA SINGH GURUNG	01-12-96
556	JC	152621H	SUB	KHARKA BAHADUR GURUNG	01-12-96
557	JC	205383L	SUB	KRISHNA BAHADUR KARKI	01-11-96
558	JC	194725L	SUB	NAND KISHOR CHAUBE	01-12-96
559	JC	184493K	SUB	PRASAD PUN	01-12-96
560	JC	152619L	SUB	PRATAP SINGH GURUNG	01-09-96
561	JC	180926Y	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-01-97
562	JC	190808Y	SUB	SAKKAL BAHADUR GURUNG	01-12-96
563	JC	184494M	SUB	TUL BAHADUR PUN	01-12-96
4 GORKHA RIFLES					
564	JC	193967F	SUB	ALOK SHRESTHA	01-10-96
565	JC	194719X	SUB	BHIM BAHADUR TAMAN	01-01-97
566	JC	180911W	SUB	BHIM PRASAD GURUNG	01-10-96
567	JC	167530W	SUB	BUDHI BAL GURUNG	01-12-96
568	JC	147524F	SUB	DAL BAHADUR THAPA	01-10-96
569	JC	178600M	SUB	HARKA BAHADUR RANA	01-10-96
570	JC	193968K	SUB	KUNWAR LAL KOHLI	01-01-97
571	JC	193957X	SUB	NAR PRASAD GURUNG	01-10-96
5 GORKHA RIFLES					
572	JC	180810H	SUB	BHAKTA BAHADUR GURUNG	01-01-97
573	JC	167310M	SUB	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-01-97
574	JC	157961P	SUB	NANDA BAHADUR THAPA	01-01-97
575	JC	155149W	SUB	RAN BAHADUR THAPA	01-12-96
576	JC	168631W	SUB	SIRI PRASAD GURUNG	01-10-96
577	JC	155153Y	SUB	TEK BAHADUR PUN	01-10-96
578	JC	204216H	SUB	UDAI BAHADUR GURUNG	01-11-96
8 GORKHA RIFLES					
579	JC	183158N	SUB	BHAGAT RAJ ROKA	01-01-97
580	JC	180912Y	SUB	DAL BAHADUR THAPA	01-01-97
581	JC	147537Y	SUB	MOHAN BAHADUR GURUNG	01-01-97

582	JC	156137N	SUB	NIL BAHADUR ALE	01-10-96
583	JC	144624F	SUB	TAK BAHADUR BURUNG	01-12-96
584	JC	178155W	SUB	TILAK PRASHAD BURUNG	01-12-96
9 GORKHA RIFLES					
585	JC	145191F	SUB	BAL BAHADUR CHEETRI	01-10-96
586	JC	201207W	SUB	DHARNI DHAR PATNI	01-01-97
587	JC	196936M	SUB	GANGA BAHADUR BANSET	01-12-96
588	JC	188587Y	SUB	HEM BAHADUR KSHATRY	01-10-96
589	JC	185125F	SUB	ISHWAR BAHADUR CHHETRI	01-10-96
590	JC	152613K	SUB	JHALAK BAHADUR SAHI	01-12-96
591	JC	156158K	SUB	KISHNA BAHADUR CHHETRI	01-01-97
592	JC	188586W	SUB	MORDEN LAMA	01-09-96
593	JC	172061H	SUB	NANDA BAHADUR CHHETRI	01-01-97
594	JC	194723A	SUB	OM PRAKASH	01-11-96
595	JC	158458K	SUB	PHAUDA BAHADUR THAKURI	01-10-96
596	JC	196937P	SUB	SHANKAR SHAHI	01-12-96
597	JC	155524W	SUB	TEM BAHADUR CHHETRI	01-10-96
598	JC	194724H	SUB	UDAI NARAIN BHATTA	01-12-96
11 GORKHA RIFLES					
599	JC	192500K	SUB	RISHNU GURUNG	01-09-96
600	JC	205765P	SUB	DHAN BAHADUR RAI	01-09-96
601	JC	181952M	SUB	DHYAN PRASHAD RAI	01-12-96
602	JC	167551M	SUB	DILLIP SUBBA	01-12-96
603	JC	148585L	SUB	FAU BAHADUR THAPA	01-10-96
604	JC	171779A	SUB	MADAN DIL RAI	01-12-96
605	JC	152243P	SUB	MOHAN SING LIMBU	01-10-96
606	JC	173965P	SUB	PADMA PRASHAD LIMBU	01-12-96
607	JC	181953P	SUB	TAHAL SING GURUNG	01-10-96
THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT					
608	JC	141439H	SUB	AMAR SINGH	01-01-97
609	JC	168793F	SUB	BALAKRISHNAN	01-11-96
610	JC	183675L	SUB	BHAGWAN DASS	01-10-96
611	JC	160844P	SUB	BODH RAH SHARMA	01-09-96
612	JC	168778M	SUB	BOOTA SINGH	01-11-96
613	JC	189697A	SUB	DHARAM CHAND	01-10-96
614	JC	194217P	SUB	HARI CHAND	01-10-96
615	JC	164486M	SUB	JAISI RAM	01-11-96
616	JC	167134A	SUB	MANOHAR SINGH NEGI	01-01-97
617	JC	194197M	SUB	MATA RAM	01-12-96
618	JC	163864N	SUB	MEHAR CHAND	01-11-96
619	JC	127125W	SUB	NAGU VARADARAJAN	01-11-96
620	JC	184132L	SUB	NETAR PAL SHARMA	01-10-96
621	JC	174057Y	SUB	PARKASH CHAND	01-10-96
622	JC	151106K	SUB	PARMA NAND	01-11-96
623	JC	184141M	SUB	PARSHOTTAM CHAND	01-01-97
624	JC	157753A	SUB	PATIL BHIMAGOUDA MALAGOUDA	01-11-96
625	JC	183674H	SUB	SUKHDEV SINGH	01-10-96
626	JC	167128M	SUB	YUDHBIR SINGH	01-11-96

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

627	JC	192779N	SUB	ABDUL SHUKUR MOHATAD	01-11-96
628	JC	200545F	SUB	ACHUTHAN SADASIVAM PILLAI	01-11-96
629	JC	199001X	SUB	AMBADAS GAJBHIYE	01-10-96
630	JC	190436Y	SUB	AMIT KUMAR BANDHU	01-11-96
631	JC	199553L	SUB	ANDA PADMANABHAN KUMAR	01-10-96
632	JC	192778L	SUB	ANTONY IDUDAYARAJ	01-11-96
633	JC	190377X	SUB	ARJAN SINGH JASROTHIA	01-09-96
634	JC	190405Y	SUB	ASHOK KUMAR RAJPUT	01-11-96
635	JC	193201X	SUB	ATMA DASAN K	01-11-96
636	JC	189985M	SUB	AWADHESH KUMAR PAL	01-11-96
637	JC	192792X	SUB	AWANI KUMAR SAHA	01-11-96
638	JC	204909A	SUB	BAHATAM MADHAVA RAJU	01-11-96
639	JC	190369Y	SUB	BAKHTAWAR SINGH	01-09-96
640	JC	192814L	SUB	BALDEV SINGH	01-01-97
641	JC	190393P	SUB	BANARSI PRASAD	01-10-96
642	JC	192799F	SUB	BASIST NARAYAN PANDEY	01-12-96
643	JC	190407K	SUB	BHAGWAN SINGH TOMAR	01-11-96
644	JC	190385W	SUB	BHIKHAM SINGH	01-10-96
645	JC	195243H	SUB	BIJAYA KUMAR MOHANTY	01-10-96
646	JC	171660W	SUB	BIMBADHAR PATTANAYAK	01-01-97
647	JC	190431A	SUB	BIRBAL RAM	01-11-96
648	JC	190429H	SUB	BIRPAL SINGH	01-11-96
649	JC	189942X	SUB	BUTA RAM	01-10-96
650	JC	199565A	SUB	CHARAN DAS	01-12-96
651	JC	190372Y	SUB	CHHOTE LAL UPADHYAY	01-09-96
652	JC	189914L	SUB	CHOKA NATAYYIL THOMAS	01-11-96
653	JC	171670A	SUB	GANESH PRASAD SINGH	01-11-96
654	JC	190418W	SUB	GANESH SADAR	01-11-96
655	JC	190417N	SUB	GEORGE KOSHY	01-09-96
656	JC	190401H	SUB	GIAN CHAND	01-11-96
657	JC	197414H	SUB	GOPAL SINGH	01-12-96
658	JC	197416N	SUB	GOVINDA PANICKER GOPINATHAN PILLAI	01-12-96
659	JC	190397L	SUB	GOVINDASAMI SAMIKANNU	01-11-96
660	JC	190424K	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-11-96
661	JC	195255X	SUB	HARI PAL SINGH	01-01-97
662	JC	200935Y	SUB	HARMINDER KUMAR	01-12-96
663	JC	192774P	SUB	ISHWAR SINGH DAHIYA	01-11-96
664	JC	192812A	SUB	ISHWAR SINGH PAHAL	01-01-97
665	JC	197431H	SUB	JAGIR SINGH	01-01-97
666	JC	192769K	SUB	JORAVAR SINGH KHASRIA	01-09-96
667	JC	192758X	SUB	JOSEPH D	01-09-96
668	JC	192807P	SUB	KALLAPPA MAHAR	01-12-96
669	JC	190426P	SUB	KARNAIL SINGH GILL	01-11-96
670	JC	190410K	SUB	KARNAIL SINGH SIDHU	01-11-96
671	JC	200504X	SUB	KASINATH DEBNATH	01-01-97
672	JC	192797W	SUB	KRISHAN KUMAR CHOHAN	01-11-96
673	JC	192808X	SUB	KULWANT SINGH	01-12-96
674	JC	189984K	SUB	LAL MAN	01-11-96
675	JC	192806M	SUB	MALKIAT SINGH	01-12-96

676	JC	190412P	SUB	MANGERIRA AITANNA MUTHAPPA	01-11-96
677	JC	189941P	SUB	MEWA LAL GUPTA	01-09-96
678	JC	192809A	SUB	MG PURUSHOTAMAN NAIR	01-10-96
679	JC	199577P	SUB	MOHAN LAL	01-12-96
680	JC	189943A	SUB	MOHINDEDR SINGH	01-10-96
681	JC	190413X	SUB	MULAAPPA RAD	01-11-96
682	JC	189946N	SUB	MUNSHI RAM	01-12-96
683	JC	197422F	SUB	NANAK RAM	01-12-96
684	JC	204958H	SUB	NAND KISHOR BHARAL	01-01-97
685	JC	192804F	SUB	NANDAN SINGH KUMAYAN	01-12-96
686	JC	192803Y	SUB	NILMANI SINGHA	01-12-96
687	JC	190435W	SUB	PALTOO RAM JAISWAL	01-11-96
688	JC	190304N	SUB	PARAMESHWAR SHARAN MISRA	01-10-96
689	JC	200530Y	SUB	PARIMAL KUMAR JANA	01-01-97
690	JC	190432H	SUB	PARSU RAM	01-11-96
691	JC	192703W	SUB	POOSAPADDI APPALRAJA RAMACHANDARAN	01-11-96
692	JC	190427X	SUB	PORUTTUR NARAYANAN KARUNAKARA KURUP	01-11-96
693	JC	192709X	SUB	PRABHU DAYAL SWAMI	01-11-96
694	JC	190422Y	SUB	PRAKASH CHAND	01-11-96
695	JC	197425P	SUB	RADHA SINGH	01-01-97
696	JC	197413A	SUB	RAJ KISHORE SINGH	01-12-96
697	JC	192772K	SUB	RAJANDER SINGH	01-11-96
698	JC	192753Y	SUB	RAJPAL SINGH	01-09-96
699	JC	143072M	SUB	RAJU CP	01-12-96
700	JC	189944H	SUB	RAM DHAN	01-11-96
701	JC	197430A	SUB	RAM KISHAN VADAVE	01-01-97
702	JC	192790M	SUB	RAM LAL	01-11-96
703	JC	192795L	SUB	RAM SAKAL YADAV	01-11-96
704	JC	197410M	SUB	RAMAKRISHNAN T	01-11-96
705	JC	190408M	SUB	RAMDAS SHAKYA	01-11-96
706	JC	143071K	SUB	RAMESHWAR CHAND SIPAYA	01-09-96
707	JC	199546P	SUB	RANJEET SINGH	01-09-96
708	JC	190379H	SUB	RANVIJOY PRASAD SINGH	01-09-96
709	JC	190404W	SUB	SAMINATHAN MAHALINGAM	01-11-96
710	JC	200502M	SUB	SAMPURNA NAND	01-01-97
711	JC	193172N	SUB	SANGAPPA BALAPPA BELAWADI	01-09-96
712	JC	200503P	SUB	SANT RAM VERMA	01-01-97
713	JC	197429L	SUB	SANTOKH SINGH REHAL	01-01-97
714	JC	192770Y	SUB	SANTOSH KUMAR	01-09-96
715	JC	190371W	SUB	SATBIR SINGH	01-09-96
716	JC	192754F	SUB	SATBIR SINGH	01-09-96
717	JC	190411M	SUB	SB MAYACHARI	01-11-96
718	JC	197394A	SUB	SHAM SINGH	01-11-96
719	JC	189945L	SUB	SHANKER SINGH DAROCH	01-11-96
720	JC	189986P	SUB	SHARIK SINGH	01-12-96
721	JC	200526W	SUB	SHEO KUMAR SINGH	01-01-97
722	JC	199570L	SUB	SHEO PRASAD	01-10-96
723	JC	190392M	SUB	SHINKAR LAXMAN TUKARAM	01-10-96
724	JC	197418Y	SUB	SHIV DATT PADHALNI	01-12-96
725	JC	190375M	SUB	SHYAM MURARI MISHRA	01-09-96
726	JC	192702N	SUB	SIDDA BASAPPA BASAVARAJ	01-11-96
727	JC	189974A	SUB	SONI RAM	01-10-96

728	JC	192811X	SUB	SOPAN NIMBOLKAR	01-01-97
729	JC	198931M	SUB	SRINAVASAN VELAPPAN	01-11-96
730	JC	190430X	SUB	SUBHAN ALLAH	01-11-96
731	JC	190378A	SUB	SULTAN SINGH ROSAWAN	01-09-96
732	JC	190419Y	SUB	SURAT SINGH KOSLIA	01-11-96
733	JC	193164P	SUB	SURINDER PAL	01-11-96
734	JC	199589K	SUB	SURINDER SINGH	01-01-97
735	JC	160594Y	SUB	SWARAJYAPAL SINGH	01-12-96
736	JC	190428A	SUB	TAJINDERJIT PAL SINGH CHAHAL	01-11-96
737	JC	189864L	SUB	THAKUR SAH	01-01-97
738	JC	190376P	SUB	THANEESHWAR DEKA	01-09-96
739	JC	190434N	SUB	THANKAPPAN NAIR N	01-11-96
740	JC	200496K	SUB	THOMAS GEORGE	01-10-96
741	JC	190395A	SUB	TIKHU RAM	01-11-96
742	JC	190400A	SUB	UDAYA SHANKAR GHOSH	01-11-96
743	JC	200506H	SUB	UMA SHANKER GIRI	01-11-96
744	JC	190406F	SUB	VIJAYA SINGH	01-11-96
745	JC	192794H	SUB	VIRUPAKSHA KULKARNI	01-11-96
746	JC	190425M	SUB	YASODA KUMAR SINHA ROY	01-11-96
747	JC	197411P	SUB	YOGENDRA SINGH	01-11-96
748	JC	192786K	SUB	ZAIL SINGH	01-11-96
ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)					
749	JC	177438L	RIS	BALBIR SINGH	01-10-96
750	JC	177448P	RIS	BHERA RAM	01-11-96
751	JC	185370K	RIS	BHUP SINGH	01-11-96
752	JC	177442N	RIS	BINDESHWAR SHAW	01-10-96
753	JC	185384K	RIS	BISHAMBHAR	01-12-96
754	JC	185389M	RIS	DASARI LAXMI NARAYANA	01-01-97
755	JC	171168L	RIS	DURGA CHAUDARY	01-09-96
756	JC	181710K	RIS	HARPAL SINGH	01-09-96
757	JC	185371H	RIS	HAWA SINGH	01-11-96
758	JC	185393L	RIS	JAGAT SINGH	01-01-97
759	JC	168087A	RIS	KAMLESWAR DEKA RAJA	01-09-96
760	JC	171653A	RIS	KANWAR SINGH	01-12-96
761	JC	185887X	RIS	KARUNAN	01-12-96
762	JC	176059F	RIS	KHARKA BAHADUR SAHI	01-11-96
763	JC	183289Y	RIS	KISHAN LAL	01-11-96
764	JC	185380N	RIS	MALAI KOLANDAI	01-12-96
765	JC	181710W	RIS	MATA DEEN	01-09-96
766	JC	185400W	RIS	PIARE	01-11-96
767	JC	181717N	RIS	PNS PILLAI	01-09-96
768	JC	171166A	RIS	PRATAP SINGH	01-09-96
769	JC	185390X	RIS	RAM LUBHAYA	01-01-97
770	JC	181716L	RIS	RAMESHWAR LAL	01-09-96
771	JC	185391A	RIS	SAT PAL	01-01-97
772	JC	171163M	RIS	SHYAM RAO DADU TIBILE	01-09-96
773	JC	195385M	RIS	SUBE SINGH	01-12-96
774	JC	185381W	RIS	SURJA BAHADUR LIMBU	01-12-96
775	JC	171638L	RIS	TILAK BAHADUR BURUNG	01-01-97
776	JC	185379Y	RIS	VV ABRAHAM CHACKO	01-11-96

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

777	JC	194856W	SUB	ABDUL HAMID	01-12-96
778	JC	190141H	SUB	ABHAYA CHANDRA OJHA	01-09-96
779	JC	199446K	SUB	ALLABAX DANWADE	01-10-96
780	JC	197561L	SUB	AMAR SINGH	01-12-96
781	JC	190316A	SUB	AMAR SINGH BANGALIA	01-11-96
782	JC	194864P	SUB	ANBARASU	01-12-96
783	JC	194317A	SUB	BAJRANG SINGH SEKHAVAT	01-09-96
784	JC	190095Y	SUB	BAL GOVIND RAM KISHORE	01-09-96
785	JC	190226Y	SUB	BALA PRASAD YADAV	01-10-96
786	JC	194362M	SUB	BALDEV RAJ	01-01-97
787	JC	190328P	SUB	BALDEV SINGH	01-11-96
788	JC	197550Y	SUB	BHAGWAM GARJE	01-12-96
789	JC	194377P	SUB	BHAGWAN DAS	01-01-97
790	JC	214570L	SUB	BHARAT SINGH	01-01-97
791	JC	194365A	SUB	BHATH SINGH	01-01-97
792	JC	190443P	SUB	BHUSHAN PRASAD	01-11-96
793	JC	199443W	SUB	BINDRA BAN	01-09-96
794	JC	190183P	SUB	CHARAN DASS	01-09-96
795	JC	194321A	SUB	CHENNAPPAN	01-12-96
796	JC	190281P	SUB	CHHABI NATH	01-09-96
797	JC	190478L	SUB	CHHOTE LAL	01-12-96
798	JC	190465N	SUB	CHHOTU RAM	01-12-96
799	JC	190468F	SUB	DHAN DEV RAHI	01-12-96
800	JC	190154A	SUB	DHARAM DASS	01-10-96
801	JC	190464L	SUB	DHARAM PAL	01-12-96
802	JC	190152P	SUB	DHARAM SINGH	01-10-96
803	JC	194881P	SUB	DHARAM SINGH	01-11-96
804	JC	190486K	SUB	DHUM SINGH RAWAT	01-12-96
805	JC	190446H	SUB	DIN DAYAL	01-11-96
806	JC	190312K	SUB	DOLE RAM	01-11-96
807	JC	190273W	SUB	GAJE SINGH	01-09-96
808	JC	197559N	SUB	GANESH PRASAD SINGH	01-12-96
809	JC	199454H	SUB	GOPAL SINGH	01-01-97
810	JC	203477K	SUB	GURMIT SINGH	01-09-96
811	JC	190481L	SUB	GYAN DASS	01-12-96
812	JC	194888Y	SUB	HAMID ALI	01-01-97
813	JC	190463H	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-12-96
814	JC	190175W	SUB	HARENDRA SINGH	01-09-96
815	JC	194374F	SUB	HARERAM YADAV	01-01-97
816	JC	190108L	SUB	HARI HAR BARIK	01-10-96
817	JC	194849A	SUB	HARI RAM	01-09-96
818	JC	190089L	SUB	HARNEK SINGH	01-09-96
819	JC	190263M	SUB	JAGANNATH SINGH	01-09-96
820	JC	190084M	SUB	JAGDISH	01-09-96
821	JC	197554P	SUB	JAGDISH CHANDER	01-11-96
822	JC	199467A	SUB	JAMUNA SINGH	01-12-96
823	JC	190322N	SUB	JERONE P	01-11-96
824	JC	194865X	SUB	JIT RAM	01-12-96
825	JC	190441K	SUB	KABILASH	01-11-96

826	JC	194891Y	SUB	KALI DASS	01-10-96
827	JC	190086X	SUB	KAMAL SINGH	01-09-96
828	JC	206444K	SUB	KAMTA PRASAD SINGH	01-09-96
829	JC	194370L	SUB	KAPOOR SINGH	01-01-97
830	JC	194359M	SUB	KARAM CHAND	01-01-97
831	JC	197549K	SUB	KEDAR NATH	01-09-96
832	JC	190179M	SUB	KESHAR SINGH	01-09-96
833	JC	190142L	SUB	KHEDRU PRASAD	01-10-96
834	JC	190132F	SUB	KIRPA SINGH	01-10-96
835	JC	190470Y	SUB	KRIPAL SINGH	01-12-96
836	JC	194300Y	SUB	KRISHNA MOOPPAR MAHALINGAM	01-10-96
837	JC	190326K	SUB	KULBIR SINGH	01-11-96
838	JC	194555W	SUB	KUNJ LAL	01-10-96
839	JC	194867H	SUB	KUNWAR PAL SINGH	01-09-96
840	JC	199406L	SUB	LAL CHAND	01-11-96
841	JC	197556A	SUB	LAL CHAND RAM YADAV	01-11-96
842	JC	190303H	SUB	LALTA PRASAD PATEL	01-10-96
843	JC	194338W	SUB	LAXMAN SINGH	01-01-97
844	JC	199491A	SUB	LOKNATH PANDEY	01-01-97
845	JC	190279X	SUB	MAHANT RAM	01-09-96
846	JC	199524W	SUB	MAHENDRA PRAKASH	01-09-96
847	JC	194890W	SUB	MAHENDRAN K	01-10-96
848	JC	190091H	SUB	MAHIPAL SINGH	01-09-96
849	JC	190105H	SUB	MANGAL DASS	01-10-96
850	JC	206447X	SUB	MANGE RAM	01-11-96
851	JC	194046M	SUB	MANMOHAN LAL	01-12-96
852	JC	199471H	SUB	MATHURA RAM	01-11-96
853	JC	190454F	SUB	MEHAR CHAND	01-12-96
854	JC	190136X	SUB	MINISAMY GUNASEKARAN	01-10-96
855	JC	202672P	SUB	MOHAN RAM BHAKAR	01-10-96
856	JC	194363W	SUB	MOOL RAJ	01-01-97
857	JC	190490M	SUB	MORE VASANT	01-01-97
858	JC	194916A	SUB	MUNSHI LAL JATAV	01-10-96
859	JC	190458X	SUB	NAGOJI RAO GANGADHARA RAO	01-12-96
860	JC	194398L	SUB	NANDYALA NARASIMHA REDDY	01-09-96
861	JC	190476A	SUB	NANOO BALAN	01-12-96
862	JC	190477H	SUB	NARAYAN SINGH	01-12-96
863	JC	194918L	SUB	NARAYAN SONJI KAKULTE	01-01-97
864	JC	190449W	SUB	NEK RAM	01-11-96
865	JC	190329X	SUB	OM PARKASH	01-11-96
866	JC	190327M	SUB	OM PARKASH SINGH	01-11-96
867	JC	194376M	SUB	OM PRAKASH	01-01-97
868	JC	203467A	SUB	OM PRAKASH	01-12-96
869	JC	190457P	SUB	PARAKKATT YOYAKI	01-12-96
870	JC	190282X	SUB	PARMESHWAR SINGH	01-09-96
871	JC	194361K	SUB	PARTAP SINGH	01-01-97
872	JC	203463K	SUB	PARTI GAJANAN	01-11-96
873	JC	190459A	SUB	PERUMAL	01-12-96
874	JC	202665Y	SUB	PRAMODH SINGH CHOUHAN	01-01-97
875	JC	194354N	SUB	PRATAP SINGH	01-09-96
876	JC	190114Y	SUB	PREM SAGAR	01-10-96
877	JC	190475X	SUB	PURAN SINGH	01-12-96

878	JC	197557H	SUB	RAJ BIR SINGH	01-12-96
879	JC	190222W	SUB	RAJ MAL	01-10-96
880	JC	197541X	SUB	RAJA RAM	01-09-96
881	JC	194893K	SUB	RAJENDRA PRASAD YADAV	01-12-96
882	JC	206225H	SUB	RAM BAHADUR SINGH	01-12-96
883	JC	190439M	SUB	RAM CHANDRA SINGH	01-11-96
884	JC	190479N	SUB	RAM CHARAN HASAI RAM	01-12-96
885	JC	194892F	SUB	RAM KUMAR	01-11-96
886	JC	199513K	SUB	RAM KUMAR CHAMAR	01-10-96
887	JC	190461X	SUB	RAM PARKASH	01-12-96
888	JC	190314P	SUB	RAM SINGH	01-11-96
889	JC	190088H	SUB	RAM SWARUP	01-09-96
890	JC	199444Y	SUB	RAMADHAR RAI	01-12-96
891	JC	197553M	SUB	RAMESHWAR PRASAD SINGH	01-11-96
892	JC	190482N	SUB	RAMJI LAL	01-12-96
893	JC	190462A	SUB	RANJIT SINGH	01-12-96
894	JC	199447M	SUB	RANJIT SINGH	01-12-96
895	JC	194358K	SUB	ROSHAN LAL	01-01-97
896	JC	190311F	SUB	SANT RAM	01-10-96
897	JC	190105X	SUB	SASANKA SEKHAR MAITY	01-09-96
898	JC	199453A	SUB	SATISH CHANDRA	01-01-97
899	JC	194320A	SUB	SHANTI SARUP	01-12-96
900	JC	190093N	SUB	SHER SINGH	01-09-96
901	JC	194886N	SUB	SHER SINGH	01-09-96
902	JC	190106A	SUB	SHIV RAM	01-09-96
903	JC	190216P	SUB	SHRI BHAGWAN	01-10-96
904	JC	190489X	SUB	SHRI RAM JATTU	01-01-97
905	JC	194379A	SUB	SOHAN PAL PALI	01-01-97
906	JC	190191N	SUB	SRI PATI RAM	01-10-96
907	JC	194323N	SUB	SUKHEIR SINGH	01-01-97
908	JC	190307Y	SUB	SUKHDARSHAN SINGH	01-09-96
909	JC	197537P	SUB	SUKHDEO TAYDE	01-10-96
910	JC	190447L	SUB	SUNDER SINGH	01-11-96
911	JC	190087A	SUB	SURENDAR SINGH	01-09-96
912	JC	190330M	SUB	SURENDRA PRASAD SHARMA	01-11-96
913	JC	190487M	SUB	SURJIT KUMAR	01-01-97
914	JC	190323W	SUB	SURJIT SINGH	01-11-96
915	JC	194857Y	SUB	THANGARAJ RAMACHANDRAN	01-09-96
916	JC	194879X	SUB	VALAND RAMAN BHAI	01-11-96
917	JC	194364Y	SUB	VASUDEVAN NAIR K	01-01-97
918	JC	190450L	SUB	YADUNATH SINGH	01-11-96
919	JC	194851X	SUB	YOGENDRA CHOUDHARY	01-11-96
920	JC	190444Y	SUB	YOGENDRA PRASAD	01-11-96

ARMY MEDICAL CORPS

921	JC	213891W	SUB	AJIT SINGH	01-09-96
922	JC	216261F	SUB	AMAR PAL SINGH	01-11-96
923	JC	190361F	SUB	APURBA MOHAN MUKHERJEE	01-10-96
924	JC	190148P	SUB	ASHOK KUMAR	01-11-96
925	JC	201370W	SUB	BABU RAM	01-09-96
926	JC	213942Y	SUB	BAL BAHADUR GURUNG	01-01-97

927	JC	216239W	SUB	BALBIR SINGH	01-12-96
928	JC	206702Y	SUB	BISHAN SINGH	01-09-96
929	JC	223219L	SUB	BRIJ LAL	01-11-96
930	JC	198082W	SUB	CBR CHAUHAN	01-11-96
931	JC	217601L	SUB	DHARAM PAL	01-01-97
932	JC	198360Y	SUB	GANESH SURENDRAN NAIR	01-11-96
933	JC	213898A	SUB	GIRDHARI LAL	01-11-96
934	JC	214077W	SUB	GOVINDAN PUTHUSSERI	01-10-96
935	JC	214036M	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-09-96
936	JC	213938W	SUB	HARI KISHAN	01-12-96
937	JC	213924W	SUB	INDER PAUL SINGH	01-09-96
938	JC	170168Y	SUB	ISHWAR SINGH	01-11-96
939	JC	198313F	SUR	JAGADANANDA BANDYOPADYAYA	01-12-96
940	JC	201343M	SUB	JASWANT RAI	01-01-97
941	JC	217600H	SUB	JOGINDER SINGH	01-01-97
942	JC	198311W	SUB	KARUNAKARAN NAMBIAR MARUTHINAKATHCHALORA	01-12-96
943	JC	196020X	SUB	KESHAV DATT KANDPAL	01-09-96
944	JC	198127L	SUB	KHARAK SINGH KARKI	01-12-96
945	JC	196004A	SUB	KIKAR SINGH BAINS	01-01-97
946	JC	198309Y	SUB	KISHAN SINGH KARKI	01-12-96
947	JC	213886L	SUB	LACHHAM SINGH	01-09-96
948	JC	213922L	SUB	LACHHMAN SINGH	01-09-96
949	JC	198080L	SUB	LAXMAN NIMBALKAR	01-10-96
950	JC	213934A	SUB	MADHAV SINGH	01-12-96
951	JC	213807N	SUR	MAHENDER SINGH YADAV	01-09-96
952	JC	198308W	SUB	MANI RAM MAHATO	01-12-96
953	JC	198132W	SUB	MANICKA PILIAJ ARUMUGAM	01-01-97
954	JC	196029N	SUB	MUNSHI LAL SINSIHWAR	01-10-96
955	JC	214029W	SUB	NAGENDRA JHA	01-09-96
956	JC	206686M	SUB	NANDAN SINGH BHANDARI	01-09-96
957	JC	213981K	SUB	NATESH JAYARAMAN	01-11-96
958	JC	217345F	SUB	NAWAL KISHORE SINGH	01-09-96
959	JC	213902X	SUB	NOPARAM DILOYA	01-11-96
960	JC	198307N	SUB	NRU SINGH CHANDRA SAMAL	01-11-96
961	JC	213927K	SUB	OM PARKASH	01-11-96
962	JC	214839A	SUB	PADAM DATT BAURAI	01-11-96
963	JC	214893N	SUB	PARAS NATH RAI	01-11-96
964	JC	214843H	SUB	PATIL VITTHAL JANABA	01-12-96
965	JC	198076H	SUB	PKR NAIR	01-11-96
966	JC	219991X	SUB	PREM SINGH	01-09-96
967	JC	198079W	SUB	PURUSHOTTAM SINGH RANA	01-09-96
968	JC	213903A	SUB	RAJ KISHOR SAHU	01-11-96
969	JC	214892L	SUR	RAM DAS RAM	01-11-96
970	JC	213805K	SUB	RAM NIWAS UPADHYAY	01-09-96
971	JC	195986L	SUB	RAM SAGAR PANDEY	01-10-96
972	JC	208556A	SUB	RAM SINGH	01-10-96
973	JC	198358F	SUR	RAM SURESH OJHA	01-09-96
974	JC	138322Y	SUB	RAMA SHANKER PANDEY	01-12-96
975	JC	213923N	SUR	RAMAN	01-09-96
976	JC	214889L	SUB	RAMESH CHANDER	01-12-96
977	JC	213929P	SUB	RAMESH CHANDRA	01-11-96
978	JC	213935H	SUR	RAUT YUN RAJ	01-12-96

979	JC	198072M	SUB	RUDRAPPA V MADIWALAR	01-09-96
980	JC	214878Y	SUB	SALIM SINGH RATHORE,	01-11-96
981	JC	215226M	SUB	SANSAR CHAND	01-11-96
982	JC	223220A	SUB	SARJU PRASAD	01-12-96
983	JC	217342N	SUB	SAT BIR SINGH	01-01-97
984	JC	213939Y	SUB	SHAIKH CHANC SHAIKHLAL	01-12-96
985	JC	198078N	SUB	SHIV MURTI PANDEY	01-09-96
986	JC	213901P	SUB	SHRI KISHAN	01-11-96
987	JC	217151Y	SUB	SIPAHI LAL	01-09-96
988	JC	201375P	SUB	STEPHAN LAKRA	01-12-96
989	JC	196022H	SUB	SUBHASH CHAND SHARMA	01-10-96
990	JC	206687P	SUB	SUBHASH CHANDER	01-11-96
991	JC	215230P	SUB	SUBHASH CHANDER	01-11-96
992	JC	198088X	SUB	SUNDARA RAJ ANTHONY	01-11-96
993	JC	196021A	SUB	SURENDRA SAH	01-09-96
994	JC	214842A	SUB	TARLOK SINGH	01-12-96
995	JC	206685K	SUB	TRIBHUWAN NATH SHARMA	01-09-96

ARMY ORDNANCE CORPS

996	JC	187046L	SUB	ABDULLAH QURESHI	01-11-96
997	JC	187205X	SUB	ABDUS SUBHAN	01-09-96
998	JC	187181Y	SUB	ACHANNAGARI NARASAIH NAIDU	01-11-96
999	JC	187201F	SUB	AKSHAYABAT GIRI	01-01-97
1000	JC	187096W	SUB	ALAM SINGH	01-01-97
1001	JC	187254A	SUB	AMAR SINGH	01-10-96
1002	JC	193550N	SUB	ASHA RAM JATAV	01-09-96
1003	JC	186917N	SUB	ASU SINGH	01-10-96
1004	JC	213132W	SUB	ATTAR SINGH YADAV	01-01-97
1005	JC	191868A	SUB	B DUR YODHAN	01-12-96
1006	JC	202449L	SUB	BABBANJI SINGH	01-01-97
1007	JC	187242L	SUB	BABU LAL	01-11-96
1008	JC	223138L	SUB	BACHAN SINGH	01-12-96
1009	JC	191803M	SUB	BACHI RAM	01-12-96
1010	JC	202471W	SUB	BAKSHI RAM	01-10-96
1011	JC	191790A	SUB	BALAKRISHNAN NAIR	01-10-96
1012	JC	187137P	SUB	BHAG SINGH	01-11-96
1013	JC	186991P	SUB	BHAGAT SINGH SINSINWAR	01-11-96
1014	JC	187035Y	SUB	BHAGIRATH SINGH	01-09-96
1015	JC	223171H	SUB	BHIMINI JOBI NAIDU	01-09-96
1016	JC	187240A	SUB	BIJAN RAM SHARMA	01-09-96
1017	JC	186968F	SUB	BINDO CHANDRA KALITA	01-12-96
1018	JC	186988P	SUB	BISHWA NATH RAM	01-09-96
1019	JC	187109H	SUB	BISWA NATH ARJYA	01-12-96
1020	JC	187198M	SUB	ERIJ MOHAN	01-11-96
1021	JC	187142A	SUB	BRITA RAM	01-11-96
1022	JC	223192Y	SUB	CHANDARA BAHADUR LIMBU	01-10-96
1023	JC	191768P	SUB	CHHIDDI SINGH	01-09-96
1024	JC	213131N	SUB	CHITRA BAHADUR RANA	01-12-96
1025	JC	186923Y	SUB	DEVINDER SINGH CHEEMA	01-11-96
1026	JC	187243N	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-12-96
1027	JC	197911M	SUB	DHARAMVIR SINGH	01-12-96
1028	JC	187165F	SUB	DHUMI RAM YOGI	01-11-96
1029	JC	186999F	SUB	DIPAK RANJAN DEY	01-10-96

1030	JC	204730M	SUB	DUDH SINGH	01-11-96
1031	JC	187124X	SUB	DUDHESHWAR SINGH	01-09-96
1032	JC	187025P	SUB	DUNI CHAND	01-11-96
1033	JC	193528W	SUB	FAQIR SINGH	01-01-97
1034	JC	183894M	SUB	GANGADHARAN K	01-11-96
1035	JC	192140Y	SUB	GHANASHYAM NATH	01-01-97
1036	JC	187225L	SUB	GOPAL PRASAD SINHA	01-12-96
1037	JC	189748H	SUB	GOVIND LAL	01-01-97
1038	JC	187787H	SUB	GOVIND RAM	01-09-96
1039	JC	187037K	SUB	GURDEEP SINGH	01-10-96
1040	JC	223164M	SUB	GURDEV SINGH	01-01-97
1041	JC	199401K	SUB	GURMAIL SINGH	01-09-96
1042	JC	191802K	SUB	GURMIT SINGH	01-11-96
1043	JC	187252P	SUB	GURMUKH SINGH	01-09-96
1044	JC	187266P	SUB	HANUMAN SINGH	01-01-97
1045	JC	187094L	SUB	HAR MOHINDER SINGH	01-10-96
1046	JC	186992X	SUB	HARCHARAN SINGH	01-11-96
1047	JC	183335H	SUB	HARENDRA PRASAD	01-01-97
1048	JC	187095N	SUB	HARENDRA PRASAD SINGH	01-09-96
1049	JC	186945A	SUB	HARISH CHANDRA PANDEY	01-01-97
1050	JC	223155L	SUB	HARSH SINGH	01-11-96
1051	JC	186600Y	SUB	HOSHIAR SINGH CHAUHAN	01-10-96
1052	JC	187194W	SUB	INDRA DAYAL SHRIVAS	01-09-96
1053	JC	187199P	SUB	ISHWAR SINGH	01-11-96
1054	JC	187734K	SUB	JAGDISH CHANDER	01-09-96
1055	JC	187070F	SUB	JAGDISH DASS	01-11-96
1056	JC	187187A	SUB	JANAK SINGH	01-01-97
1057	JC	187735N	SUB	JASPAL	01-09-96
1058	JC	180508K	SUB	JASWANT SINGH	01-11-96
1059	JC	187220M	SUB	JHINAKU YADAV	01-10-96
1060	JC	223211Y	SUB	JOGINDER RAY	01-12-96
1061	JC	186944X	SUB	JOGINDER SINGH	01-12-96
1062	JC	187275W	SUB	JSM THAKUR	01-12-96
1063	JC	187269H	SUB	KADAM MOHAN TUKARAM	01-09-96
1064	JC	186606A	SUB	KALLAPPA TIPPANNA HOSAMANI	01-09-96
1065	JC	198597W	SUB	KAMALA RANJAN MANDAL	01-09-96
1066	JC	191757H	SUB	KAMINI KUMAR SINHA	01-12-96
1067	JC	187015L	SUB	KARTHIKEYAN PK	01-12-96
1068	JC	221733F	SUB	KHIMA RAM	01-11-96
1069	JC	223157W	SUB	KRISHAN KUMAR	01-12-96
1070	JC	187039P	SUB	KRISHNAN KV	01-12-96
1071	JC	223212F	SUB	KULBAHADUR BURUNG	01-12-96
1072	JC	186915H	SUB	KULDEEP CHAND	01-09-96
1073	JC	223210N	SUB	LACHMAN SINGH	01-11-96
1074	JC	187079W	SUB	MADAN LAL SHARMA	01-09-96
1075	JC	223172L	SUB	MADAN MOHAN	01-10-96
1076	JC	187013A	SUB	MADAN MOHAN LAL	01-10-96
1077	JC	187196F	SUB	MADHONAND RANA	01-11-96
1078	JC	186914A	SUB	MAHAVIR SINGH	01-09-96
1079	JC	191747Y	SUB	MALKIT SINGH	01-10-96
1080	JC	204431N	SUB	MANGE RAM	01-09-96
1081	JC	183330K	SUB	MATHAI KA	01-11-96
1082	JC	187000H	SUB	MOHAN LAL ARYA	01-11-96

1083	JC	187087P	SUB	MOHAN LAL KATAL	01-12-96
1084	JC	191765F	SUB	MOHINDER SINGH	01-11-96
1085	JC	187002N	SUB	NANDA SINGH	01-12-96
1086	JC	187044A	SUB	NANDJI RAM	01-10-96
1087	JC	191865M	SUB	NARENDER SINGH GULERIA	01-11-96
1088	JC	187218P	SUB	NEM SINGH	01-09-96
1089	JC	191764Y	SUB	NET RAM	01-11-96
1090	JC	187074X	SUB	NILA KANTA BAROON	01-11-96
1091	JC	199634L	SUB	OM PARKASH	01-09-96
1092	JC	187265M	SUB	PARAMESWARAN MOHANAN PILLAI	01-01-97
1093	JC	193568X	SUB	PARAS RAM	01-11-96
1094	JC	191763W	SUB	PARKASH SINGH	01-10-96
1095	JC	191804P	SUB	PAWAR DEVICHAND	01-01-97
1096	JC	214469L	SUB	PEYYALA SRIRAMULU	01-09-96
1097	JC	187068K	SUB	PIKKILI VALMIKI MMADANNA	01-11-96
1098	JC	198574P	SUB	POKH PAL	01-01-97
1099	JC	221689X	SUB	POONAM CHAND	01-11-96
1100	JC	187048W	SUB	PRAPHULLA KUMAR SAHOO	01-12-96
1101	JC	187010M	SUB	PRASAD TK	01-09-96
1102	JC	191876Y	SUB	PRATAP SINGH KHARRA	01-01-97
1103	JC	195503H	SUB	PREM CHAND	01-09-96
1104	JC	187234M	SUB	PURNA CHANDRA MOHANTY	01-12-96
1105	JC	187024M	SUB	R. GOVINDA RAO	01-11-96
1106	JC	187716F	SUB	RAGUNATH PRASAD RAWAT	01-12-96
1107	JC	194468Y	SUB	RAJENDRA PRASAD JOSHI	01-12-96
1108	JC	186989X	SUB	RAJINDER SINGH BHOTRA	01-10-96
1109	JC	187195Y	SUB	RAM BHAJAN SAH	01-10-96
1110	JC	183376M	SUB	RAM PHAL	01-11-96
1111	JC	187097Y	SUB	RAM SANEHI SINGH	01-12-96
1112	JC	187161L	SUB	RAM SARUP	01-11-96
1113	JC	187069M	SUB	RAM SHANKAR CHOWDHARY	01-11-96
1114	JC	223137H	SUB	RAM SINGH	01-12-96
1115	JC	197081N	SUB	RAM SINGH MUNAULA	01-10-96
1116	JC	187274N	SUB	RAM SWAROOP YADAV	01-12-96
1117	JC	187139A	SUB	RAMAYAN PRASAD	01-12-96
1118	JC	187154P	SUB	RAMCHANDRA KRISHNAJI GUDULKAR	01-12-96
1119	JC	187090P	SUB	RAMDHIRAJ RAM	01-12-96
1120	JC	193567P	SUB	RAMESH CHANDRA DUBEY	01-11-96
1121	JC	186835L	SUB	RAMESHWAR DAYAL YADAV	01-01-97
1122	JC	204742F	SUB	RAMJI LAL	01-12-96
1123	JC	200134H	SUB	RAMJI PRASAD SHARMA	01-12-96
1124	JC	199406H	SUB	RAMNARAYAN SHARMA	01-11-96
1125	JC	187064N	SUB	RANDHIR SINGH	01-09-96
1126	JC	187273L	SUB	RPS RAWAT	01-11-96
1127	JC	193569A	SUB	SADHU CHARAN JARIKA	01-11-96
1128	JC	198566W	SUB	SAMARENDRA DHAR	01-12-96
1129	JC	187089A	SUB	SAMUEL KB	01-12-96
1130	JC	223153A	SUB	SAR NATH TIWARI	01-10-96
1131	JC	214155K	SUB	SARBANANDA BORAH	01-01-97
1132	JC	187055M	SUB	SARWAN SINGH	01-09-96
1133	JC	186993A	SUB	SATHAWARA DASHARATH BHAI	01-12-96
1134	JC	198600L	SUB	SATI RAM	01-10-96
1135	JC	187045H	SUB	SATNAM SINGH	01-10-96

1136	JC	187736P	SUB	SATPAL	01-09-96
1137	JC	187258Y	SUB	SHEO JANAM SHARMA	01-09-96
1138	JC	187080L	SUB	SHESH NATH PARBAT	01-10-96
1139	JC	187267X	SUB	SHRAWAN KUMAR YADAV	01-01-97
1140	JC	187136M	SUB	SN KARMOKAR	01-10-96
1141	JC	187738A	SUB	SUDAM KAMBLE	01-10-96
1142	JC	180625P	SUB	SUNDER LAL	01-11-96
1143	JC	193522P	SUB	SURAJ BHAN RANGARA	01-11-96
1144	JC	221688P	SUB	SURENDRA PRASAD SHARMA	01-12-96
1145	JC	187179F	SUB	SURESH CHANDER	01-10-96
1146	JC	198591P	SUB	SURJA RAM NAHELIYA	01-01-97
1147	JC	187034W	SUB	TARLOCHAN SINGH	01-09-96
1148	JC	186952W	SUB	TEJ RAM	01-10-96
1149	JC	198598Y	SUB	TINIUS TIRU	01-09-96
1150	JC	187232F	SUB	TM REDDY	01-11-96
1151	JC	187182F	SUB	TUNDIYIL KELAPPAN	01-12-96
1152	JC	192153W	SUB	VAGTA RAM GODARA	01-11-96
1153	JC	191775L	SUB	VIJAI SINGH RAJPUT	01-10-96
1154	JC	187126H	SUB	VIJAY KUMAR SHARMA	01-09-96
1155	JC	191869W	SUB	VINDESHWAR GIRI	01-12-96
1156	JC	187003W	SUB	YUDHABIR SINGH GUSAIN	01-01-97
1157	JC	187219X	SUB	ZILA SINGH BHAGAL	01-09-96
CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS					

1158	JC	203418X	SUB	ABDUL SAMAD KHAN	01-01-97
1159	JC	206790A	SUB	ABDUL SATHAR SHAIK	01-10-96
1160	JC	201332A	SUB	AFZAL MASIH	01-10-96
1161	JC	214119Y	SUB	AJAIB SINGH	01-01-97
1162	JC	209278M	SUB	AMRIT LAL	01-01-97
1163	JC	202266P	SUB	ANANT PAL SINGH	01-09-96
1164	JC	198617Y	SUB	ATMA SINGH	01-12-96
1165	JC	211804Y	SUB	ATMA SINGH	01-12-96
1166	JC	209274W	SUB	AZAD SINGH	01-11-96
1167	JC	210271P	SUB	BABOO RAM	01-12-96
1168	JC	209229K	SUB	BABU LAL	01-11-96
1169	JC	160238Y	SUB	BADRI PRASAD	01-10-96
1170	JC	209271H	SUB	BAHADUR SINGH	01-01-97
1171	JC	203414F	SUB	BALARAM SARKAR	01-11-96
1172	JC	199419A	SUB	BALDEV SINGH	01-09-96
1173	JC	201290Y	SUB	BALI RAM PANDEY	01-11-96
1174	JC	218907A	SUB	BALMIKI SINGH	01-09-96
1175	JC	204509N	SUB	BALU DAN	01-12-96
1176	JC	188946F	SUB	BALWANT SINGH	01-11-96
1177	JC	201297H	SUB	BALWANT SINGH	01-12-96
1178	JC	198622K	SUB	BALWANT SINGH PATHANIA	01-01-97
1179	JC	215135H	SUB	BALWINDER SINGH	01-11-96
1180	JC	217279K	SUB	BANKAYATI	01-01-97
1181	JC	160706N	SUB	BANSHIDHAR NAYAK	01-11-96
1182	JC	202223A	SUB	BHAGWAN SINGH	01-12-96
1183	JC	202228Y	SUB	BHOGRAM BORA	01-01-97
1184	JC	201205N	SUB	BHOPAL SINGH	01-10-96

1185	JC	213776W	SUB	BIKAR SINGH	01-10-96
1186	JC	190933H	SUB	BIMAL CHANDRA SIRKAR	01-12-96
1187	JC	209276F	SUB	BIPAT SINGH	01-01-97
1188	JC	201312M	SUB	BIPUL CHANDRA BHUYAN	01-09-96
1189	JC	204505X	SUB	BIREL CHANDRA BHARTIYA	01-10-96
1190	JC	167698H	SUB	BISHAN SINGH THAPA	01-09-96
1191	JC	201293M	SUB	BUDHI CHAND SHARMA	01-11-96
1192	JC	217284P	SUB	BUSI SATUANARASA BRAHMANANDA REDDY	01-12-96
1193	JC	201299N	SUB	CHANDRA PAL SINGH CHAUHAN	01-01-97
1194	JC	213777Y	SUB	CHANDRA SHEKHAR MISHRA	01-10-96
1195	JC	222178A	SUB	CHARANJIT SINGH	01-11-96
1196	JC	207297Y	SUB	CHAVAN DAGADU	01-09-96
1197	JC	198603Y	SUB	CHAVDA PITHA	01-09-96
1198	JC	213780Y	SUB	CHUNA RAM	01-01-97
1199	JC	207318K	SUB	CHUNNI LAL	01-01-97
1200	JC	176161L	SUB	DAMBARUDHAR KOWAR	01-09-96
1201	JC	207319M	SUB	DAROGA PANDEY	01-01-97
1202	JC	221892N	SUB	DEEP CHAND	01-11-96
1203	JC	191126A	SUB	DEO BAKSH	01-10-96
1204	JC	190926M	SUB	DES RAJ GULERIA	01-11-96
1205	JC	201292K	SUB	DEV RAJ	01-11-96
1206	JC	202520N	SUB	DEV RAJ	01-01-97
1207	JC	203425N	SUB	DEVALAPALLI KISTIAH	01-10-96
1208	JC	218851Y	SUB	DEVI CHAND SHARMA	01-11-96
1209	JC	190930P	SUB	DHARAM PAL BAINS	01-12-96
1210	JC	221888L	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-11-96
1211	JC	202272H	SUB	DHARAMVIR SINGH TYAGI	01-09-96
1212	JC	201321N	SUB	DILBAG SINGH	01-10-96
1213	JC	188947K	SUB	DINA NATH SAH	01-11-96
1214	JC	213779K	SUB	DULI CHAND	01-01-97
1215	JC	221884P	SUB	DURGA SINGH	01-09-96
1216	JC	211662M	SUB	GAJENDRA NATH	01-12-96
1217	JC	198613H	SUB	GANESH CHANDRA PANDE	01-10-96
1218	JC	181504A	SUB	HAR NARAIN SINGH	01-01-97
1219	JC	202234M	SUB	HARBANS LAL	01-01-97
1220	JC	221882K	SUB	HARBANS SINGH	01-09-96
1221	JC	191121F	SUB	HARBLAS RAM	01-10-96
1222	JC	202508M	SUB	HARENDRA CHANDRA DAS	01-01-97
1223	JC	207316Y	SUB	HARESHWAR SINGH YADAV	01-01-97
1224	JC	221901K	SUB	HARI CHAND	01-01-97
1225	JC	207317F	SUB	HARPHOOL SINGH	01-01-97
1226	JC	162640F	SUB	HIRA SINGH	01-09-96
1227	JC	191173X	SUB	HOSHIYAR SINGH	01-10-96
1228	JC	195639M	SUB	INDER DEO BHARTI	01-09-96
1229	JC	202218P	SUB	JAFFAR ALI BAIG	01-10-96
1230	JC	209277K	SUB	JAGDISH CHANDRA	01-01-97
1231	JC	176052Y	SUB	JAGDISH MISHRA	01-01-97
1232	JC	158229L	SUB	JAGDISH PRASAD	01-09-96
1233	JC	190830K	SUB	JAI NARAYAN JHA	01-09-96
1234	JC	201317L	SUB	JALAL UDDIN LASKAR	01-01-97
1235	JC	198614L	SUB	JANARDAN LAL SRIVASTHAVA	01-11-96
1236	JC	188966P	SUB	JANARDAN SINGH	01-11-96
1237	JC	224116Y	SUB	JEET SINGH	01-12-96

1238	JC	190923Y	SUB	JIT RAM	01-11-96
1239	JC	191117Y	SUB	JOGESH CHANDRA MAHILARY	01-09-96
1240	JC	181498X	SUB	JOSEPH	01-12-96
1241	JC	167677M	SUB	KALLU RAM	01-12-96
1242	JC	197373K	SUB	KANHI RAM YADAVE	01-09-96
1243	JC	202283P	SUB	KARAN SINGH POONIA	01-10-96
1244	JC	177543F	SUB	KASHI NATH BHAKATA	01-10-96
1245	JC	202231Y	SUB	KASHMIR SINGH	01-01-97
1246	JC	202544X	SUB	KEWAL RAM	01-10-96
1247	JC	200013K	SUB	KHAJAN SINGH	01-01-97
1248	JC	182311M	SUB	KHEDARU RAM	01-10-96
1249	JC	213778F	SUB	KHUSHAL RAM	01-01-97
1250	JC	210247Y	SUB	KISHANPAL SINGH	01-10-96
1251	JC	202235P	SUB	KO GEORGE	01-01-97
1252	JC	202267X	SUB	KOMAL SINGH	01-10-96
1253	JC	202215F	SUB	KP RAMACHANDRAN	01-11-96
1254	JC	202547L	SUB	KRISHAN CHAND	01-10-96
1255	JC	202551N	SUB	KRISHAN DUTT	01-10-96
1256	JC	202225L	SUB	KUTTAN PILLAI JANARDHANA KURUP	01-01-97
1257	JC	201296A	SUB	LAKHESWAR SAIKIA	01-12-96
1258	JC	190927P	SUB	LAL JI	01-11-96
1259	JC	222034X	SUB	LAL MOHAR SINGH	01-01-97
1260	JC	190832P	SUB	LALLAH PRASAD	01-09-96
1261	JC	195617H	SUB	LEKH RAM	01-01-97
1262	JC	207314N	SUB	LOKINDER RAJ	01-12-96
1263	JC	206429P	SUB	LUDAR SINGH	01-11-96
1264	JC	176184M	SUB	M SARKARA PANI	01-11-96
1265	JC	199428F	SUB	MADBAR SINGH BHATTI	01-10-96
1266	JC	202230W	SUB	MADHAVAN PILLAI K	01-01-97
1267	JC	169028A	SUB	MADHUSUDAN BANERJEE	01-09-96
1268	JC	206430K	SUB	MAHABIR SINGH	01-12-96
1269	JC	210911H	SUB	MAHENDRA PAL SINGH	01-09-96
1270	JC	201331X	SUB	MAHESWAR APAT	01-10-96
1271	JC	200506L	SUB	MALKIT SINGH	01-09-96
1272	JC	202280F	SUB	MAN SINGH	01-10-96
1273	JC	191125X	SUB	MANI RAM	01-10-96
1274	JC	200609P	SUB	MANSHA PRASAD GUPTA	01-09-96
1275	JC	202549W	SUB	MOOL CHAND	01-10-96
1276	JC	206433X	SUB	MUDDASU SOLOMAN	01-12-96
1277	JC	200591W	SUB	MUNIB	01-10-96
1278	JC	190837N	SUB	MV CHANDRAN	01-11-96
1279	JC	190831M	SUB	NAMDEO THORAT	01-09-96
1280	JC	222176P	SUB	NAND BIHARI JOSHI	01-09-96
1281	JC	167782H	SUB	NARAIN DATT SATI	01-09-96
1282	JC	199430Y	SUB	NARAYANA	01-10-96
1283	JC	222181A	SUB	NARAYANAN PK	01-12-96
1284	JC	207311A	SUB	NETAJI PAWAR	01-10-96
1285	JC	221996K	SUB	NILKANTA SINGHA	01-12-96
1286	JC	203429K	SUB	NIRMAL CHAND	01-11-96
1287	JC	176051W	SUB	NIRMAL SINGH	01-11-96
1288	JC	203428F	SUB	NIRMAL SINGH	01-11-96
1289	JC	200509Y	SUB	OLHAPURATHU CHACKO YOHANNAN	01-10-96
1290	JC	201333H	SUB	OM CHAND	01-10-96

1291	JC	177530K	SUB	OM PRAKASH	01-09-96
1292	JC	206434A	SUB	ONKAR SINGH	01-12-96
1293	JC	204501F	SUB	PADMANABHAN DASAN	01-11-96
1294	JC	202216K	SUB	PANCHANAN SINGH	01-12-96
1295	JC	225311H	SUB	PARASA VIJAYA	01-11-96
1296	JC	201328X	SUB	PARKASH CHAND	01-09-96
1297	JC	202480X	SUB	PARSU RAM SINGH	01-11-96
1298	JC	221891L	SUB	PATI RAM UPADHYAY	01-11-96
1299	JC	190919W	SUB	PATIT PABAN DHAR	01-10-96
1300	JC	198619K	SUB	PHELEL SINGH	01-12-96
1301	JC	200592Y	SUB	PIAR CHAND BHURIA	01-10-96
1302	JC	218908H	SUB	PONNUSAMY ASOKAN	01-10-96
1303	JC	206787A	SUB	PRABHU NATH MISHRA	01-09-96
1304	JC	189070A	SUB	PRAKASH SINGH KATOCH	01-09-96
1305	JC	207293H	SUB	PRATAP SINGH	01-11-96
1306	JC	207309H	SUB	PRATAP SINGH	01-09-96
1307	JC	222505H	SUB	PREM CHAND	01-12-96
1308	JC	206432P	SUB	PRITAM CHAND	01-12-96
1309	JC	222346N	SUB	PROSANTA KUMAR MITRA	01-01-97
1310	JC	204503M	SUB	PURAN SINGH SASTRI	01-09-96
1311	JC	202217M	SUB	PUTHUKULAMAGARA PRABHAKARAN	01-12-96
1312	JC	201329A	SUB	QAMRUL HASAN	01-09-96
1313	JC	190603X	SUB	RABINDRA PRASAD JAISWAL	01-10-96
1314	JC	201284L	SUB	RAJ SINGH	01-10-96
1315	JC	200612P	SUB	RAJAGOPAL RAJENDRAN	01-12-96
1316	JC	181432F	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-12-96
1317	JC	199427Y	SUB	RAJINDER PRASAD SHARMA	01-10-96
1318	JC	169045A	SUB	RAJINDER SINGH	01-01-97
1319	JC	221803M	SUB	RAJINDER SINGH	01-09-96
1320	JC	221895F	SUB	RAM AUTAR RAO	01-12-96
1321	JC	214116L	SUB	RAM BACHAN SINGH	01-01-97
1322	JC	170772K	SUB	RAM BIHARI SINGH	01-11-96
1323	JC	191029H	SUB	RAM CHANDER	01-11-96
1324	JC	191122K	SUB	RAM CHANDRA SAHOO	01-10-96
1325	JC	217771P	SUB	RAM GOPAL	01-12-96
1326	JC	221881F	SUB	RAM KEDAR MOURIYA	01-09-96
1327	JC	202529H	SUB	RAM KUMAR	01-01-97
1328	JC	202255H	SUB	RAM KUMAR SWAMI	01-11-96
1329	JC	200642Y	SUB	RAM LAGAN PASWAN	01-09-96
1330	JC	176183K	SUB	RAM LAL SHARMA	01-10-96
1331	JC	200641W	SUB	RAM LOCHAN DWIVEDI	01-09-96
1332	JC	221886A	SUB	RAM LOK	01-10-96
1333	JC	202257N	SUB	RAM NATH PRASAD MAHTO	01-01-97
1334	JC	158864K	SUB	RAM PAL	01-12-96
1335	JC	201318N	SUB	RAM PHAL	01-01-97
1336	JC	190922H	SUB	RAM PRASAD SINGH	01-11-96
1337	JC	214095A	SUB	RAM PRATAP SINGH VERMA	01-10-96
1338	JC	197381H	SUB	RAM SAHAI BAGHEL	01-01-97
1339	JC	221923H	SUB	RAM SILONE TIWARI	01-01-97
1340	JC	169044X	SUB	RAM SINGH	01-11-96
1341	JC	202279M	SUB	RAM SIYA DOHRE	01-10-96
1342	JC	206420M	SUB	RAMDEO SINGH	01-10-96
1343	JC	200580W	SUB	RAMESH CHANDRA	01-10-96

1344	JC	200627K	SUB	RAMESHWAR	01-09-96
1345	JC	197384W	SUB	RAMESHWAR DAYAL	01-11-96
1346	JC	218899M	SUB	RANJIT KUMAR KARMAKAR	01-09-96
1347	JC	202276Y	SUB	RANJIT SINGH	01-09-96
1348	JC	195640F	SUB	RASAL SINGH RANA	01-09-96
1349	JC	206793N	SUB	RASHPAL SINGH	01-11-96
1350	JC	190983W	SUB	S VISHWANATHAN PILLAI	01-12-96
1351	JC	214004X	SUB	SAHDEO PRASAD	01-09-96
1352	JC	209275Y	SUB	SAJJAN SINGH	01-11-96
1353	JC	199417P	SUB	SAMPURAN SINGH BAJWA	01-09-96
1354	JC	221894Y	SUB	SANANDA KUMAR SAMAL	01-12-96
1355	JC	191123M	SUB	SANJEEVI SILUVAISAMY	01-10-96
1356	JC	181439L	SUB	SATYAPAL SINGH	01-11-96
1357	JC	225142M	SUB	SHAIK MOULALI	01-12-96
1358	JC	206435H	SUB	SHAMBHU PRASAD RAI	01-12-96
1359	JC	202221P	SUB	SHERKHANE SURESH RAMAJI	01-12-96
1360	JC	199420P	SUB	SHIRALE SANGRAM	01-09-96
1361	JC	201291F	SUB	SHIV DAYAL PATHAK	01-11-96
1362	JC	221900F	SUB	SHIV NATH SINGH	01-01-97
1363	JC	199422A	SUB	SHRI PAL ANTTAL	01-09-96
1364	JC	218850W	SUB	SHRIPATI BANSUDE	01-10-96
1365	JC	202282M	SUB	SHYAM SUNDER	01-10-96
1366	JC	195628A	SUB	SINGANAPALYA CHIKKANNA THARYAPPA	01-01-97
1367	JC	181430W	SUB	SITA RAM DWIVEDI	01-09-96
1368	JC	214098N	SUB	SOM RAJ	01-11-96
1369	JC	189194P	SUB	SOMASHEEKHAR FANIRAPBA KITTUR	01-12-96
1370	JC	222179H	SUB	SUBASH CHANDER	01-11-96
1371	JC	203430Y	SUB	SUBE SINGH	01-11-96
1372	JC	222033P	SUB	SUBHASH KUNDU	01-01-97
1373	JC	211741F	SUB	SUBIR KUMAR ADHIKARY	01-10-96
1374	JC	211785Y	SUB	SUKHDEV SINGH	01-10-96
1375	JC	214118W	SUB	SULTAN SINGH	01-01-97
1376	JC	190925K	SUB	SURAJ PRAKASH SHARMA	01-11-96
1377	JC	211805F	SUB	SURAM SINGH	01-01-97
1378	JC	202539M	SUB	SURESH KUMAR	01-01-97
1379	JC	202271A	SUB	SURESH KUMAR NAIK	01-09-96
1380	JC	201315A	SUB	SURVE ARJUN GOPAL RAD	01-01-97
1381	JC	160239F	SUB	THAKAR SINGH	01-11-96
1382	JC	188960N	SUB	THANGAVELU RUDRAPATHY	01-11-96
1383	JC	210144A	SUB	TRILOCHAN	01-11-96
1384	JC	206427K	SUB	TULGHHA RAM TANDI	01-09-96
1385	JC	199425N	SUB	TULSARAM CHOUDHARY	01-10-96
1386	JC	221885X	SUB	UMED SINGH	01-09-96
1387	JC	170762A	SUB	UMESH CHAUDHARY	01-09-96
1388	JC	207307X	SUB	VED PARKASH	01-09-96
1389	JC	206431M	SUB	VED PRAKASH	01-12-96
1390	JC	206794W	SUB	VIRENDER KUMAR	01-11-96
1391	JC	194767X	SUB	VISHWANATH	01-12-96
1392	JC	182389X	SUB	WALAITI RAM KIR	01-11-96
1393	JC	166438L	SUB	WUPPARPALLI VENUGOPAL	01-11-96
1394	JC	198620Y	SUB	YASH PAUL	01-12-96
1395	JC	202222X	SUB	YASHWANT SINGH	01-12-96

1396	JC	153352N	SUB	YOGENDAR SINGH	01-12-96
1397	JC	199421X	SUB	YOGINDER PAUL SHARMA	01-09-96
1398	JC	165859F	SUB	YUGUL KISHOR GAUTAM	01-09-96

ARMY EDUCATION CORPS

1399	JC	173397P	SUB	ADINATH CHOUDHURI	01-10-96
1400	JC	152293A	SUB	AVTAR SINGH	01-11-96
1401	JC	198473F	SUB	BACHAN SINGH BJSHT	01-09-96
1402	JC	152289X	SUB	BAISHNAB CHARAN SAHOO	01-09-96
1403	JC	200555L	SUB	BASANT KUMAR RANA	01-09-96
1404	JC	183212W	SUB	CHANDRA PAL	01-11-96
1405	JC	173420X	SUB	DK BHATTACHARYA	01-09-96
1406	JC	198432X	SUB	GOMBHAR SINGH GURUNG	01-12-96
1407	JC	185325X	SUB	GURDEV SINGH LABRA	01-01-97
1408	JC	167026W	SUB	HARMESH SINGH	01-12-96
1409	JC	185300L	SUB	HIMANGSHU KUMAR NATH	01-01-97
1410	JC	170980Y	SUB	INDRA PAL SINGH	01-01-97
1411	JC	105286K	SUB	JAGADANAND JHA	01-11-96
1412	JC	198410Y	SUB	JAGAT PAL MISRA	01-10-96
1413	JC	200570A	SUB	JAGDISH CHANDER SHARMA	01-11-96
1414	JC	152306M	SUB	JUJHAR SINGH	01-12-96
1415	JC	170967P	SUB	KALI CHARAN TYAGI	01-01-97
1416	JC	158038K	SUB	KAILOOR RAVEENDRAN	01-01-97
1417	JC	180205P	SUB	KARNAIL SINGH	01-01-97
1418	JC	198397A	SUB	KARTAR SINGH	01-09-96
1419	JC	217191A	SUB	KN DAMODARAN NAIR	01-09-96
1420	JC	200557W	SUB	KULDIP SINGH BANWAIT	01-09-96
1421	JC	176625N	SUB	KULTAR CHAND KATOCH	01-12-96
1422	JC	158042M	SUB	MANGAL SINGH BANSAL	01-01-97
1423	JC	200556N	SUB	MATHUKUTTY KM	01-09-96
1424	JC	198395P	SUB	NIZAMUDDIN AHMED	01-09-96
1425	JC	156188F	SUB	RADHA KANT SINGH	01-01-97
1426	JC	166797Y	SUB	RAGHUBIR SINGH YADAVA	01-11-96
1427	JC	203361N	SUB	RAM KAILASH SINGH	01-12-96
1428	JC	198394M	SUB	RAM NARAIN RAM	01-09-96
1429	JC	194819N	SUB	RAM PRASANNA SINGH	01-12-96
1430	JC	195185K	SUB	RAMAYAN PRASAD	01-10-96
1431	JC	183188L	SUB	RANBIR SINGH	01-09-96
1432	JC	160042L	SUB	RBS KUSHWAH	01-10-96
1433	JC	152310P	SUB	ROSHAN LAL YADAVA	01-12-96
1434	JC	160044W	SUB	SATISH KUMAR SHARMA	01-11-96
1435	JC	217192H	SUB	SHALIK RAM HARINKHEDE	01-10-96
1436	JC	170994Y	SUB	SHIV NATH SINGH	01-01-97
1437	JC	193348N	SUB	SONULKAR YALLAPPA RAMANNA	01-09-96
1438	JC	156184L	SUB	SUBHASH SINGH	01-12-96
1439	JC	152260P	SUB	SURYA PRATAP SHARMA	01-10-96
1440	JC	156196A	SUB	VISHWAMBHAR DAYAL SHARMA	01-01-97

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1441	RV 7628L	RIS	GEE BARGHESE THANKACHAN	01-11-96
1442	RV 7629N	RIS	JOHN KURUSAPPAH	01-12-96
1443	RV 7617Y	RIS	KRISHNA LAL DOHARE	01-12-96
1444	RV 7625X	RIS	MAHAVIR SINGH	01-10-96
1445	RV 7664W	RIS	MEGH NATH	01-01-97
1446	RV 7630H	RIS	RAJ KARAN CHAUHAN	01-10-96
1447	RV 7642X	RIS	ZAHID HUSSAIN	01-11-96

THE INTELLIGENCE CORPS

1448	JC 164868W	SUB	AMAR JANG THAPA	01-12-96
1449	JC 162940H	SUB	BHAGAT SINGH KARKI	01-10-96
1450	JC 183269L	SUB	DEVI LAL PRASAD	01-01-97
1451	JC 166225X	SUB	GANPAT SINGH BHATI	01-01-97
1452	JC 162944Y	SUB	GOVINDA RAJALU SADAGOPAL	01-11-96
1453	JC 162941L	SUB	KHEM SINGH	01-10-96
1454	JC 166224P	SUB	LAKHAN SINGH	01-01-97
1455	JC 179996L	SUB	S ANBARESAN	01-09-96
1456	JC 164869Y	SUB	SHER SINGH RATHORE	01-12-96

CORPS OF MILITARY POLICE

1457	JC 193322Y	SUB	BARIA ABHE SINGH NAVAL SINGH	01-10-96
1458	JC 191989F	SUB	DAYA SINGH CHAWRIA	01-12-96
1459	JC 193324K	SUB	GANAPATHI M	01-01-97
1460	JC 193325M	SUB	HAWA SINGH	01-01-97
1461	JC 193323F	SUB	INDERJIT SINGH	01-11-96
1462	JC 210125P	SUB	RATTI RAM	01-12-96
1463	JC 201591H	SUB	SATBIR SINGH	01-11-96
1464	JC 202664W	SUB	T M PILLAI	01-11-96
1465	JC 192001P	SUB	TEJ BAHADUR BURATHDKI	01-12-96
1466	JC 193311M	SUB	TEK SINGH RANA	01-11-96
1467	JC 217147W	SUB	UMESH CHANDRA DAS	01-09-96

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

1468	JC 153083M	SUB	DILBAR SINGH BHANDARI	01-11-96
1469	JC 209279P	SUB	PARAMANAND	01-11-96
1470	JC 174209P	SUB	SHER BAHADUR	01-09-96

DEFENCE SECURITY CORPS

1471	JC 111759H	SUB	HARI SHANAR	01-12-96
1472	JC 124742N	SUB	DILA RAM	01-12-96
1473	JC 124729X	SUB	GIAN SINGH	01-01-97
1474	JC 138422K	SUB	BANGSHI MAJHI	01-01-97
1475	JC 101242K	SUB	HUKUMA RAM	01-10-96
1476	JC 141050P	SUB	BABU KHAN	01-01-97
1478	JC 147036H	SUB	RAJAMANICKAM	01-01-97
1479	JC 125028A	SUB	HAR SINGH	01-01-97

TERRITORIAL ARMY

1480	TJ 2726	SUB	TEJA SINGH	01-09-96
1481	TJ 2297L	SUB	GURDHAR PRASAD	01-08-96

TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS

ARMoured CORPS

1	JC	235706X	NB	RIS	CHERLA SURYA NARAYANA SASTRY	01-11-96
2	JC	189624N	NB	RIS	GULDEV SINGH	01-11-96
3	JC	235720K	NB	RIS	GULZAR KHAN	01-01-97
4	JC	203202W	NB	RIS	HARBANS LAL	01-12-96
5	JC	236246N	NB	RIS	HUSSAIN KHAN	01-01-97
6	JC	235603Y	NB	RIS	JARNAIL SINGH	01-12-96
7	JC	225057K	NB	RIS	KESHO RAM	01-01-97
8	JC	236199F	NB	RIS	MOHMED SULEMAN KHAN	01-01-97
9	JC	211541L	NB	RIS	PONNAIAN KASYNADAR	01-01-97
10	JC	219133P	NB	RIS	SULEMAN KHAN	01-01-97

REGIMENT OF ARTILLERY

11	JC	257473F	NB	SUB	BACHAN SINGH	01-04-96
12	JC	257403H	NB	SUB	BALWANT SINGH	01-04-96
13	JC	257374Y	NB	SUB	BHAJAN LAL	01-05-96
14	JC	226855K	NB	SUB	DARSHAN SINGH	01-03-96
15	JC	257653K	NB	SUB	GIRENDRA SINGH	01-03-96
16	JC	255616X	NB	SUB	GURNAM SINGH	01-02-96
17	JC	226732X	NB	SUB	JAGDEV SINGH	01-07-96
18	JC	225523N	NB	SUB	JAGDISH CHAND	01-02-96
19	JC	206494P	NB	SUB	JAISHI RAM	01-03-96
20	JC	255792F	NB	SUB	JANS RAJ	01-04-96
21	JC	256202A	NB	SUB	JOGINDER SINGH	01-05-96
22	JC	226331H	NB	SUB	JOHARI SINGH KUSHWAH	01-02-96
23	JC	257390W	NB	SUB	KOLATHUKANDAM SANKARAN MOHANAN	01-06-96
24	JC	255914Y	NB	SUB	KRISHNA BHADUR GURUNG	01-04-96
25	JC	257203P	NB	SUB	KULDIP SINGH	01-05-96
26	JC	225405A	NB	SUB	LALKAJI TAMANG	01-03-96
27	JC	226076F	NB	SUB	MADAN SINGH	01-03-96
28	JC	186429L	NB	SUB	MANI VAUARALLOOR	01-02-96
29	JC	223650K	NB	SUB	MANJIT SINGH	01-07-96
30	JC	256895A	NB	SUB	MOHAN SINGH GURUNG	01-05-96
31	JC	226489L	NB	SUB	NAND RAM	01-04-96
32	JC	256627W	NB	SUB	PARAS RAM CHANDEL	01-08-96
33	JC	257106P	NB	SUB	PARKASH CHAND	01-03-96
34	JC	257017P	NB	SUB	RAJBIR SINGH	01-08-96
35	JC	256652P	NB	SUB	RAKSHA PAL SINGH	01-05-96
36	JC	223311K	NB	SUB	RAM KUMAR YADAV	01-08-96
37	JC	255341P	NB	SUB	RAM SWAROOP	01-08-96
38	JC	226042M	NB	SUB	RAMESH SINGH CHAUHAN	01-04-96
39	JC	226627F	NB	SUB	SARNAM SINGH	01-06-96
40	JC	202303X	NB	SUB	SHER SINGH	01-08-96
41	JC	224752M	NB	SUB	SURENDRA SINGH	01-04-96
42	JC	206201Y	NB	SUB	SURESH YADAV	01-05-96
43	JC	256620M	NB	SUB	VPP RAJENDRAN	01-08-96

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

44	JC	223923F	NB SUB	BALBJR SINGH	01-03-96
45	JC	256369F	NB SUB	GAURANGA CHANDRA SARKER	01-08-96
46	JC	200211M	NB SUB	LABHU RAM	01-02-96
47	JC	256362X	NB SUB	MAHENDER PAL SINGH	01-08-96
48	JC	199132H	NB SUB	NAGENDAR NARSINGH PANDEY	01-02-96
49	JC	226655N	NB SUB	RAM PRASHAD	01-03-96
50	JC	256149Y	NB SUB	RAM PRATAP	01-02-96
51	JC	226510H	NB SUB	RANBIR SINGH	01-05-96

MADRAS ENGINEER GROUP

52	JC	225778N	NB SUB	BODIREDDY VEERASAMY	01-12-96
53	JC	305073P	NB SUB	CHELLAIYAN ALEXANDER	01-09-96
54	JC	207535A	NB SUB	CHINNARAJ	01-10-96
55	JC	305185P	NB SUB	DHANASEKARAN	01-10-96
56	JC	219295A	NB SUB	KRISHNASAMY ELUMALAI	01-11-96
57	JC	225777L	NB SUB	MUNIVENKATAPPA VENKATESHA	01-10-96
58	JC	219301H	NB SUB	NARAYANAN NAIR KAZHUNGOLI PARAMBATH	01-12-96
59	JC	210346F	NB SUB	PATTAN SUBHANI KHAN	01-11-96

BENGAL ENGINEER GROUP

60	JC	209539P	NB SUB	AMRIK SINGH	01-12-96
61	JC	140875N	NB SUB	ASSARIYETH GHEEVARGHESE JOHN	01-01-97
62	JC	191519W	NB SUB	BACHITTAR SINGH	01-09-96
63	JC	210640N	NB SUB	BADRI SINGH	01-11-96
64	JC	202904H	NB SUB	BAKSHISH SINGH	01-12-96
65	JC	325618H	NB SUB	BALAVALLI RAMACHANDRA	01-01-97
66	JC	209474M	NB SUB	BALDEV SINGH	01-09-96
67	JC	191392Y	NB SUB	CHANDRA DEO SINGH	01-09-96
68	JC	191521N	NB SUB	JAGAT RAM	01-11-96
69	JC	210662A	NB SUB	KULDIP CHAND	01-09-96
70	JC	226981W	NB SUB	MOHINDER SINGH	01-11-96
71	JC	325898F	NB SUB	ONKAR CHAND AWASTHI	01-12-96
72	JC	210664M	NB SUB	SATYA NAND	01-12-96
73	JC	325492N	NB SUB	SHRI GOVIND PANDEY	01-10-96

BOMBAY ENGINEER GROUP

74	JC	347076K	NB SUB	BNARSI LAL	01-12-96
75	JC	347120H	NB SUB	DILWAR SINGH	01-12-96
76	JC	219621X	NB SUB	KEWAL KRISHAN SINGH	01-11-96

CORPS OF SIGNALS

77	JC	367811W	NB SUB	AMAR SINGH	01-09-96
78	JC	367983L	NB SUB	AMAR SINGH BAIRAGI	01-10-96
79	JC	368206P	NB SUB	BALJIT SINGH	01-11-96
80	JC	368810M	NB SUB	BHANWAR SINGH	01-10-96

81	JC 367457M	NB SUB	BHUMI CHAND	01-09-96
82	JC 368019W	NB SUB	BIHARI LAL TIWARI	01-12-96
83	JC 368841A	NB SUB	BIRENDRA NATH BISWAS	01-09-96
84	JC 368837X	NB SUB	BIRENDRA NATH DUTTA	01-10-96
85	JC 368478P	NB SUB	CHARANJIT SINGH	01-12-96
86	JC 368018N	NB SUB	CHHOTU RAM KUMHAR	01-01-97
87	JC 368616L	NB SUB	CHOTTEKAMADA MUTHANNA POOVIAH	01-01-97
88	JC 368046A	NB SUB	GAJADHAR PRASAD	01-10-96
89	JC 223820H	NB SUB	HARBHAJAN SINGH	01-11-96
90	JC 368213L	NB SUB	HARIPAL SINGH	01-01-97
91	JC 220439K	NB SUB	JAGAN NATH PRASAD SAKYA	01-01-97
92	JC 221331Y	NB SUB	JAI NARAIN RAI	01-01-97
93	JC 221327W	NB SUB	JANAK KISHORE SINGH	01-12-96
94	JC 367545H	NB SUB	JOGINDER SINGH	01-10-96
95	JC 368009M	NB SUB	KAMATA PRASAD BACHAN SINGH YADAV	01-01-97
96	JC 221317M	NB SUB	KANAI LAL GOALA	01-07-96
97	JC 367194Y	NB SUB	KASHMIR SINGH	01-09-96
98	JC 369122N	NB SUB	LALA RAM SHAKYA	01-11-96
99	JC 367554K	NB SUB	MAINA SINHA	01-09-96
100	JC 368015A	NB SUB	MEGHNATH TIWARI	01-12-96
101	JC 368839H	NB SUB	MOTI RAM JAT	01-09-96
102	JC 367838N	NB SUB	NARINDER SINGH	01-01-97
103	JC 212107L	NB SUB	NARVADESWAR PANDEY	01-10-96
104	JC 368012H	NB SUB	NIRMAL KUMAR PAUL	01-11-96
105	JC 368618W	NB SUB	PARAMJIT SINGH	01-01-97
106	JC 368022W	NB SUB	PARTAP SINGH	01-01-97
107	JC 367195F	NB SUB	RAM DHARI SINGH	01-11-96
108	JC 368919A	NB SUB	RENGASAMY SENNAKESAVAN	01-10-96
109	JC 369301M	NB SUB	SHER SINGH YADAV	01-12-96
110	JC 221295Y	NB SUB	UMASHANKER SHARMA	01-09-96
111	JC 368904X	NB SUB	VIKRAMAN NAIR R	01-12-96
THE PUNJAB REGIMENT				
112	JC 428090W	NB SUB	CHARAN SINGH	01-01-97
113	JC 212477L	NB SUB	HARDIAL SINGH	01-01-97
114	JC 212490P	NB SUB	JAGAT SINGH	01-01-97
115	JC 201792F	NB SUB	SURINDER MOHAN	01-12-96
THE GRENADIERS				
116	JC 448024P	NB SUB	BHURA RAM	01-01-97
117	JC 448075H	NB SUB	NATHU RAM	01-11-96
THE MARATHA LIGHT INFANTRY				
118	JC 216770A	NB SUB	CHAUDHARI MAHADEO	01-09-96
119	JC 220917H	NB SUB	YALLAPPA PATIL	01-01-97
THE RAJPUTANA RIFLES				
120	JC 210462Y	NB SUB	MAHABIR PRASAD	01-10-96

THE RAJPUT REGIMENT

121	JC 478277Y	NB SUB	DURGA SINGH	01-11-96
122	JC 219696P	NB SUB	GORI SAHAE	01-09-96
123	JC 216822L	NB SUB	KISHAN SINGH RAJPUT	01-11-96
124	JC 205889K	NB SUB	RAM AUTAR SINGH	01-01-97
125	JC 204059F	NB SUB	UDAI BHAN SINGH	01-11-96

THE JAT REGIMENT

126	JC 488049K	NB SUB	HARPAL SINGH	01-09-96
-----	------------	--------	--------------	----------

THE SIKH LIGHT INFANTRY

127	JC 221001A	NB SUB	RESHAM SINGH	01-12-96
-----	------------	--------	--------------	----------

THE DOGRA REGIMENT

128	JC 518005K	NB SUB	HANS RAJ	01-09-96
129	JC 205188N	NB SUB	JAGAT SINGH	01-11-96
130	JC 222721N	NB SUB	JAGDISH KUMAR	01-01-97
131	JC 518324W	NB SUB	KEWAL KRISHAN	01-12-96
132	JC 518151K	NB SUB	RACHHPAL SINGH	01-11-96
133	JC 518283X	NB SUB	RAMEL CHAND CHOUHAN	01-01-97
134	JC 518199X	NB SUB	RAN SINGH	01-09-96
135	JC 518314M	NB SUB	SUDARSHAN KUMAR	01-12-96

THE GARHWAL RIFLES

136	JC 199275H	NB SUB	CHATAR SINGH NEGI	01-12-96
137	JC 528042L	NB SUB	GYAN SINGH DANU	01-12-96
138	JC 218306P	NB SUB	JAGDISH SINGH BUSAIN	01-11-96
139	JC 218014M	NB SUB	MANBAR SINGH	01-11-96
140	JC 216595W	NB SUB	MOHAN SINGH	01-11-96
141	JC 224249P	NB SUB	RAM PRASAD PUROHIT	01-12-96

THE KUMAON REGIMENT

142	JC 216897H	NB SUB	JEET SINGH	01-01-97
-----	------------	--------	------------	----------

THE ASSAM REGIMENT

143	JC 548037F	NB SUB	KAMAL SINGH PATHANIA	01-09-96
144	JC 205238N	NB SUB	LALTHUMA DARLONG	01-01-97
145	JC 548010X	NB SUB	MOHINDRA CHANDRA GOBWAMI	01-01-97
146	JC 202033N	NB SUB	NIRU RAM	01-12-96

THE BIHAR REGIMENT

147	JC 224502N	NB SUB	ARUN KUMAR MONDAL	01-10-96
148	JC 219770L	NB SUB	BHAGABAN CHANDRA BISWAS	01-11-96
149	JC 558071P	NB SUB	INDRAJIT MISHRA	01-10-96
150	JC 218037N	NB SUB	NANDAN SINGH	01-12-96

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

151 JC 211315N	NR SUB	GHULAM MUSTAFA	01-09-96
152 JC 218361L	NR SUB	HOSHIAR SINGH	01-01-97
153 JC 218368P	NR SUB	MADAN LAL	01-01-97
154 JC 578188P	NR SUB	RAJKUMAR	01-01-97

1 GORKHA RIFLES

155 JC 222827A	NR SUB	BHAKTA RAM GURUNG	01-01-97
156 JC 602011H	NR SUB	HARI PRASAD THAPA	01-12-96
157 JC 221062X	NR SUB	JAGAT BAHADUR PUN	01-01-97
158 JC 602020K	NR SUB	KHARKA BAHADUR RANA	01-12-96
159 JC 602008H	NR SUB	PADAM BAHADUR GURUNG	01-12-96
160 JC 602055A	NR SUB	PURNA BAHADUR GURUNG	01-12-96
161 JC 224316P	NR SUB	SHER JANG GURUNG	01-01-97

4 GORKHA RIFLES

162 JC 196660F	NR SUB	BEM BAHADUR THAPA	01-11-96
----------------	--------	-------------------	----------

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

163 JC 418127Y	NR SUB	BHARAT UPADHYA	01-01-97
164 JC 208354F	NR SUB	JAGPAL SINGH	01-09-96
165 JC 418148P	NR SUB	SADHU SINGH	01-01-97

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

166 JC 640043P	NR SUB	BHIM SINGH RAJPUT	01-10-96
167 JC 640027X	NR SUB	VISWANATHAN NAIR A	01-10-96

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

168 JC 660485P	NR SUB	GABAR SINGH	01-09-96
169 JC 660500Y	NR SUB	GIAN SINGH	01-10-96
170 JC 660498M	NR SUB	JODH SINGH WALDIA	01-10-96
171 JC 660157F	NR SUB	OM PRAKASH RAM	01-07-96
172 JC 660444L	NR SUB	RAM KISHAN	01-11-96

ARMY MEDICAL CORPS

173 JC 691010M	NR SUB	BISHVA NATH RAM	01-09-96
174 JC 690972K	NR SUB	CHANDRAKANT	01-09-96
175 JC 691008P	NR SUB	HOSHIAR SINGH	01-11-96
176 JC 691030A	NR SUB	LALAN PRAGAD RAI	01-10-96
177 JC 691033M	NR SUB	MADAN MOHAN PALAI	01-11-96
178 JC 691011P	NR SUB	MAHENDRA SINGH	01-07-96
179 JC 691012X	NR SUB	MOHD ILLIYAS	01-09-96
180 JC 691032L	NR SUB	RAMKRIPAL SINGH	01-11-96
181 JC 690979N	NR SUB	SAT PAL	01-10-96
182 JC 690919Y	NR SUB	SHER SINGH	01-09-96

ARMY ORDNANCE CORPS

183	JC 221609L	NB SUB	DAULAT RAM	01-11-96
184	JC 722058K	NB SUB	RAJENDRA SAHANI	01-11-96
185	JC 214458Y	NB SUB	SUDHIR CHANDRA TALUKDAR	01-11-96

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

186	JC 225129H	NB SUB	BHUPENDRA SINGH TANWAR	01-12-96
187	JC 224107X	NB SUB	DINKAR GUNAJI WAGH	01-09-96
188	JC 747127A	NB SUB	GOPINATHAN NAIR MK	01-01-97
189	JC 747894Y	NB SUB	GURDIAL SINGH SANDHU	01-01-97
190	JC 749013N	NB SUB	NANU RAM JAT	01-09-96
191	JC 749217A	NB SUB	NANU RAM NETRA	01-11-96
192	JC 748575Y	NB SUB	SHANKAREPPA SAYABAPPA	01-01-97
193	JC 748053H	NB SUB	SHESH NARAIN MISRA	01-12-96
194	JC 747027P	NB SUB	SUBHASH CHAND	01-10-96
195	JC 749020K	NB SUB	SUNIL KUMAR DEY	01-10-96
196	JC 749212F	NB SUB	UDAI SINGH CHAUHAN	01-11-96

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

197	JC 797012H	NB RIS	JAGDEV SINGH	01-11-96
-----	------------	--------	--------------	----------

THE INTELLIGENCE CORPS

198	JC 810096H	NB SUB	KAMAL BAHADUR ALE	01-11-96
-----	------------	--------	-------------------	----------

CORPS OF MILITARY POLICE

199	JC 818043Y	NB SUB	BHRIGU NATH SINGH	01-11-96
200	JC 219953F	NB SUB	RAJ BAL JAMADAR	01-01-97
201	JC 214552H	NB SUB	RAM NARAIN TRIPATHI	01-12-96
202	JC 818064P	NB SUB	TULSI RAM	01-09-96

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

203	JC 211813A	NB SUB	TEK BAHADUR RANA	01-01-97
-----	------------	--------	------------------	----------

ARMY POSTAL SERVICE

204	JC 834099M	NB SUB	SHANKAR SINGH	01-12-96
-----	------------	--------	---------------	----------

DEFENCE SECURITY CORPS

205	JC 840304F	NB SUB	OMPAL SINGH	01-12-96
206	JC 225973L	NB SUB	JAI CHAND	01-12-96
207	JC 840415Y	NB SUB	HOSHIAR SINGH	01-01-97

208	JC 179228K	NB SUB	MANGE RAM	01-10-96
209	JC 211837K	NB SUB	P GANESAN	01-01-97
210	JC 840391A	NB SUB	SHAMSHER SINGH	11-11-96
211	JC 217592P	NB SUB	GAMALY C	01-01-97

[B/43432/RD97/AG/CW-2]

M. S. SOKHANDA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 3 (अ)— दिनांक 26 जनवरी 1997.— राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 97) के अवसर पर निम्नलिखित एन सी औस को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियमावली 1987 के पारा 179 के अधीन उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :—

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

1	14311719 एफ	दफेदार	प्रभू दयाल	01-10-96
---	-------------	--------	------------	----------

65 आर्मड रेजिमेंट

2	14311689 पी	दफेदार	जोगिन्द्र सिंह	01-10-96
---	-------------	--------	----------------	----------

68 आर्मड रेजिमेंट

3	13850165 डब्ल्यू	दफेदार	प्रताप सिंह	01-11-96
---	------------------	--------	-------------	----------

84 आर्मड रेजिमेंट

4	14311751 डब्ल्यू	दफेदार	जियो बोध तिवारी	01-10-96
---	------------------	--------	-----------------	----------

आर्मड कोर

5	1054884 एफ	दफेदार	बालकृष्णन सकरम माने	01-12-96
---	------------	--------	---------------------	----------

6	1053108 पी	दफेदार	बिक्रम सिंह	01-01-97
---	------------	--------	-------------	----------

7	10533109 एक्स	दफेदार	धर्म सिंह	01-01-97
---	---------------	--------	-----------	----------

8	13873512 के	दफेदार	गणेश बहादुर	01-09-96
---	-------------	--------	-------------	----------

9	1053137 के	दफेदार	हिरदया राम	01-01-97
---	------------	--------	------------	----------

10	1053134 डब्ल्यू	दफेदार	जोगिन्द्र ठाकुर	01-01-97
----	-----------------	--------	-----------------	----------

11	1053097 एन	दफेदार	करम चन्द	01-12-96
----	------------	--------	----------	----------

12	1053112 एक्स	दफेदार	लाखन लाल	01-01-97
----	--------------	--------	----------	----------

13	14291379 ऐ	दफेदार	माम चन्द	01-12-96
----	------------	--------	----------	----------

14	1053084 डब्ल्यू	दफेदार	मोहन सिंह	01-12-96
----	-----------------	--------	-----------	----------

15	1053100 एच	दफेदार	एम शम्बीर	01-01-97
----	------------	--------	-----------	----------

16	14320352 एन	दफेदार	राजा राम	01-09-96
----	-------------	--------	----------	----------

17	10360155 पी	दफेदार	रमेश चन्द्र	01-01-97
----	-------------	--------	-------------	----------

18	1053107 एम	दफेदार	शान्ति पाल	01-01-97
----	------------	--------	------------	----------

19	1053142 पी	दफेदार	श्याम नारायण पाण्डे	01-01-97
----	------------	--------	---------------------	----------

20	1053093 एक्स	दफेदार	एस होरो	01-12-96
----	--------------	--------	---------	----------

रेजिमेंट आफ तोपखाना

21	14317539पी	हवलदार	ऐ मसिलमणी	01-12-96
22	1542694एल	हवलदार	अभा राम	01-11-96
23	1259747डब्ल्यू	हवलदार	अमीन चन्द	01-01-97
24	1259829एफस	हवलदार	अर्जुन सिंह सोधा	01-12-96
25	14312354के	हवलदार	अत्तर सिंह	01-12-96
26	14321978एफस	हवलदार	बघेदी सिंह	01-01-97
27	14312684एच	हवलदार	बामदेव तिवारी	01-01-97
28	11229311एन	हवलदार	भबेन गोठार्डिन	01-10-96
29	14311817एफ	हवलदार	भगवान दीन	01-11-96
30	1259316के	हवलदार	भगवान सिंह शेखावत	01-11-96
31	14320259एम	हवलदार	बी एन तिवारी	01-09-96
32	5341422एन	हवलदार	बुधी बहादुर घाटी	01-10-96
33	1259481पी	हवलदार	बुधी सिंह	01-12-96
34	1259793एल	हवलदार	चन्द राम	01-01-97
35	5039433एच	हवलदार	दल बहादुर तमग	01-10-96
36	11078960वाई	हवलदार	दलबीर	01-12-96
37	14312507एच	हवलदार	दौला राम घादव	01-12-96
38	14311742पी	हवलदार	देम्सा सिंह	01-10-96
39	14320088एल	हवलदार	दिगरदेव	01-09-96
40	1259411 डब्ल्यू	हवलदार	दिलबाग सिंह	01-11-96
41	14320304 डब्ल्यू	हवलदार	गनपत सिंह	01-09-96
42	14316931एच	हवलदार	हनुमान सिंह	01-05-96
43	1264662के	हवलदार	हरबंस लाल	01-10-96
44	14320791वाई	हवलदार	हरबंस सिंह	01-09-96
45	14312053एम	हवलदार	हवा सिंह सांगवान	01-11-96
46	11090173के	हवलदार	जगन नाथ	01-11-96
47	14312051पी	हवलदार	जगमन सिंह	01-11-96
48	14320482 डब्ल्यू	हवलदार	जसुना राम	01-09-96
49	1261130वाई	हवलदार	जयकुमारन जाधर ऐ	23-03-96
50	14320554पी	हवलदार	के गोपालन	01-09-96
51	14312749एल	हवलदार	कैलाश राव	01-01-97
52	1259640एफ	हवलदार	कांगरु राम	01-01-97
53	5039517 डब्ल्यू	हवलदार	कर्ण बहादुर सुरंग	01-10-96
54	14319260पी	हवलदार	के सी सन्याल	01-08-96
55	14311958 डब्ल्यू	हवलदार	केदार राम	01-11-96
56	1259609पी	हवलदार	के वी भस्मराम	01-01-97
57	1259552एल	हवलदार	सुश बहादुर राय	01-12-96
58	11244259एन	हवलदार	कृपण लाल	01-09-96
59	1358083एन	हवलदार	एल अरुल	01-11-96
60	14312177पी	हवलदार	लचमण दामि	01-11-96
61	1259246 डब्ल्यू	हवलदार	लल्लन तिवारी	01-11-96
62	1259304पी	हवलदार	मदन लाल	01-11-96
63	1542626 एफस	हवलदार	मगर सिंह	01-09-96
64	1259173पी	हवलदार	महादेव लाका	01-09-96
65	14312521एफस	हवलदार	मान सिंह	01-12-96
66	14322029एफस	हवलदार	मनजर सिंह	01-01-97
67	1259398एफ	हवलदार	मैला राम	01-10-96
68	14312528एन	हवलदार	मोहन महतो	01-01-97

1592614 सुन		हवलदार प्रवर्ग-चन्द्र सेक्टर		01-10-96
69	14312864एम	हवलदार	सुरचन्द्र राम	01-11-96
70	1259478एच	हवलदार	नरीन्द्र सिंह छनौत्रा	01-11-96
71	14316911पी	हवलदार	ओम प्रकाश	01-07-96
72	14311919एक्स	हवलदार	पी सामुवेल	01-11-96
73	14311622डब्ल्यू	हवलदार	पी अन्बलगन	01-09-96
74	14312109एफ	हवलदार	प्रताप सिंह	01-11-96
75	14320507एक्स	हवलदार	प्रताप सिंह	01-09-96
76	8024362एकम	हवलदार	प्रिथ्वी राज खरेल	01-01-97
77	1265162वाई	हवलदार	पूरण सिंह	01-12-96
78	1259599डब्ल्यू	हवलदार	राधे श्याम	01-12-96
79	14320626एन	हवलदार	राजाराम बजरंग रसागर	01-09-96
80	14312743के	हवलदार	राजबली राम	01-01-97
81	14320777एम	हवलदार	राजिन्द्र कुमार	01-11-96
82	14312552पी	हवलदार	राम बाली सिंह	01-12-96
83	1259403एकम	हवलदार	राम चन्द्र	01-11-96
84	14312310एम	हवलदार	राम चन्द्र	01-12-96
85	14311850वाई	हवलदार	राम दयाल	01-11-96
86	1264785डब्ल्यू	हवलदार	राम किशन सैनी	01-10-96
87	1265606एक्स	हवलदार	राम कुमार	01-01-97
88	1259593जे	हवलदार	रमेश कुमार चौधरी	01-12-96
89	14311507डब्ल्यू	हवलदार	रणबीर सिंह	01-09-96
90	12404596वाई	हवलदार	रत्न सिंह	01-01-97
91	14311952पी	हवलदार	रोहताप सिंह	01-11-96
92	14321777वाई	हवलदार	सन्ता बहादुर घाडव	01-12-96
93	14318337ए	हवलदार	मत पाल	01-11-96
94	14312772वाई	हवलदार	शिव नारायण प्रसाद	01-01-97
95	14321658एच	हवलदार	श्यामनाथ पाण्डे	01-12-96
96	1259287ए	हवलदार	एस पी गोविन्द राव	01-11-96
97	1259637एफ	हवलदार	शिवा शंकरन एम	01-01-97
98	14311753एफ	हवलदार	श्री धरन एन	01-10-96
99	1259249के	हवलदार	मुखपाल	01-11-96
100	1259164एन	हवलदार	सुरजा बहादुर	01-09-96
101	1259738पी	हवलदार	सूर्यदीप तिवारी	01-01-97
102	1259684वाई	हवलदार	तरसेम लाल	01-01-97
103	11026309ए	हवलदार	वी वी अहटणी	01-10-96
104	8445144एकम	हवलदार	विजय गुरुंग	01-10-96
वायु रक्षा तोपखाना				
105	14312075वाई	हवलदार	ए विद्या सिंघा	01-11-96
106	14312187वाई	हवलदार	अमर सिंह	01-11-96
107	3971126एच	हवलदार	अमीन चन्द्र	01-09-96
108	5841941वाई	हवलदार	अनिल कुमार साहू	01-09-96
109	2765593के	हवलदार	अन्कुर रकमा निकम	01-09-96
110	13735174एल	हवलदार	अघतार सिंह	01-11-96
111	14311783के	हवलदार	बाजी लाल	01-11-96
112	11021114एम	हवलदार	बलबीर सिंह	01-09-96
113	3971189एल	हवलदार	बलबीर सिंह	01-10-96
114	14312690डब्ल्यू	हवलदार	बलबीर सिंह	01-01-97
115	14312794एक्स	हवलदार	बलदेव सिंह	01-01-97
116	11034020एम	हवलदार	बाली राम	01-09-96

118	5745806 एम	हवलदार	बसन्त बहादुर आले	01-09-96
119	3971153 एम	हवलदार	भगवान दसि	01-09-96
120	13735090 एफस	हवलदार	भगवान सिंह	01-09-96
121	5039615 डब्ल्यू	हवलदार	भक्ता बहादुर सुरंग	01-10-96
122	5745923 वार्ड	हवलदार	भक्ताराम सुरंग	01-10-96
123	5841968 डब्ल्यू	हवलदार	भान सिंह भण्डारी	01-09-96
124	5341393 के	हवलदार	भीम बहादुर थापा	01-10-96
125	13735098 के	हवलदार	भीम सैन	01-10-96
126	14311965 एम	हवलदार	भूप सिंह	01-11-96
127	14311615 ऐ	हवलदार	भुपेन्द्र सिंह	01-09-96
128	3971136 एम	हवलदार	भुपेन्द्र सिंह	01-09-96
129	5745861 के	हवलदार	बीर बहादुर थापा	01-09-96
130	5745846 पी	हवलदार	बीर बहादुर थापा	01-09-96
131	1259754 एम	हवलदार	बी अर्जुन भगवान राव	01-01-97
132	5745867 एल	हवलदार	बोम बहादुर थापा	01-09-96
133	5841953 एन	हवलदार	बुधी बहादुर चैत्री	01-09-96
134	5745841 डब्ल्यू	हवलदार	बुधी बल राना	01-09-96
135	13735136 पी	हवलदार	चमेल सिंह	01-10-96
136	5039553 एन	हवलदार	चन्द्र बहादुर राना	01-10-96
137	14312642 डब्ल्यू	हवलदार	चन्द्र कुमार सिंघा	01-01-97
138	14312430 एल	हवलदार	छेत्र बहादुर खत्री	01-12-96
139	14312618 ऐ	हवलदार	छोटे लाल	01-12-96
140	14319161 एम	हवलदार	चिमन सिंह	01-12-96
141	14312646 एम	हवलदार	चुनीलाल रुपाजी निनामा	01-01-97
142	5444832 के	हवलदार	छरा बहादुर पुन	01-12-96
143	11090034 ऐ	हवलदार	दबल सिंह	01-11-96
144	5341386 एन	हवलदार	दल बहादुर	01-09-96
145	14322031 पी	हवलदार	दलबीर सिंह	01-01-97
146	14312068 एच	हवलदार	दलीप सिंह यादव	01-11-96
147	5745783 एफस	हवलदार	दान बहादुर थापा	01-09-96
148	14311783 वार्ड	हवलदार	दया राम यादव	01-11-96
149	5745942 के	हवलदार	देव बहादुर थापा	01-10-96
150	5745927 पी	हवलदार	देव बहादुर थापा	01-10-96
151	13735134 के	हवलदार	देश राज	01-10-96
152	4453087 एच	हवलदार	देश राज सिंह	01-09-96
153	14312188 एफ	हवलदार	देश राज वर्मा	01-11-96
154	5039558 ऐ	हवलदार	देव बहादुर सुरंग	01-10-96
155	3971242 एल	हवलदार	देव राज	01-10-96
156	5841965 एच	हवलदार	धाका राम खर्का	01-09-96
157	5745898 एल	हवलदार	दन बहादुर सुरंग	01-10-96
158	5241172 एच	हवलदार	दन बहादुर थापा	01-10-96
159	14312189 के	हवलदार	धर्म चन्द	01-11-96
160	14312328 एच	हवलदार	धर्म सिंह	01-12-96
161	2765571 एल	हवलदार	धोण्डी भिकाजी रावूल	01-09-96
162	5039503 के	हवलदार	दिल बहादुर भुजेल	01-10-96
163	5745856 वार्ड	हवलदार	दिल बहादुर सुरंग	01-09-96
164	3971172 एफस	हवलदार	दुनी चन्द	01-10-96
165	5745815 पी	हवलदार	दुर्गा बहादुर राना	01-09-96
166	5745852 एच	हवलदार	एफएएन बहादुर सुरंग	01-10-96
167	5039509 एफस	हवलदार	गंगा बहादुर थापा	01-10-96
168	5039530 पी	हवलदार	गंगा बहादुर थापा	01-10-96
169	14311916 एन	हवलदार	गीता प्रसाद सुक्ता	01-11-96

170	5341428पी	हवलदार	गोपाल मान गुरेग	01-10-96
171	11021012डब्ल्यू	हवलदार	गुरबच्यन सिंह	01-12-96
172	14312433वाई	हवलदार	गुरदेव प्रभाद गुप्ता	01-12-96
173	14316881एच	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01-12-96
174	14311642के	हवलदार	हकम सिंह	01-09-96
175	14312899ऐ	हवलदार	हकम सिंह	01-01-97
176	1239764डब्ल्यू	हवलदार	हरभजन सिंह	01-01-97
177	11064127एक्स	हवलदार	हरी सहानी	01-11-96
178	1239776एल	हवलदार	हरी सिंह	01-01-97
179	13735112एल	हवलदार	हरी सिंह	01-10-96
180	5341439एफ	हवलदार	हर्क बहादुर पुन	01-09-96
181	3971289डब्ल्यू	हवलदार	हरमेश कुमार	01-12-96
182	3971116वाई	हवलदार	हरनाम सिंह	01-09-96
183	3971104के	हवलदार	हरनाम सिंह	01-09-96
184	5745818एच	हवलदार	हेम बहादुर थापा	01-09-96
185	14311653डब्ल्यू	हवलदार	इन्दर देव	01-09-96
186	14312264एच	हवलदार	इन्दर सिंह	01-12-96
187	14312826पी	हवलदार	ईश्वर सिंह	01-01-97
188	14312457एच	हवलदार	ईश्वर सिंह	01-12-96
189	14311837पी	हवलदार	जाधव शिवाजी दौलत	01-11-96
190	13735178एफ	हवलदार	जग दत्त	01-11-96
191	13735131डब्ल्यू	हवलदार	जगदेव सिंह	01-10-96
192	13735113एन	हवलदार	जगदीश चन्द	01-10-96
193	5039582डब्ल्यू	हवलदार	जय बहादुर साही	01-11-96
194	11021006एच	हवलदार	जय पाल	01-12-96
195	2745606डब्ल्यू	हवलदार	जयसिंह अब्बा कोले	01-10-96
196	13735093एल	हवलदार	जनम सिंह	01-10-96
197	3971145एन	हवलदार	जंग बहादुर सिंह	01-09-96
198	14318499एफ	हवलदार	जसवन्त सिंह	01-12-96
199	14312002एम	हवलदार	जय लाल	01-11-96
200	14311756पी	हवलदार	झिबू सिंह घादव	01-10-96
201	3971187ऐ	हवलदार	जोगिन्द्र पोल	01-10-96
202	13735101वाई	हवलदार	जोगिन्द्र सिंह पठानिया	01-10-96
203	14311650एच	हवलदार	जोय टीवाई	01-09-96
204	11194493एल	हवलदार	के अनसारी	01-01-97
205	14312191एफ	हवलदार	काली दास ठाकुर	01-11-96
206	14312342पी	हवलदार	कंवर छेल सिंह	01-12-96
207	1456349एन	हवलदार	कंवर सिंह	01-01-97
208	11020998एक्स	हवलदार	करम चन्द	01-01-97
209	14311979एम	हवलदार	करुणानिधी ऐ	01-11-96
210	13735050डब्ल्यू	हवलदार	कंश्मीर सिंह	01-09-96
211	3971113एल	हवलदार	कंश्मीर सिंह	01-09-96
212	5039477ऐ	हवलदार	खेम बहादुर थापा	01-10-96
213	13735071एम	हवलदार	खेम चन्द	01-09-96
214	5341435एल	हवलदार	खेम बहादुर थापा	01-10-96
215	13735177वाई	हवलदार	किशन सिंह	01-11-96
216	5039541एम	हवलदार	किष्ण बहादुर थापा	01-10-96
217	14312157एफ	हवलदार	कृष्ण चन्द्र घादव	01-11-96
218	5745821एच	हवलदार	कुल बहादुर राजा	01-09-96
219	5841998एन	हवलदार	कुलबहादुर चैत्री	01-10-96
220	3971177डब्ल्यू	हवलदार	कुलदीप सिंह	01-10-96
221	5241171ऐ	हवलदार	कुमार सिंह गय	01-10-96

222	14312798एन	हवलदार	लखबीर सिंह	01-01-97
223	5241174एन	हवलदार	लाल बहादुर सुरंग	01-10-96
224	3971232एफ	हवलदार	लाल चन्द	01-10-96
225	11127390ए	हवलदार	लाला राम	01-12-96
226	2765611एफ	हवलदार	लक्षमन डी के	01-10-96
227	14311963एफ	हवलदार	माधव सिंह चौहान	01-11-96
228	2765613एम	हवलदार	मगर मरुती विष्णु	01-10-96
229	5341390डब्ल्यू	हवलदार	मान बहादुर सुरंग	01-10-96
230	5039551डब्ल्यू	हवलदार	मान बहादुर राना	01-10-96
231	5341426के	हवलदार	मान बहादुर तमरा	01-10-96
232	5745869डब्ल्यू	हवलदार	मान बहादुर धापा	01-10-96
233	5039536एफ	हवलदार	मान बहादुर धापा	01-10-96
234	5341419एन	हवलदार	मान बहादुर धापा	01-10-96
235	14311647एच	हवलदार	मंगाली बाबू	01-09-96
236	13735096वाई	हवलदार	मनोहर सिंह	01-10-96
237	5241190एल	हवलदार	मिन बहादुर सुरंग	01-10-96
238	5039510एम	हवलदार	मिन बहादुर सुरंग	01-10-96
239	5341427एम	हवलदार	मिन बहादुर सुरंग	01-10-96
240	5039599के	हवलदार	मित्र बहादुर सुरंग	01-10-96
241	5039504वाई	हवलदार	मोहन बहादुर राना	01-10-96
242	5341446एक्स	हवलदार	मोहन लाल श्रेष्ठ	01-10-96
243	13735082वाई	हवलदार	महेन्द्र पाल शर्मा	01-09-96
244	13735115वाई	हवलदार	मुन्शी राम	01-10-96
245	5241162वाई	हवलदार	नर बहादुर कटवाल चैत्री	01-09-96
246	5039528एच	हवलदार	नर बहादुर धापा	01-10-96
247	5241156एल	हवलदार	नन्दाधन सिंह धापा	01-09-96
248	5745885एन	हवलदार	नन्दाधन सिंह धापा	01-10-96
249	11244243एच	हवलदार	नीला प्रसाद शर्मा	01-11-96
250	5039424एफ	हवलदार	नेत्र बहादुर सुरंग	01-10-96
251	5341438वाई	हवलदार	नेत्र बहादुर धापा	01-10-96
252	5039395एक्स	हवलदार	नीम प्रसाद सुरंग	01-09-96
253	5745865ए	हवलदार	औ राना	01-09-96
254	13735082एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01-09-96
255	14312285एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01-12-96
256	5745945एक्स	हवलदार	पदम बहादुर राना	01-11-96
257	11078880एफ	हवलदार	पारस राम	01-09-96
258	5039561एच	हवलदार	पी प्रधान	01-10-96
259	3971243एन	हवलदार	परपोत्तम सिंह	01-10-96
260	14312662के	हवलदार	पी लाल	01-01-97
261	2765542डब्ल्यू	हवलदार	पाटील जौलतराव सुब्बराव	01-05-96
262	11244249के	हवलदार	प्रेम बहादुर चैत्री	01-09-96
263	5241161के	हवलदार	प्रेम बहादुर सुरंग	01-10-96
264	5444803पी	हवलदार	प्रेम बहादुर राना	01-10-96
265	5039462एक्स	हवलदार	प्रेम बहादुर धापा	01-10-96
266	5341418एल	हवलदार	प्रेमराज सुरंग	01-10-96
267	5745928एल	हवलदार	पूर्णराम धापा	01-10-96
268	5541431पी	हवलदार	पूर्णा बहादुर सुरंग	01-10-96
269	5039406वाई	हवलदार	पूर्णा बहादुर सुरंग	01-09-96
270	14311991एन	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01-11-96
271	14312262एक्स	हवलदार	राकेश चन्द बेदी	01-12-96
272	11065145एम	हवलदार	राम बाबू राय	01-01-97
273	14311814एन	हवलदार	राम केशव सादण	01-11-96

273	14312351 डब्ल्यू	हवलदार	राम किशन	01-12-96
274	14312352वाई	हवलदार	राम कुमार घादव	01-12-96
275	14311815डब्ल्यू	हवलदार	राम मूर्ति	01-11-96
276	14312409एच	हवलदार	राम नक्षत्र तिवारी	01-12-96
277	14312144के	हवलदार	राम सहाय घादव	01-11-96
278	14312578के	हवलदार	रकमा कान्त	01-12-96
280	14311916के	हवलदार	रमापती प्रकाश	01-11-96
281	1259183वाई	हवलदार	रमेश चन्द्र	01-10-96
282	13735047डब्ल्यू	हवलदार	रमेश कुमार	01-09-96
283	5039503डब्ल्यू	हवलदार	रणसुबा सुरंग	01-10-96
284	3971245वाई	हवलदार	रहापाल सिंह	01-10-96
285	5241208डब्ल्यू	हवलदार	रत्न बहादुर चैत्री	01-01-97
286	5841992एम	हवलदार	रत्न बहादुर चैत्री	01-10-96
287	14312428एन	हवलदार	रत्न चन्द वर्मा	01-12-96
288	13735064डब्ल्यू	हवलदार	रोशन लाल	01-09-96
289	5745836एल	हवलदार	रुष बहादुर धापा	01-09-96
290	3971259वाई	हवलदार	सालिग राम	01-10-96
291	13735094एन	हवलदार	संसार चन्द्र	01-10-96
292	14312265एल	हवलदार	एस प्रसाद साही	01-12-96
293	3971117एफ	हवलदार	सतपाल	01-09-96
294	3971305एच	हवलदार	सवरण सिंह	01-12-96
295	11020821के	हवलदार	शिव राम	01-10-96
296	14311802वाई	हवलदार	शिव शंकर सिंह	01-11-96
297	14312432डब्ल्यू	हवलदार	श्री प्रकाश सिंह	01-12-96
298	5039529एल	हवलदार	श्याम बहादुर आले	01-10-96
299	5745909एम	हवलदार	सिरि प्रसाद सुरंग	01-10-96
300	5839526एक्स	हवलदार	सोम बहादुर आले	01-10-96
301	5341392एफ	हवलदार	सोमन सिंह	01-10-96
302	2765566ऐ	हवलदार	सोणावाने हनमन्त रघुनाथ	01-09-96
303	3971185पी	हवलदार	सुख राज	01-10-96
304	3971134एफ	हवलदार	सुखदेव सिंह	01-09-96
305	13735160एल	हवलदार	सुखदेव सिंह	01-10-96
306	14311490एन	हवलदार	सुलखन सिंह	01-09-96
307	14312411ऐ	हवलदार	सुरज भान	01-12-96
308	2765573डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश शंकर सैल	01-09-96
309	14312827एक्स	हवलदार	सुरजीत सिंह	01-01-97
310	3971239एल	हवलदार	तरसेम पाल	01-10-96
311	5039431एक्स	हवलदार	तेज बहादुर सुरंग	01-09-96
312	5039523के	हवलदार	तेज बहादुर धापा	01-10-96
313	14312237वाई	हवलदार	तेज प्रताप राम	01-12-96
314	5039567पी	हवलदार	टेक बहादुर सुरंग	01-10-96
315	5241170एक्स	हवलदार	टेक बहादुर सुरंग	01-10-96
316	13735111एच	हवलदार	तिलक राज	01-10-96
317	13735137एक्स	हवलदार	तिरथ सिंह	01-10-96
318	5039453डब्ल्यू	हवलदार	तुल प्रसाद सुरंग	01-09-96
319	5241173एल	हवलदार	उधम धज सुरंग	01-10-96
320	2265308वाई	हवलदार	छ नी ककम	01-09-96
321	3971249पी	हवलदार	उतम सिंह	01-10-96
322	14312359एच	हवलदार	विजय कान्त वाजपेई	01-12-96
323	14312146पी	हवलदार	यम बहादुर	01-11-96
324	8444748के	हवलदार	यम बहादुर सुरंग	01-09-96
325	3971155एक्स	हवलदार	सुहासि सिंह	01-09-96

मद्रास इन्जिनीयर ग्रुप

327	1358145एल	हवलदार	ए नीलमैगम	01-12-96
328	1357573एक्स	हवलदार	ए मान	01-09-96
329	1352939ए	हवलदार	ए पुष्पराम	01-01-97
330	1357960एच	हवलदार	सी सेकाह	01-11-96
331	1358136के	हवलदार	सी वेळू	01-12-96
332	1358141पी	हवलदार	जी ई राव	01-12-96
333	1357888एफ	हवलदार	हतीषा नाथन	01-10-96
334	1358134वाई	हवलदार	के लक्ष्मणन	01-12-96
335	1357892के	हवलदार	के वीरन	01-10-96
336	1357633एफ	हवलदार	करुप्पन	01-09-96
337	1360202ए	हवलदार	कुलन्दघेशु आर	01-09-96
338	1359344एल	हवलदार	एम कौपघा	01-11-96
339	1357701के	हवलदार	एम सेलवम	01-09-96
340	1357993एक्स	हवलदार	पी सचरीमुत्त	01-11-96
341	1362079एल	हवलदार	परमेश्वरन पी	01-01-97
342	1357618एम	हवलदार	राघवन रकमासुति	01-09-96
343	1357558एच	हवलदार	रकमासामी मोहन	01-09-96
344	1357575एच	हवलदार	एस बी अगासागी	01-09-96
345	1357695एफ	हवलदार	एस जयसुरती	01-09-96
346	1360312पी	हवलदार	टी जयशीलन	01-11-96
347	1357699एक्स	हवलदार	तंकवेळू गौन्डर सुरुगेशन	01-09-96
348	1357965एल	हवलदार	वी सुरुगेशन	01-11-96
349	1357617के	हवलदार	वेलासुधन सेलवदुर्गाई	01-09-96

बंगाल इन्जिनीयर ग्रुप

350	8022477एम	हवलदार	ए प्रसाद	01-12-96
351	1456397एन	हवलदार	गोपाल सिंह	01-01-97
352	13850262एन	हवलदार	हरबीर सिंह	01-12-96
353	14510713एक्स	हवलदार	हरेन्द्र सिंह	01-11-96
354	1452654एच	हवलदार	जगजीत सिंह बराड	01-10-96
355	13850280डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मन सिंह राना	01-12-96
356	8022428के	हवलदार	मन्तू राम	01-12-96
357	13850204के	हवलदार	नरेन्द्र सिंह	01-12-96
358	10196244पी	हवलदार	नरीन्दर सिंह	01-01-97
359	13850399ए	हवलदार	प्रेम सिंह	01-12-96
360	6462785डब्ल्यू	हवलदार	रबी चरण देब बरमा	01-12-96
361	13850652डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश चन्द्र उपप्रेती	01-01-97
362	13850286एच	हवलदार	ठाकुर सिंह	01-12-96
363	8022439एम	हवलदार	टिका दास	01-01-97
364	1402991एफ	हवलदार	उमेद सिंह मेहता	01-12-96

बंबई इन्जिनीयर ग्रुप

365	6462691वाई	हवलदार	अह्म सुफियान	01-10-96
366	6462658एफ	हवलदार	बचन सिंह	01-10-96
367	1546407एन	हवलदार	चरण सिंह	01-01-97
368	1542624एम	हवलदार	डी एल लक्ष्मन	01-09-96

368	1546395 एफ	हवलदार	सुरमीत सिंह	01-12-96
369	1566001 एफ	हवलदार	करमेल सिंह	01-01-97
370	1865939 एफ	हवलदार	संभू दयाल	01-01-97
371	646278 एफ	हवलदार	शशि भुषण सिंह	01-12-96
372	1542706 पी	हवलदार	सुदेशन सिंह	01-12-96
373	1546354 ए	हवलदार	सुखदेव सिंह	01-12-96
374	1566023 ए	हवलदार	वी जाधव	01-01-97

कोर आफ सिग्मल

375	1422006 एफ	हवलदार	ए सुशी	01-09-96
376	14220770 एन	हवलदार	अभिन्या कुमार भुनिया	01-01-97
377	14220638 एन	हवलदार	अखिल चन्द्र विश्वास	01-01-97
378	14220536 एक्स	हवलदार	ए के प्रधान	01-12-96
379	14220586 एफ	हवलदार	अमर कुमार सिंघा	01-12-96
380	14291145 डब्ल्यू	हवलदार	ए हम्पणवर	01-10-96
381	14291441 एफ	हवलदार	अनोख सिंह	01-01-97
382	14290963 एल	हवलदार	ए शैख	01-10-96
383	14220487 ए	हवलदार	तशोक कुमार	01-12-96
384	14223569 एन	हवलदार	तशोक कुमार राय	01-12-96
385	14290735 डब्ल्यू	हवलदार	तशोक कुमार तिवारी	01-09-96
386	14290994 एल	हवलदार	तशोक पटप्पा जयकणवर	01-10-96
387	14219969 एच	हवलदार	बाबू सिंह	01-09-96
388	14222209 एल	हवलदार	बादशाह सिंह	01-01-97
389	14290824 एफ	हवलदार	बलबीर सिंह	01-09-96
390	14220012 डब्ल्यू	हवलदार	बी टी सदाबा	01-09-96
391	14290914 एच	हवलदार	बसन्त बल्लभ उपरेती	01-10-96
392	14290496 वाई	हवलदार	बसन्त कुमार स्थापक	01-09-96
393	14220416 वाई	हवलदार	बामू देव	01-11-96
394	14291152 एम	हवलदार	भीम सेन प्रसाद	01-10-96
395	14291177 वाई	हवलदार	भोला प्रसाद सिंह	01-10-96
396	6907363 के	हवलदार	बिजय सिंह घादव	01-09-96
397	14220021 एक्स	हवलदार	बीर चन्द्र सिंघा	01-09-96
398	14291323 एन	हवलदार	बीरबल घादव	01-12-96
399	14291459 एक्स	हवलदार	बिशन सिंह धधोला	01-01-97
400	14220678 पी	हवलदार	बिष्णू प्रसाद गुरुग	01-01-97
401	14220072 एल	हवलदार	बिश्वनाथ सिंह	01-09-96
402	14220323 के	हवलदार	ब्रह्मआनन्द मिश्रा	01-10-96
403	14220766 एल	हवलदार	ब्रिज नन्दन ठाकुर	01-01-97
404	14290695 एच	हवलदार	ब्रिजनाथ प्रसाद सिंह	01-09-96
405	14222294 वाई	हवलदार	सी भास्कर	01-09-96
406	14220864 एल	हवलदार	सी के पुरुषोत्तमन	01-01-97
407	14220156 वाई	हवलदार	चाको ए	01-10-96
408	14218357 वाई	हवलदार	चम्पा राम	01-05-96
409	14291334 ए	हवलदार	चन्द्र राव धदवल्ली	01-12-96
410	14220448 एफ	हवलदार	चन्द्र पाल सिंह	01-11-96
411	14223256 पी	हवलदार	चान्दगी राम	01-10-96
412	14200947 के	हवलदार	चन्द्र बहादुर अधिकारी	01-01-97
413	14290933 एन	हवलदार	चन्द्रिका प्रसाद मौर्घा	01-10-96
414	14291530 ए	हवलदार	चरण सिंह राना	01-01-97
415	14219963 एफ	हवलदार	छोटे सिंह	01-09-96
416	14220365 डब्ल्यू	हवलदार	छोटे सिंह भक्तेरिया	01-10-96

416	14220615पी	हवलदार	भौ कुन्दर	01-12-96
418	14290872एफ	हवलदार	दलजीत सिंह	01-09-96
419	14221050वाई	हवलदार	डोमर सिंह राजा	01-01-97
420	14220754डब्ल्यू	हवलदार	देहरु राम	01-01-97
421	14291028एल	हवलदार	देवानन्द झा	01-10-96
422	14220656डब्ल्यू	हवलदार	धम सिंह	01-01-97
423	14291001एन	हवलदार	धनपती घोष	01-10-96
424	14219985ए	हवलदार	धर्म कान्ता बरुवा	01-09-96
425	14220499पी	हवलदार	दिनेश झा	01-12-96
426	14290921वाई	हवलदार	फत्ते सिंह	01-10-96
428	14291283एक्स	हवलदार	गजे सिंह	01-12-96
429	14220276एक्स	हवलदार	गन्डू जरेन्द्र	01-10-96
430	14221051एफ	हवलदार	गंगा बहादुर चैत्री	01-01-97
430	14222123एम	हवलदार	गंगा धरन नाथर वी	01-09-96
431	14220494डब्ल्यू	हवलदार	जोर्ज कौंगारी	01-12-96
432	14291582डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल ठाकुर	01-01-97
433	14220427एल	हवलदार	गोपाला कृष्णा पिले जी	01-11-96
434	14220293एक्स	हवलदार	गोपी कान्त झा	01-10-96
435	14291067एक्स	हवलदार	गोपीनाथन के	01-10-96
436	14291146वाई	हवलदार	गोविंद शरण मिश्रा	01-10-96
437	14220117ए	हवलदार	गुलाब सिंह	01-09-96
438	14220603एक्स	हवलदार	गुरदीप सिंह	01-12-96
439	14220266एन	हवलदार	गुरु देव	01-10-96
440	14219846डब्ल्यू	हवलदार	हकी राम कुमार	01-09-96
441	14220250एच	हवलदार	हरभजन सिंह	01-10-96
442	14291034वाई	हवलदार	हरदेव सिंह	01-10-96
443	14225238एम	हवलदार	हरी कृष्णा उपरेती	01-10-96
444	14220060डब्ल्यू	हवलदार	हरी नारायण शर्मा	01-09-96
445	14220580एफ	हवलदार	हीरलाल राम	01-12-96
447	14291045एल	हवलदार	हरवीर सिंह	01-10-96
448	14291027एच	हवलदार	हीरानन्द ठाकुर	01-10-96
449	14211035डब्ल्यू	हवलदार	इन्द्रजीत सिंह	01-01-97
450	14290756वाई	हवलदार	जबर सिंह पाल	01-09-96
450	14220002एम	हवलदार	जगन नाथ	01-09-96
451	14291033डब्ल्यू	हवलदार	जगन नाथ सिंह	01-10-96
452	14291076एल	हवलदार	जगत नन्राघन	01-10-96
453	14290966वाई	हवलदार	जगदीश राम	01-10-96
454	14290465वाई	हवलदार	जय नन्राघन	01-09-96
455	14291278एम	हवलदार	जय पाल	01-12-96
457	14291217पी	हवलदार	जय प्रकाश लाल	01-10-96
458	14220464वाई	रिभालदार	जय प्रकाश सिंह	01-11-96
459	14212944एन	हवलदार	जयप्रकाश नारायण सिंह	01-11-96
460	14290931एच	हवलदार	जीत दसि	01-10-96
460	14290524ए	हवलदार	जोगिन्द्र सिंह टीओओआर	01-09-96
461	14220267डब्ल्यू	हवलदार	जोस पी टी	01-10-96
462	14219894डब्ल्यू	हवलदार	जोसफ आन्टणी	01-09-96
463	14219950के	हवलदार	कैलाश चन्द्र मिश्रा	01-09-96
464	14220504पी	हवलदार	कैलाश सिंह	01-12-96
465	14212528के	हवलदार	के पी मेद्रोरस	01-11-96
467	14220284डब्ल्यू	हवलदार	कालोशशि कुमार	01-10-96
468	14213109वाई	हवलदार	काबू सिंह	01-12-96
469	14291425के	हवलदार	कप्तान सिंह	01-01-97

469	14211269ए	हवलदार	करम सिंह	01-12-96
470	14220600ए	हवलदार	कार्तिकेयन के	01-12-96
471	14291213वाई	हवलदार	केशरी राम	01-10-96
472	14291100डब्ल्यू	हवलदार	केवल कृपण	01-10-96
473	14290999के	हवलदार	क्रिषन कुमार	01-10-96
474	14220347एन	हवलदार	किशोर चन्द्र देहेरा	01-10-96
475	14220139वाई	हवलदार	कृपण चन्द्र	01-09-96
476	14220554ए	हवलदार	कृष्णा नैद निवारी	01-12-96
477	14219410एल	हवलदार	एल भास्करा राव	01-08-96
478	14291352एच	हवलदार	लज्जा राम	01-12-96
479	14220661एफ	हवलदार	लाला राम	01-01-97
480	14210809एफ	हवलदार	ललाधर सिंह	01-01-97
481	14291495एच	हवलदार	लक्ष्मी नारायण सिंह परिहर	01-01-97
482	14291174एल	हवलदार	लक्ष्मी शंकर शर्मा	01-10-96
483	14293799वाई	हवलदार	एम गुरुवेन्कलम	01-12-96
484	14290744के	हवलदार	एम जोन आम्बोस	01-09-96
485	14291369डब्ल्यू	हवलदार	एम मणी	01-12-96
486	14291212डब्ल्यू	हवलदार	मदन मोहन लाल	01-10-96
487	14290791एफ	हवलदार	मदन मोहन पाण्डे	01-09-96
488	14223639एफ	हवलदार	मागी राम गोधी	01-01-97
489	14212705वाई	हवलदार	महन्गु प्रसाद	01-11-96
490	14220788के	हवलदार	महेन्द्र दुबे	01-01-97
491	14290774एफ	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01-09-96
492	14220335वाई	हवलदार	एम भगत	01-10-96
493	14291043ए	हवलदार	एम चौधरी	01-10-96
494	14290686एल	हवलदार	महीन्दर सिंह	01-09-96
495	14219997पी	हवलदार	महिपाल सिंह चौहान	01-09-96
496	14291013एच	हवलदार	मलसन	01-10-96
497	14220129पी	हवलदार	मल्लप्पा कडप्पा वर्जी	01-09-96
498	14291069पी	हवलदार	मनबीर सिंह	01-07-96
499	14223293एच	हवलदार	मनजीत सिंह	01-10-96
500	14292383पी	हवलदार	मस्त राम शर्मा	01-10-96
501	14291308वाई	हवलदार	मेथू सी जे	01-12-96
502	14291130एन	हवलदार	एम आई बेग	01-10-96
503	14290919एफ	हवलदार	एम किचुलुहीन	01-10-96
504	14220051पी	हवलदार	सुकित नाथ मिश्रा	01-09-96
505	14219878वाई	हवलदार	सुरलीधरन टी	01-09-96
506	14221997एन	हवलदार	एन घेलवन	01-12-96
507	14220332एल	हवलदार	नायब सिंह	01-10-96
508	14290958ए	हवलदार	नैद किशोर त्रिवेदी	01-10-96
509	14291172ए	हवलदार	नैद लाल	01-10-96
510	14223170डब्ल्यू	हवलदार	नन्दलाल प्रसाद मिश्रा	01-09-96
511	14291288डब्ल्यू	हवलदार	निमार्जन धरण कार	01-12-96
512	14290923एफ	हवलदार	निर्मल कुमार बिशवास	01-10-96
513	14220292पी	हवलदार	ओम प्रकाश झाखंड	01-10-96
514	14291302ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01-12-96
515	14211653डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	01-10-96
516	14291149एम	हवलदार	ओम प्रकाश लाल	01-10-96
517	14291068एम	हवलदार	ओमपाल सिंह	01-10-96
518	14220458वाई	हवलदार	पबित्र कुमार बंध्योपाध्याय	01-11-96
519	14220176एम	हवलदार	पी एम चिट्टिअप्पा	01-10-96
520	14219891एच	हवलदार	पी आर महार्जन	01-09-96

521	14220569एच	हवलदार	पतटिल हरीदास भाउ	01-12-96
522	14220390पी	हवलदार	फूल चन्द वर्मा	01-10-96
523	14218408एफ	हवलदार	प्रहलाद राघ	01-05-96
524	14293617ऐ	हवलदार	प्रकाश स्वरुप	01-10-96
525	14291000एल	हवलदार	प्रताप सिंह	01-10-96
526	14290560एल	हवलदार	प्रेम चन्द	01-09-96
527	14291371एन	हवलदार	प्रेम शंकर सिंह	01-12-96
528	14220023एच	हवलदार	प्रेम सिंह पीआरएएसहर	01-09-96
529	14290894ऐ	हवलदार	पुलिनि बिहारी मोहन्ती	01-10-96
530	14291070के	हवलदार	पूरण सिंह	01-10-96
531	14219949पी	हवलदार	राधाकृष्णन नाथर एस	01-09-96
532	14293612एफ	हवलदार	राधे श्याम ओझा	01-09-96
533	14290643डब्ल्यू	हवलदार	राधे सिंह	01-09-96
534	14291178एफ	हवलदार	रघुबीर प्रसाद घादव	01-10-96
535	14290603एक्स	हवलदार	रघुबीर शरण	01-09-96
536	14220652ऐ	हवलदार	राज बहादुर	01-01-97
537	14290833एच	हवलदार	राज किशोर शर्मा	01-09-96
538	14219850वाई	हवलदार	राज कुमार	01-09-96
539	14219877डब्ल्यू	हवलदार	राजेन्द्र बाबू बालन पिले	01-09-96
540	14291474एम	हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद	01-01-97
541	14219918पी	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01-09-96
542	14220664पी	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01-09-96
543	14290878एच	हवलदार	राजेश्वर सिंह	01-09-96

544	14291428 एफस	हवलदार राजिन्द्र सिंह	01-01-97
546	14290844 पी	लदार राजपाल सिंह राठी	01-09-96
547	14220255 एफ	वलदार राम अवतार	01-10-96
548	14220581 के	दार राम बहल	01-12-96
548	14291496 एल	वलदार राम भजन ठाकुर	01-01-97
549	14290828 एफस	हवलदार राम चन्द	01-09-96
550	14220503 एम	वलदार राम चरण	01-12-96
551	14220769 वाई	वलदार राम इकबाल तिवारी	01-01-97
552	14220409 एच	हवलदार राम करन सिंह	01-11-96
553	14290559 डब्ल्यू	हवलदार राम कवल	01-09-96
554	14220588 एन	हवलदार राम खलेवान	01-12-96
555	14290679 पी	हवलदार राम क्लित राम	01-09-96
557	14291493 एफस	हवलदार राम कुमार सिंह	01-12-96
558	14291393 एम	हवलदार राम लाल	01-12-96
559	14291479 एल	हवलदार राम नरेश ठाकुर	01-01-97
560	14212497 पी	हवलदार राम पाल सिंह	01-11-96
560	14290776 एम	हवलदार राम परमण्णा ठाकुर	01-09-96
562	14220539 एल	हवलदार राम प्रवेश	01-12-96
563	14291372 डब्ल्यू	हवलदार राम सागर सिंह	01-12-96
564	14220505 एफस	हवलदार राम सेवक	01-12-96
564	14220457 एच	हवलदार राम सिंह	01-11-96
565	14291511 पी	हवलदार रमन टी आर	01-01-97
566	14220329 एल	हवलदार रामवतार	01-10-96
568	14220367 एफ	हवलदार रकमबीर सिंह	01-10-96
568	14220622 एच	हवलदार रामेन्द्र कुमार	01-12-96
569	14220705 एन	हवलदार रमेश चन्द	01-01-97
570	14212473 एल	हवलदार रमेश चन्द्र वर्मा	01-01-97
571	14219965 एम	हवलदार रमेश कुमार	01-09-96
572	14220630 एफ	हवलदार रामजी सिंह	01-12-96
574	14220918 एफ	हवलदार रंणजीत सिंह नेगी	01-01-97
574	14290575 एन	हवलदार रतन सिंह चौहान	01-09-96
575	14220265 एल	हवलदार रत्नेश्वर सिंह	01-10-96
576	14220425 पी	हवलदार रवीन्द्रजान	01-11-96
578	14290758 के	हवलदार रिपुसुडात सिंह सैना	01-09-96
578	14220461 एल	हवलदार रिपी पाल	01-11-96
580	14220659 के	हवलदार रोशन लाल	01-01-97
580	14290568 एफस	हवलदार सबाले बापु बाला	01-01-96
581	14291473 के	हवलदार समर बहादुर सिंह	01-01-97
582	14290869 एफ	हवलदार सन्तोष सिंह	01-09-96
583	14219951 एम	हवलदार सारदा प्रताप	01-09-96
584	14219886 एफस	हवलदार सरजू राम	01-09-96
585	14210943 एम	हवलदार शशी कान्त सहनेजा	01-10-96
586	14222489 के	हवलदार शशीधरम विले बी	01-10-96
588	14220466 के	हवलदार मनपाल सिंह	01-10-96
589	14220172 डब्ल्यू	हवलदार सत्यर देव सिंह	01-10-96
589	14290681 एम	हवलदार सत्यनामरायण	01-09-96
590	14220672 एम	हवलदार सत्यानन्द राम	01-01-97
591	14290853 पी	हवलदार सत्यानारायण देव सुपतदू. व.	01-09-96
592	14290811 के	हवलदार सत्यपाल सिंह	01-09-96
593	14220310 एम	हवलदार सत्यपाल सिंह	01-10-96

595	14290939पी	हवलदार	सेबासंदहन एन टी	01-10-96
596	14291368एन	हवलदार	शेखर वी	01-12-96
597	14290696पी	हवलदार	शाम सिंह	01-09-96
598	14290692वाई	हवलदार	षमा राव दुर्गा	01-09-96
599	14290576डब्ल्यू	हवलदार	शंकरप्पा के	01-09-96
600	14290877ए	हवलदार	शिवाजी राय	01-09-96
601	14208945वाई	हवलदार	शिव कुमार नागरकोटी	01-10-96
602	14220443एच	हवलदार	शिव कुमार शर्मा	01-11-96
603	14290629के	हवलदार	शिघम बाबू	01-09-96
604	14220391एक्स	हवलदार	श्री चन्द सिंह	01-10-96
605	14220782एच	हवलदार	श्री वहाब खान बादुल्ला खान	01-01-97
606	14291090एक्स	हवलदार	शिवन पिले के	01-10-96
607	14220304वाई	हवलदार	शिवन पिले आर	01-10-96
608	14291339वाई	हवलदार	स्मित कुमार सिंह	01-12-96
609	14220920वाई	हवलदार	सोहन लाल भादा	01-01-97
610	14291378एक्स	हवलदार	एसआरअर्जुनवास सिंह	01-12-96
611	14210835एच	हवलदार	सुभाष चन्द्र	01-12-96
612	14220299वाई	हवलदार	सुबेदार सिंह	01-10-96
613	14219954ए	हवलदार	सुभाष चन्द्र	01-09-96
614	14219811ए	हवलदार	सुभाष चन्द्र सोणी	01-09-96
615	14220080के	हवलदार	सुदेब चन्द्र दत्ता	01-09-96
616	14290519पी	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	01-09-96
617	14290705एल	हवलदार	सुरेन्द्र नाथ बोरो	01-09-96
618	14220856एम	हवलदार	सुरेन्द्र शेट्टी	01-01-97
619	14220321वाई	हवलदार	सुरेश कुमार पाण्डे	01-10-96
620	14220469एक्स	हवलदार	सघद उम्मर	01-12-96
621	14223288एक्स	हवलदार	तारा चन्द	01-10-96
622	14223763एच	हवलदार	तारा चन्द रहर	01-01-97
623	14291641एन	हवलदार	ठाकुर सिंह नेगी	01-09-96
624	14220583पी	हवलदार	उदयनाथ सिंह	01-12-96
625	14220414एन	हवलदार	उमा शंकर राम	01-11-96
626	14291405डब्ल्यू	हवलदार	वगोबू भास्करा राव	01-01-97
627	14291404एन	हवलदार	वैकटेश्वरलु नौतलापती	01-12-96
628	14290642एन	हवलदार	विद्याधर मिश्रा	01-09-96
629	14291086पी	हवलदार	विद्याधर एन	01-09-96
630	14291220पी	हवलदार	विजय सिंह शिशोदिपा	01-11-96
631	14291078डब्ल्यू	हवलदार	विजयेन्द्रन पिले सी	01-10-96
632	14220604ए	हवलदार	विनोद कुमार	01-12-96
633	14290757एफ	हवलदार	विश्वनाथ सिंह भदौरिपा	01-09-96
634	14220502के	हवलदार	यदु नाथ	01-12-96
635	14291240एच	हवलदार	योगेन्द्र कुमार शर्मा	01-11-96

ब्रिगेड आफ गार्ड्स

636	13670107के	हवलदार	बल राम	01-09-96
637	13670185एफ	हवलदार	भाता राम	01-10-96
638	13670193ए	हवलदार	भोला प्रसाद	01-10-96
639	13670290एक्स	हवलदार	बुध राम सिंह	01-12-96
640	13648613वाई	हवलदार	सी राजा गोपालन	01-11-96
641	13670292एच	हवलदार	धर्म पाल	01-12-96

642	13670177एम	हवलदार	सुरजन्त सिंह	01-10-96
643	13670253के	हवलदार	हरी सिंह	01-11-96
644	13670216डब्ल्यू	हवलदार	जगत राम	01-10-96
645	13670112पी	हवलदार	कश्मीर सिंह	01-09-96
646	13670085डब्ल्यू	हवलदार	कृष्ण पाल सिंह	01-09-96
647	13670105वाई	हवलदार	महाराज सिंह	01-09-96
648	13670312एल	हवलदार	सुख राम	01-12-96
649	13673883पी	हवलदार	सुचुबेल ऐ वी	01-09-96
650	13851133एल	हवलदार	पी एस सासुबेल	01-01-97
651	13670175एक्स	हवलदार	पारस राम	01-10-96
652	13670226ऐ	हवलदार	राधे श्याम	01-10-96
653	13670126पी	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01-09-96
654	13670089एम	हवलदार	राम कुमार	01-09-96
655	13670214एल	हवलदार	राम पाल	01-10-96
656	13670148एन	हवलदार	राम सिंह	01-09-96
657	13670369ऐ	हवलदार	सेवदया ठाकुर	01-01-97
658	13670289एच	हवलदार	सुरज मल	01-12-96
659	13670190एम	हवलदार	टी एस पूनछ्या	01-10-96

पैराइट रेजिमेंट

660	13609186ए	हवलदार	ऐ रमेशान नायर	01-10-96
661	13609244एम	हवलदार	बालाई चन्द्र पाल	01-12-96
662	13609197ऐ	हवलदार	द्वेष सिंह	01-10-96
663	13609237डब्ल्यू	हवलदार	धरमजीत	01-01-97
664	13609196एक्स	हवलदार	जय भगवान	01-10-96
665	13609193के	हवलदार	जसवन्त सिंह	01-10-96
666	13609172एन	हवलदार	जोसफ टी जोसफ	01-09-96
667	13609194एम	हवलदार	कर्ण बहादुर सुरंग	01-10-96
668	13609238एम	हवलदार	लक्ष्मण सिंह	01-12-96
669	13609182एक्स	हवलदार	महिपत	01-10-96
670	13609213एम	हवलदार	मान बहादुर थापा	01-11-96
671	13609284एल	हवलदार	एम के कुरासी	01-10-96
672	13609990पी	हवलदार	राजे सिंह बिष्ट	01-10-96
673	6462801 एच	हवलदार	रमेश गिरि	01-12-96

पजाब रेजिमेंट

674	2464143एफ	हवलदार	अमर नाथ	01-09-96
675	2464069एल	हवलदार	बक्शी राम	01-09-96
676	2464196ऐ	हवलदार	बस्ती राम	01-10-96
677	2464068एच	हवलदार	भण्डारी राम	01-09-96
678	2464062एफ	हवलदार	दौलत राम	01-09-96
679	2464101पी	हवलदार	जगत राम	01-09-96
680	10380776ऐ	हवलदार	के वी सोमन	01-09-96
681	2464074डब्ल्यू	हवलदार	कश्मीर सिंह	01-09-96
682	2464204एन	हवलदार	किशोरी लाल	01-10-96
683	2464068पी	हवलदार	कृष्ण चन्द	01-09-96
684	2464100एम	हवलदार	लाभ सिंह	01-09-96
685	2464292पी	हवलदार	लेख राज	01-01-97

686	2464279एल	हवलदार	मल्कीत सिंह	01-01-97
687	2464260डब्ल्यू	हवलदार	मेहर सिंह ठाकुर	01-09-96
688	2464283एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01-01-97
689	2464254वार्ड	हवलदार	ओम प्रकाश	01-12-96
690	2464201ऐ	हवलदार	पदम सिंह	01-10-96
691	2464174एफ	हवलदार	राजन कुमार गिरि	01-10-96
692	2464181एक्स	हवलदार	रकमा	01-10-96
693	2464226एम	हवलदार	रणजीत सिंह	01-11-96
694	2465472के	हवलदार	रतन लाल	01-10-96
695	2465663वार्ड	हवलदार	सरदूल सिंह	01-01-97
696	2464288एम	हवलदार	श्वन लाल	01-01-97
697	2464175के	हवलदार	शेर सिंह	01-10-96
698	2464267डब्ल्यू	हवलदार	शेर सिंह	01-01-97
699	2464217एल	हवलदार	शिव लाल	01-10-96
700	2464200एक्स	हवलदार	सुन्दर लाल	01-10-96
701	2464071एच	हवलदार	स्वरण लाल	01-09-96

मद्रास रेजिमेंट

702	2664579डब्ल्यू	हवलदार	ऐ के गोपी पिले	01-10-96
703	2572298एम	हवलदार	बाला नागराजा	01-10-96
704	2572393एम	हवलदार	डी रामचन्द्रन	01-12-96
705	2572365ऐ	हवलदार	जी सुब्रमणियन	01-12-96
706	2572362एम	हवलदार	जनार्धन	01-12-96
707	6462820एन	हवलदार	के भास्करन	01-12-96
708	2572190एच	हवलदार	मेधू पी डी	01-09-96
709	2572330के	हवलदार	पनीर सेल्वम	01-10-96
710	2572407एफ	हवलदार	आर जयरामन	01-01-97
711	2572184पी	हवलदार	राजीनाथ डू चिन्नस्वामी	01-09-96
712	2572333एक्स	हवलदार	सुन्दरम एस	01-10-96
713	2572235एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रन नायर एन	01-09-96
714	2572389के	हवलदार	उणिथाधन सी	01-12-96
715	2572319एल	हवलदार	पी यू पिल्ले	01-10-96
716	13609229एक्स	हवलदार	विजय कुमार पीके	01-12-96

गेनेटिपेर्स

717	2664627एल	हवलदार	आदित्य प्रकाश	01-12-96
718	2664606पी	हवलदार	अरविन्द सिंह	01-12-96
719	2664628एन	हवलदार	भाग सिंह	01-12-96
720	2664574एक्स	हवलदार	भुरे लाल	01-10-96
721	2664546एल	हवलदार	दान सिंह	01-10-96
722	6462940एम	हवलदार	गोपीनाथन पिले टी आर	01-01-97
723	2664611ऐ	हवलदार	हरजीन्दर सिंह	01-12-96
724	2665787एक्स	हवलदार	जय पाल सिंह	01-09-96
725	2664474एम	हवलदार	करन सिंह बीअईआरमान	01-09-96
726	2664623पी	हवलदार	करतार सिंह	01-12-96
727	2664646डब्ल्यू	हवलदार	मोहन लाल	01-01-97
728	2664471वार्ड	हवलदार	नबी शेर	01-09-96
729	2664520डब्ल्यू	हवलदार	प्यार सिंह	01-09-96

730	2664562एध	हवलदार	पूरण चन्द्रा	01-10-96
731	2664637पी	हवलदार	राम बहादुर	01-01-97
732	2664616वाई	हवलदार	राम कंवर घोण्डवाल	01-12-96
733	2664554के	हवलदार	राम कुवर	01-10-96
734	2664682एफ	हवलदार	राम सिंह	01-09-96
735	2664614एन	हवलदार	रकमेश्वर	01-12-96
736	2665873एच	हवलदार	मोनम राम	01-10-96
737	2664619एम	हवलदार	सुल्तान सिंह	01-12-96
738	2664539एच	हवलदार	सुरज पाल	01-10-96

मराठा लाईट इन्फेन्ट्री

739	2765693पी	हवलदार	जगदाले नारायण रामचन्द्र	01-12-96
740	2765638वाई	हवलदार	के भरधन	01-10-96
741	2765745ऐ	हवलदार	एम धण्णुगम	01-01-97
742	2765666एल	हवलदार	राजाराम कमाकर	01-11-96
743	2765649एल	हवलदार	रकमचन्द्र दोण्डिराम कोले	01-10-96
744	2765659पी	हवलदार	एम देवेन्द्रन	01-11-96
745	2765744एक्स	हवलदार	एस गोविन्द राजू	01-01-97
746	2765738के	हवलदार	सदाशिव एम पी	01-01-97
747	2766670ऐ	हवलदार	उधे बाहुराव शेलके	01-11-96
748	8022427एफ	हवलदार	डी बाबासाहेब अप्पा	01-12-96

राजपुत्ताना राईफल्स

749	2867381एम	हवलदार	आईदान सिंह	01-10-96
750	2867125एक्स	हवलदार	अर्जुन सिंह	01-09-96
751	2867422एल	हवलदार	बदरी	01-11-96
752	2867295एफ	हवलदार	दया राम	01-10-96
753	2867190एक्स	हवलदार	दीन मोहमद	01-09-96
754	2867293डब्ल्यू	हवलदार	धनश्याम नायक	01-10-96
755	2867345एफ	हवलदार	ज्ञान चन्द्र	01-10-96
756	2867444के	हवलदार	हनुमान सिंह शेखावत	01-12-96
757	2867514एक्स	हवलदार	हरी राम	01-01-97
758	2868814एल	हवलदार	जगदीश चन्द्र	01-09-96
759	2867458के	हवलदार	जगदीश प्रमाद	01-12-96
760	2867375वाई	हवलदार	जगमल सिंह	01-10-96
761	2867463पी	हवलदार	जर्नाधन जी	01-12-96
762	2867476एम	हवलदार	किशोरी लाल	01-01-97
763	2867287एध	हवलदार	क्रिपा राम	01-10-96
764	2867393एफ	हवलदार	लुकमान खान	01-10-96
765	2867448ऐ	हवलदार	महिमान सिंह	01-12-96
766	2867238ऐ	हवलदार	मनोहर सिंह शेखावत	01-10-96
767	2867410डब्ल्यू	हवलदार	नैद लाल	01-11-96
768	2867231डब्ल्यू	हवलदार	नधु सिंह	01-09-96
769	2867374डब्ल्यू	हवलदार	राम असार्थ	01-11-96
770	2867390एन	हवलदार	राम सिंह	01-11-96
771	13849345एम	हवलदार	राम सिंह	01-11-96
772	2867400एम	हवलदार	रकमेश्वर लाल	01-11-96
773	2867281एफ	हवलदार	रणबीर सिंह	01-10-96

774	2867461के	हवलदार	श्री रंग दास पवार	01-12-96
775	2867362एफ	हवलदार	श्याम नारायण राय	01-10-96
776	2867442वाई	हवलदार	सीता राम	01-12-96
777	2867261एन	हवलदार	सुबेदार	01-10-96
778	2867377के	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार सिंह	01-10-96
779	2969944पी	हवलदार	तिलक राज	01-12-96
780	2867469डब्ल्यू	हवलदार	उग्र सैन प्रसाद तिवारी	01-12-96

राजपुत. रेजिमेंट

781	2969958पी	हवलदार	बबलू राय	01-12-96
782	2969892के	हवलदार	बलदेव सिंह	01-10-96
783	2969948एल	हवलदार	भीम सिंह शेखावत	01-12-96
784	2969888एफ	हवलदार	बिक्रम सिंह	01-10-96
785	2969930पी	हवलदार	चन्द्र सिंह	01-11-96
786	2967757एक्स	हवलदार	धरनजीत	01-09-96
787	2968248एल	हवलदार	सी कुंजर	01-10-96
788	2969998के	हवलदार	दीनानाथ बोरो	01-01-97
789	2969957एम	हवलदार	ज्ञान सिंह	01-12-96
790	2969917एल	हवलदार	गिरिजा प्रसाद सिंह	01-11-96
791	5444783एम	हवलदार	गुमार सिंह विक्रमा	01-10-96
792	2969986एफ	हवलदार	गुप्तमेश्वर ठाकुर	01-01-97
793	2969945एक्स	हवलदार	जगमल राम आचार्य	01-12-96
794	2969779पी	हवलदार	लोक नाथ वर्मा	01-10-96
795	2969824डब्ल्यू	हवलदार	महताब सिंह	01-10-96
796	2969946ऐ	हवलदार	मोहन सिंह फरियाल	01-12-96
797	2969891एफ	हवलदार	मोती	01-10-96
798	2969960एम	हवलदार	नेत्र बहादुर कार्जी	01-12-96
799	2969789वाई	हवलदार	राम बछ्पन राम	01-10-96
800	2969897एच	हवलदार	राम चन्द्र सिंह	01-10-96
801	2969915ऐ	हवलदार	राम मेवक	01-11-96
802	2969900एक्स	हवलदार	रकमा धर	01-11-96
803	2969844के	हवलदार	रकमेश्वर	01-10-96
804	2969837एन	हवलदार	रोहिताष	01-10-96
805	2969965एल	हवलदार	शतीश चन्द्र	01-12-96
806	2969875के	हवलदार	शिव बच्चन	01-10-96
807	2969760डब्ल्यू	हवलदार	शिव चरण सिंह	01-09-96
808	2969793एफ	हवलदार	लिला राम	01-10-96
809	2969868एन	हवलदार	विजेन्द्र सिंह	01-12-96

जाट रेजिमेंट

810	3164262पी	हवलदार	बीर सिंह	01-10-96
811	3164193के	हवलदार	बीरबल राम वर्मा	01-09-96
812	3164316एल	हवलदार	जनार्दन राम	01-12-96
813	3164154एल	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01-09-96
814	3164255वाई	हवलदार	महेन्द्र लाल	01-10-96
815	3164268डब्ल्यू	हवलदार	पूर्ण चन्द्र	01-10-96

816	2464229ए	हवलदार	रामेश्वर प्रधान	01-12-96
817	3164312पी	हवलदार	मौला मरण प्रर्मा	01-12-96
818	3164258एम	हवलदार	सुनील सिंह	01-10-96

सिख रेजिमेंट

819	3371677डब्ल्यू	हवलदार	अमलिक सिंह	01-12-96
820	2464236डब्ल्यू	हवलदार	गोपीनाथन पीले जी	01-12-96
821	3370102पी	हवलदार	गुरधरण सिंह	01-09-96
822	3370047के	हवलदार	गुरमीत सिंह	01-09-96
823	3371505एफ	हवलदार	जगतार सिंह	01-09-96
824	3370130एफ	हवलदार	मुखदेव सिंह	01-09-96

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

825	4453134एम	हवलदार	आजीत सिंह	01-10-96
826	4453100वाई	हवलदार	बुद्धा	01-10-96
827	4453127डब्ल्यू	हवलदार	मूल चन्द	01-10-96
828	7767707एक्स	हवलदार	पी पीरामुज	01-01-97
829	4453136एक्स	हवलदार	राज सिंह	01-10-96
830	4453135पी	हवलदार	रतन चन्द	01-10-96
831	13850594एक्स	हवलदार	मुखदेव सिंह	01-01-97

डोगरा रेजिमेंट

832	3971316पी	हवलदार	बाहु राम	01-12-96
833	3971322एच	हवलदार	बीर सिंह	01-12-96
834	3971349ए	हवलदार	देव राज	01-01-97
835	3971214वाई	हवलदार	धर्म दास	01-10-96
836	3971301एम	हवलदार	जनक राज	01-12-96
837	3971292डब्ल्यू	हवलदार	जोध राम	01-12-96
838	3971252पी	हवलदार	खडक सिंह	01-10-96
839	3971109एच	हवलदार	कृष्ण लाल	01-09-96
840	3971110एक्स	हवलदार	कुलदीप सिंह	01-09-96
841	3971327एफ	हवलदार	मनोहर लाल	01-01-97
842	3971333पी	हवलदार	नकेनक चन्द	01-01-97
843	3971293वाई	हवलदार	आंकार चन्द	01-12-96
844	3971235पी	हवलदार	प्रेम चन्द	01-10-96
845	3971308डब्ल्यू	हवलदार	राजा राम	01-12-96
846	3971330एफ	हवलदार	राम फल	01-01-97
847	3971182एफ	हवलदार	राम सरूप	01-10-96
848	3972780एल	हवलदार	सरदार सिंह	01-01-97
849	3971271ए	हवलदार	सुन्दर सिंह	01-11-96
850	3971287एल	हवलदार	तारा सिंह	01-12-96

गडवाल राईफलस

851	13735244वाई	हवलदार	बसन्त लाल	01-01-97
852	13850177एल	हवलदार	दिलवर सिंह	01-11-96

853	13872877वाई	हवलदार	गुणालन	01-09-96
854	4053626एक्स	हवलदार	हीरा लाल	01-01-97
855	2969942के	हवलदार	सुन्शी सिंह	01-12-96
856	2969893एम	हवलदार	परसण्णा देहरी	01-10-96
857	9214872एल	हवलदार	रघबीर सिंह	01-12-96
858	5341673एक्स	हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद	01-01-97
859	9214881एम	हवलदार	रत्ना बहादुर साकी	01-12-96
860	2969978एच	हवलदार	श्याम बहादुर थापा	01-01-97

कुमाऊँ रेजिमेंट

861	4165130के	हवलदार	बलवर्त सिंह	01-09-96
862	4165289पी	हवलदार	बास देव	01-12-96
863	4165209एम	हवलदार	भूपाल सिंह दातु	01-10-96
864	4165168एफ	हवलदार	धर्म सिंह	01-09-96
865	4165303डब्ल्यू	हवलदार	धर्म सिंह	01-01-97
866	4165283एन	हवलदार	फकीर सिंह	01-12-96
867	4166435डब्ल्यू	हवलदार	गणेश सिंह	01-09-96
868	4252065डब्ल्यू	हवलदार	हीरा लाल राम	01-10-96
869	4165224एफ	हवलदार	जगन नाथ	01-10-96
870	7767661ऐ	हवलदार	जगमोहन घादव	01-11-96
871	4165243एम	हवलदार	जीत राम	01-10-96
872	4165230पी	हवलदार	केदार सिंह	01-10-96
873	4165217एल	हवलदार	खिम सिंह	01-10-96
874	4165314एच	हवलदार	किशन सिंह	01-01-97
875	4165207एफ	हवलदार	कुशल राम	01-10-96
876	4165194पी	हवलदार	लछम राम	01-10-96
877	4165112एफ	हवलदार	लक्षमन सिंह	01-09-96
878	4165116एक्स	हवलदार	प्रहलाद राम ताम्ता	01-09-96
879	4165109एफ	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01-09-96
880	4165095एम	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01-09-96
881	4165296एल	हवलदार	राम लाल	01-01-97
882	4165176एम	हवलदार	राम सिंह	01-10-96
883	4165202एच	हवलदार	राम सिंह	01-10-96
884	4165286एफ	हवलदार	सरवन लाल	01-12-96
885	4165144के	हवलदार	सप्तशेर चन्द	01-09-96
886	4165237वाई	हवलदार	शेर सिंह	01-10-96
887	4165273पी	हवलदार	नारा बहादुर थापा	01-12-96
888	4165214एक्स	हवलदार	टिका सिंह	01-10-96

आसाम रेजिमेंट

889	5444782के	हवलदार	अमर बहादुर गुरुंग	01-10-96
890	4426293ऐ	हवलदार	अनुकुल चन्दा	01-01-97
891	13863303एल	हवलदार	दर्मि	01-10-96
892	4426324पी	हवलदार	ईपन वी जे	01-09-96
893	5444829के	हवलदार	हरी बहादुर थापा	01-01-97
894	4347476एम	हवलदार	लाल बहादुर चौत्री	01-11-96
895	4426285एफ	हवलदार	राम दयाल सिंह	01-10-96
896	7767673पी	हवलदार	रामजी ठाकुर	01-11-96
897	13863304एन	हवलदार	आरउपेन्द्रा चन्द्र राय	01-10-96

बिहार रेजिमेंट

898	4252098 डब्ल्यू	हवलदार	आनन्द मोहन प्रमाणिक	01-12-96
899	4252005 डब्ल्यू	हवलदार	अन्टणी बिलंग	01-09-96
900	13857341 एफ	हवलदार	बाबू भाई कडवा भाई होठा	01-10-96
901	4253546 के	हवलदार	हरी उरावों	01-12-96
902	4252063 ऐ	हवलदार	काली पादा मोण्डल	01-10-96
903	4253484 पी	हवलदार	ललन सिंह	01-11-96
904	4252041 एफ	हवलदार	महादेव उरावों	01-10-96
905	4252071 वार्ड	हवलदार	महेश्वर प्रसाद ओझा	01-10-96
906	4252007 एफ	हवलदार	मर्सालन लुरुण	01-09-96
907	4253391 ऐ	हवलदार	मिधिलेश सिंह	01-10-96
908	4251987 पी	हवलदार	एम मसीह सुरिया	01-09-96
909	4251965 एच	हवलदार	राजेश्वर प्रसाद वर्मा	01-09-96
910	4253475 एन	हवलदार	राम एकबाल सिंह	01-12-96
911	4252104 वार्ड	हवलदार	राम राज सिंह	01-12-96
912	4252094 ऐ	हवलदार	रकमेश्वर ठाकुर	01-12-96
913	4252101 एल	हवलदार	रामजी ठाकुर	01-12-96
914	4253626 एम	हवलदार	श्री भगवान साहू	01-01-97
915	4253490 एच	हवलदार	वाल्टर कुजूर	01-11-96

महार रेजिमेंट

916	4543032 एक्स	हवलदार	बाबू रकमचन्द्र सिंघे	01-01-97
917	4543014 पी	हवलदार	भगवान भिवाजी पाण्डे	01-10-96
918	9214792 एन	हवलदार	भगवत चन्द्र कण्टपाल	01-10-96
919	9214857 डब्ल्यू	हवलदार	गंगा दयाल	01-11-96
920	9214863 के	हवलदार	गरीब दास	01-11-96
921	9214756 एच	हवलदार	गुरधरण सिंह	01-09-96
922	9214793 डब्ल्यू	हवलदार	जोगेन्द्र नाथ राम	01-10-96
923	9214911 वार्ड	हवलदार	लछकारी राम	01-01-97
924	9214903 ऐ	हवलदार	मोहन लाल	01-01-97
925	9214808 एफ	हवलदार	मुन्शी राम	01-10-96
926	9214785 एक्स	हवलदार	प्रीतम सिंह	01-10-96
927	4544550 के	हवलदार	रामचन्द्र गोपाला घषान	01-12-96
928	4543265 एम	हवलदार	रामचन्द्रन पिले पी	01-11-96
929	9214802 एच	हवलदार	रणवीर	01-10-96
930	9214721 एम	हवलदार	रसराज सिन्हा	01-09-96
931	9214776 डब्ल्यू	हवलदार	भालिग राम	01-10-96
932	9214874 डब्ल्यू	हवलदार	शिव प्रसाद	01-12-96
933	9214746 वार्ड	हवलदार	श्याम स्वरुप	01-09-96
934	9214830 वार्ड	हवलदार	मीता राम	01-10-96
935	9214871 एच	हवलदार	मोहन लाल	01-12-96
936	9214774 एल	हवलदार	सुखदेव सिंह	01-09-96
937	9214836 ऐ	हवलदार	सुरेश चन्द्र सिंह	01-10-96
938	9214784 पी	हवलदार	तेज सिंह	01-10-96
939	9214827 वार्ड	हवलदार	त्रिलोकी ठाकुर	01-10-96

जम्मू एवं कश्मीर राईफलस

940	13735033 डब्ल्यू	हवलदार	जगदीश राज	01-09-96
941	13735224 एल	हवलदार	जोगिन्द्र सिंह	01-01-97
942	13795547 एक्स	हवलदार	माम चन्द	01-10-96
943	13735286 डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम सिंह	01-01-97
944	13735221 एक्स	हवलदार	प्रीतम चन्द	01-01-97
945	1373509 डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार	01-09-96
946	13735225 एन	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01-01-97
947	13735220 पी	हवलदार	शिमाडा सिंह	01-01-97
948	13735215 के	हवलदार	शिवदेव सिंह	01-01-97
949	13735758 डब्ल्यू	हवलदार	जमीर	01-01-97

एन एजीए रेजिमेंट

950	4165228 एक्स	हवलदार	रमेश चन्द	01-10-96
951	14700268 ए	हवलदार	टी संगतम	01-09-96

कश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री

952	9078854 ए	हवलदार	बाबू राम	01-10-96
953	9079283 वाई	हवलदार	बलदेव राम	01-12-96
954	9078809 एन	हवलदार	दर्शन कुमार	01-09-96
955	9079323 पी	हवलदार	दीवान चन्द	01-12-96
956	9079320 एफ	हवलदार	दन सिंह	01-12-96
957	9079012 एफ	हवलदार	जी मोहमद शैख	01-11-96
958	9079259 ए	हवलदार	गुलाब चन्द	01-12-96
959	9079414 वाई	हवलदार	सुरब्रह्मन सिंह	01-01-97
960	9079421 पी	हवलदार	जनक राज	01-01-97
961	9079002 एक्स	हवलदार	जन्त राम	01-11-96
962	9078932 एम	हवलदार	जोग राज	01-11-96
963	9078861 डब्ल्यू	हवलदार	जोगिन्द्र सिंह	01-10-96
964	9079179 एल	हवलदार	जोगिन्द्र सिंह	01-12-96
965	9079007 डब्ल्यू	हवलदार	कैतार चन्द	01-11-96
966	9079862 एल	हवलदार	केहर सिंह लंगेह	01-12-96
967	9079375 एल	हवलदार	कृष्ण चन्द	01-01-97
968	9078914 के	हवलदार	कृष्ण सिंह	01-11-96
969	9079126 एम	हवलदार	मदन लाल	01-12-96
970	5341358 एफ	हवलदार	मेख लाल थापा	01-09-96
971	9079110 एफ	हवलदार	मोहन लाल	01-12-96
972	9079301 डब्ल्यू	हवलदार	मोहन सिंह	01-12-96
973	9079431 वाई	हवलदार	मोहमद अमीन खान	01-01-97
974	9078818 पी	हवलदार	मोहमद सलिम शाह	01-09-96
975	9079392 एल	हवलदार	महेन्द्र राम	01-01-97
976	9078991 एफ	हवलदार	सुष्क राज	01-10-96
977	9078774 एच	हवलदार	ओम प्रकाश	01-09-96
978	9079322 पी	हवलदार	पीरा राम	01-12-96
979	9079145 एक्स	हवलदार	रघुपाल सिंह	01-12-96

980	9079006 ड.क.पू.	हवलदार	रघुबीर सिंह	01-12-96
981	9079005 एन	हवलदार	राम लाल	01-12-96
982	9079011 एक्स	हवलदार	रोशन लाल साधु	01-01-97
983	9412903 एल	हवलदार	सरका बहादुर राय	01-10-96
984	9078856 ऐ	हवलदार	सत पाल	01-10-96
985	9079118 एम	हवलदार	सोम राज	01-12-96
986	9079073 वाई	हवलदार	सुभाष चन्द्र	01-12-96
987	9079158 पी	हवलदार	सुभाष चन्द्र	01-12-96
988	9079222 एफ	हवलदार	सुरज उद्दीन	01-12-96
989	9079277 एल	हवलदार	सुरम दसि	01-12-96
990	9079286 एम	हवलदार	स्वरण सिंह	01-12-96
991	9078893 वाई	हवलदार	तिरध सिंह	01-10-96
992	9079106 वाई	हवलदार	वकील सिंह	01-12-96

1 गौरखा राईफल्स

993	5039647 वाई	हवलदार	वेल बहादुर गुरुंग	01-01-97
994	5039560 एक्स	हवलदार	भाता राम गुरुंग	01-10-96
995	5039416 एच	हवलदार	बिर्ज मोहन सिंह	01-10-96
996	5039622 एम	हवलदार	बिशन दसि	01-10-96
997	5039451 एल	हवलदार	सी बी गुरुंग	01-10-96
998	5039444 पी	हवलदार	दल बहादुर थापा	01-10-96
999	5039531 एच	हवलदार	दल बहादुर थापा	01-10-96
1000	5039602 वाई	हवलदार	दिल बहादुर पुन	01-10-96
1001	5040226 एच	हवलदार	हेम बहादुर थापा	01-01-97
1002	5039486 एफ	हवलदार	जोगिन्द्र सिंह	01-10-96
1003	5039632 ड.क.पू.	हवलदार	जे प्रमाणिक	01-12-96
1004	5039636 एम	हवलदार	कर्का बहादुर तमंग	01-12-96
1005	5039559 एच	हवलदार	कुल बहादुर थापा	01-10-96
1006	5039651 एफ	हवलदार	कुल बहादुर थापा	01-01-97
1007	5039425 के	हवलदार	महाबीर	01-10-96
1008	5039439 के	हवलदार	सुजीव आहम्मद	01-10-96
1009	5039434 एल	हवलदार	ओम प्रकाश	01-10-96
1010	5039633 वाई	हवलदार	रघुबीर सिंह	01-01-97
1011	5039292 के	हवलदार	राम बहादुर गुरुंग	01-09-96
1012	5039455 एफ	हवलदार	सहबीर गुरुंग	01-09-96
1013	5039596 ड.क.पू.	हवलदार	शेन बहादुर थापा	01-10-96
1014	5039617 एफ	हवलदार	सुरीन्द्र सिंह गजा	01-10-96
1015	5039287 वाई	हवलदार	टिका बहादुर गुरुंग	01-09-96

3 गौरखा राईफल्स

1016	5241191 एल	हवलदार	अमर बहादुर गुरुंग	01-10-96
1017	5241196 एम	हवलदार	छन बहादुर तमंग	01-10-96
1018	5241187 एल	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	01-10-96
1019	5241201 एम	हवलदार	यूर्णा बहादुर पुन	01-12-96

4 गौरखा राईफल्स

1020	5341410 वाई	हवलदार	बलचन्त सिंह रायत	01-10-96
1021	5341-04 एल	हवलदार	भीम बहादुर थापा	01-10-96

1022	5341374वाई	हवलदार	यन्द्र बहादुर थापा	01-09-96
1023	5341373डब्ल्यू	हवलदार	दिल बहादुर थापा	01-09-96
1024	8022327डब्ल्यू	हवलदार	जीत बहादुर थापा	01-11-96
1025	5341481ऐ	हवलदार	लाल बहादुर गुरुंग	01-01-97
1026	5341344एफ	हवलदार	लोक बहादुर थापा	01-09-96
1027	5341364पी	हवलदार	नयन बहादुर गुरुंग	01-09-96
1028	5341337एल	हवलदार	नैना बहादुर गुरुंग	01-09-96
1029	5341360वाई	हवलदार	ओम बहादुर गुरुंग	01-09-96
1030	5341343वाई	हवलदार	टेक बहादुर थापा	01-09-96

5 गोरखा राईफल्स

1031	5444777वाई	हवलदार	भारत ठाकुर	01-10-96
1032	5444780वाई	हवलदार	चित्र बहादुर गुरुंग	01-10-96
1033	5444806एच	हवलदार	दिव कुमार ठाकुर	01-11-96
1034	5444773एक्स	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01-10-96
1035	5444802एम	हवलदार	मान बहादुर तमग	01-10-96
1036	5444771एक्स	हवलदार	रुक बहादुर राना	01-10-96

8 गोरखा राईफल्स

1037	5747033एक्स	हवलदार	छोमन लाल	01-11-96
1038	5745792वाई	हवलदार	दन बहादुर थापा	01-09-96
1039	5745946ऐ	हवलदार	कृष्णा बहादुर खत्री चैत्री	01-10-96
1040	5745903एल	हवलदार	पूर्णा बहादुर गुरुंग	01-10-96

9 गोरखा राईफल्स

1041	5841999डब्ल्यू	हवलदार	अमर बहादुर चैत्री	01-10-96
1042	5842015ऐ	हवलदार	बल दिव ठाकुर	01-12-96
1043	5842002एच	हवलदार	भीम बहादुर चैत्री	01-10-96
1044	5841981ऐ	हवलदार	भुवन चन्द्र कर्पोल	01-10-96
1045	5842016एच	हवलदार	लाल बहादुर थापा	01-11-96
1046	5842020एल	हवलदार	महेन्द्र राम	01-12-96
1047	5842001ऐ	हवलदार	राम प्रसाद पाण्डे	01-10-96

11 गोरखा राईफल्स

1048	9413766के	हवलदार	दिल बहादुर दिवान	01-09-96
1049	9412858के	हवलदार	गरजा मान राय	01-09-96
1050	9412908के	हवलदार	प्रेम कुमार गुरुंग	01-10-96
1051	9413767एम	हवलदार	सत्या मोहन तमग	01-09-96
1052	9412874एफ	हवलदार	तपन कुमार बिश्वाम	01-09-96

घांत्रिक इन्फेन्ट्री रेजिमेंट

1053	2664547एन	हवलदार	अतिबल प्रसाद	01-10-96
1054	5745973के	हवलदार	गोपी गुरुंग	01-01-97
1055	4165242के	हवलदार	इश्वर सिंह	01-10-96
1056	3971193एन	हवलदार	जगत सिंह	01-10-96

1057	2664577एल	हवलदार	जय सिंह	01-10-96
1058	2969992पी	हवलदार	जोगिन्द्र पोल	01-01-97
1059	2765675एम	हवलदार	खराडे शिवाजी दत्तोबा	01-12-96
1060	5745913पी	हवलदार	खर्का बहादुर गुरुंग	01-10-96
1061	2867356एन	हवलदार	लक्षमन भारती	01-10-96
1062	5745972एफ	हवलदार	मान बहादुर बुरा	01-01-97
1063	2867301के	हवलदार	नन्राधन सिंह	01-10-96
1064	2969747एम	हवलदार	रज्जन सिंह पौहान	01-10-96
1065	2464154एन	हवलदार	शक्ती चन्द	01-10-96
1066	5745966एन	हवलदार	टेक बहादुर गुरुंग	01-01-97
1067	4165118एच	हवलदार	टिका राम	01-09-96
1068	2464209एम	हवलदार	उतम चन्द	01-10-96

सैन्य सेवा कोर(पूर्वी)

1069	6366014के	हवलदार	इकबाल बहादुर सिंह	01-12-96
1070	6365981एम	हवलदार	अमरिक सिंह	01-12-96
1071	6366097ए	हवलदार	ए पी काकावाजी	01-01-97
1072	6366144एम	हवलदार	तशोक ईकिनाथ बागें	01-01-97
1073	6366082के	हवलदार	अत्माराम जजराम सालुंके	01-12-96
1074	6366002पी	हवलदार	बी हेमन्ता राव	01-12-96
1075	6366432वाई	हवलदार	भगत राम	01-12-96
1076	6366101एस	हवलदार	भीम सिंह	01-01-97
1077	6366165एच	हवलदार	डी वी तत्याबा	01-01-97
1078	6366104एल	हवलदार	धर्म पाल	01-11-96
1079	6365999एच	हवलदार	दीनानाथ बिसन मेषराम	01-12-96
1080	6366170एम	हवलदार	गणेश बहादुर थापा	01-01-97
1081	6366166एल	हवलदार	जी वी श्रीपती	01-01-97
1082	6366048एम	हवलदार	गोरे सुरेश सदाशिव	01-12-96
1083	6366112के	हवलदार	हरी दास टी	01-12-96
1084	6366140डब्ल्यू	हवलदार	इनायतुल्ला खान	01-01-97
1085	6365980के	हवलदार	इन्दर सिंह	01-12-96
1086	6366121एन	हवलदार	जगदीश सिंह	01-01-97
1087	6366021ए	हवलदार	जय कान	01-12-96
1088	6366012वाई	हवलदार	जमोना दास	01-12-96
1089	6366023ए	हवलदार	जोगिन्द्र सिंह	01-12-96
1090	6366126एम	हवलदार	कल्याण सिंह	01-01-97
1091	6365977के	हवलदार	कमल बहादुर गुरुंग	01-09-96
1092	6365507वाई	हवलदार	केवल सिंह	01-12-96
1093	6366127डब्ल्यू	हवलदार	के एन राजपुल	01-12-96
1094	6366688एफ	हवलदार	कृष्णा पिल्ले वी	01-11-96

1095	6366025 एम	हवलदार	मदन मोहन तामन	01-96-12-	
1096	6366075 एफ	हवलदार	एम जयदत्त	मजीद	01-01-97
1097	6366008 डब्ल्यू	हवलदार	सुरगी लाल	01-12-96	
1098	6366114 पी	हवलदार	ओम प्रकाश तंवालिया	01-09-96	
1099	6366132 एक्स	हवलदार	पी चन्द्रन	01-09-96	
1100	6365531 पी	हवलदार	राम शीपाल यादव	01-12-96	
1101	6365504 एल	हवलदार	रामेश्वर लाल	01-11-96	
1102	6366059 के	हवलदार	रामू राम	01-12-96	
1103	6366077 एम	हवलदार	रत्ना राम	01-01-97	
1104	13936476 एन	हवलदार	आर लक्ष्मीनारायण	01-09-96	
1105	6366087 डब्ल्यू	हवलदार	नहदेव सिंह	01-01-97	
1106	6366134 एच	हवलदार	शैलेन्द्र सी एच	01-01-97	
1107	6462637 एल	हवलदार	शशी धरन नाथर	01-10-96	
1108	13872897 एम	हवलदार	शंकर	01-10-96	
1109	6366139 एफ	हवलदार	शीतला प्रसाद तिवारी	01-01-97	
1110	6366006 एल	हवलदार	के सीमरेड्डी	01-12-96	
1111	13663316 एच	हवलदार	सुब्रमणियन एम	01-01-97	
1112	6366110 वार्ड	हवलदार	सुखदेव बैठा	01-01-97	
1113	6366111 एफ	हवलदार	सुरज भान	01-01-97	
1114	6366124 वार्ड	हवलदार	वेद प्रकाश	01-01-97	
सैना सेवा कोरपसु परिवहण					
1115	6462917 वार्ड	हवलदार	बाबू भाई राजा भाई मोदिघा	01-01-97	
1116	6366151 एच	हवलदार	बालु राम	01-01-97	
1117	6366106 डब्ल्यू	हवलदार	बम दत्त	01-01-97	
1118	6462833 एल	दफेदार	धनी राम	01-12-96	
1119	6462795 एल	हवलदार	डी एम नारायण	01-12-96	
1120	6366109 के	हवलदार	गोविंद सिंह भट्टी	01-01-97	
1121	6366148 एच	हवलदार	गुलजार सिंह	01-01-97	
1122	6462646 एम	हवलदार	इन्दर मोहन सिंह	01-10-96	
1123	6366084 एच	हवलदार	इकबाल मोहम्मद	01-12-96	
1124	6462667 डब्ल्यू	हवलदार	जगन नाथ	01-10-96	
1125	6462605 एच	हवलदार	जय सिंह	01-10-96	
1126	6366011 डब्ल्यू	हवलदार	के एम जोर्ज	01-12-96	
1127	6462800 ए	हवलदार	लठी राम	01-12-96	
1128	6462760 डब्ल्यू	हवलदार	एम शरफुद्दीन	01-12-96	
1129	6366027 एफ	हवलदार	मुखण्व सिंह	01-12-96	
1130	6365985 एच	हवलदार	नाहर सिंह	01-12-96	
1131	6366155 वार्ड	हवलदार	आर बी वी धोके	01-01-97	
1132	6462899 एफ	हवलदार	आर सुब्रमणियन	01-12-96	
1133	6462585 ए	हवलदार	रघु राम	01-10-96	
1134	6365990 एन	दफेदार	राजेन्द्र सिंह	01-12-96	
1135	13862877 एल	हवलदार	राम नरेश	01-01-97	
1136	6462829 एच	हवलदार	राम सुरेश सिंह	01-12-96	
1137	6462823 एफ	हवलदार	राम तेज मिश्रा	01-12-96	
1138	13862871 के	हवलदार	रमेश कुमार सिंह	01-12-96	
1139	6365975 वार्ड	हवलदार	रतन सिंह	01-09-96	
1140	6366152 एल	हवलदार	समन्दर सिंह	01-01-97	
1141	6462914 एफ	हवलदार	शजी घरवा उरावों	01-01-97	

1142	6462886के	दफेदार शारदा ठाकुर	01-12-96	
1143	6365993एफ	दफेदार सत्यदेव प्रसाद शुक्ला	01-12-96	
1144	13863313पी	हवलदार एस बी सिंह	01-12-96	
1145	6365992वाई	हवलदार सुभाष चन्द्र देव कपाडे	01-12-96	
1146	6462609वाई	हवलदार सुरेन्द्र नाथ मिश्रा	01-10-96	
1147	6366032एम	हवलदार वैध नाथ सिंह	01-12-96	
सैना सेवा कोर(घांत्रिक परिवहन)				

1148	6462638एन	हवलदार ऐ एम बशीर	01-10-96	
1149	13848473एक्स	हवलदार अबदुल मातिन		01-10-96
1150	13848803एन	हवलदार ए टाप्पो	01-10-96	
1151	13850586के	हवलदार ए बी सोना	01-01-97	
1152	13850170एफ	हवलदार अजमेर सिंह	01-11-96	
1153	13850202वाई	हवलदार अमरजीत सिंह	01-12-96	
1154	13848518एम	हवलदार असुसना सिंघा	01-10-96	
1155	13851026एक्स	हवलदार आशिष चक्रवर्ती	01-01-97	
1156	13848970एफ	हवलदार अशोकन पी आर		01-01-97
1157	13848438वाई	हवलदार बालाकृष्णन टी वी	01-10-96	
1158	13850181एन	हवलदार बलवर्त सिंह	01-12-96	
1159	13851007एन	हवलदार बिजोय कुमार सुब्बा	01-01-97	
1160	13851012वाई	हवलदार भीम प्रधान	01-01-97	
1161	13850608एम	हवलदार भुल्लन राम	01-01-97	
1162	13848822डब्ल्यू	हवलदार बिहु राम देका	01-12-96	
1163	13848850पी	हवलदार बिह्व नाथ मोण्डल	01-01-97	
1164	13848654एच	हवलदार ब्रज किशोर सिंह	01-12-96	
1165	13848524ऐ	हवलदार चन्देश्वर ठाकुर	01-10-96	
1166	13848700पी	हवलदार चन्द्र कुमारन के	01-12-96	
1167	13850418ऐ	हवलदार चन्द्र प्रकाश	01-12-96	
1168	13848528डब्ल्यू	हवलदार चन्द्रोदय सिंह	01-10-96	
1169	13850413एफ	हवलदार छेका लाल शाब्था	01-12-96	
1170	13850330एन	हवलदार छोद राम	01-12-96	
1171	13848919एफ	हवलदार डी के भटाघार्पा	01-01-97	
1172	13850296एफ	हवलदार दल सिंह	01-12-96	
1173	13850212एफ	हवलदार दर्शन सिंह	01-12-96	
1174	13848565के	हवलदार देबेन्द्र कुमार पान्डा	01-10-96	
1175	13848504एम	हवलदार देवसा राम	01-04-96	
1176	13848947एन	हवलदार देवेन्द्र सिंह राठौर	01-01-97	
1177	13848745एफ	हवलदार धीरेन चन्द्र दास	01-12-96	
1178	13850004एन	हवलदार दुर्गा प्रसाद	01-10-96	
1179	13850290ऐ	हवलदार गजेन्द्र सिंह	01-12-96	
1180	13848914एच	हवलदार गणेश कुमार सिंह	01-01-97	
1181	13850383के	हवलदार गण्यू दास	01-12-96	
1182	13851014के	हवलदार धटेन्द्र नाथ राय	01-01-97	
1183	13849990एफ	हवलदार ज्ञान चन्द्र	01-10-96	
1184	13848890के	हवलदार गोपी के के	01-01-97	
1185	13850655के	हवलदार जी एन निकम	01-01-97	
1186	13848691डब्ल्यू	हवलदार गुणाकार राउत		01-12-96
1187	13850542एफ	हवलदार सुरधरन सिंह	01-01-97	
1188	13850386डब्ल्यू	हवलदार हिम्मत सिंह	01-12-96	

1187	13850545पी	हवलदार	हिंदूच राम	01-01-97	
1190	13850167एफ	हवलदार	जगत सिंह	01-11-96	
1191	13850350के	हवलदार	जगत सिंह हुडडा	01-12-96	
1192	6462696एक्स	हवलदार	जगदीश चन्द	01-10-96	
1193	13848451एल	हवलदार	जाहर लाल परिधा	01-10-96	
1194	13850155एम	हवलदार	जघ नारायण शर्मा	01-10-96	
1195	13850464पी	हवलदार	जसबीर सिंह	01-12-96	
1196	13850261एल	हवलदार	जसबीर सिंह	01-12-96	
1197	13850621डब्ल्यू	हवलदार	जवहर लाल राम	01-01-97	
1198	13848433डब्ल्यू	हवलदार	जयन्त मडल	01-10-96	
1199	13850163एक्स	हवलदार	जोगाराम चन्पाल	01-11-96	
1200	13848604एक्स	हवलदार	के सी अब्दुलहाम	01-10-96	
1201	13848397डब्ल्यू	हवलदार	के राम चन्द्रन पिले	01-09-96	
1202	13858652वाई	हवलदार	कश्चि राज नायक	01-12-96	
1203	13848540एक्स	हवलदार	कन्हया राम	01-10-96	
1204	13850142पी	हवलदार	करन सिंह	01-10-96	
1205	13848558एन	हवलदार	केदार महतो	01-10-96	
1206	13848826एम	हवलदार	खगेन्द्र सी डी	01-12-96	
1207	13850604डब्ल्यू	हवलदार	किशन चन्द लखानी	01-01-97	
1208	13850439एच	हवलदार	किशन कुमार	01-12-96	
1209	13850392डब्ल्यू	हवलदार	किशन लाल विके	01-12-96	
1210	13848607एल	हवलदार	कोट्टु नारायण पिले	01-11-96	
1211	13848541ऐ	हवलदार	कुलदीप प्रसाद घादव	01-10-96	
1212	13848477के	हवलदार	कुमुद चन्द्र अधिकारी	01-10-96	
1213	13850105एफ	हवलदार	कुशल सिंह	01-10-96	
1214	13850333के	हवलदार	लखू सिंह	01-12-96	
1215	13848939पी	हवलदार	एम राजा गोपाल	01-01-97	
1216	13850256ऐ	हवलदार	एम एस जधादिघा	01-12-96	
1217	13848688एम	हवलदार	मोहम्मद मजीद	01-12-96	
1218	13850064एच	हवलदार	महावीर सिंह	01-12-96	
1219	13849987एफ	हवलदार	मंगल राम	01-10-96	
1220	13849962पी	हवलदार	मणी राम	01-10-96	
1221	13848835एच	हवलदार	मरुतकाशी पी	01-12-96	
1222	6462666ऐ	हवलदार	एम मंताज अली	01-10-96	
1223	13848837वाई	हवलदार	एम काशघा	01-12-96	
1224	13848436के	हवलदार	मोहनन वी के	01-10-96	
1225	13850156पी	हवलदार	एम बि दिताजी	01-10-96	
1226	13850377एच	हवलदार	मोती चन्द राम	01-12-96	
1227	6462759पी	हवलदार	सुरारी लाल	01-12-96	
1228	13848767एल	हवलदार	नारायण चन्द्र रक्षा	01-12-96	
1229	13848763पी	हवलदार	नरेन्द्र प्रसाद	01-12-96	
1230	13850368ऐ	हवलदार	नीमा राम	01-12-96	
1231	13850028एक्स	हवलदार	ओम प्रकाश परीक	01-10-96	
1232	13850338एच	हवलदार	ऑंकार सिंह	01-12-96	
1233	13848727के	हवलदार	पी अप्पुण्णी	01-12-96	
1234	13848437एम	हवलदार	पदमनाभन पी वी	01-10-96	
1235	6462751एच	हवलदार	परषोत्तम सिंह	01-12-96	
1236	13848562डब्ल्यू	हवलदार	फेकू राघ	01-10-96	
1237	13848426ऐ	हवलदार	पी सी बोरा	01-10-96	
1238	13848999के	हवलदार	प्रफुल्ला कुमार नाथ	01-01-97	

1239	13848690एन	हवलदार	पी के महापात्र		01-12-96
1240	138510110एन	हवलदार	पुकेश राघ		01-01-97
1241	13851032एम	हवलदार	आर पी राजगीपालन		01-01-97
1242	6462634के	हवलदार	रघुबीर सिंह मामंत		01-10-96
1243	13850226एच	हवलदार	राज सिंह		01-12-96
1244	13848888एम	हवलदार	राजन के		01-01-97
1245	13848732पी	हवलदार	राजन के		01-12-96
1246	13850607के	हवलदार	राजेन्द्र चौबे		01-01-97
1247	13850685एफ	हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद		01-01-97
1248	13848995एन	हवलदार	राम अवधेश सिंह		01-01-97
1249	6462697ए	हवलदार	राम बाबू चौधरी		01-10-96
1250	13850329एफ	हवलदार	राम ब्रचन सिंह		01-12-96
1251	13850162एच	हवलदार	राम दास भार्गव		01-11-96
1252	13850282पी	हवलदार	राम धरी		01-12-96
1253	13848515वाई	हवलदार	राम इकबल राघ		01-10-96
1254	13848595ए	हवलदार	राम जटन घादव		01-10-96
1255	13850599डब्ल्यू	हवलदार	राम कृत राम		01-01-97
1256	13850515पी	हवलदार	राम प्रकाश		01-01-97
1257	13848544एन	हवलदार	राम प्रवेश ओझा		01-10-96
1258	13850463एम	हवलदार	राम सनेही		01-12-96
1259	13848539एल	हवलदार	राम सनेही सिंह		01-10-96
1260	13848725वाई	हवलदार	राम सरण घादव		01-12-96
1261	13850514पी	हवलदार	राम स्वरूप		01-01-97
1262	13850544एम	हवलदार	रकमा शंकर		01-01-97
1263	13849986वाई	हवलदार	रमेश चन्द्र		01-10-96
1264	13850428एफ	हवलदार	रमेश चन्द्र		01-12-96
1265	13850159पी	हवलदार	रतन चन्द्र		01-10-96
1266	13848802वाई	हवलदार	आरएवीइन्द्र नाथ सिंह		01-12-96
1267	13848577वाई	हवलदार	एस सी मसुंदार		01-10-96
1268	13848830पी	हवलदार	एस सिन्हा स्वामी		01-12-96
1269	13851001एम	हवलदार	शंकर दैव बोरी		01-01-97
1270	13850391एन	हवलदार	सरूप सिंह		01-12-96
1271	13850297एच	हवलदार	शशी कुमार बी		01-12-96
1272	13848979डब्ल्यू	हवलदार	सत्या नन्राघन राघ		01-01-97
1273	13850153एफ	हवलदार	सत्या पाल सिंह		01-10-96
1274	13848878एच	हवलदार	सखुलु		01-01-97
1275	13850606एफ	हवलदार	शिव मोहन सिंह		01-01-97
1276	13850529एस	हवलदार	शिव दान तर्प		01-01-97
1277	13850260एच	हवलदार	शिव वीर सिंह		01-12-96
1278	13850493के	हवलदार	श्री लाल		01-12-96
1279	13850199के	हवलदार	श्याम लाल		01-12-96
1280	13848915एल	हवलदार	श्याम सुन्दर ठाकुर		01-01-97
1281	13850510वाई	हवलदार	मिह्री नाथ त्रिपाठी		01-01-97
1282	13849998एन	हवलदार	सीता राम		01-10-96
1283	13850539पी	हवलदार	सिधा राम		01-01-97
1284	13850369एच	हवलदार	सोहन राम		01-12-96
1285	13848900पी	हवलदार	सोसोधर साहू		01-01-97
1286	13848574एल	हवलदार	एस हजरा		01-10-96
1287	13848701पी	हवलदार	सुगधन एम एम		01-12-96
1288	13848892पी	हवलदार	सुकुमारन वी		01-01-97

1289	13850005 ड ब्यूरू	हवलदार	सुरेन्द्र पाल	01-10-96
1290	13848756वाई	हवलदार	तपन कुमार दास	01-12-96
1291	13848779ऐ	हवलदार	तपन कुमार मंडल	01-12-96
1292	6462768 ड ब्यूरू	हवलदार	तारा चन्द्र	01-12-96
1293	13850602एल	हवलदार	तेजनारायन सिंह	01-01-97
1294	13850331एफ	हवलदार	उमा शंकर राम	01-12-96
1295	13848440एम	हवलदार	उष्णिक्कृष्णन के वी	01-10-96
1296	13850139पी	हवलदार	विद्या शंकर	01-10-96
1297	13850584पी	हवलदार	विश्वास	01-01-97
1298	13850453एच	हवलदार	घद राम	01-12-96
1299	13850466ऐ	हवलदार	सुसुल किशोर	01-12-96
सेना चिकित्सा कोर				

1300	13936574एन	हवलदार	अध्यान काली	01-10-96
1301	13936567एक्स	हवलदार	बी एस देवणवर	01-10-96
1302	13936544 ड ब्यूरू	हवलदार	हुछ किरण कुमार	विजय कुमार 01-09-96
1303	13936496एफ	हवलदार	दूके	01-09-96
1304	13936495वाई	हवलदार	जोसफ सी जी	01-09-96
1305	13936530 ड ब्यूरू	हवलदार	माद्री रुण्डा	01-09-96
1306	13936618ऐ	हवलदार	नारायण दत्त सुघाल	01-11-96
1307	13936584वाई	हवलदार	प्रेम सिंह	01-10-96
1308	13936470एम	हवलदार	राम चन्द्र	01-09-96
1309	13936563एफ	हवलदार	रकमा शंकर	01-10-96
1310	13936628के	हवलदार	सत्या पाल सिंह	01-12-96
1311	14526577 ड ब्यूरू	हवलदार	सोमसुन्दरन पी	01-01-97
सेना ऑर्डनेंस कोर				

1312	6905567एफ	हवलदार	बजीर सिंह	01-09-96
1313	6907855एम	हवलदार	बलदेव सिंह	01-10-96
1314	6905583वाई	हवलदार	बलेश्वर सिंह	01-10-96
1315	6908946एच	हवलदार	बी बिस्वाल	01-09-96
1316	6905552वाई	हवलदार	दीना नाथ	01-09-96
1317	6907311एक्स	हवलदार	के कृष्णन	01-09-96
1318	6907390एक्स	हवलदार	मोन्नप्पा पी सु	01-12-96
1319	6907479के	हवलदार	नन्दु साहनी	01-10-96
1320	6906940एम	हवलदार	नरदेव सिंह परमार	01-11-96
1321	6908005पी	हवलदार	नूर अली	01-11-96
1322	6907369पी	हवलदार	पी थोमस	01-09-96
1323	6907794ऐ	हवलदार	पुरुषन बी	01-12-96
1324	6907827ऐ	हवलदार	राकेश कुमार	01-11-96
1325	6905505एफ	हवलदार	राम प्रसाद	01-09-96
1326	6907110वाई	हवलदार	रामचन्द्र सिंह	01-09-96
1327	6906233वाई	हवलदार	रविन्द्रन पिले पी जी	01-09-96
1328	6906534एच	हवलदार	एम हेंबोम	18-10-96
1329	6907419पी	हवलदार	सुनिल कुमार घोष	01-10-96
1330	6907670के	हवलदार	वी सेल्वराज	01-11-96

वैद्युत एवं प्रौद्योगिक इंजिनियर

1331	14511521 एम	हवलदार	ऐ तमिलरसु	01-01-97
1332	14511619 ऐ	हवलदार	अमरिक सिंह	01-01-97
1333	13850020 एल	हवलदार	अर्जुन प्रसाद	01-10-96
1334	14511068 ऐ	हवलदार	अवदेश पाण्डे	01-12-96
1335	14510873 एक्स	हवलदार	बी एच लिंगाजी	01-11-96
1336	14511406 एम	हवलदार	बी मोहनन	01-12-96
1337	14511423 एम	हवलदार	बाबू लाल राय	01-12-96
1338	14511459 एल	हवलदार	बाबू राम	01-01-97
1339	14511141 एन	हवलदार	बच्चन सिंह	01-11-96
1340	14511166 ऐ	हवलदार	बदरी नन्दाचन त्रिपाठी	01-12-96
1341	14511076 वाई	हवलदार	भगवती रकमा राव	01-12-96
1342	14511147 पी	हवलदार	बैष्णव चरण पटनायक	01-12-96
1343	14509397 एक्स	हवलदार	बणी सिंह	01-05-96
1344	14511192 एफ	हवलदार	बी एच गिरजप्पा	01-12-96
1345	14511597 एम	हवलदार	बसव राज	01-01-97
1346	14511317 एन	हवलदार	बेणी बहादुर खडका	01-12-96
1347	14510502 पी	हवलदार	बी मोहन्ती	01-11-96
1348	14511050 के	हवलदार	भगवान सिंह	01-12-96
1349	14511634 पी	हवलदार	भगवान सिंह	01-01-97
1350	14510072 पी	हवलदार	भगवति प्रसाद	01-11-96
1351	14511228 पी	हवलदार	भक्ता नाथ उरावों	01-12-96
1352	14510362 एन	हवलदार	भारत लाल गुप्ता	01-11-96
1353	14511012 एन	हवलदार	भरधन पी	01-11-96
1354	14510625 एफ	हवलदार	भीम राव सूतर	01-11-96
1355	14511786 डब्ल्यू	हवलदार	भोजप्पा	01-01-97
1356	14511486 पी	हवलदार	बीरैन्द्र बहादुर	01-01-97
1357	14510555 एन	हवलदार	बीरैन्द्र नाथ सिन्हा	01-11-96
1358	14510579 एक्स	हवलदार	बीरैन्द्र प्रसाद सिंह	01-11-96
1359	14511318 डब्ल्यू	हवलदार	बीरैन्द्र शर्मा	01-12-96
1360	14510975 एन	हवलदार	सी सीमा राज	01-11-96
1361	14511540 एक्स	हवलदार	सी प्रसाद	01-12-96
1362	14510103 एल	हवलदार	श्रीधरी राम चन्द्र	01-09-96
1363	14511702 एक्स	हवलदार	छोटे लाल वर्मा	01-01-97
1364	14510309 एच	हवलदार	सी वसन्त नरसप्पा	01-10-96
1365	14510901 वाई	हवलदार	डी रेतिनम	01-11-96
1366	14510563 एम	हवलदार	दलजीत सिंह	01-11-96
1367	14511547 एफ	हवलदार	दाभोदर पाण्डे	01-12-96
1368	14510772 के	हवलदार	डी पाण्डुरंगा राव	01-11-96
1369	14511665 पी	हवलदार	दया शंकर सिंह	01-01-97
1370	14510211 पी	हवलदार	देबेन्द्र नाथ पाठक	01-09-96
1371	14511114 के	हवलदार	दीन बन्धु	01-12-96
1372	14511074 एन	हवलदार	देव शरण सिंह जादव	01-12-96
1373	14511213 एम	हवलदार	धातु कुमार साहू	01-12-96
1374	14511233 ऐ	हवलदार	दिलबर सिंह नेगी	01-12-96
1375	14447472 वाई	हवलदार	दिनेश कुमार	01-01-97
1376	14510648 एच	हवलदार	दुर्गादेव पी.ए.टी.आर.ए.	01-11-96
1377	14511084 डब्ल्यू	हवलदार	गणेश चन्द्र दास	01-01-97

1378	14510182एल	हवलदार	ज्ञान सिंह	01-09-96	
1379	13849927एम	हवलदार	गिरधारी लाल पाल	01-07-96	
1380	14514359एल	हवलदार	गुलाब चन्द्र	01-04-96	
1381	14511093वाई	हवलदार	गुरमुख सिंह	01-12-96	
1382	14511600एफ	हवलदार	गुरु शान्तप्पा	01-01-97	
1383	14511236एन	हवलदार	गुरवीर सिंह	01-12-96	
1384	14510963वाई	हवलदार	एच कामाती	01-11-96	
1385	14511478डब्ल्यू	हवलदार	हतुमान प्रसाद	01-01-97	
1386	14510399पी	हवलदार	हतुमन्तु जी	01-11-96	
1387	14511495डब्ल्यू	हवलदार	हरदेव सिंह	01-01-97	
1388	14510461डब्ल्यू	हवलदार	हरेन्द्र नाथ साहा	01-11-96	
1389	14511668एच	हवलदार	हरी कृष्णा घादव	01-01-97	
1390	14511526एल	हवलदार	हरी प्रसाद गौतम	01-11-96	
1391	14510393एन	हवलदार	हरजीत सिंह कण्ठवाल*	01-11-96	
1392	14511200एन	हवलदार	हरमीन्दर सिंह	01-12-96	
1393	14511712एफ	हवलदार	इन्द्र पाल सिंह	01-01-97	
1394	14510582एक्स	हवलदार	ईश्वर प्रसाद	01-11-96	
1395	14511245पी	हवलदार	जगदीश चन्द्र दुबे	01-12-96	
1396	145100057एफ	हवलदार	जय भगवान शर्मा	01-09-96	
1397	14510235एम	हवलदार	जंगा बहादुर चैत्री	01-10-96	
1398	7118909एक्स	हवलदार	जसपाल सिंह नयार	01-10-96	
1399	14510632एक्स	हवलदार	जसवन्त सिंह	01-11-96	
1400	14511145के	हवलदार	झलमन राम	01-12-96	
1401	14510805वाई	हवलदार	जोगराज सिंह	01-11-96	
1402	14510061के	हवलदार	के गोपीनाथन नाथर	01-09-96	
1403	14510900एच	हवलदार	के कालिसुब्ब	01-11-96	
1404	14511670ए	हवलदार	के शेकरन नारायणन	01-01-97	
1405	14510636एन	हवलदार	काजी दौत गुलाब	01-11-96	
1406	14510409एन	हवलदार	केआले तशोक भीम राव	01-11-96	
1407	14516704एक्स	हवलदार	काली चरण	01-01-97	
1408	14511742वाई	हवलदार	कल्याण कान्ती विश्वास	01-01-97	
1409	14511207एफ	हवलदार	कल्याण राय	01-12-96	
1410	14510321के	हवलदार	कल्याण सिंह	01-10-96	
1411	14511725वाई	हवलदार	कामाध्या ठाकुर	01-01-97	
1412	14510261ए	हवलदार	कमलाकान्त दुबे	01-10-96	
1413	14510876एल	हवलदार	कंवर पाल सिंह डोगरा	01-11-96	
1414	14510763एच	हवलदार	करनैल सिंह	01-11-96	
1415	14511543एल	हवलदार	केतरुन चन्द्र दास	01-12-96	
1416	14510496एम	हवलदार	केशव चन्द्र बेहेरा	01-11-96	
1417	14511283एल	हवलदार	खगेश चन्द्र पाल	01-12-96	
1418	14511279एच	हवलदार	केहेत सिंह	01-12-96	
1419	14510517एफ	हवलदार	के पी चारी	01-01-97	
1420	14511726एफ	हवलदार	कृष्णन एम	01-01-97	
1421	14511730के	हवलदार	कुलदीप सिंह	01-01-97	
1422	14511487एक्स	हवलदार	कुलदीप सिंह	01-01-97	
1423	7118797एच	हवलदार	एल सेतुरासु	01-10-96	
1424	14510581पी	हवलदार	लाल बहादुर सिन्हा	01-11-96	
1425	14510545के	हवलदार	लाल सिंह	01-11-96	
1426	14510315एल	हवलदार	लाला राम	01-11-96	
1427	14510479एम	हवलदार	ललन प्रसाद गुप्ता	01-11-96	

1428	14510683एल	हवलदार	लालबहादुर सिंह	01-11-96	
1429	14511219एन	हवलदार	लक्ष्मन चेटिया	01-12-96	
1430	14510469एच	हवलदार	मदन लाल शर्मा	01-11-96	
1431	14511416डब्ल्यू	हवलदार	महाबीर सिंह	01-01-97	
1432	14510675एम	हवलदार	महेन्द्र सिंह भारद्वाज	01-11-96	
1433	14510948के	हवलदार	मल सिंह विजय सिंह सुनिधा	01-11-96	
1434	14511373एम	हवलदार	एम बी जोती	01-12-96	
1435	14511481डब्ल्यू	हवलदार	मधुरा प्रसाद	01-01-97	
1436	14511819डब्ल्यू	हवलदार	एमडी अब्दुल सूतर	01-01-97	
1437	14511099ऐ	हवलदार	एमडी हबीब	01-12-96	
1438	14510696एच	हवलदार	एम एम ए मजुंदार	01-11-96	
1439	14511337एफ	हवलदार	एमडी सरवर	01-12-96	
1440	7118788एफ	हवलदार	मेहर चन्द	01-10-96	
1441	14510405एक्स	हवलदार	मेवा लाल	01-11-96	
1442	14512935एल	हवलदार	मिलन राम	01-05-96	
1443	14521123वाई	हवलदार	मोहन लाल वर्मा	01-01-97	
1444	14510350वाई	हवलदार	मोहनन पिल्ले	01-11-96	
1445	14511242एफ	हवलदार	महेन्द्र सिंह सांगवान	01-12-96	
1446	14510136डब्ल्यू	हवलदार	मुन्ना लाल	01-09-96	
1447	14511476एल	हवलदार	एन जय रमन	01-01-97	
1448	14510758एक्स	हवलदार	नबीन सैकिधा	01-11-96	
1449	14510067एल	हवलदार	नबीन चन्द बोरदोलाई	01-09-96	
1450	14510541एन	हवलदार	नगेन्द्रा गिरि	01-11-96	
1451	14510744एक्स	हवलदार	नाईकी राम	01-11-96	
1452	14510218वाई	हवलदार	नैद सिंह	01-09-96	
1453	14511148एक्स	हवलदार	नरहरी बेहेरा	01-12-96	
1454	14511006एच	हवलदार	नारायणन अई	01-11-96	
1455	14511321डब्ल्यू	हवलदार	नित्या गोपाल	बानर्जी	01-12-96
1456	7118811के	हवलदार	ओम प्रकाश रजोतिया	01-10-96	
1457	14510982के	हवलदार	पी चेल्लप्पा	01-11-96	
1458	14510991एल	हवलदार	पी रमन	01-11-96	
1459	14511647एम	हवलदार	पद्मनाभन एम	01-01-97	
1460	14510090वाई	हवलदार	पालुराम सहरण	01-09-96	
1461	14511634एल	हवलदार	पी एम के चन्द्र	01-01-97	
1462	14511128वाई	हवलदार	परशु राम	01-12-96	
1463	14510947एफ	हवलदार	परमार जयन्तीलाल	सूरपाल भाई	01-11-96
1464	14510369एक्स	हवलदार	परवीन्दर सिंह	01-11-96	
1465	14510302एन	हवलदार	पल्लु कुमार ब्रासक	01-08-96	
1466	14510467एक्स	हवलदार	पवन कुमार पाण्डे	01-11-96	
1467	14510173के	हवलदार	प्रभाकरन पिले	01-09-96	
1468	14510537एल	हवलदार	प्रभू नाथ पाण्डे	01-11-96	
1469	14510489डब्ल्यू	हवलदार	प्रहलाद सिंह जठारिया	01-11-96	
1470	14551095के	हवलदार	प्रकाश चन्द	01-12-96	
1471	14510089के	हवलदार	प्रेम चन्द	01-09-96	
1472	14511541के	हवलदार	प्रेम शंकर आदिबासी	01-12-96	
1473	14510090एक्स	हवलदार	प्रेमन के वी	01-11-96	
1474	14510624वाई	हवलदार	पूरण साहू	01-11-96	
1475	14511508एम	हवलदार	पूरण सिंह	01-12-96	
1476	14511494एन	हवलदार	रबीन्द्रनाथ सिंह	01-01-97	
1477	14511210वाई	हवलदार	राधेश्याम जन्दलाल जोशी	01-12-96	

1478	14510501	वाई	हवलदार	राजा किशोर बेहरा	01-11-96	
1479	14511336	वाई	हवलदार	राजबीर सिंह	01-12-96	
1480	14510666	एल	हवलदार	राजबीर सिंह सहरावत	01-11-96	
1481	14511612	डब्ल्यू	हवलदार	राजेन्द्र कुमार	01-01-97	
1482	14511651	पी	हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	01-01-97	
1483	14510486	एच	हवलदार	राजेन्द्र सिंह	01-11-96	
1484	14510207	एम	हवलदार	राजिन्द्र कुमार	01-09-96	
1485	14511309	पी	हवलदार	राकेश कुमार सिंह	01-12-96	
1486	14510564	पी	हवलदार	राम अवतार मिश्र	01-11-96	
1487	14511388	पी	हवलदार	राम अयाध्या सिंह	01-12-96	
1488	14511721	एच	हवलदार	राम भासु	01-01-97	
1489	14510828	एल	हवलदार	राम चन्द्र	01-11-96	
1490	14510343	एच	हवलदार	राम गोपाल दास	01-11-96	
1491	14510280	एक्स	हवलदार	राम नरेश	01-10-96	
1492	14510824	पी	हवलदार	राम नरेश सिंह	01-11-96	
1493	14511613	वाई	हवलदार	राम नाथ सिंह	01-01-97	
1494	14511094	एफ	हवलदार	राम प्रवेश माह	01-12-96	
1495	14511469	पी	हवलदार	राम रूप	01-01-97	
1496	14511610	एल	हवलदार	राम सेवक हजरा	01-01-97	
1497	14511122	एच	हवलदार	राम शंकर सिंह	01-12-96	
1498	14511700	एम	हवलदार	राम शिरोमणी	01-01-97	
1499	14511485	एम	हवलदार	रामावतार एस	01-01-97	
1500	7119100	डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चन्द्र	01-08-96	
1501	14510316	वाई	हवलदार	रमेश चन्द्र	01-11-96	
1502	14510653	एन	हवलदार	रमेश चन्द्र डाकुषा	01-11-96	
1503	14510240	के	हवलदार	रामेश्वर सिंह	01-10-96	
1504	14510146	ए	हवलदार	रामनाथ सिंह	01-09-96	
1505	14510459	वाई	हवलदार	राना प्रताप सिंह	01-11-96	
1506	13850086	एफ	हवलदार	रणजीत सिंह	01-10-96	
1507	14510575	एल	हवलदार	रणवीर सिंह	01-11-96	
1508	14511113	एफ	हवलदार	रत्नेश्वर सैकिघा	01-12-96	
1509	14511523	एक्स	हवलदार	रवीन्द्रन	01-01-97	
1510	14511331	ए	हवलदार	रविपाल सिंह	01-12-96	
1511	14510440	ए	हवलदार	एस चैकलवस्थान	01-11-96	
1512	14510976	डब्ल्यू	हवलदार	एस गोपालगिरि	01-11-96	
1513	14511584	पी	हवलदार	एस के एच कजेम अली	01-01-97	
1514	14510324	एक्स	हवलदार	एस सुकुमारन	01-10-96	
1515	14510769	के	हवलदार	एस आलम	01-11-96	
1516	14512031	एल	हवलदार	शक्तीधर मोहनली	01-09-96	
1517	14510482	एम	हवलदार	सन्त राम पांचाल	01-11-96	
1518	14510473	एल	हवलदार	सन्तोश कुमार पाण्डे	01-11-96	
1519	14511432	एन	हवलदार	शाशिकुमारन नाथर जो	01-12-96	
1520	14519644	एन	हवलदार	सत्येन्द्र कुमार मांडवी	01-10-96	
1521	14510180	ए	हवलदार	शतीश कुमार दास	01-09-96	
1522	14510860	ए	हवलदार	सत्या प्रकाश	01-11-96	
1523	14510444	डब्ल्यू	हवलदार	मंभू प्रसाद	01-11-96	
1524	14511344	एक्स	हवलदार	शंकर लाल दामोदर भील	01-12-96	
1525	14510510	एन	हवलदार	शंकर भगवान पाडव	01-11-96	
1526	14511178	पी	हवलदार	शंकर दयाल सिन्हा	01-12-96	
1527	14510448	एम	हवलदार	शारदा प्रसाद वी	01-11-96	

1528	14510540एल	हवलदार	शिव कुमार राय	01-11-96	
1529	14511599एक्स	हवलदार	सिद्धप्पा लक्ष्मन जाधव	01-01-97	
1530	14510359एन	हवलदार	सोहन लाल दबाल	01-10-96	
1531	14511273एफ	हवलदार	सोमदत्त सिंह	01-12-96	
1532	14511004एन	हवलदार	एस बंधु	01-01-97	
1533	14510495के	हवलदार	सुभाष चन्द्र विश्वास	01-11-96	
1534	14511421एफ	हवलदार	सुखदेव सिंह	01-12-96	
1535	14510465एम	हवलदार	सुरज भान	01-11-96	
1536	14510516पी	हवलदार	सुरेन्द्र कुमार सिंह	01-11-96	
1537	14510460एन	हवलदार	सुरेश चन्द्र	01-11-96	
1538	14511397डब्ल्यू	हवलदार	सुरीन्दर कुमार शर्मा	01-12-96	
1539	14511023ए	हवलदार	सुरीन्दर मसीह	01-11-96	
1540	12402651एम	हवलदार	ताजबार सिंह चौहान	01-12-96	
1541	14511112वाई	हवलदार	तलेवर सिंह	01-12-96	
1542	14519657एल	हवलदार	तेजपाल सिंह	01-10-96	
1543	14510787एम	हवलदार	तिप्पया पी	01-11-96	
1544	14511484के	हवलदार	त्रिवेणी दत्त	01-01-97	
1545	14510839एक्स	हवलदार	तुष्मीदास घाटर्जी	01-12-96	
1546	14510086डब्ल्यू	हवलदार	उन्नी कृष्णन एम के	01-09-96	
1547	14513690एम	हवलदार	उपेन्द्रा प्रसाद गुप्ता	01-04-96	
1548	14510858एच	हवलदार	वी सुब्रमणियन	01-11-96	
1549	14510724के	हवलदार	विद्या सागर	01-11-96	
1550	14517386ए	हवलदार	विजय सिंह	01-01-97	
1551	14510345एन	हवलदार	विजय कुमार पी	बी	01-11-96
1552	14511758के	हवलदार	वीअर्म्मल कुमार के	01-01-97	
1553	14510494एफ	हवलदार	विश्राम प्रसाद	01-11-96	
1554	14511460ए	हवलदार	विश्व नाथ तिवारी	01-01-97	
1555	14510917के	हवलदार	घम सिंह थापा	01-11-96	
1556	14510720एन	हवलदार	घोगेन्द्र गिरि	01-11-96	
सैना शिक्षा कोर					

1557	9506183एन	हवलदार	अर्जुन सिंह	01-09-96	
1558	9506207एम	हवलदार	दन्तु मोहन जाधव	01-11-96	
1559	9506193एक्स	हवलदार	जयराम नाथर पी		01-09-96
1560	9506217डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश चन्द्र	01-11-96	
1561	9506181एच	हवलदार	प्रमानन्द प्रसाद	01-09-96	
1562	9506197एन	हवलदार	पृथीपाल सिंह जादोन	01-10-96	
रिमाउंट एव वेटेरिनरी कोर					

1563	7236451डब्ल्यू	हवलदार	राम लाल	01-01-97	
1564	7236844एम	इफेक्टर	सुल्तान सिंह	01-01-97	
कोर आफ सैना पुलिस					

1565	7767663एल	हवलदार	बंशी धर	01-11-96	
1566	1053091एम	हवलदार	जोर्ज के एम	01-12-96	
1567	7767711ए	हवलदार	जयहर सिंह	01-01-97	
1568	7767683वाई	हवलदार	लक्ष्मेश्वर ठाकुर	01-12-96	

1569	7767694एल	हवलदार लाल बाबू सिंह	01-12-96
1570	13670015वार्ड	हवलदार नरेन्द्र सिंह	21-12-96
सैना शारिरिक प्रशिक्षण कोर			

1571	1565943एल	हवलदार हनुमन्त सिंदे	01-09-96
पघोनिघर कोर			

1572	8022297के	हवलदार मदन राम	01-10-96
1573	8022340ऐ	हवलदार रमाकान्त	01-11-96
सैना डाक सेवा			

1574	13848925पी	हवलदार के ऐ अन्टणी	01-01-97
1575	9214738ऐ	हवलदार रमेश चन्द्र देवराणी	01-09-96
1576	1259424एन	हवलदार सुरजीत सिंह	01-11-96
रक्षा सुरक्षा कोर			

1577	6637649वार्ड	हवलदार हरी प्रसाद	01-10-96
1578	11125987के	हवलदार लचमण सिंह	01-12-96
1579	6635547के	हवलदार बंवारी लाल	01-01-97
प्रादेशिक सैना			

1580	10210537	हवलदार अमल कुमार जोरदार	01-08-96
1581	10314020	हवलदार अर्जुन सिंह	01-01-97
1582	10451623	हवलदार ऐ मघीद	01-03-96
1583	10181390	हवलदार बल सुकुन्द पटेल	01-10-96
1584	10210529	हवलदार बीअर्हिनोद रंजन राय	01-08-90
1585	10404470	हवलदार चन्द्र प्रकाश	01-06-96
1586	10419925	हवलदार सी रमन गौडा	01-12-96
1587	10244062	हवलदार के जादु सिंह	01-01-97
1588	10244133	हवलदार लघित चन्द्र लस्कर	01-01-97
1589	10149635	हवलदार एम दम्बल	01-09-96
1590	10404509	हवलदार महेन्द्र सिंह पाल	21-01-97
1591	10404549	हवलदार राम करण सिंह	01-01-97
1592	10404439	हवलदार राम पाल सिंह	01-02-96
1593	10404502	हवलदार रुक मंगल दसि	01-01-97
1594	10419868	हवलदार श्रीसैल मन्वर	01-10-96
1595	10404558	हवलदार उदय प्रताप	01-01-97
1596	10149669	हवलदार वसन्त पत्तिल	01-09-96

[स. ए/43432/आर. डी.-77/एजी./सो. डब्ल्यू.]

म. स. सोखंडा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 3(E).—On the eve of Republic Day 1997, the President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement under para 180 of the Regulations for the Army 1987 with effect from their respective dates of retirement :—

TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS**PRESIDENT'S BODY GUARD**

1	14311719F	DFR	PRABH DAYAL	01-10-96
---	-----------	-----	-------------	----------

65 ARMoured REGIMENT

2	14311689P	DFR	JOGINDER SINGH	01-10-96
---	-----------	-----	----------------	----------

68 ARMoured REGIMENT

3	13850165W	DFR	PRATAP SINGH	01-11-96
---	-----------	-----	--------------	----------

84 ARMoured REGIMENT

4	14311751W	DFR	JEO BODH TEWARI	01-10-96
---	-----------	-----	-----------------	----------

ARMoured CORPS

5	1054884F	DFR	BALKRISHNA SAKARAM MANE	01-12-96
6	1053108P	DFR	BIKRAM SINGH	01-01-97
7	1053109X	DFR	DHARAM SINGH	01-01-97
8	13873512W	DFR	GANESH BAHADUR	01-09-97
9	1053137K	DFR	HIRDYA RAM	01-01-97
10	1053134W	DFR	JOGINDER THAKUR	01-01-97
11	1053097N	DFR	KARAM CHAND	01-12-97
12	1053112X	DFR	LAKHAN LAL	01-01-97
13	14351379A	DFR	MAM CHAND	01-12-97
14	1053084W	DFR	MOHAN SINGH	01-12-96
15	1053100H	DFR	MOHMD SHABBIR	01-10-97
16	14320352N	DFR	RAJA RAM	01-09-96
17	JC 10360155P	DFR	RAMESH CHANDER	01-01-97
18	1053107M	DFR	SHANTI PAL	01-01-97
19	1053142P	DFR	SHYAM NARAYAN PANDEY	01-01-97
20	1053093X	DFR	SUKHUWA HORD	01-12-96

REGIMENT OF ARTILLERY

21	14317539P	HAV	A MASILAMANI	01-12-96
22	1542694L	HAV	ABHA RAM	01-11-96
23	1259747W	HAV	AMIN CHAND	01-01-97
24	1259529X	HAV	ARJUN SINGH SODHA	01-12-96
25	14312354K	HAV	ATTER SINGH	01-12-96

26	14321978X	HAV	BAKHEDI SINGH	01-01-97
27	14312684H	HAV	BASDEV TIWARI	01-01-97
28	11229311N	HAV	BHABEN BOHAIN	01-10-96
29	14311817F	HAV	BHAGWAN DIN	01-11-96
30	1259316K	HAV	BHAGWAN SINGH SHEKHAWAT	01-11-96
31	14320259M	HAV	BRAHAMESWAR NATH TIWARI	01-09-96
32	5341422N	HAV	BUDHI BAHADUR GHARTI	01-10-96
33	1259481P	HAV	BUDHI SINGH	01-12-96
34	1259793L	HAV	CHAND RAM	01-01-97
35	5039433H	HAV	DAL BAHADUR TAMANG	01-10-96
36	11078960Y	HAV	DALBIR	01-12-96
37	14312507H	HAV	DAULA RAM YADAV	01-12-96
38	14311742P	HAV	DESSA SINGH	01-10-96
39	14320088L	HAV	DIGARDEV	01-09-96
40	1259411W	HAV	DILBAG SINGH	01-11-96
41	14320384W	HAV	GANPAT SINGH	01-09-96
42	14316931H	HAV	HANUMAN SINGH	01-05-96
43	1264662K	HAV	HARBANS LAL	01-10-96
44	14320791Y	HAV	HARBANS SINGH	01-09-96
45	14312033M	HAV	HAWA SINGH SANGWAN	01-11-96
46	11090173K	HAV	JAGAN NATH	01-11-96
47	14312051P	HAV	JAGMAL SINGH	01-11-96
48	14320482W	HAV	JAMUNA RAM	01-09-96
49	1261130Y	HAV	JAYAKUMARAN NAIR A	23-03-96
50	14320554P	HAV	K GOPALAN	01-09-96
51	14312749L	HAV	KAILASH RAO	01-01-97
52	1259640F	HAV	KANGRU RAM	01-01-97
53	5039517W	HAV	KARNA BAHADUR GURUNG	01-10-96
54	14319260P	HAV	KARTIK CH SANYAL	01-08-96
55	14311958W	HAV	KEDAR RAM	01-11-96
56	1259609P	HAV	KHANVILKAR VASANT SAKHARAM	01-01-97
57	1259552L	HAV	KHUS BAHADUR RAI	01-12-96
58	11244259N	HAV	KRISHAN LAL	01-09-96
59	1358003N	HAV	L ARUL	01-11-96
60	14312177P	HAV	LACHHMAN DASS	01-11-96
61	1259246W	HAV	LALLAN TIWARI	01-11-96
62	1259304P	HAV	MADAN LAL	01-11-96
63	1342626X	HAV	MAGAR SINGH	01-09-96
64	1259173P	HAV	MAHADEO LAKRA	01-09-96
65	14312522X	HAV	MAN SINGH	01-12-96
66	14322029X	HAV	MANBAR SINGH	01-01-97
67	1259198F	HAV	MELA RAM	01-10-96
68	14312588N	HAV	MOHAN MAHTO	01-01-97
69	1542664N	HAV	MUKHARU CHENDU SHAHARE	01-10-96
70	14312064M	HAV	MURCHAND RAM	01-11-96
71	1259470H	HAV	NARINDER SINGH CHANOTRA	01-11-96
72	14316911P	HAV	OM PRAKASH	01-07-96
73	14311919X	HAV	PANCHAN SAMAUL	01-11-96
74	14311622W	HAV	PARIMANA ANBALAGAN	01-09-96
75	14312109F	HAV	PARTAP SINGH	01-11-96
76	14320507X	HAV	PRATAP SINGH	01-09-96
77	8024362X	HAV	PRITHIBI RAJ KHAREL	01-01-97
78	1265162Y	HAV	PURAN SINGH	01-12-96
79	1259599W	HAV	RADHEY SHYAM	01-12-96
80	14320626N	HAV	RAJARAM BAJARANG RASAGAR	01-09-96

81	14312743K	HAV	RAJBALI RAM	01-01-97
82	14320777M	HAV	RAJINDER KUMAR	01-11-96
83	14312552P	HAV	RAM BALI SINGH	01-12-96
84	1259403X	HAV	RAM CHAND	01-11-96
85	14312310M	HAV	RAM CHANDER	01-12-96
86	14311850Y	HAV	RAM DAYAL	01-11-96
87	1264785W	HAV	RAM KISHAN SAINI	01-10-96
88	1265606X	HAV	RAM KUMAR	01-01-97
89	1259595A	HAV	RAMESH KUMAR CHAUDHARY	01-12-96
90	14311507W	HAV	RANBIR SINGH	01-09-96
91	12404590Y	HAV	RATTAN SINGH	01-01-97
92	14311952P	HAV	ROHTASH SINGH	01-11-96
93	14321777Y	HAV	SANTA BAHADUR YADAV	01-12-96
94	14318337A	HAV	SAT PAL	01-11-96
95	14312772Y	HAV	SHIV NARAYAN PRASAD	01-01-97
96	14321658H	HAV	SHYAMNATH PANDEY	01-12-96
97	1259287A	HAV	SINGU PURAM GOVINDA RAO	01-11-96
98	1259637F	HAV	SIVA SANKARAN M	01-01-97
99	14311753F	HAV	SRI DHARAN N	01-10-96
100	1259249K	HAV	SUKHPAL	01-11-96
101	1259164N	HAV	SURJA BAHADUR	01-09-96
102	1259738P	HAV	SURYADIP TIWARI	01-01-97
103	1259684Y	HAV	TARSEM LAL	01-01-97
104	11006309A	HAV	V V ANTHONY	01-10-96
105	5445144X	HAV	VIJAY GURUNG	01-10-96
CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY				

106	14312075Y	HAV	A BIDYA SINGHA	01-11-96
107	14312187Y	HAV	AMAR SINGH	01-11-96
108	3971126H	HAV	AMIN CHAND	01-09-96
109	5841941Y	HAV	ANIL KUMAR SAHI	01-09-96
110	2765593K	HAV	ANKUSH RAMA NIKAM	01-09-96
111	13735174L	HAV	AVTAR SINGH	01-11-96
112	14311785K	HAV	BAJI LAL	01-11-96
113	11021114M	HAV	BALBIR SINGH	01-09-96
114	3971189L	HAV	BALBIR SINGH	01-10-96
115	14312690W	HAV	BALBIR SINGH	01-01-97
116	14312794X	HAV	BALDEV SINGH	01-01-97
117	11036020M	HAV	BALI RAM	01-09-75
118	5745806N	HAV	BASANT BAHADUR ALE	01-09-96
119	3971153M	HAV	BHAGWAN DASS	01-09-96
120	13735090X	HAV	BHAGWAN SINGH	01-09-96
121	5039615W	HAV	BHAKTA BAHADUR GURUNG	01-10-96
122	5745923Y	HAV	BHAKTARAM GURUNG	01-10-96
123	5841968W	HAV	BHAN SINGH BHANDARI	01-09-96
124	5341393K	HAV	BHIM BAHADUR THAPA	01-10-96
125	13735098K	HAV	BHIM SAIN	01-10-96
126	14311965M	HAV	BHUP SINGH	01-11-96
127	14311615A	HAV	BHUPINDER SINGH	01-09-96
128	3971136M	HAV	BHUPINDER SINGH	01-09-96
129	5745861K	HAV	BIR BAHADUR THAPA	01-09-96
130	5745846P	HAV	BIR BAHADUR THAPA	01-09-96
131	1259754M	HAV	BIRANGAL ARJUN BHAGWAN RAO	01-01-97
132	5745867L	HAV	BOM BAHADUR THAPA	01-09-96

133	5841953N	HAV	BUDHI BAHADUR CHHETRI	01-09-96
134	5745841W	HAV	BUDHI BAL RANA	01-09-96
135	13735136P	HAV	CHAMEL SINGH	01-10-96
136	5039533N	HAV	CHANDRA BAHADUR RANA	01-10-96
137	14312642W	HAV	CHANDRA KUMAR SINGHA	01-01-97
138	14312430L	HAV	CHHETRA BAHADUR KHATRI	01-12-96
139	14312618A	HAV	CHHOTE LAL	01-12-96
140	14319161M	HAV	CHIMAN SINGH	01-12-96
141	14312646M	HAV	CHUNILAL RUPAJI NINAMA	01-01-97
142	5444832K	HAV	CHURA BAHADUR PUN	01-12-96
143	11090034A	HAV	DABAL SINGH	01-11-96
144	5341386N	HAV	DAL BAHADUR	01-09-96
145	14322031P	HAV	DALBIR SINGH	01-01-97
146	14312068H	HAV	DALIP SINGH YADAV	01-11-96
147	5745783X	HAV	DAN BAHADUR THAPA	01-09-96
148	14311783Y	HAV	DAYA RAM YADAV	01-11-96
149	5745942K	HAV	DEO BAHADUR THAPA	01-10-96
150	5745927P	HAV	DEO BAHADUR THAPA	01-10-96
151	13735134K	HAV	DES RAJ	01-10-96
152	4453057H	HAV	DESH RAJ SINGH	01-09-96
153	14312180F	HAV	DESH RAJ VERMA	01-11-96
154	5039558A	HAV	DEV BAHADUR GURUNG	01-10-96
155	3971242L	HAV	DEV RAJ	01-10-96
156	5841965H	HAV	DHAKA RAM KHARKA	01-09-96
157	5745898L	HAV	DHAN BAHADUR GURUNG	01-10-96
158	5241172H	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-10-96
159	14312189K	HAV	DHARAM CHAND	01-11-96
160	14312328H	HAV	DHARAM SINGH	01-12-96
161	2765571L	HAV	DHONDI BHIKAJI RAWOOL	01-09-96
162	5039506K	HAV	DIL BAHADUR BHUJEL	01-10-96
163	5745856Y	HAV	DIL BAHADUR GURUNG	01-09-96
164	3971172X	HAV	DUNI CHAND	01-10-96
165	5745815P	HAV	DURGA BAHADUR RANA	01-09-96
166	5745852H	HAV	FAN BAHADUR GURUNG	01-10-96
167	5039509X	HAV	GANGA BAHADUR THAPA	01-10-96
168	5039530A	HAV	GANGA BAHADUR THAPA	01-10-96
169	14311926N	HAV	GEETA PRASAD SHUKLA	01-11-96
170	5341428P	HAV	GOPAL MAN GURUNG	01-10-96
171	11021012W	HAV	GURBACHAN SINGH	01-12-96
172	14312433Y	HAV	GURDEV PRASAD GUPTA	01-12-96
173	14316881H	HAV	GURDIAL SINGH	01-12-96
174	14311642K	HAV	HAKAM SINGH	01-09-96
175	14312599A	HAV	HAKAM SINGH	01-01-97
176	1259764W	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-01-97
177	11064127X	HAV	HARI SAHANI	01-11-96
178	1259776L	HAV	HARI SINGH	01-01-97
179	13735112L	HAV	HARI SINGH	01-10-96
180	5341439F	HAV	HARKA BAHADUR PUN	01-09-96
181	3971289W	HAV	HARMESH KUMAR	01-12-96
182	3971116Y	HAV	HARNAM SINGH	01-09-96
183	3971104K	HAV	HARNAM SINGH	01-09-96
184	5745810H	HAV	HEM BAHADUR THAPA	01-09-96
185	14311653W	HAV	INDER DEV	01-09-96
186	14312264H	HAV	INDER SINGH	01-12-96
187	14312826P	HAV	ISHWAR SINGH	01-01-97

188	14312457H	HAV	ISHWAR SINGH	01-12-96
189	14311037P	HAV	JADHAV SHIVAJI DAULAT	01-11-96
190	13735178F	HAV	JAG DATT	01-11-96
191	13735131W	HAV	JAGDEV SINGH	01-10-96
192	13735113N	HAV	JAGDISH CHAND	01-10-96
193	5039582W	HAV	JAI BAHADUR SAHI	01-11-96
194	11021006H	HAV	JAI PAL	01-12-96
195	2765606W	HAV	JAISING ABA KOLE	01-10-96
196	13735093L	HAV	JANAM SINGH	01-10-96
197	3971145N	HAV	JANG BAHADUR SINGH	01-09-96
198	14318699F	HAV	JASWANT SINGH	01-12-96
199	14312002M	HAV	JAY LAL	01-11-96
200	14311756P	HAV	JHILLOO SINGH YADAV	01-10-96
201	3971107A	HAV	JOGINDER PAUL	01-10-96
202	13735101Y	HAV	JOGINDER SINGH PATHANIA	01-10-96
203	14311650H	HAV	JOY TY	01-09-96
204	11194493L	HAV	KALAMUDDIN ANSARI	01-01-97
205	14312191F	HAV	KALI DASS THAKUR	01-11-96
206	14312342P	HAV	KANWAR CHHEL SINGH	01-12-96
207	1456349N	HAV	KANWAR SINGH	01-01-97
208	11020998X	HAV	KARAM CHAND	01-01-97
209	14311979M	HAV	KARUNANIDHY A	01-11-96
210	13735050W	HAV	KASHMIR SINGH	01-09-96
211	3971113L	HAV	KASHMIR SINGH	01-09-96
212	5039477A	HAV	KHEM BAHADUR THAPA	01-10-96
213	13735071M	HAV	KHEM CHAND	01-09-96
214	5341435L	HAV	KHIM BAHADUR THAPA	01-10-96
215	13735177Y	HAV	KISHAN SINGH	01-11-96
216	5039541M	HAV	KISHNA BAHADUR THAPA	01-10-96
217	14312157F	HAV	KRISHAN CHANDER YADAV	01-11-96
218	5745821H	HAV	KUL BAHADUR RANA	01-09-96
219	5841998N	HAV	KULBAHADUR CHHETRI	01-10-96
220	3971177W	HAV	KULDIP SINGH	01-10-96
221	5241171A	HAV	KUMAR SINGH RAI	01-10-96
222	14312798N	HAV	LAKHBIR SINGH	01-01-97
223	5241174N	HAV	LAL BAHADUR GURUNG	01-10-96
224	3971232F	HAV	LAL CHAND	01-10-96
225	11127390A	HAV	LALA RAM	01-12-96
226	2765611F	HAV	LAXMAN DARIYAJI KATKIDE	01-10-96
227	14311963F	HAV	MADHAV SINGH CHAUHAN	01-11-96
228	2765613M	HAV	MAGAR MARUTI VISHNU	01-10-96
229	5341390W	HAV	MAN BAHADUR GURUNG	01-10-96
230	5039551W	HAV	MAN BAHADUR RANA	01-10-96
231	5341426K	HAV	MAN BAHADUR TAMANG	01-10-96
232	5745869W	HAV	MAN BAHADUR THAPA	01-10-96
233	5039536F	HAV	MAN BAHADUR THAPA	01-10-96
234	5341419N	HAV	MAN BAHADUR THAPA	01-10-96
235	14311647H	HAV	MANGALI BABU	01-09-96
236	13735096Y	HAV	MANOHAR SINGH	01-10-96
237	5241190L	HAV	MIN BAHADUR GURUNG	01-10-96
238	5039510M	HAV	MIN BAHADUR GURUNG	01-10-96
239	5341427M	HAV	MIN BAHADUR GURUNG	01-10-96
240	5039599K	HAV	MITRA BAHADUR GURUNG	01-10-96
241	5039504Y	HAV	MOHAN BAHADUR RANA	01-10-96
242	5341446X	HAV	MOHAN LAL SHRESTH	01-10-96

243	13735082Y	HAV	MOHINDER PAL SHARMA	01-09-96
244	13735115Y	HAV	MUNSHI RAM	01-10-96
245	5241162Y	HAV	NAR BAHADUR KATWAL CHHETRI	01-09-96
246	5039520H	HAV	NAR BAHADUR THAPA	01-10-96
247	5241156L	HAV	NARAIN SINGH THAPA	01-09-96
248	5745085N	HAV	NARAIN SINGH THAPA	01-10-96
249	11244243H	HAV	NEELA PRASAD SHARMA	01-11-96
250	5039424F	HAV	NETRA BAHADUR GURUNG	01-10-96
251	5341438Y	HAV	NETRA BAHADUR THAPA	01-10-96
252	5039395X	HAV	NIM PRASAD GURUNG	01-09-96
253	5745065A	HAV	DARMA RANA	01-09-96
254	13735052F	HAV	OM PRAKASH	01-09-96
255	14312255F	HAV	OM PRAKASH	01-12-96
256	5745945X	HAV	PADAM BAHADUR RANA	01-11-96
257	11078880F	HAV	PARAS RAM	01-09-96
258	5039562H	HAV	PARBAT PRADHAN	01-10-96
259	3971243N	HAV	PARSHOTAM SINGH	01-10-96
260	14312662K	HAV	PARSOTTAM LAL	01-01-97
261	2765542W	HAV	PATIL DOULATTARAO SUBRAO	01-09-96
262	11244249K	HAV	PREM BAHADUR CHHETRI	01-09-96
263	5241101K	HAV	PREM BAHADUR GURUNG	01-10-96
264	5444803P	HAV	PREM BAHADUR RANA	01-10-96
265	5039462X	HAV	PREM BAHADUR THAPA	01-10-96
266	5341418L	HAV	PREMRAJ GURUNG	01-10-96
267	5745920L	HAV	PUNARAM THAPA	01-10-96
268	5341431P	HAV	PURNA BAHADUR GURUNG	01-10-96
269	5039406Y	HAV	PURNA BAHADUR GURUNG	01-09-96
270	14311991N	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-96
271	14312262X	HAV	RAKESH CHANDRA VEDI	01-12-96
272	11065145M	HAV	RAM BABU RAI	01-01-97
273	14311014N	HAV	RAM KANWAR YADAV	01-11-96
274	14312351W	HAV	RAM KISHAN	01-12-96
275	14312352Y	HAV	RAM KUMAR YADAV	01-12-96
276	14311815W	HAV	RAM MURTI	01-11-96
277	14312409H	HAV	RAM NAKSHATRA TIWARI	01-12-96
278	14312144K	HAV	RAM SAHAI YADHAV	01-11-96
279	14312578K	HAV	RAMA KANT	01-12-96
280	14311916K	HAV	RAMAPATI PRAKASH	01-11-96
281	1259103Y	HAV	RAMESH CHANDER	01-10-96
282	13735047W	HAV	RAMESH KUMAR	01-09-96
283	5039503W	HAV	RANSUBA GURUNG	01-10-96
284	3971245Y	HAV	RASHPAL SINGH	01-10-96
285	5241200W	HAV	RATNA BAHADUR CHHETRI	01-01-97
286	5841992M	HAV	RATNA BAHADUR CHHETRI	01-10-96
287	14312420N	HAV	RATTAN CHAND VERMA	01-12-96
288	13735064W	HAV	ROSHAN LAL	01-09-96
289	5745036L	HAV	RUSH BAHADUR THAPA	01-09-96
290	3971259Y	HAV	SALIG RAM	01-10-96
291	13735094N	HAV	SANSAR CHAND	01-10-96
292	14312265L	HAV	SARWESHWAR PRASAD SAHI	01-12-96
293	3971117F	HAV	SATPAL	01-09-96
294	3971305H	HAV	SAWARN SINGH	01-12-96
295	11020021K	HAV	SHIV RAM	01-10-96
296	14311002Y	HAV	SHIV SHANKAR SINGH	01-11-96
297	14312432W	HAV	SHRI PRAKASH SINGH	01-12-96

298	5039529L	HAV	SHYAM BAHADUR ALE	01-10-96
299	5745909M	HAV	SIRI PRASAD GURUNG	01-10-96
300	5039526X	HAV	SOM BAHADUR ALE	01-10-96
301	5341392F	HAV	SOMAN SINGH	01-10-96
302	2765566A	HAV	SONAVANE HANMANT RAGHUNATH	01-09-96
303	3971185P	HAV	SUKH RAJ	01-10-96
304	3971134F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-09-96
305	13735160L	HAV	SUKHDEV SINGH	01-10-96
306	14311490N	HAV	SULAKHAN SINGH	01-09-96
307	14312411A	HAV	SURAJ BHAN	01-12-96
308	2765573W	HAV	SURESH SHANKAR SAIL	01-09-96
309	14312827X	HAV	SURJIT SINGH	01-01-97
310	3971239L	HAV	TARSEM PAL	01-10-96
311	5039431X	HAV	TEJ BAHADUR GURUNG	01-09-96
312	5039523K	HAV	TEJ BAHADUR THAPA	01-10-96
313	14312237Y	HAV	TEJ PRATAP RAM	01-12-96
314	5039587P	HAV	TEK BAHADUR GURUNG	01-10-96
315	5241170X	HAV	TEK BAHADUR GURUNG	01-10-96
316	13735111H	HAV	TILAK RAJ	01-10-96
317	13735137X	HAV	TIRATH SINGH	01-10-96
318	5039453W	HAV	TUL PRASAD GURUNG	01-09-96
319	5241173L	HAV	UDHAM DHAJ GURUNG	01-10-96
320	2765588Y	HAV	ULLHAS VITHABA KADAM	01-09-96
321	3971249P	HAV	UTTAM SINGH	01-10-96
322	14312359H	HAV	VIJAY KANT VAJPAI	01-12-96
323	14312146P	HAV	YAM BAHADUR	01-11-96
324	5444765K	HAV	YEM BAHADUR GURUNG	01-09-96
325	3971155X	HAV	YUDHPAL SINGH	01-09-96
MADRAS ENGINEER GROUP				

326	1358145L	HAV	A NEELAMEGAM	01-12-96
327	1357573X	HAV	APPANAROBA MANE	01-09-96
328	1352939A	HAV	ARUMUGAM PUSHPARAJ	01-01-97
329	1357960H	HAV	C SEKAH	01-11-96
330	1358136K	HAV	C VELU	01-12-96
331	1358141P	HAV	GUNTUPALLI ESWARA RAO	01-12-96
332	1357888F	HAV	HATHIYA NATHAN	01-10-96
333	1358134Y	HAV	K LAKSHMANAN	01-12-96
334	1357892K	HAV	K VEERAN	01-10-96
335	1357633F	HAV	KARUPPANAN	01-09-96
336	1360202A	HAV	KULANDAYESU R	01-09-96
337	1359344L	HAV	M KOMPALIAH	01-11-96
338	1357701K	HAV	MURUGAN SELVAM	01-09-96
339	1357993X	HAV	P SAVARIMUTHU	01-11-96
340	1362079L	HAV	PARAMESWARAN P	01-01-97
341	1357618M	HAV	RAGHAVAN RAMAMURTHY	01-09-96
342	1357558H	HAV	RAMASAMY MOHAN	01-09-96
343	1357575H	HAV	SHIVLINGA BAJIRAO AGASABI	01-09-96
344	1357695F	HAV	SUBRAMANI JAYAMOORTHY	01-09-96
345	1360312P	HAV	T JAYASEELAN	01-11-96
346	1357699X	HAV	THANGAVELU GOUNDER MURUGESAN	01-09-96
347	1357965L	HAV	V MURUGESAN	01-11-96
348	1357617K	HAV	VELAYUTHAN SELVADURAI	01-09-96

BENGAL ENGINEER GROUP

349	8022477M	HAV	ANSUYA PRABAD	01-12-96
350	1456397N	HAV	GOPAL SINGH	01-01-97
351	13850262N	HAV	HARBIR SINGH	01-12-96
352	14510713X	HAV	HARENDRA SINGH	01-11-96
353	1452654H	HAV	JAGJIT SINGH BRAR	01-10-96
354	13850280W	HAV	LAXMAN SINGH RANA	01-12-96
355	8022428K	HAV	MANTU RAM	01-12-96
356	13850204K	HAV	NARENDER SINGH	01-12-96
357	10196244P	HAV	NARINDER SINGH	01-01-97
358	13850399A	HAV	PREM SINGH	01-12-96
359	6462785W	HAV	RABI CHARAN DEB BARMA	01-12-96
360	13850652W	HAV	SURESH CHANDRA UPRETI	01-01-97
361	13850208H	HAV	THAKUR SINGH	01-12-96
362	8022439M	HAV	TIKA DAS	01-01-97
363	1402991F	HAV	UMED SINGH MEHTA	01-12-96

BOMBAY ENGINEER GROUP

364	6462691Y	HAV	ABU SUFIAN	01-10-96
365	6462658F	HAV	BACHAN SINGH	01-10-96
366	1546407N	HAV	CHARAN SINGH	01-01-97
367	1542624M	HAV	DALVI LADU LAXMAN	01-09-96
368	1546345Y	HAV	GURMIT SINGH	01-12-96
369	1566001F	HAV	KARNAIL SINGH	01-01-97
370	1565939H	HAV	SHAMBHU DAYAL	01-01-97
371	6462787F	HAV	SHASHI BUSHAN SINGH	01-12-96
372	1542706P	HAV	SUDERSHAN SINGH	01-12-96
373	1546354A	HAV	SUKHDEV SINGH	01-12-96
374	1566023A	HAV	VILAS JADHAV	01-01-97

CORPS OF SIGNALS

375	14220006H	HAV	ABHAY MUNSI	01-09-96
376	14220770N	HAV	ACHINTYA KUMAR BHUNIA	01-01-97
377	14220638N	HAV	AKHIL CHANDRA BISWAS	01-01-97
378	14220536X	HAV	AKSHAY KUMAR PRADHAN	01-12-96
379	14220586H	HAV	AMAR KUMAR SINGHA	01-12-96
380	14291145W	HAV	ANNAPPA HAMPANNAVAR	01-10-96
381	14291441F	HAV	ANOKH SINGH	01-01-97
382	14290963L	HAV	ANOWARUDDIN SHEIKH	01-10-96
383	14220487A	HAV	ASHOK KUMAR	01-12-96
384	14223569N	HAV	ASHOK KUMAR RAI	01-12-96
385	14290755W	HAV	ASHOK KUMAR TIWARI	01-09-96
386	14290994L	HAV	ASHOK PUTTAPPA JAKKANNAYAR	01-10-96
387	14219969H	HAV	BABU SINGH	01-09-96
388	14222209L	HAV	BADSAHA SINGH	01-01-97
389	14290824F	HAV	BALBIR SINGH	01-09-96
390	14220012W	HAV	BANSODE TATYASAHEB SAWOBA	01-09-96
391	14290914H	HAV	BASANT BALLABH UPRETI	01-10-96
392	14290496Y	HAV	BASANT KUMAR STHAPAK	01-09-96
393	14220416Y	HAV	BASU DEV	01-11-96
394	14291152M	HAV	BHIM SEN PRASAD	01-10-96

395	14291177Y	HAV	BHOLA PRASAD SINGH	01-10-96
396	6907563K	HAV	BIJAI SINGH YADAV	01-09-96
397	14220021X	HAV	BIR CHANDRA SINGHA	01-09-96
398	14291323N	HAV	BIRBAL YADAV	01-12-96
399	14291459X	HAV	BISHAN SINGH THATHOLA	01-01-97
400	14220678P	HAV	BISHNU PRASAD GURUNG	01-01-97
401	14220072L	HAV	BISHWANATH SINGH	01-09-96
402	14220323K	HAV	BRAMHANAND MISHRA	01-10-96
403	14220766L	HAV	BRIJ NANDAN THAKUR	01-01-97
404	14290695H	HAV	BRIJNATH PRASAD SINGH	01-09-96
405	14222294Y	HAV	C BHASKAR	01-09-96
406	14220864L	HAV	C K PURUSHOTHAMAN	01-01-97
407	14220156Y	HAV	CHACKO A	01-10-96
408	14218357Y	HAV	CHAMPA RAM	01-05-96
409	14291334A	HAV	CHANDAR RAO YADAVALLI	01-12-96
410	14220448F	HAV	CHANDER PAL SINGH	01-11-96
411	14223256P	HAV	CHANDGI RAM	01-10-96
412	14208947K	HAV	CHANDRA BAHADUR ADHIKARI	01-01-97
413	14290933N	HAV	CHANDRIKA PRASAD MAURYA	01-10-96
414	14291530A	HAV	CHARAN SINGH RANA	01-01-97
415	14219963F	HAV	CHHOTE SINGH	01-09-96
416	14220365W	HAV	CHHOTE SINGH BHADAURIA	01-10-96
417	14220616P	HAV	CLEMENT KUJUR	01-12-96
418	14290872F	HAV	DALJIT SINGH	01-09-96
419	14221050Y	HAV	DAMAR SINGH RANA	01-01-97
420	14220754W	HAV	DEHRU RAM	01-01-97
421	14291028L	HAV	DEVANAND JHA	01-10-96
422	14220656W	HAV	DHAM SINGH	01-01-97
423	14291001N	HAV	DHANAPATI GHOSH	01-10-96
424	14219985A	HAV	DHARMA KANTA BARWAH	01-09-96
425	14220499P	HAV	DINESH BABU	01-12-96
426	14290921Y	HAV	FATEH SINGH	01-10-96
427	14291283X	HAV	GAJEY SINGH	01-12-96
428	14220276X	HAV	GANDU NARENDRA	01-10-96
429	14221051F	HAV	GANGA BAHADUR CHHETRI	01-01-97
430	14222123M	HAV	GANGA DHARAN NAIR V	01-09-96
431	14220494W	HAV	GEORGE KONGARI	01-12-96
432	14291582W	HAV	GOPAL THAKUR	01-01-97
433	14220427L	HAV	GOPALA KRISHNA PILLAI G	01-11-96
434	14220293X	HAV	GOPI KANT JHA	01-10-96
435	14291087X	HAV	GOPINATHAN K	01-10-96
436	14291146Y	HAV	GOVIND SHARAN MISHRA	01-10-96
437	14220117A	HAV	GULAB SINGH	01-09-96
438	14220603X	HAV	GURDEEP SINGH	01-12-96
439	14220266N	HAV	GURU DEO	01-10-96
440	14219846W	HAV	HAHI RAM KUMAR	01-09-96
441	14220250H	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-14-96
442	14291034Y	HAV	HARDEO SINGH	01-10-96
443	14223238M	HAV	HARI KRISHNA UPRETY	01-10-96
444	14220060W	HAV	HARI NARAYAN SHARMA	01-09-96
445	14220580F	HAV	HARILAL RAM	01-12-96
446	14291045L	HAV	HARVIR SINGH	01-10-96
447	14291027H	HAV	HIRANAND THAKUR	01-10-96
448	14211035W	HAV	INDRAJIT SINGH	01-01-97
449	14290756Y	HAV	JABAR SINGH PAL	01-09-96

450	14220002M	HAV	JAGAN NATH	01-09-96
451	14291033W	HAV	JAGAN NATH SINGH	01-10-96
452	14291076L	HAV	JAGAT NARAIN	01-10-96
453	14290966Y	HAV	JABDISH RAM	01-10-96
454	14290465Y	HAV	JAI NARAIN	01-09-96
455	14291278M	HAV	JAI PAL	01-12-96
456	14291217P	HAV	JAI PRAKASH LAL	01-10-96
457	14220464Y	RIS	JAI PRAKASH SINGH	01-11-96
458	14212944N	HAV	JAYAPRAKASH NARAYAN SINGH	01-11-96
459	14290931H	HAV	JEET DASS	01-10-96
460	14290524A	HAV	JOGINDER SINGH TOOR	01-09-96
461	14220267W	HAV	JOSE P T	01-10-96
462	14219894W	HAV	JOSEPH ANTONY	01-09-96
463	14219950K	HAV	KAILASH CHANDRA MISHRA	01-09-96
464	14220504P	HAV	KAILASH SINGH	01-12-96
465	14212528K	HAV	KALLUVEETIL PHILIP METROX	01-11-96
466	14220284W	HAV	KALOSHASHI KUMAR	01-10-96
467	14213109Y	HAV	KALU SINGH	01-12-96
468	14291425K	HAV	KAPTAN SINGH	01-01-97
469	14211269A	HAV	KARAM SINGH	01-12-96
470	14220800A	HAV	KARTHIKEYAN K	01-12-96
471	14291213Y	HAV	KESHARI RAM	01-10-96
472	14291100W	HAV	KEWAL KRISHAN	01-10-96
473	14290999K	HAV	KIRSHAN KUMAR	01-10-96
474	14220347N	HAV	KISHOR CHANDRA BEHERA	01-10-96
475	14220139Y	HAV	KRISHAN CHANDER	01-09-96
476	14220554A	HAV	KRISHNA NAND TIWARI	01-12-96
477	14219410L	HAV	LACHUBHUGATHA BHASKARA RAD	01-08-96
478	14291352H	HAV	LAJJA RAM	01-12-96
479	14220661F	HAV	LALA RAM	01-01-97
480	14210809F	HAV	LALADHAR SINGH	01-01-97
481	14291495H	HAV	LAXMI NARAYAN SINGH PARIHAR	01-01-97
482	14291174L	HAV	LAXMI SHANKAR SHARMA	01-10-96
483	14293799Y	HAV	M GURUVANGALAM	01-12-96
484	14290744K	HAV	M JOHN AMBUROSS	01-09-96
485	14291369W	HAV	M MANI	01-12-96
486	14291212W	HAV	MADAN MOHAN LAL	01-10-96
487	14290791F	HAV	MADAN MOHAN PANDEY	01-09-96
488	14223639F	HAV	MAGI RAM GOCHHI	01-01-97
489	14212705Y	HAV	MAHANGU PRASAD	01-11-96
490	14220788K	HAV	MAHENDAR DUBEY	01-01-97
491	14290774F	HAV	MAHENDRA SINGH	01-09-96
492	14220335Y	HAV	MAHESHWAR BHAGAT	01-10-96
493	14291043A	HAV	MAHESHWAR CHOUDHARY	01-10-96
494	14290686L	HAV	MAHINDER SINGH	01-09-96
495	14219997P	HAV	MAHIPAL SINGH CHAUHAN	01-09-96
496	14291013H	HAV	MALKHAN	01-10-96
497	14220129P	HAV	MALLAPPA KADAPPA VARJI	01-09-96
498	14291069P	HAV	MANBIR SINGH	01-07-96
499	14223293H	HAV	MANJIT SINGH	01-10-96
500	14292383P	HAV	MAST RAM SHARMA	01-10-96
501	14291300Y	HAV	MATHEW C J	01-12-96
502	14291130N	HAV	MIRZA IDRIS BEG	01-10-96
503	14290919F	HAV	MOHAMMED KITABUDIN	01-10-96
504	14220051P	HAV	MUKTI NATH MISHRA	01-09-96

505	14219878Y	HAV	MURALEEDHARAN THEKATH	01-09-96
506	14221997N	HAV	N CHELVAN	01-12-96
507	14220332L	HAV	NAIB SINGH	01-10-96
508	14290958A	HAV	NAND KISHORE TRIVEDI	01-10-96
509	14291172A	HAV	NAND LAL	01-10-96
510	14223170W	HAV	NANDLAL PRASAD MISHRA	01-09-96
511	14291288W	HAV	NIMAIN CHARAN KAR	01-12-96
512	14290923F	HAV	NIRMAL KUMAR BISWAS	01-10-96
513	14220292P	HAV	OM PARKASH JAKHER	01-10-96
514	14291382A	HAV	OM PRAKASH	01-12-96
515	14211553W	HAV	OM PRAKASH	01-10-96
516	14291149M	HAV	OM PRAKASH LAL	01-10-96
517	14291060M	HAV	OMPAL SINGH	01-10-96
518	14220450Y	HAV	PABITRA KUMAR BANDYDPADHYAY	01-11-96
519	14220176M	HAV	PALANDIRA MUTHAPPA CHITYAPPA	01-10-96
520	14219891H	HAV	PANCHA RATNA MAHARJAN	01-09-96
521	14220569H	HAV	PATIL HARIDAS BHAI	01-12-96
522	14220390P	HAV	PHOOL CHAND VERMA	01-10-96
523	14210408F	HAV	PRAHALAD ROY	01-05-96
524	14293617A	HAV	PRAKASH SWARUP	01-10-96
525	14291000L	HAV	PRATAP SINGH	01-10-96
526	14290560L	HAV	PREM CHAND	01-09-96
527	14291371N	HAV	PREM SHANKAR SINGH	01-12-96
528	14220023H	HAV	PREM SINGH PRASHAR	01-09-96
529	14290894A	HAV	PULINI BIHARI MOHANTY	01-10-96
530	14291070K	HAV	PURAN SINGH	01-10-96
531	14219949P	HAV	RADHAKRISHNAN NAIR S	01-09-96
532	14293612F	HAV	RADHEY SHYAM OJHA	01-09-96
533	14290643W	HAV	RADHEY SINGH	01-09-96
534	14291170F	HAV	RAGHUBIR PRASAD YADAV	01-10-96
535	14290603X	HAV	RAGHUBIR SHARN	01-09-96
536	14220652A	HAV	RAJ BAHADUR	01-01-97
537	14290833H	HAV	RAJ KISHORE SHARMA	01-09-96
538	14219850Y	HAV	RAJ KUMAR	01-09-96
539	14219877W	HAV	RAJENDRA BABU BALAN PILLAI	01-09-96
540	14291474M	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-01-97
541	14219918P	HAV	RAJENDRA SINGH	01-09-96
542	14220664P	HAV	RAJENDRA SINGH	01-01-97
543	14290870H	HAV	RAJESHWAR SINGH	01-09-96
544	14291428X	HAV	RAJINDER SINGH	01-01-97
545	14290844P	HAV	RAJPAL SINGH RATHEE	01-09-96
546	14220255F	HAV	RAM AUTAR	01-10-96
547	14220581K	HAV	RAM BAHAL	01-12-96
548	14291496L	HAV	RAM BHAJAN THAKUR	01-01-97
549	14290828X	HAV	RAM CHAND	01-09-96
550	14220503M	HAV	RAM CHARAN	01-12-96
551	14220769Y	HAV	RAM EKBAL TIWARY	01-01-97
552	14220409H	HAV	RAM KARAN SINGH	01-11-96
553	14290559W	HAV	RAM KAWAL	01-09-96
554	14220580N	HAV	RAM KHELAWAN	01-12-96
555	14290679P	HAV	RAM KRIT RAM	01-09-96
556	14291493X	HAV	RAM KUMAR SINGH	01-12-96
557	14291393M	HAV	RAM LAL	01-12-96
558	14291479L	HAV	RAM NARESH THAKUR	01-01-97
559	14212497P	HAV	RAM PAL SINGH	01-11-96

560	14290776M	HAV	RAM PRASANNA THAKUR	01-09-96
561	14220539L	HAV	RAM PRAVESH	01-12-96
562	14291372W	HAV	RAM SABAR SINGH	01-12-96
563	14220505X	HAV	RAM SEWAK	01-12-96
564	14220457H	HAV	RAM SINGH	01-11-96
565	14291511P	HAV	RAMAN T R	01-01-97
566	14220329L	HAV	RAMAUTAR	01-10-96
567	14220367F	HAV	RAMBIR SINGH	01-10-96
568	14220622H	HAV	RAMENDRA KUMAR	01-12-96
569	14220705N	HAV	RAMESH CHAND	01-01-97
570	14212473L	HAV	RAMESH CHANDRA SHARMA	01-01-97
571	14219965M	HAV	RAMESH KUMAR	01-09-96
572	14220630F	HAV	RAMJI SINGH	01-12-96
573	14220918F	HAV	RANJEET SINGH NEGI	01-01-97
574	14290575N	HAV	RATAN SINGH CHAUHAN	01-09-96
575	14220265L	HAV	RATNESHWAR SINGH	01-10-96
576	14220425A	HAV	RAVINDRAN N	01-11-96
577	14290758K	HAV	RIPUSUDAN SINGH SENGAR	01-09-96
578	14220461L	HAV	RISHI PAL	01-11-96
579	14220659K	HAV	ROSHAN LAL	01-01-97
580	14290560X	HAV	SABALE BAPU BALA	01-09-96
581	14291473K	HAV	SAMAR BAHADUR SINGH	01-01-97
582	14290869F	HAV	SANTOKH SINGH	01-09-96
583	14219951M	HAV	SARDA PRASAD	01-09-96
584	14219886X	HAV	SARJU RAM	01-09-96
585	14210943M	HAV	SASHI KANT SAXENA	01-10-96
586	14222489K	HAV	SASIDHARAN PILLAI B	01-10-96
587	14220466K	HAV	SATPAL SINGH	01-12-96
588	14220172W	HAV	SATYA DEO SINGH	01-10-96
589	14290601M	HAV	SATYA NARAYAN	01-09-96
590	14220672N	HAV	SATYANAND RAM	01-01-97
591	14290653A	HAV	SATYANARAYANA DEVA GUPTAPU	01-09-96
592	14290811K	HAV	SATYAPAL SINGH	01-09-96
593	14220310M	HAV	SATYAPAL SINGH	01-10-96
594	14290939P	HAV	SEBASTIAN N T	01-10-96
595	14291368N	HAV	SEKAR V	01-12-96
596	14290696P	HAV	SHAM SINGH	01-09-96
597	14290692Y	HAV	SHAMA RAD DURGE	01-09-96
598	14290576W	HAV	SHANKRAPP KADIMATTI	01-09-96
599	14290877A	HAV	SHIQJEE RAI	01-09-96
600	14208745Y	HAV	SHIV KUMAR NAGARKOTI	01-10-96
601	14220443H	HAV	SHIV KUMAR SHARMA	01-11-96
602	14290629K	HAV	SHIYAM BABU	01-09-96
603	14220391X	HAV	SHRI CHAND SINGH	01-10-96
604	14220702H	HAV	SHRI VAHABKHAN BADULLAH KHAN	01-01-97
605	14291090X	HAV	SIVAN PILLAI K	01-10-96
606	14220304Y	HAV	SIVAN PILLAI R	01-10-96
607	14291339Y	HAV	SMRIT KUMAR SINGH	01-12-96
608	14220920Y	HAV	SOHAN LAL BHADA	01-01-97
609	14291370X	HAV	SRINIWAS SINGH	01-12-96
610	14210035H	HAV	SUBASH CHANDER	01-12-96
611	14220299Y	HAV	SUBEDAR SINGH	01-10-96
612	14219954A	HAV	SUBHASH CHANDER	01-09-96
613	14219811A	HAV	SUBHASH CHANDER SONI	01-09-96
614	14220080K	HAV	SUDEB CHANDRA DUTTA	01-09-96

615	14290519P	HAV	SURENDER KUMAR SHARMA	01-09-96
616	14290705L	HAV	SURENDRA NATH BORO	01-09-96
617	14220856M	HAV	SURENDRA SHETTY	01-01-97
618	14220321Y	HAV	SURESH KUMAR PANDEY	01-10-96
619	14220469X	HAV	SYED UMMAR	01-12-96
620	14223288X	HAV	TARA CHAND	01-10-96
621	14223763H	HAV	TARA CHAND RAHAR	01-01-97
622	14291841N	HAV	THAKUR SINGH NEGI	01-09-96
623	14220583P	HAV	UDAINATH SINGH	01-12-96
624	14220414N	HAV	UMA SHANKAR RAM	01-11-96
625	14291405W	HAV	VAGOLU BHASKARA RAO	01-01-97
626	14291404N	HAV	VENKATESWARLU NUTALAPATI	01-12-96
627	14290642N	HAV	VIDYA DHAR MISHRA	01-09-96
628	14291086P	HAV	VIDYADHARAN N	01-09-96
629	14291220P	HAV	VIJAI SINGH SISODIYA	01-11-96
630	14291078W	HAV	VIJAYENDRAN PILLAI C	01-10-96
631	14220604A	HAV	VINOD KUMAR	01-12-96
632	14223723F	HAV	VISHNU LAL	01-01-97
633	14290757F	HAV	VISHWANATH SINGH BHADORIA	01-09-96
634	14220502K	HAV	YADU NATH	01-12-96
635	14291240H	HAV	YOGENDRA KUMAR SHARMA	01-11-96

THE BRIGADE OF GUARDS

636	13670107K	HAV	BAL RAM	01-09-96
637	13670105F	HAV	BHATA RAM	01-10-96
638	13670193A	HAV	BHOLA PRASAD	01-10-96
639	13670290X	HAV	BUDH RAM SINGH	01-12-96
640	13848613Y	HAV	C RAJA GOPALAN	01-11-96
641	13670292H	HAV	DHARAM PAL	01-12-96
642	3370177M	HAV	GURJANT SINGH	01-10-96
643	13670253K	HAV	HARI SINGH	01-11-96
644	13670216W	HAV	JAGAT RAM	01-10-96
645	13670112P	HAV	KASHMIR SINGH	01-09-96
646	13670085W	HAV	KRISHAN PAL SINGH	01-09-96
647	13670105Y	HAV	MAHARAJ SINGH	01-09-96
648	13670312L	HAV	MUKH RAM	01-12-96
649	13673883P	HAV	MUTHUVELU A V	01-09-96
650	13851135L	HAV	P S SAMUEL	01-01-97
651	13670175X	HAV	PARAS RAM	01-10-96
652	13670226A	HAV	RADHEY SHYAM	01-10-96
653	13670126P	HAV	RAJENDRA SINGH	01-09-96
654	13670089M	HAV	RAM KUMAR	01-09-96
655	13670214L	HAV	RAM PAL	01-10-96
656	13670148N	HAV	RAM SINGH	01-09-96
657	13670369A	HAV	SEWDAYA THAKUR	01-01-97
658	13670289H	HAV	SURAJ MAL	01-12-96
659	13670190M	HAV	THENIRA SOMAIAH POONACHA	01-10-96

THE PARACHUTE REGIMENT

660	13609186A	HAV	A PAMESHAN NAIR	01-10-96
661	13609244M	HAV	BALAI CHANDRA PAL	01-12-96
662	13609197A	HAV	DEV SINGH	01-10-96
663	13609237W	HAV	DHARAMJIT	01-01-97

664	13609196X	HAV	JAI BHAGWAN	01-10-96
665	13609193K	HAV	JASWANT SINGH	01-10-96
666	13609172N	HAV	JOSEPH THAKIDIPURATH JOSEPH	01-09-96
667	13609194M	HAV	KARNA BAHADUR BURUNG	01-10-96
668	13609230M	HAV	LAXMAN SINGH	01-12-96
669	13609182X	HAV	MAHIPAT	01-10-96
670	13609213M	HAV	MAN BAHADUR THAPA	01-11-96
671	13609204L	HAV	MOHMMD AKHTR KURASI	01-10-96
672	13609990P	HAV	RAJE SINGH BISHT	01-10-96
673	6462801H	HAV	RAMESH GIRI	01-12-96

THE PUNJAB REGIMENT

674	2464143F	HAV	AMAR NATH	01-09-96
675	2464069L	HAV	BAKSHI RAM	01-09-96
676	2464196A	HAV	BASTI RAM	01-10-96
677	2464068H	HAV	BHANDARI RAM	01-09-96
678	2464062F	HAV	DAULAT RAM	01-09-96
679	2464101P	HAV	JAGAT RAM	01-09-96
680	10388776A	HAV	K V SOMAN	01-09-96
681	2464074W	HAV	KASHMIR SINGH	01-09-96
682	2464204N	HAV	KISHORI LAL	01-10-96
683	2464065P	HAV	KRISHAN CHAND	01-09-96
684	2464100M	HAV	LABH SINGH	01-09-96
685	2464292P	HAV	LEKH RAJ	01-01-97
686	2464279L	HAV	MALKIT SINGH	01-01-97
687	2464060W	HAV	MEHAR SINGH THAKUR	01-09-96
688	2464203N	HAV	OM PARKASH	01-01-97
689	2464254Y	HAV	OM PARKASH	01-12-96
690	2464201A	HAV	PADAM SINGH	01-10-96
691	2464174F	HAV	RAJAN KUMAR GIRI	01-10-96
692	2464181X	HAV	RAMA	01-10-96
693	2464226M	HAV	RANJIT SINGH	01-11-96
694	2465472K	HAV	RATTAN LAL	01-10-96
695	2465663Y	HAV	SARDUL SINGH	01-01-97
696	2464288M	HAV	SARWAN LAL	01-01-97
697	2464175K	HAV	SHER SINGH	01-10-96
698	2464267W	HAV	SHER SINGH	01-01-97
699	2464217L	HAV	SHIV LAL	01-10-96
700	2464200X	HAV	SUNDER LAL	01-10-96
701	2464071H	HAV	SWARN LAL	01-09-96

THE MADRAS REGIMENT

702	2664579W	HAV	A K GOPI PILLAI	01-10-96
703	2572295M	HAV	BALA NAGARAJA	01-10-96
704	2572393M	HAV	D RAMACHANDRAN	01-12-96
705	2572365A	HAV	G SUBRAMANIAN	01-12-96
706	2572362M	HAV	JANARDHAN	01-12-96
707	6462820N	HAV	K BHASKARAN	01-12-96
708	2572190H	HAV	MATHEW P D	01-09-96
709	2572330K	HAV	PANNEER SELVAM	01-10-96
710	2572407F	HAV	R JAYARAMAN	01-01-97
711	2572184P	HAV	RAJINAIDU CHINNASAMY	01-09-96
712	2572333X	HAV	SUNDARAM S	01-10-96

713	2572235X	HAV	SURENDRAN NAIR N	01-09-96
714	2572389K	HAV	UNNICHATHAN C	01-12-96
715	2572319L	HAV	UPHAYABHANU PUTHENPURAYIL PILLAI	01-10-96
716	13609229X	HAV	VIJAY KUMAR PK	01-12-96

THE GRENADIERS

717	2664627L	HAV	ADITYA PRAKASH	01-12-96
718	2664606P	HAV	ARVIND SINGH	01-12-96
719	2664628N	HAV	BHAG SINGH	01-12-96
720	2664574X	HAV	BHURE LAL	01-10-96
721	2664546L	HAV	DAN SINGH	01-10-96
722	6462940M	HAV	GOPINATHAN PILLAI T R	01-01-97
723	2664611A	HAV	HARJINDER SINGH	01-12-96
724	2665787X	HAV	JAI PAL SINGH	01-09-96
725	2664474M	HAV	KARAN SINGH BIRMAN	01-09-96
726	2664623P	HAV	KARTAR SINGH	01-12-96
727	2664646W	HAV	MOHAN LAL	01-01-97
728	2664471Y	HAV	NABI SHER	01-09-96
729	2664520W	HAV	PIAR SINGH	01-09-96
730	2664562H	HAV	PURAN CHANDJ	01-10-96
731	2664637P	HAV	RAM BAHADUR	01-01-97
732	2664616Y	HAV	RAM KANWAR CHONDWAL	01-12-96
733	2664554K	HAV	RAM KUAR	01-10-96
734	2664682F	HAV	RAM SINGH	01-09-96
735	2664614N	HAV	RAMESHWAR	01-12-96
736	2665873H	HAV	SONAM RAM	01-10-96
737	2664619M	HAV	SULTAN SINGH	01-12-96
738	2664539H	HAV	SURAJ PAL	01-10-96

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

739	2765693P	HAV	JAGADALE NARAYAN RAMCHANDRA	01-12-96
740	2765638Y	HAV	K BHARATHAN	01-10-96
741	2765745A	HAV	M SHANMUGAM	01-01-97
742	2765666L	HAV	RAJARAM KAMAKAR	01-11-96
743	2765649L	HAV	RAMCHANDRA DHONDIRAM KALE	01-10-96
744	2765659P	HAV	S DEVENDARAN	01-11-96
745	2765744X	HAV	S GOVINDA RAJU	01-01-97
746	2765738K	HAV	SADASHIV MARUTI PATHROOT	01-01-97
747	2766670A	HAV	UDHEY BABURAO SHELKE	01-11-96
748	8022427F	HAV	VANKAMBLE BABASAHEB APPA	01-12-96

THE RAJPUTANA RIFLES

749	2867381M	HAV	AIDAN SINGH	01-10-96
750	2867125X	HAV	ARJUN SINGH	01-09-96
751	2867422L	HAV	BADRI	01-11-96
752	2867295F	HAV	DAYA RAM	01-10-96
753	2867190X	HAV	DIN MOHAMMAD	01-09-96
754	2867293W	HAV	GHANSHYAM NAIK	01-10-96
755	2867345F	HAV	GIAN CHAND	01-10-96
756	2867444K	HAV	HANUMAN SINGH SHEKHAWAT	01-12-96
757	2867514X	HAV	HARI RAM	01-01-97
758	2868814L	HAV	JAGDISH CHANDER	01-09-96

759	2867458K	HAV	JAGDISH PRASAD	01-12-96
760	2867375Y	HAV	JAGMAL SINGH	01-10-96
761	2867463P	HAV	JANARDANAN G	01-12-96
762	2867476M	HAV	KISHORI LAL	01-01-97
763	2867287H	HAV	KRIPA RAM	01-10-96
764	2867393F	HAV	LUKMAN KHAN	01-10-96
765	2867448A	HAV	MAHIMAN SINGH	01-12-96
766	2867238A	HAV	MANOHAR SINGH SHEKAWAT	01-10-96
767	2867410W	HAV	NAND LAL	01-11-96
768	2867231W	HAV	NATHU SINGH	01-09-96
769	2867374W	HAV	RAM ASSARYA	01-11-96
770	2867390N	HAV	RAM SINGH	01-11-96
771	13849343M	HAV	RAM SINGH	01-11-96
772	2867400M	HAV	RAMESHWAR LAL	01-11-96
773	2867281F	HAV	RANBIR SINGH	01-10-96
774	2867461K	HAV	SHRI RANG DADU PAWAR	01-12-96
775	2867362F	HAV	SHYAM NARAIN RAI	01-10-96
776	2867442Y	HAV	SITA RAM	01-12-96
777	2867261N	HAV	SUBEDAR	01-10-96
778	2867377K	HAV	SURENDER KUMAR SINGH	01-10-96
779	2969944P	HAV	TILAK RAJ	01-12-96
780	2867469W	HAV	UGRA SAIN PRASAD TIWARI	01-12-96

THE RAJPUT REGIMENT

781	2969958P	HAV	BAELU ROY	01-12-96
782	2969892K	HAV	BALDEV SINGH	01-10-96
783	2969948L	HAV	BHIM SINGH SHEKHAWAT	01-12-96
784	2969888F	HAV	BIKRAM SINGH	01-10-96
785	2969930P	HAV	CHANDER SINGH	01-11-96
786	2967757X	HAV	CHARANJIT	01-09-96
787	2968248L	HAV	CHOHNUS KUJUR	01-10-96
788	2969990K	HAV	DINANATH BORO	01-01-97
789	2969957M	HAV	GIAN SINGH	01-12-96
790	2969917L	HAV	GIRIJA PRASAD SINGH	01-11-96
791	5444783M	HAV	GUMAR SINGH V. KARMA	01-10-96
792	2969986F	HAV	GUPTESWAR THAKUR	01-01-97
793	2969945X	HAV	JAGMAL RAM ACHARYA	01-12-96
794	2969779P	HAV	LOK NATH SHARMA	01-10-96
795	2969824W	HAV	MAHTAB SINGH	01-10-96
796	2969946A	HAV	MOHAN SINGH FARTYAL	01-12-96
797	2969891F	HAV	MOTI	01-10-96
798	2969960M	HAV	NETRA BHADUR DARJEE	01-12-96
799	2969789Y	HAV	RAM BACHAN RAM	01-10-96
800	2969897H	HAV	RAM CHANDER SINGH	01-10-96
801	2969915A	HAV	RAM SEWAK	01-11-96
802	2969900X	HAV	RAMA DHAR	01-11-96
803	2969844K	HAV	RAMESHWAR	01-10-96
804	2969837N	HAV	ROHITASH	01-10-96
805	2969965L	HAV	SATISH CHAND	01-12-96
806	2969875K	HAV	SHIV BACHAN	01-10-96
807	2969760W	HAV	SHIV CHARAN SINGH	01-09-96
808	2969793F	HAV	TILA RAM	01-10-96
809	2969868N	HAV	VIJENDER SINGH	01-10-96

THE JAT REGIMENT

810	3164262P	HAV	BIR SINGH	01-10-96
811	3164193K	HAV	BIRBAL RAM VERMA	01-09-96
812	3164316L	HAV	JANARDHAN RAM	01-12-96
813	3164154L	HAV	MAHENDER SINGH	01-09-96
814	3164255Y	HAV	MAHENDRA LAL	01-10-96
815	3164268W	HAV	PURAN CHAND	01-10-96
816	2464229A	HAV	RAMESHWAR DAYAL	01-12-96
817	3164312P	HAV	SITA SARAN SHARMA	01-12-96
818	3164258M	HAV	SUMER SINGH	01-10-96

THE SIKH REGIMENT

819	3371677W	HAV	AMRIK SINGH	01-12-96
820	2464236W	HAV	GOPINATHAN PILLAI G	01-12-96
821	3370102P	HAV	GURCHARAN SINGH	01-09-96
822	3370047K	HAV	GURMIT SINGH	01-09-96
823	3371505F	HAV	JAGTAR SINGH	01-09-96
824	3370130F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-09-96

THE SIKH LIGHT INFANTRY

825	4453134M	HAV	AJIT SINGH	01-10-96
826	4453100Y	HAV	BUDHA	01-10-96
827	4453127W	HAV	MUL CHAND	01-10-96
828	7767707X	HAV	P PIRAMUTHU	01-01-97
829	4453136X	HAV	RAJ SINGH	01-10-96
830	4453135P	HAV	RATTAN CHAND	01-10-96
831	13850594X	HAV	SUKHDEV SINGH	01-01-97

THE DOGRA REGIMENT

832	3971316P	HAV	BABOO RAM	01-12-96
833	3971322H	HAV	BIR SINGH	01-12-96
834	3971349A	HAV	DEV RAJ	01-01-97
835	3971214Y	HAV	DHARAM DASS	01-10-96
836	3971301M	HAV	JANAK RAJ	01-12-96
837	3971292W	HAV	JODH RAM	01-12-96
838	3971252P	HAV	KHARAK SINGH	01-10-96
839	3971109H	HAV	KRISHAN LAL	01-09-96
840	3971110X	HAV	KULDEEP SINGH	01-09-96
841	3971327F	HAV	MANOHAR LAL	01-01-97
842	3971333P	HAV	NANAK CHAND	01-01-97
843	3971293Y	HAV	ONKAR CHAND	01-12-96
844	3971235P	HAV	PREM CHAND	01-10-96
845	3971308W	HAV	RAJA RAM	01-12-96
846	3971330F	HAV	RAM PHAL	01-01-97
847	3971182F	HAV	RAM SARUP	01-10-96
848	3972780L	HAV	SARDAR SINGH	01-01-97
849	3971271A	HAV	SUNDER SINGH	01-11-96
850	3971287L	HAV	TARA SINGH	01-12-96

 THE GARHWAL RIFLES

851	13735244Y	HAV	BASANT LAL	01-01-97
852	13850177L	HAV	DILWAR SINGH	01-11-96
853	13872877Y	HAV	GUNALAN	01-09-96
854	4053626X	HAV	HIRA LAL	01-01-97
855	2969942K	HAV	MUNSHI SINGH	01-12-96
856	2969893M	HAV	PRASANNA DEHURI	01-10-96
857	9214872L	HAV	RAGHBIR SINGH	01-12-96
858	5341673X	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-01-97
859	9214881M	HAV	RATNA BAHADUR SARKI	01-12-96
860	2969978H	HAV	SYAM BAHADUR THAPA	01-01-97

 THE KUMAON REGIMENT

861	4165130K	HAV	BALWANT SINGH	01-09-96
862	4165289P	HAV	BAS DEO	01-12-96
863	4165209M	HAV	BHUPAL SINGH DANU	01-10-96
864	4165160F	HAV	DHARAM SINGH	01-09-96
865	4165303W	HAV	DHARAM SINGH	01-01-97
866	4165283N	HAV	FAKIR SINGH	01-12-96
867	4166435W	HAV	GANESH SINGH	01-09-96
868	4252065W	HAV	HIRA LAL RAM	01-10-96
869	4165224F	HAV	JAGAN NATH	01-10-96
870	7767661A	HAV	JAGMOHAN YADAV	01-11-96
871	4165243M	HAV	JIT RAM	01-10-96
872	4165230P	HAV	KEDAR SINGH	01-10-96
873	4165217L	HAV	KHIM SINGH	01-10-96
874	4165314H	HAV	KISHAN SINGH	01-01-97
875	4165207F	HAV	KUSHAL RAM	01-10-96
876	4165194P	HAV	LACHHAM RAM	01-10-96
877	4165112F	HAV	LAXMAN SINGH	01-09-96
878	4165116X	HAV	PRAHALAD RAM TAMTA	01-09-96
879	4165109F	HAV	PRAHLAD SINGH	01-09-96
880	4165095M	HAV	RAJENDRA SINGH	01-09-96
881	4165296L	HAV	RAM LAL	01-01-97
882	4165176M	HAV	RAM SINGH	01-10-96
883	4165202H	HAV	RAM SINGH	01-10-96
884	4165286F	HAV	SARVAN LAL	01-12-96
885	4165144K	HAV	SHAMSHER CHAND	01-09-96
886	4165237Y	HAV	SHER SINGH	01-10-96
887	4165275P	HAV	TARA BAHADUR THAPA	01-12-96
888	4165214X	HAV	TIKA SINGH	01-10-96

 THE ASSAM REGIMENT

889	5444782K	HAV	AMAR BAHADUR BURUNG	01-10-96
890	4426293A	HAV	ANUKUL CHANDA	01-01-97
891	13863303L	HAV	DASS	01-10-96
892	4426324P	HAV	EAPEN V J	01-09-96
893	5444829K	HAV	HARI BAHADUR THAPA	01-01-97
894	4347475M	HAV	LAL BAHADUR CHHETRI	01-11-96
895	4426285F	HAV	RAM DAYAL SINGH	01-10-96
896	7767673P	HAV	RAMJI THAKUR	01-11-96

897	13863304N	HAV	RUPENDRA CHANDRA ROY	01-10-96
THE BIHAR REGIMENT				
898	4252098W	HAV	ANAND MOHAN PRAMANIK	01-12-96
899	4252005W	HAV	ANTHONY BILUNG	01-09-96
900	13857541F	HAV	BABU BHAI KADVA BHAI HOTHIA	01-10-96
901	4253546K	HAV	HARI ORAON	01-12-96
902	4252063A	HAV	KALI PADA MONDAL	01-10-96
903	4253484P	HAV	LALAN SINGH	01-11-96
904	4252041F	HAV	MAHADEO ORAON	01-10-96
905	4252071Y	HAV	MAHESHWAR PRASAD OJHA	01-10-96
906	4252007F	HAV	MARSALAN LUGUN	01-09-96
907	4253391A	HAV	MITHILESH SINGH	01-10-96
908	4251987P	HAV	MOD MASIH GURIA	01-09-96
909	4251965H	HAV	RAJESHWAR PRASAD VARMA	01-09-96
910	4253475N	HAV	RAM EKBAL SINGH	01-12-96
911	4252104Y	HAV	RAM RAJ SINGH	01-12-96
912	4252094A	HAV	RAMESHWAR THAKUR	01-12-96
913	4252101L	HAV	RAMJEE THAKUR	01-12-96
914	4253628M	HAV	SHRI BHAGWAN SAH	01-01-97
915	4253490H	HAV	WALTER KUJUR	01-11-96
THE MAHAR REGIMENT				
916	4543032X	HAV	BABU RAMCHANDRA SHINDE	01-01-97
917	4543014P	HAV	BHAGWAN BHIWAJI PANDE	01-10-96
918	9214792N	HAV	BHAGWAT CHAND KANDPAL	01-10-96
919	9214857W	HAV	GANGA DAYAL	01-11-96
920	9214863K	HAV	GARIB DASS	01-11-96
921	9214756H	HAV	GURCHARAN SINGH	01-09-96
922	9214793W	HAV	JOGENDRA NATH RAM	01-10-96
923	9214911Y	HAV	LACHHKARI RAM	01-01-97
924	9214903A	HAV	MOHAN LAL	01-01-97
925	9214828F	HAV	MUNSHI RAM	01-10-96
926	9214705X	HAV	PRITAM SINGH	01-10-96
927	4544550K	HAV	RAMACHANDRA GOPALA CHAVAN	01-12-96
928	4543285M	HAV	RAMACHANDRAN PILLAI P	01-11-96
929	9214806H	HAV	RANVIR	01-10-96
930	9214721M	HAV	RASARAJ SINHA	01-09-96
931	9214776W	HAV	SALIG RAM	01-10-96
932	9214874W	HAV	SHIV PRASAD	01-12-96
933	9214746Y	HAV	SHYAM SWARUP	01-09-96
934	9214830Y	HAV	SITA RAM	01-10-96
935	9214871H	HAV	SOHAN LAL	01-12-96
936	9214774L	HAV	SUKHDEV SINGH	01-09-96
937	9214836A	HAV	SURESH CHANDRA SINGH	01-10-96
938	9214704P	HAV	TEJ SINGH	01-10-96
939	9214827Y	HAV	TRILOKI THAKUR	01-10-96
THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES				
940	13735033W	HAV	JAGDISH RAJ	01-09-96
941	13735224L	HAV	JOGINDER SINGH	01-01-97
942	13795547X	HAV	MAM CHAND	01-10-96

943	13735226W	HAV	PREM SINGH	01-01-97
944	13735221X	HAV	PRITAM CHAND	01-01-97
945	13873509W	HAV	RAJ KUMAR	01-09-96
946	13735225N	HAV	RAJENDRA SINGH	01-01-97
947	13735220P	HAV	SHINGARA SINGH	01-01-97
948	13735215K	HAV	SHIVDEV SINGH	01-01-97
949	13735758W	HAV	ZAMEER	01-01-97

THE NAGA REGIMENT

950	4165228X	HAV	RAMESH CHAND	01-10-96
951	14700268A	HAV	THRILONGKYU SANGTAM	01-09-96

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

952	9078854A	HAV	BABU RAM	01-10-96
953	9079283Y	HAV	BALDEV RAM	01-12-96
954	9078809N	HAV	DARSHAN KUMAR	01-09-96
955	9079323P	HAV	DEWAN CHAND	01-12-96
956	9079320F	HAV	DHAN SINGH	01-12-96
957	9079012F	HAV	BH MOHD SHEIKH	01-11-96
958	9079258A	HAV	GULAB CHAND	01-12-96
959	9079414Y	HAV	GURBACHAN SINGH	01-01-97
960	9079421P	HAV	JANAK RAJ	01-01-97
961	9079002X	HAV	JANT RAM	01-11-96
962	9078932M	HAV	JOB RAJ	01-11-96
963	9078861W	HAV	JOGINDER SINGH	01-10-96
964	9079179L	HAV	JOGINDER SINGH	01-12-96
965	9079007W	HAV	KARTAR CHAND	01-11-96
966	9079862L	HAV	KEHAR SINGH LANGEH	01-12-96
967	9079373L	HAV	KRISHAN CHAND	01-01-97
968	9078914K	HAV	KRISHAN SINGH	01-11-96
969	9079126M	HAV	MADAN LAL	01-12-96
970	5341358F	HAV	MEKH LAL THAPA	01-09-96
971	9079110F	HAV	MOHAN LAL	01-12-96
972	9079301W	HAV	MOHAN SINGH	01-12-96
973	9079431Y	HAV	MOHD AMIN KHAN	01-01-97
974	9078818P	HAV	MOHD SLIM SHAH	01-09-96
975	9079392L	HAV	MOHINDER RAM	01-01-97
976	9078891F	HAV	MULK RAJ	01-10-96
977	9078774H	HAV	OM PARKASH	01-09-96
978	9079322P	HAV	PEERA RAM	01-12-96
979	9079145X	HAV	RACHPAL SINGH	01-12-96
980	9079086W	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-12-96
981	9079083N	HAV	RAM LAL	01-12-96
982	9079811X	HAV	ROSHAN LAL SADHU	01-01-97
983	9412903L	HAV	SARKA BAHADUR RAI	01-10-96
984	9078856A	HAV	SAT PAL	01-10-96
985	9079118M	HAV	SOM RAJ	01-12-96
986	9079073Y	HAV	SUBASH CHANDER	01-12-96
987	9079158P	HAV	SUBASH CHANDER	01-12-96
988	9079222F	HAV	SURAJ UD DIN	01-12-96
989	9079277L	HAV	SURAM DASS	01-12-96
990	9079286M	HAV	SWARAN SINGH	01-12-96
991	9078893Y	HAV	TIRATH SINGH	01-10-96

992	9079106Y	HAV	WAKIL SINGH	01-12-96
1 GORKHA RIFLES				
993	5039647Y	HAV	BEL BAHADUR GURUNG	01-01-97
994	5039560X	HAV	BHATA RAM GURUNG	01-10-96
995	5039416H	HAV	BIRJ MOHAN SINGH	01-10-96
996	5039622M	HAV	BISHAN DASS	01-10-96
997	5039451L	HAV	C B GURUNG	01-10-96
998	5039444P	HAV	DAL BAHADUR THAPA	01-10-96
999	5039531H	HAV	DAL BAHADUR THAPA	01-10-96
1000	5039602Y	HAV	DIL BAHADUR PUN	01-10-96
1001	5040226H	HAV	HEM BAHADUR THAPA	01-01-97
1002	5039486F	HAV	JOGINDER SINGH	01-10-96
1003	5039632W	HAV	JOYHIND PRAMANICK	01-12-96
1004	5039636M	HAV	KARKA BAHADUR TAMANG	01-12-96
1005	5039559H	HAV	KUL BAHADUR THAPA	01-10-96
1006	5039651F	HAV	KUL BAHADUR THAPA	01-01-97
1007	5039425K	HAV	MAHABIR	01-10-96
1008	5039439K	HAV	MUJIB AHMED	01-10-96
1009	5039434L	HAV	OM PARKASH	01-10-96
1010	5039633Y	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-01-97
1011	5039392K	HAV	RAM BAHADUR GURUNG	01-09-96
1012	5039455F	HAV	SAHA BIR GURUNG	01-09-96
1013	5039596W	HAV	SHER BAHADUR THAPA	01-10-96
1014	5039617F	HAV	SURINDER SINGH RANA	01-10-96
1015	5039387Y	HAV	TIKA BAHADUR GURUNG	01-09-96
3 GORKHA RIFLES				
1016	5241191N	HAV	AMAR BAHADUR GURUNG	01-10-96
1017	5241196M	HAV	DHAN BAHADUR TAMANG	01-10-96
1018	5241187L	HAV	PREM BAHADUR THAPA	01-10-96
1019	5241201M	HAV	PURNA BAHADUR PUN	01-12-96
4 GORKHA RIFLES				
1020	5341410Y	HAV	BALAVANT SINGH RAWAT	01-10-96
1021	5341404L	HAV	BHIM BAHADUR THAPA	01-10-96
1022	5341374Y	HAV	CHANDRA BAHADUR THAPA	01-09-96
1023	5341373W	HAV	DIL BAHADUR THAPA	01-09-96
1024	8022327W	HAV	JIT BAHADUR THAPA	01-11-96
1025	5341481A	HAV	LAL BAHADUR GURUNG	01-01-97
1026	5341344F	HAV	LOK BAHADUR THAPA	01-09-96
1027	5341364P	HAV	NAIN BAHADUR GURUNG	01-09-96
1028	5341337L	HAV	NAINA BAHADUR GURUNG	01-09-96
1029	5341360Y	HAV	OM BAHADUR GURUNG	01-09-96
1030	5341343Y	HAV	TEK BAHADUR THAPA	01-09-96
5 GORKHA RIFLES				
1031	5444777Y	HAV	BHARAT THAKUR	01-10-96
1032	5444780Y	HAV	CHITRA BAHADUR GURUNG	01-10-96
1033	5444806H	HAV	DEO KUMAR THAKUR	01-11-96
1034	5444773X	HAV	MAHENDRA SINGH	01-10-96

1035	5444802M	HAV	MAN BAHADUR TAMANG	01-10-96
1036	5444771X	HAV	RUJ BAHADUR RANA	01-10-96
8 GORKHA RIFLES				

1037	5747033X	HAV	CHAMAN LAL	01-11-96
1038	5745792Y	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-09-96
1039	5745946A	HAV	KRISHNA BAHADUR KHATRI CHHETRI	01-10-96
1040	5745903L	HAV	PURNA BAHADUR GURUNG	01-10-96
9 GORKHA RIFLES				

1041	5841999W	HAV	AMAR BAHADUR CHHETRI	01-10-96
1042	5842015A	HAV	BAL DEV THAKUR	01-12-96
1043	5842002H	HAV	BHIM BAHADUR CHHETRI	01-10-96
1044	5841981A	HAV	BHUWAN CHANDRA KAPIL	01-10-96
1045	5842016H	HAV	LAL BAHADUR THAPA	01-11-96
1046	5842020L	HAV	MAHENDAR RAM	01-12-96
1047	5842001A	HAV	RAM PRASAD PANDEY	01-10-96
11 GORKHA RIFLES				

1048	9413766K	HAV	DIL BAHADUR DEWAN	01-09-96
1049	9412858K	HAV	GARJA MAN RAI	01-09-96
1050	9412908K	HAV	PREM KUMAR GURUNG	01-10-96
1051	9413767M	HAV	SATYA MOHAN TAMANG	01-09-96
1052	9412874F	HAV	TAPAN KUMAR BISWAS	01-09-96
THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT				

1053	2664547N	HAV	ATIBAL PRASAD	01-10-96
1054	5745973K	HAV	GOPI GURUNG	01-01-97
1055	4165242K	HAV	ISHWAR SINGH	01-10-96
1056	3971193N	HAV	JAGAT SINGH	01-10-96
1057	2664577L	HAV	JAI SINGH	01-10-96
1058	2969992P	HAV	JOGINDER PAUL	01-01-97
1059	2765675M	HAV	KHARADE SHIVAJI DATTOBA	01-12-96
1060	5745913P	HAV	KHARKA BAHADUR GURUNG	01-10-96
1061	2867356N	HAV	LAXMAN BHARTI	01-10-96
1062	5745972F	HAV	MAN BAHADUR BURA	01-01-97
1063	2867301K	HAV	NARAIN SINGH	01-10-96
1064	2969747M	HAV	RAJIAN SINGH CHAUHAN	01-10-96
1065	2464154N	HAV	SHAKTI CHAND	01-10-96
1066	5745966N	HAV	TEK BAHADUR GURUNG	01-01-97
1067	4165119H	HAV	TIKA RAM	01-07-96
1068	2464209M	HAV	UTTAM CHAND	01-10-96
ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)				

1069	6366014K	HAV	AKBAL BAHADUR SINGH	01-12-96
1070	6365981M	HAV	AMRIK SINGH	01-12-96
1071	6366097A	HAV	ASARI PARTHAJI KAKAVAJI	01-01-97
1072	6366144M	HAV	ASHOK EKNATH BARGE	01-01-97
1073	6366062K	HAV	ATMARAM JAJARAM SOLUNKE	01-12-96
1074	6366002P	HAV	B HEMANTHA RAO	01-12-96

1075	6366432Y	HAV	BHAGAT RAM	01-12-96
1076	6366101X	HAV	BHIM SINGH	01-01-97
1077	6366165H	HAV	DEKELE VAIJNATH TATYABA	01-01-97
1078	6366104L	HAV	DHARAM PAL	01-11-96
1079	6365999H	HAV	DINANATH BISAN MESHRAM	01-12-96
1080	6366170N	HAV	GANESH BAHADUR THAPA	01-01-97
1081	6366166L	HAV	GHADAGE VASHISHTHA SRIPATI	01-01-97
1082	6366046M	HAV	GORE SURESH SADASHIV	01-12-96
1083	6366112K	HAV	HARI DAS T	01-12-96
1084	6366140W	HAV	INAYATHULLA KHAN	01-01-97
1085	6365980K	HAV	INDER SINGH	01-12-96
1086	6366122N	HAV	JAGDISH SINGH	01-01-97
1087	6366021A	HAV	JAI KARAN	01-12-96
1088	6366012Y	HAV	JAMONA DASS	01-12-96
1089	6648305A	HAV	JOGINDER SINGH	01-12-96
1090	6366136N	HAV	KALYAN SINGH	01-01-97
1091	6365977K	HAV	KAMAL BAHADUR BURUNG	01-09-96
1092	6365507Y	HAV	KEWAL SINGH	01-12-96
1093	6366137W	HAV	KIRPARAM NISHAD RAJPUT	01-01-97
1094	6366688F	HAV	KRISHNA PILLAI V	01-11-96
1095	6366063M	HAV	MADAN MOHAN SINGH	01-12-96
1096	6366075F	HAV	MD ABDUL MAZID	01-01-97
1097	6366008W	HAV	MURRARI LAL	01-12-96
1098	6366114P	HAV	OM PRAKASH TEOTIA	01-09-96
1099	6366132X	HAV	P CHANDRAN	01-09-96
1100	6365531P	HAV	RAM GOPAL YADAV	01-12-96
1101	6365504L	HAV	RAMESHWAR LAL	01-11-96
1102	6366059K	HAV	RAMOO RAM	01-12-96
1103	6366077M	HAV	RATNA RAM	01-01-97
1104	13936476N	HAV	RATNALA LAKSHMINARAYANA	01-09-96
1105	6366087W	HAV	SAHDEV SINGH	01-01-97
1106	6366134H	HAV	SAILENDRA CH RAVA	01-01-97
1107	6462637L	HAV	SASI DHARAN NAIR	01-10-96
1108	13872897M	HAV	SHANKAR	01-10-96
1109	6366139F	HAV	SHITALA PRASAD TIWARI	01-01-97
1110	6366006L	HAV	SOMARADDI KONNUR	01-12-96
1111	13863316H	HAV	SUBRAMANIAN S	01-01-97
1112	6366110Y	HAV	SUKADEO BAITHA	01-01-97
1113	6366111F	HAV	SURAJ BHAN	01-01-97
1114	6366124Y	HAV	VED PARKASH	01-01-97

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

1115	6462917Y	HAV	BABU BHAI RAJA BHAI MODIYA	01-01-97
1116	6366151H	HAV	BALU RAM	01-01-97
1117	6366106W	HAV	BRAHM DATT	01-01-97
1118	6462833L	DFR	DHANI RAM	01-12-96
1119	6462795L	HAV	DUNA SURIYA NARAYAN	01-12-96
1120	6366109K	HAV	GOVIND SINGH BHATI	01-01-97
1121	6366148H	HAV	GULZAR SINGH	01-01-97
1122	6462646M	HAV	INDER MOHAN SINGH	01-10-96
1123	6366084H	HAV	IQBAL MOHAMAD	01-12-96
1124	6462687W	HAV	JAGAN NATH	01-10-96
1125	6462605H	HAV	JAI SINGH	01-10-96
1126	6366011W	HAV	K M GEORGE	01-12-96

1127	6462800A	HAV	LACHHI RAM	01-12-96
1128	6462760W	HAV	MD SHARAFUDDIN	01-12-96
1129	6366027F	HAV	MUKAND SINGH	01-12-96
1130	6365985H	HAV	NAHAR SINGH	01-12-96
1131	6366155Y	HAV	R B V DHOKE	01-01-97
1132	6462899F	HAV	R SUBRAMANIAN	01-12-96
1133	6462585A	HAV	RAGHU RAM	01-10-96
1134	6365990N	DFR	RAJENDRA SINGH	01-12-96
1135	13862877L	HAV	RAM NARESH	01-01-97
1136	6462829H	HAV	RAM SURESH SINGH	01-12-96
1137	6462823F	HAV	RAM TEJ MISHRA	01-12-96
1138	13862871K	HAV	RAMESH KUMAR SINGH	01-12-96
1139	6365975Y	HAV	RATTAN SINGH	01-09-96
1140	6366152L	HAV	SAMANDAR SINGH	01-01-97
1141	6462914F	HAV	SANI CHARWA ORAON	01-01-97
1142	6462886K	DFR	SARADA THAKUR	01-12-96
1143	6365993F	DFR	SATYADEV PRASAD SHUKLA	01-12-96
1144	13863313P	HAV	SHRIJ BANAS SINGH	01-12-96
1145	6365992Y	HAV	SUBASH CHANDER DER KAPADE	01-12-96
1146	6462609Y	HAV	SURENDRA NATH MISHRA	01-10-96
1147	6366032M	HAV	VAIDYA NATH SINGH	01-12-96
ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)				

1148	6462638N	HAV	A M BASHEER	01-10-96
1149	13848473X	HAV	ABDUL MATIN	01-10-96
1150	13848803N	HAV	ABNEJAR TOPNO	01-10-96
1151	13850586K	HAV	AHIRE BHATU SONA	01-01-97
1152	13850170F	HAV	AJMER SINGH	01-11-96
1153	13850202Y	HAV	AMARJIT SINGH	01-12-96
1154	13848518M	HAV	AMUSANA SINGHA	01-10-96
1155	13851026X	HAV	ASISH CHAKRABORTY	01-01-97
1156	13848970F	HAV	ASOKAN P R	01-01-97
1157	13848438Y	HAV	BALAKRISHNAN T.V	01-10-96
1158	13850101N	HAV	BALWANT SINGH	01-12-96
1159	13851007N	HAV	BEJOY KUMAR SUBBA	01-01-97
1160	13851012Y	HAV	BHIM PRADHAN	01-01-97
1161	13850608M	HAV	BHULLAN RAM	01-01-97
1162	13848822W	HAV	BIHU RAM DEKA	01-12-96
1163	13848858P	HAV	BISWA NATH MONDAL	01-01-97
1164	13848654H	HAV	BRAJ KISHORE SINGH	01-12-96
1165	13848524A	HAV	CHANDESHWAR THAKUR	01-10-96
1166	13848700P	HAV	CHANDRA KUMARAN K	01-12-96
1167	13850418A	HAV	CHANDRA PRAKASH	01-12-96
1168	13848528W	HAV	CHANDRODAY SINGH	01-10-96
1169	13850413F	HAV	CHHEDA LAL SAKYA	01-12-96
1170	13850330N	HAV	CHHOTU RAM	01-12-96
1171	13848919F	HAV	D K BHATTACHARYYA	01-01-97
1172	13850296F	HAV	DAL SINGH	01-12-96
1173	13850212F	HAV	DARSHAN SINGH	01-12-96
1174	13848565K	HAV	DEBENDRA KUMAR PANDA	01-10-96
1175	13848504M	HAV	DEOSA RAM	01-04-96
1176	13848947N	HAV	DEVENDRA SINGH RATHORE	01-01-97
1177	13848745F	HAV	DHIREN CHANDRA DAS	01-12-96
1178	13850004N	HAV	DURGA PRASAD	01-10-96

1179	13850290A	HAV	GAJENDRA SINGH	01-12-96
1180	13848914H	HAV	GANESH KUMAR SINGH	01-01-97
1181	13850383K	HAV	GAPPU DAS	01-12-96
1182	13851014K	HAV	GATENDRA NATH RAY	01-01-97
1183	13849990F	HAV	BIAN CHAND	01-10-96
1184	13848890K	HAV	GOPI K K	01-01-97
1185	13850655K	HAV	GORAKHNATH NAMU MIKAM	01-01-97
1186	13848691W	HAV	GUNAKAR ROUT	01-12-96
1187	13850542F	HAV	GURUCHARAN SINGH	01-01-97
1188	13850386W	HAV	HIMMATH SINGH	01-12-96
1189	13850545P	HAV	HRIDAY RAM	01-01-97
1190	13850167F	HAV	JAGAT SINGH	01-11-96
1191	13850350K	HAV	JAGAT SINGH HOODA	01-12-96
1192	6462696X	HAV	JAGDISH CHAND	01-10-96
1193	13848431L	HAV	JA HAR LAL PARIA	01-10-96
1194	13850135M	HAV	JAI NARAYAN SHARMA	01-10-96
1195	13850464P	HAV	JAIBIR SINGH	01-12-96
1196	13850261L	HAV	JASBIR SINGH	01-12-96
1197	13850621W	HAV	JAWAHAR LAL RAM	01-01-97
1198	13848433W	HAV	JAYANTA MANDAL	01-10-96
1199	13850163X	HAV	JOGARAM CHANYAL	01-11-96
1200	13848604X	HAV	K C ABRAHAM	01-10-96
1201	13848397W	HAV	K RAM CHANDRAN PILLAI	01-09-96
1202	13850652Y	HAV	KABI RAJ NAYAK	01-12-96
1203	13848540X	HAV	KANHAYA RAM	01-10-96
1204	13850142P	HAV	KARAN SINGH	01-10-96
1205	13848550N	HAV	KEDAR MAHTO	01-10-96
1206	13848826M	HAV	KHAGENDRA CH DEKA	01-12-96
1207	13850604W	HAV	KISHAN CHAND LAKHANI	01-01-97
1208	13850439H	HAV	KISHAN KUMAR	01-12-96
1209	13850392W	HAV	KISHAN LAL VIKEY	01-12-96
1210	13848607L	HAV	KOCHU NARAYAN PILLAI	01-11-96
1211	13848541A	HAV	KULDIP PRASAD YADAV	01-10-96
1212	13848477K	HAV	KUMUD CHANDRA ADHIKARY	01-10-96
1213	13850105F	HAV	KUSHAL SINGH	01-10-96
1214	13850333K	HAV	LALLU SINGH	01-12-96
1215	13848939P	HAV	M RAJA GOPAL	01-01-97
1216	13850256A	HAV	M S JHATHADIYA	01-12-96
1217	13848688M	HAV	MAHAMAD MOJID	01-12-96
1218	13850064H	HAV	MAHAVIR SINGH	01-12-96
1219	13849987F	HAV	MANGAT RAM	01-10-96
1220	13849962P	HAV	MANI RAM	01-10-96
1221	13848835H	HAV	MARUTHAKASI P	01-12-96
1222	6462666A	HAV	MD MANTAZ ALI	01-10-96
1223	13848837Y	HAV	MIRIYALA KESAI AH	01-12-96
1224	13848436K	HAV	MOHANAN V K	01-10-96
1225	13850156P	HAV	MOTHALIYA BABUSINH DITAJI	01-10-96
1226	13850377H	HAV	MOTI CHAND RAM	01-12-96
1227	6462759P	HAV	MURARI LAL	01-12-96
1228	13848767L	HAV	NARAYAN CHANDRA RAKSA	01-12-96
1229	13848763P	HAV	NARENDRA PRASAD	01-12-96
1230	13850368A	HAV	NEEMA RAM	01-12-96
1231	13850020X	HAV	OM PRAKASH PAREEK	01-10-96
1232	13850330H	HAV	ONKAR SINGH	01-12-96
1233	13848727K	HAV	P APPUNI	01-12-96

1234	13848437M	HAV	PADMANABHAN P V	01-10-96
1235	6462751H	HAV	PARSHOTAM SINGH	01-12-96
1236	13848562W	HAV	PHEKU ROY	01-10-96
1237	13848426A	HAV	PRAFULLA CHANDRA BORAH	01-10-96
1238	13848999K	HAV	PRAFULLA KUMAR NATH	01-01-97
1239	13848690N	HAV	PRASANNA KUMAR MAHAPATRA	01-12-96
1240	138510110N	HAV	PUKESH RAI	01-01-97
1241	13851032M	HAV	R P RAJAGOPALAN	01-01-97
1242	6462634K	HAV	RAGHUEIR SINGH SAMANT	01-10-96
1243	13850226H	HAV	RAJ SINGH	01-12-96
1244	13848888M	HAV	RAJAN K	01-01-97
1245	13848732P	HAV	RAJAN KARIPPIDIYIL	01-12-96
1246	13850607K	HAV	RAJENDRA CHAUBEY	01-01-97
1247	13850605F	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-01-97
1248	13848995N	HAV	RAM AWADHESH SINGH	01-01-97
1249	6462697A	HAV	RAM BABU CHOUDHARY	01-10-96
1250	13850329F	HAV	RAM BACHAN SINGH	01-12-96
1251	13850162H	HAV	RAM DAS BHARGAV	01-11-96
1252	13850282P	HAV	RAM DHARI	01-12-96
1253	13848515Y	HAV	RAM EKBAL RAI	01-10-96
1254	13848595A	HAV	RAM JATAN YADAV	01-10-96
1255	13850599W	HAV	RAM KRIT RAM	01-01-97
1256	13850515P	HAV	RAM PRAKASH	01-01-97
1257	13848544N	HAV	RAM PRAVESH OJHA	01-10-96
1258	13850463M	HAV	RAM SANEHI	01-12-96
1259	13848539L	HAV	RAM SANEHI SINGH	01-10-96
1260	13848725Y	HAV	RAM SARAN YADAV	01-12-96
1261	13850514P	HAV	RAM SWARUP	01-01-97
1262	13850544M	HAV	RAMA SHANKER	01-01-97
1263	13849986Y	HAV	RAMESH CHAND	01-10-96
1264	13850428F	HAV	RAMESH CHANDRA	01-12-96
1265	13850159P	HAV	RATTAN CHAND	01-10-96
1266	13848802Y	HAV	RAVINDRA NATH SINGH	01-12-96
1267	13848577Y	HAV	S C MAJUMDER	01-10-96
1268	13848830P	HAV	S SINHA SAMY	01-12-96
1269	13851001M	HAV	SANKAR DEO BORO	01-01-97
1270	13850391N	HAV	SARUP SINGH	01-12-96
1271	13850297H	HAV	SASI KUMAR B	01-12-96
1272	13848979W	HAV	SATYA NARAIN RAI	01-01-97
1273	13850153F	HAV	SATYA PAL SINGH	01-10-96
1274	13848878H	HAV	SAYULU	01-01-97
1275	13850606F	HAV	SHED MOHAN SINGH	01-01-97
1276	13850529X	HAV	SHIV DAN ARYA	01-01-97
1277	13850260H	HAV	SHIV VIR SINGH	01-12-96
1278	13850493K	HAV	SHRI LAL	01-12-96
1279	13850199K	HAV	SHYAM LAL	01-12-96
1280	13848915L	HAV	SHYAM SUNDAR THAKUR	01-01-97
1281	13850510Y	HAV	SIDDHI NATH TIRPATHI	01-01-97
1282	13849998N	HAV	SITA RAM	01-10-96
1283	13850539P	HAV	SIYA RAM	01-01-97
1284	13850369H	HAV	SOHAN RAM	01-12-96
1285	13848908P	HAV	SOSODHAR SAHI	01-01-97
1286	13848574L	HAV	SUFAL HAZRA	01-10-96
1287	13848701P	HAV	SUGATHAN M M	01-12-96
1288	13848892P	HAV	SUKUMARAN V	01-01-97

1289	13850005W	HAV	SURENDRA PAL	01-10-96
1290	13848756Y	HAV	TAPAN KUMAR DAS	01-12-96
1291	13848779A	HAV	TAPAN KUMAR MANDAL	01-12-96
1292	6462760W	HAV	TARA CHAND	01-12-96
1293	13850602L	HAV	TEJNARAIN SINGH	01-01-97
1294	13850331F	HAV	UMA SHANKER RAM	01-17-96
1295	13848440M	HAV	LUNNIKRISHNAN K V	01-10-96
1296	13850139P	HAV	VIDYA SHANKAR	01-10-96
1297	13850584P	HAV	VISHWAS	01-01-97
1298	13850453H	HAV	YAD RAM	01-12-96
1299	13850466A	HAV	YUGUL KISHOR	01-12-96

ARMY MEDICAL CORPS

1300	13936574N	HAV	AYYAN KALIT	01-10-96
1301	13936567X	HAV	BASAPPA SHIDDAPPA DEYANNAVAR	01-10-96
1302	13936544W	HAV	BUCH KIRAN KUMAR VIJAY KUMAR	01-09-96
1303	13936496F	HAV	DUKPY	01-07-96
1304	13936495Y	HAV	JOSEPH C G	01-09-96
1305	13936530W	HAV	MADI RUNDA	01-09-96
1306	13936618A	HAV	NARAYAN DATT SUYAL	01-11-96
1307	13936594Y	HAV	PREM SINGH	01-10-96
1308	13936470M	HAV	RAM CHANDER	01-07-96
1309	13936563F	HAV	RAMA SHANKAR	01-10-96
1310	13936620K	HAV	SATYA PAL SINGH	01-17-96
1311	14526577W	HAV	SOMASUNDARAN P	01-01-97

ARMY ORDNANCE CORPS

1312	6905567F	HAV	BAJIR SINGH	01-07-96
1313	6907056M	HAV	BALDEV SINGH	01-10-96
1314	6905503Y	HAV	BELESHWAR SINGH	01-10-96
1315	6908946H	HAV	BHRAMARBAR BISWAL	01-09-96
1316	6905552Y	HAV	DINA NATH	01-09-96
1317	6907311X	HAV	K KANNAN	01-09-96
1318	6907390X	HAV	MONNAPPA P U	01-12-96
1319	6907479K	HAV	NANDU SAHANI	01-10-96
1320	6906940M	HAV	NARDEV SINGH PARMAR	01-11-96
1321	6908005P	HAV	NOOR ALI	01-11-96
1322	6907369P	HAV	P THOMAS	01-09-96
1323	6907794A	HAV	PURUSHAN B	01-17-96
1324	6907027A	HAV	RAKESH KUMAR	01-11-96
1325	6905505F	HAV	RAM PRASAD	01-09-96
1326	6907118Y	HAV	RAMCHANDER SINGH	01-09-96
1327	6906233Y	HAV	RAVEENDRAN PILLAI P G	01-09-96
1328	6906534H	HAV	SIMON HEMBROM	01-10-96
1329	6907419P	HAV	SUNIL KUMAR GHOSH	01-10-96
1330	6907670K	HAV	V SELVARAJ	01-11-96

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

1331	14511521M	HAV	A THAMILARASU	01-01-97
1332	14511619A	HAV	AMRIK SINGH	01-01-97
1333	13850020L	HAV	ARJUN PRASAD	01-10-96
1334	145110680	HAV	AWDESH PANDEY	01-12-96

1335	14510873X	HAV	B H LIMBAJI	01-11-96
1336	14511406M	HAV	B MOHANAN	01-12-96
1337	14511423M	HAV	BABU LAL RAY	01-12-96
1338	14511459L	HAV	BABU RAM	01-01-97
1339	14511141N	HAV	BACHAN SINGH	01-11-96
1340	14511166A	HAV	BADRI NARAIN TRIPATHI	01-12-96
1341	14511076Y	HAV	BAGATHI RAMA RAD	01-12-96
1342	14511147P	HAV	BAISHNAB CHARAN PATTNAIK	01-12-96
1343	14509397X	HAV	BANI SINGH	01-05-96
1344	14511192F	HAV	BANKAR HANUMANT GIRJAPPA	01-12-96
1345	14511597M	HAV	BASAVA RAJ	01-01-97
1346	14511317N	HAV	BENI BAHADUR KHADKA	01-12-96
1347	14510502P	HAV	BHAGABAN MOHANTY	01-11-96
1348	14511050K	HAV	BHAGWAN SINGH	01-12-96
1349	14511634P	HAV	BHAGWAN SINGH	01-01-97
1350	14510872P	HAV	BHAGWATI PRASAD	01-11-96
1351	14511228P	HAV	BHAKTA NATH ORAON	01-12-96
1352	14510362N	HAV	BHARAT LAL GUPTA	01-11-96
1353	14511012N	HAV	BHARATHAN P	01-11-96
1354	14510625F	HAV	BHIM RAO SUTAR	01-11-96
1355	14511786W	HAV	BHOJAPPA	01-01-97
1356	14511406P	HAV	BIRENDER BAHADUR	01-01-97
1357	14510555N	HAV	BIRENDRA NATH SINHA	01-11-96
1358	14510579X	HAV	BIRENDRA PRASAD SINGH	01-11-96
1359	14511318W	HAV	BIRENDRA SHARMA	01-12-96
1360	14510975N	HAV	C SEEMA RAJ	01-11-96
1361	14511540X	HAV	CHANDRADEO PRASAD	01-12-96
1362	14510103L	HAV	CHAUDHARI RAM CHANDRA	01-09-96
1363	14511702X	HAV	CHHOTTE LAL VERMA	01-01-97
1364	14510309H	HAV	CHINDE VASANT NARSAPPA	01-10-96
1365	14510901Y	HAV	D RETHINAM	01-11-96
1366	14510563M	HAV	DALJEET SINGH	01-11-96
1367	14511547F	HAV	DAMODAR PANDEY	01-12-96
1368	14510772K	HAV	DASARI PANDURANGARAO	01-11-96
1369	14511665P	HAV	DAYA SHANKAR SINGH	01-01-97
1370	14510211P	HAV	DEBENDRA NATH PATHAK	01-09-96
1371	14511114K	HAV	DEEN BANDHU	01-12-96
1372	14511074N	HAV	DEO SHARAN SINGH YADAV	01-12-96
1373	14511213M	HAV	DHANU KUMAR SAHA	01-12-96
1374	14511233A	HAV	DILBAR SINGH NEGI	01-12-96
1375	14447472Y	HAV	DINESH KUMAR	01-01-97
1376	14510648H	HAV	DURYODHAN PATRA	01-11-96
1377	14511003W	HAV	GANES CHANDRA DAS	01-01-97
1378	14510102L	HAV	GIAN SINGH	01-09-96
1379	13849227M	HAV	GIRDHARI LAL PAL	01-07-96
1380	14514359L	HAV	GULAB CHANDRA	01-04-96
1381	14511093Y	HAV	GURMUKH SINGH	01-12-96
1382	14511600F	HAV	GURU SHANTAPPA	01-01-97
1383	14511236N	HAV	GURVIR SINGH	01-12-96
1384	14510763Y	HAV	HANAMANT KAMATI	01-11-96
1385	14511478W	HAV	HANUMAN PRASAD	01-01-97
1386	14510399P	HAV	HANUMANTHU G	01-11-96
1387	14511495W	HAV	HARDEV SINGH	01-01-97
1388	14510461W	HAV	HARENDRA NATH SAHA	01-11-96
1389	14511668H	HAV	HARI KRISHNA YADAV	01-01-97

1390	14511526L	HAV	HARI PRASAD GAUTAM	01-11-96
1391	14510393N	HAV	HARJIT SINGH KANTHWAL	01-11-96
1392	14511205N	HAV	HARMINDER SINGH	01-12-96
1393	14511712F	HAV	INDRA PAL SINGH	01-01-97
1394	14510582X	HAV	ISHWAR PRASAD	01-11-96
1395	14511245P	HAV	JAGDISH CHANDRA DUBE	01-12-96
1396	14510057F	HAV	JAI BHAGWAN SHARMA	01-09-96
1397	14510255M	HAV	JANGA BAHADUR CHHETRI	01-10-96
1398	7118909X	HAV	JASPAL SINGH NAYYAR	01-10-96
1399	14510632X	HAV	JASWANT SINGH	01-11-96
1400	14511145K	HAV	JHALMAN RAM	01-12-96
1401	14510803Y	HAV	JOGRAJ SINGH	01-11-96
1402	14510061K	HAV	K GOPINATHAN NAIR	01-09-96
1403	14510908H	HAV	K KALIMUTHU	01-11-96
1404	14511670A	HAV	K SHANKARAN NARAYANAN	01-01-97
1405	14510636N	HAV	KAJI DAUT GULAB	01-11-96
1406	14510409N	HAV	KALE ASHOK BHIM RAO	01-11-96
1407	14516754X	HAV	KALI CHARAN	01-01-97
1408	14511742Y	HAV	KALYAN KANTHI BISWAS	01-01-97
1409	14511287F	HAV	KALYAN ROY	01-12-96
1410	14510321K	HAV	KALYAN SINGH	01-10-96
1411	14511725Y	HAV	KAMACHHYA THAKUR	01-01-97
1412	14510261A	HAV	KAMALAKANT DUBEY	01-10-96
1413	14510076L	HAV	KANWAR PAL SINGH DOGRA	01-11-96
1414	14510760H	HAV	KARNAJL SINGH	01-11-96
1415	14511543L	HAV	KARUN CHANDRA DAS	01-12-96
1416	14510496M	HAV	KESHAB CHANDRA BEHERA	01-11-96
1417	14511203L	HAV	KHAGES CHANDRA PAL	01-12-96
1418	14511279H	HAV	KHET SINGH	01-12-96
1419	14510317F	HAV	KONDAPAKA RAIRNDRA CHARI	01-11-96
1420	14511726F	HAV	KRISHNAN M	01-01-97
1421	14511730K	HAV	KULDIP SINGH	01-01-97
1422	14511407X	HAV	KULDIP SINGH	01-01-97
1423	7118797H	HAV	L SETHURAMU	01-10-96
1424	14510501P	HAV	LAL BAHADUR SINHA	01-11-96
1425	14510545K	HAV	LAL SINGH	01-11-96
1426	14510313I	HAV	LALA RAM	01-11-96
1427	14510479M	HAV	LALAN PRASAD GUPTA	01-11-96
1428	14510603L	HAV	LALBAHADUR SINGH	01-11-96
1429	14511219N	HAV	LEKSHMAN CHETTIAR	01-12-96
1430	14510469H	HAV	MADAN LAL SHARMA	01-11-96
1431	14511416W	HAV	MAHABIR SINGH	01-01-97
1432	14510675H	HAV	MAHENDRA SINGH BHARDWAJ	01-11-96
1433	14510940K	HAV	MAL SINH VIJAY SINH MUNIA	01-11-96
1434	14511373M	HAV	MANE BHAGAWAN JOTI	01-12-96
1435	14511401W	HAV	MATHURA PRASAD	01-01-97
1436	14511019W	HAV	MD ABDUL SATTAR	01-01-97
1437	14511099A	HAV	MD HABIB	01-12-96
1438	14510690H	HAV	MD HUDARIS ALI MAZUMDAR	01-11-96
1439	14511337F	HAV	MD SARVER	01-12-96
1440	7118780F	HAV	MEHAR CHAND	01-10-96
1441	14510405X	HAV	MEWA LAL	01-11-96
1442	14512935I	HAV	MUJAN RAM	01-05-96
1443	14521123Y	HAV	MOHAN LAL VERMA	01-01-97
1444	14510350Y	HAV	MOHANAN PILLAI	01-11-96

1445	14511242F	HAV	MCHINDER SINGH SANGWAN	01-12-96
1446	14510136W	HAV	MUNNA LAL	01-09-96
1447	14511476L	HAV	N JAYA RAMAN	01-01-97
1448	14510758X	HAV	NABIN SAIKIA	01-11-96
1449	14510067L	HAV	NABINN CHANDRA BORDOI DJ	01-09-96
1450	14510541N	HAV	NAGENDRA GIRI	01-11-96
1451	14510744X	HAV	NAIKI RAM	01-11-96
1452	14510218Y	HAV	NAND SINGH	01-09-96
1453	14511148X	HAV	NARAHARI BEHERA	01-12-96
1454	14511086H	HAV	NARAYANAN I	01-11-96
1455	14511321W	HAV	NITYA GOPAL BANERJEE	01-12-96
1456	7110811K	HAV	OM PARKASH RAJOTIA	01-10-96
1457	14510982K	HAV	P CHELLAPPA	01-11-96
1458	14510991L	HAV	P RAMAN	01-11-96
1459	14511647M	HAV	PADMANABHAN M	01-01-97
1460	14510090Y	HAV	PALURAM SAHARAN	01-09-96
1461	14511834L	HAV	PANDYA MANOJ KUMAR ULIN CHANDRA	01-01-97
1462	14511126Y	HAV	PARASHU RAM	01-12-96
1463	14510947F	HAV	PARMAR JAYANTILAL SURPAL BHAI	01-11-96
1464	14510369X	HAV	PARWINDER SINGH	01-11-96
1465	14510302N	HAV	PATNU KUMAR BASAK	01-08-96
1466	14510467X	HAV	PAVAN KUMAR PANDEY	01-11-96
1467	14510173K	HAV	PRABHAKARAN PILLAI	01-07-96
1468	14510537L	HAV	PRABHU NATH PANDEY	01-11-96
1469	14510409W	HAV	PRAHLAD SINGH JHAJHARIA	01-11-96
1470	14551095K	HAV	PRAKASH CHAND	01-12-96
1471	14510089K	HAV	PREM CHAND	01-07-96
1472	14511341K	HAV	PREM SHANKER ADIBASI	01-12-96
1473	14510890X	HAV	PREMAN K V	01-11-96
1474	14510624Y	HAV	PURAN SAHU	01-11-96
1475	14511308M	HAV	PURAN SINGH	01-12-96
1476	14511494N	HAV	RABINDRANATH SINGH	01-01-97
1477	14511210Y	HAV	RADHESHYAM NANDLAL JOSHI	01-12-96
1478	14510501Y	HAV	RAJA KISHOR BEHERA	01-11-96
1479	14511336Y	HAV	RAJBIR SINGH	01-12-96
1480	14510666L	HAV	RAJBIR SINGH SEHRAWAT	01-11-96
1481	14511612W	HAV	RAJENDRA KUMAR	01-01-97
1482	14511651P	HAV	RAJENDRA PRASAD SINGH	01-01-97
1483	14510486H	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-96
1484	14510207M	HAV	RAJINDER KUMAR	01-09-96
1485	14511309P	HAV	RAKESH KUMAR SINGH	01-12-96
1486	14510564P	HAV	RAM ALTAR MISRA	01-11-96
1487	14511380P	HAV	RAM AYODHYA SINGH	01-12-96
1488	14511721H	HAV	RAM BHAI	01-01-97
1489	14510828I	HAV	RAM CHANDRA	01-11-96
1490	14510343H	HAV	RAM GOPAL DAS	01-11-96
1491	14510288X	HAV	RAM NARESH	01-10-96
1492	14510824P	HAV	RAM NARESH SINGH	01-11-96
1493	14511613Y	HAV	RAM NATH SINGH	01-01-97
1494	14511094F	HAV	RAM PRAWESH SAH	01-12-96
1495	14511469P	HAV	RAM RUP	01-01-97
1496	14511610L	HAV	RAM SEVAK HAJRA	01-01-97
1497	14511122H	HAV	RAM SHANKAR SINGH	01-12-96
1498	14511700M	HAV	RAM SIROMANI	01-01-97
1499	14511485M	HAV	RAMAVTAR SINGHARAJA	01-01-97

1500	7119100W	HAV	RAMESH CHANDRA	01-03-96
1501	14510316Y	HAV	RAMESH CHANDRA	01-11-96
1502	14510653N	HAV	RAMESH CHANDRA DAHA	01-11-96
1503	14510240K	HAV	RAMESHWAR SINGH	01-10-96
1504	14510146A	HAV	RAMNATH SINGH	01-09-96
1505	14510459Y	HAV	RANA PRATAP SINGH	01-11-96
1506	13850086F	HAV	RANJIT SINGH	01-10-96
1507	14510375L	HAV	RANVIR SINGH	01-11-96
1508	14511113F	HAV	RATNESWAR SAIKIA	01-12-96
1509	14511523X	HAV	RAVINDRAN	01-01-97
1510	14511331A	HAV	RAVIPAL SINGH	01-12-96
1511	14510440A	HAV	S CHENGALVARAYAN	01-11-96
1512	14510976W	HAV	S GOPALAGIRI	01-11-96
1513	14511984P	HAV	S K H KAJEM ALI	01-01-97
1514	14510324X	HAV	S SUKUMARAN	01-10-96
1515	14510769K	HAV	SAJADUDDIN ALAM	01-11-96
1516	14512031L	HAV	SAKTI DHAR MOHANTY	01-09-96
1517	14510482M	HAV	SANT RAM PANCHAL	01-11-96
1518	14510473L	HAV	SANTOSH KUMAR PANDEY	01-11-96
1519	14511432N	HAV	SASIKUMARAN NAIR G	01-12-96
1520	14519644N	HAV	SATENDRA KUMAR MANJHI	01-10-96
1521	14510100A	HAV	SATISH KUMAR DASS	01-09-96
1522	14510860A	HAV	SATYA PRAKASH	01-11-96
1523	14510444W	HAV	SHAMBHU PRASAD	01-11-96
1524	14511344X	HAV	SHANKAR LAL DAMOR BHII	01-12-96
1525	14510510N	HAV	SHANKER BHAGWAN YADAV	01-11-96
1526	14511170P	HAV	SHANKER DAYAL SINHA	01-12-96
1527	14510448M	HAV	SHARADA PRASAD WISHWAKARMA	01-11-96
1528	14510540L	HAV	SHIV KUMAR RAI	01-11-96
1529	14511599X	HAV	SIDDAPPA LAXMAN JADHAV	01-01-97
1530	14510359N	HAV	SOHAN LAL DARRAL	01-10-96
1531	14511273F	HAV	SOMDAT SINGH	01-12-96
1532	14511804N	HAV	SOUNDATTIAR BANDU	01-01-97
1533	14510495K	HAV	SUBHASH CHANDRA BISWAS	01-11-96
1534	14511421F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-12-96
1535	14510465M	HAV	SURAJ BHAN	01-11-96
1536	14510516P	HAV	SURENDRA KUMAR SINGH	01-11-96
1537	14510460N	HAV	SURESH CHANDRA	01-11-96
1538	14511397W	HAV	SURINDER KUMAR SHARMA	01-12-96
1539	14511023A	HAV	SURINDER MASIH	01-11-96
1540	12402651M	HAV	TAJBAR SINGH CHAUHAN	01-12-96
1541	14511112Y	HAV	TALEWAR SINGH	01-12-96
1542	14519657I	HAV	TEJPAI SINGH	01-10-96
1543	14510787M	HAV	THIPPAIAH P	01-11-96
1544	14511484K	HAV	TRIVEN DUTT	01-01-97
1545	14510839X	HAV	TULSIDAS CHATTERJEE	01-12-96
1546	14510086W	HAV	UNNI KRISHNAN M.K	01-09-96
1547	14513690M	HAV	UPENDRA PRASAD GUPTA	01-04-96
1548	14510850H	HAV	V SUBRAMANIAN	01-11-96
1549	14510724K	HAV	VIDYA SAGAR	01-11-96
1550	14517386A	HAV	VIJAI SINGH	01-01-97
1551	14510345N	HAV	VIJAY KUMAR P B	01-11-96
1552	14511750K	HAV	VIMAL KUMAR K	01-01-97
1553	14510494F	HAV	VISHRAM PRASAD	01-11-96
1554	14511460A	HAV	VISHWA NATH TIWARY	01-01-97

1555	14518917K	HAV	YAM SINGH THAPA	01-11-96
1556	14518720N	HAV	YOGENDRA GIRI	01-11-96
ARMY EDUCATION CORPS				

1557	9506183N	HAV	ARJUN SINGH	01-09-96
1558	9506207M	HAV	INDU MOHAN NATH	01-11-96
1559	9506193X	HAV	JAYARAM NAIR P	01-09-96
1560	9506217W	HAV	PARKASH CHAND	01-11-96
1561	9506181H	HAV	PARMANAND PRASAD	01-09-96
1562	9506197N	HAV	PRATIPAL SINGH JADON	01-10-96
REMOUNT AND VETERINARY CORPS				

1563	7236451W	HAV	RAM LAL	01-01-97
1564	7236044M	DFR	SULTAN SINGH	01-01-97
CORPS OF MILITARY POLICE				

1565	7767663L	HAV	BANSHI DHAR	01-11-96
1566	1053091M	HAV	GEORGE K M	01-12-96
1567	7767711A	HAV	JAWAHAR SINGH	01-01-97
1568	7767603Y	HAV	LAJSHMESHWAR THAKUR	01-12-96
1569	7767694L	HAV	LAL BABU SINGH	01-12-96
1570	13670315Y	HAV	NARENDRA SINGH	01-12-96
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS				

1571	1565943L	HAV	HANUMANT SHINDE	01-09-96
THE PIONEER CORPS				

1572	8022097E	HAV	MADAN RAM	01-10-96
1573	8022040A	HAV	RAMAKANT	01-11-96
ARMY POSTAL SERVICE				

1574	13848925P	HAV	K A ANTONY	01-01-97
1575	9214738A	HAV	RAMESH CHANDRA DEVRANI	01-09-96
1576	1259424N	HAV	SURJIT SINGH	01-11-96
DEFENCE SECURITY CORPS				

1577	6637649Y	HAV	HARI PRASAD	01-10-96
1578	11125987K	HAV	LACHHMAN SINGH	01-12-96
1579	6635547K	HAV	BANVARI LAL	01-01-97
TERRITORIAL ARMY				

1580	10210537	HAV	AMAL KUMAR JOARDER	01-08-96
1581	10314020	HAV	ARJUN SINGH	01-01-97
1582	10451623	HAV	A SAYEED	01-03-96

1583	10181390	HAV	BAL MUKUND PATEL	01-10-96
1584	10210529	HAV	BINOD RANJAN ROY	01-08-90
1585	10404470	HAV	CHANDRA PRAKASH	01-06-96
1586	10419925	HAV	C RAMAN GOUDA	01-12-96
1587	10244062	HAV	KH JADU SINGH	01-01-97
1588	10244133	HAV	LACHIT CHANDRA LASKAR	01-01-97
1589	10149635	HAV	MAHADEVPPA DAMBAL	01-09-96
1590	10404509	HAV	MAHENDERA SINGH PAL	01-01-97
1591	10404549	HAV	RAM KARAN SINGH	01-01-97
1592	10404439	HAV	RAM PAL SINGH	01-02-96
1593	10404502	HAV	RUK MANGAL DASS	01-01-97
1594	10419868	HAV	SHRISAIL MANUR	01-10-96
1595	10404558	HAV	LIDAJ PRATAP	01-01-97
1596	10149669	HAV	VASANT PATIL	01-09-96

[B/43432/RD97/AG/CW-2]

M. S. SOKHANDA, Jr. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. वि. आ. 4 (अ)—दिनांक 26 जनवरी 1997.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

भारतीय नौ सेना

स्थायी काइर

विशेष इयुटी सूची

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को विशेष सूची पर 26 जनवरी 97 से अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है :—

अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष इयुटी) के पद पर

क्र.सं.	नाम	रैंक	नम्बर
01.	राम कुमार	एम सी पी ओ I (एस पी टी आई)	049345-जैड
02.	वेद प्रकाश	एम सी पी ओ I (एस आर I)	048875-एफ
03.	पृथ्वी राज	एम सी पी ओ I (जी आई)	049224-जैड
04.	डी डी भट्ट	एम सी पी ओ I (आर पी I)	067988-डब्ल्यू
05.	बिक्रम सिंह	एम सी पी ओ I (आर सी I)	066966-वाई
06.	आर बी भाहटो	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I	081090-वाई
07.	आनन्द प्रकाश	एम सी पी ओ सी के (एस)	080464-जैड
08.	पी चांद	एम सी पी ओ सी के (एस) I	080018-के
09.	ओम प्रकाश	एम सी पी ओ (ए एफ) I	088199-बी
10.	जे एस शर्मा	एम सी ए (ए एच) I	082114-जैड
11.	जे आर गुप्ता	एम सी ए (पी एच) I	049681-एन
12.	कृपाल सिंह	एम सी एम ई सी एच (ए आर) I	088334-के
13.	आर आर केंजाले	एम सी ए (ए एच) I	067911-डब्ल्यू
14.	जी एस रावत	एम सी ए (ए एच) I	083676-जैड
15.	जी सुब्रामण्यन	एम सी पी ओ आर (टी ई एल) I (डब्ल्यू आई)	086759-एफ
16.	के पी पी नैयर	एम सी पी ओ आर (टी ए सी) I (एस आई)	086785-आर
17.	बी सिंह	एम सी एम ई सी एच I	086766-वाई
18.	मोहन लाल	एम सी एम ई I	086297-एफ
19.	मोहर सिंह	एम सी एम ई I	086059-आर
20.	सी एस पी रेड्डी	एम सी ई आर ए I	052520-आर
21.	देवी प्रसाद	एम सी एम ई I	056041-टी
22.	एच आर यादवा	एम सी एम ई सी एच I	095308-के
23.	पी के नाथ	एम सी एम ए आर I	051618-आर
24.	कपूर सिंह	एम सी ई एल पी I	083644-ए
25.	के एस पिस्सई	एम सी ई एल आर I	057444-एफ
26.	जे पी शर्मा	एम सी पी ओ एम ए I (एल टी ई सी)	080313-एफ
27.	सी एल यादव	एम सी ए टी ए आर एम एस	067460-डब्ल्यू
28.	एस बी सिंह	एम सी पी ओ (एम यू एस)	042744-वाई

अवैतनिक सब लेफ्टिनेंट (विशेष इयुटी) के पद पर

01.	टी एस करायत	एम सी पी ओ I (टी ए एस I) (एस डी)	087254-एफ
02.	जी एस बाजवा	एम सी पी ओ I (क्यू ए)	049639-टी
03.	एस एम बाशा	एम सी पी ओ I (आर सी)	087029-डब्ल्यू
04.	आर एस नेगी	एम सी पी ओ I (जी आई)	02857-एन
05.	एस आर दास	एम सी पी ओ I (सी डी)	087630-के
06.	आर एस राजपूत	एम सी पी ओ I (जी आई)	084021-एच
07.	एस राजेंद्रन	एम सी पी ओ I (क्यू ए)	082146-वाई

1	2	3	4
08.	सुखबीर सिंह	एम सी पी ओ I (आर सी)	083842-ए
09.	बी सी शर्मा	एम सी पी ओ I (आर सी)	082339-के
10.	एस के माझी	एम सी पी ओ I (क्यू ए)	087680-जैड
11.	के सिंह	एम सी पी ओ I (पी टी आई)	089881-ए
12.	एम बी कुट्टी	एम सी पी ओ I (आर सी)	084715-के
13.	एच एस हमदर्द	एम सी पी ओ I (क्यू ए)	082140-एच
14.	एम लाल	एम सी पी ओ I (आर सी)	083837-आर
15.	बी. आर सैनी	एम सी पी ओ I (आर सी)	084798-जैड
16.	आर पी शर्मा	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I	082126-ए
17.	के सी गुप्ता	एम एस सी पी ओ I	081063-के
18.	भगावान दास	एम सी पी ओ सी के (एस) I	081345-ए
19.	राम चंद	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I	082085-एच
20.	एम बालागोपालन	एम सी पी ओ एस टी डी I	059801-एन
21.	मोहमद आरीफ	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I	081883-जैड
22.	के सिंह	एम सी पी ओ एस टी डी I	069003-ए
23.	आई जे शर्मा	एम एस सी पी ओ I	069864-एच
24.	बी करुणाकरन	एम सी पी ओ आर (टी ई एल) I एफ एस (डब्ल्यू आई)	086784-एन
25.	एम एस भाधवन	एम सी ए (एम ई टी)	082177-टी
26.	अमृत सागर	एम सी ए एम I	093430-टी
27.	एल एस कुशवहा	एम सी पी ओ (ए एफ) I	095511-वाई
28.	ए एच रेड्डी	एम सी पी ओ आर (टी ए सी)	049739-डब्ल्यू
29.	पी राम	एम सी पी ओ आर (टी ई एल) I (डब्ल्यू आई)	067979-जैड
30.	आर जे पाटिल	एम सी पी ओ आर (टी ई एल) I (डब्ल्यू आई)	082688-बी
31.	सुदेवन जी	एम सी पी ओ आर (टी ए सी) I	090125-एफ
32.	डी एस जसवाल	एम सी एम ई सी एच I	049405-के
33.	जय सिंह	एम सी एम ई सी एच I	087081-एन
34.	आई आर दृकाराम	एम सी डब्ल्यू एम I	086956-बी
35.	प्रीतम सिंह	एम सी ई एल पी I	082434-ए
36.	मारुती उरकुडे	एम सी पी ओ एम ए I (बी टी ए) I	081240-एन
37.	आर आर देसवाल	एम सी-ए टी-ए आर एम एस I	086132-एफ
38.	बलबीर सिंह	एम सी पी ओ II (क्यू ए I)	081928-ए
39.	बी एस चौहान	एम सी पी ओ II (क्यू ए I) (एस डी)	089768-डब्ल्यू
40.	रघुबीर सिंह	एम सी पी ओ II (आर सी I)	092929-बी
41.	आर बी यादव	एम सी पी ओ सी के (एस) II	081098-आर
42.	आर चन्द	एम सी पी ओ सी के (एस) II	081175-आर
43.	एस करुप्पन	एम सी पी ओ टी ओ पी II	080881-वाई
44.	नसीब चन्द	एम सी पी ओ टी ओ पी II	081411-ए
45.	के लाल	एम सी पी ओ टी ओ पी II	081647-एन
46.	एच के सैनी	एम सी पी ओ आर (टी ए सी) II	068688-के
47.	आर डी दलाल	एम सी पी ओ आर (टी ए सी) II एस आई	068664-एफ
48.	जे पी सिंह	एम सी एम ई II	068362-डब्ल्यू

[फाईल संख्या एच ए/2504/जनवरी 97]

हरदीप सिंह पुरी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 4(E).—The President is pleased to make the following appointments :—

INDIAN NAVY
PERMANENT CADRE
SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties list on 26th January, 97 :—

TO BE HONORARY LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

Sl. No.	Name	Rank	Number
01	RAM KUMAR	MCPO I (SPTI)	049345-Z
02	VED PRAKASH	MCPO I (SR I)	048875-F
03	PRITHVI RAJ	MCPO I (GI)	049224-Z
04	DD BHATT	MCPO I (RP I)	067988-W
05	BIKRAM SINGH	MCPO I (RC I)	066966-Y
06	RV MAHTO	MCPOWTR I	081090-Y
07	ANAND PRAKASH	MCPO CK(S) I	080464-Z
08	P CHAND	MCPO CK(S) I	080018-K
09	OM PRAKASH	MCPO (AF) I	088199-B
10	JS SHARMA	MCA (AH) I	082114-Z
11	JR GUPTA	MCA (PH) I	049681-N
12	KIRPAL SINGH	MC MECH (AR) I	088334-K
13	RR KENJALE	MCA (AH) I	067911-W
14	GS RAWAT	MCA (AH) I	083676-Z
15	G SUBRAMANIAN	MCPOR (TEL) I (WI)	086759-F
16	KPP NAIR	MCPOR (TAC) I (SI)	086785-R
17	B SINGH	MC MECH I	086766-Y
18	MOHAN LAL	MCME I	086297-F
19	MOHAR SINGH	MCME I	086059-R
20	CSP REDDYD	MCERA I	052520-R
21	DEVI PRASAD	MCME I	056041-T
22	HR YADAVA	MC MECH I	095308-K
23	PK NATH	MCEAR I	051618-R
24	KAPOOR SINGH	MCELP I	083644-A
25	KS PILLAI	MCELR I	057444-F
26	JP SHARMA	MCPO MA I (L TEC)	080313-F
27	CL YADAV	MC-AT-ARMS I	067460-W
28	SB SINGH	MCPO (MUS) I	042744-Y

TO BE HONORARY SUB LIEUTENANTS (SPECIAL DUTIES)

01	TS KARAYAT	MCPO I TAS I (SD)	087254-F
02	GS BAJWA	MCPO I (QA I)	049639-T
03	SM BASHA	MCPO I (RC I)	087029-W
04	RS NEGI	MCPO I (GI)	082857-N
05	SR DAS	MCPO I (CD I)	087630-K
06	RS RAJPUT	MCPO I (GI)	084021-H
07	S RAJENDRAN	MCPO I (QA I)	082146-Y
08	SUKHBIR SINGH	MCPO I (RC I)	083842-A

Sl. No.	Name	Rank	Number
09	GC SHARMA	MCPO I (RC I)	082339-K
10	SK MAJHI	MCPO I(QA I)	087680-Z
11	K SINGH	MCPO I (PTI)	089881-A
12	MV KUTTY	MCPO I (RC I)	084715-K
13	HS HAMDARD	MCPO I (QA I)	082140-H
14	M LAL	MCPO I (RC I)	083837-R
15	BR SAINI	MCPO I (RC I)	084798-Z
16	RP SHARMA	MCPO I WTR I	082126-A
17	KC GUPTA	MSCPO I	081063-K
18	BHAGWAN DASS	MCPO CK (S) I	081345-A
19	RAM CHAND	MCPO WTR I	082085-H
20	M BALLAGOPALAN	MCPO STD I	059801-N
21	MOHD ARIF	MCPO I WTR I	081883-Z
22	K SINGH	MCPO I STD I	069003-A
23	IJ SHARMA	MSCPO I	069864-H
24	B KARUNAKARAN	MCPOR (TEL) I FS (WI)	086784-N
25	MS MADHAVAN	MCA (MET) I	082177-T
26	AMRIT SAGAR	MCAM I	093430-T
27	LK KUSHWAHA	MCPO (AF) I	095511-Y
28	AH REDDY	MCPOR (TAC) I	049739-W
29	P RAM	MCPOR (TEL) I (WI)	067979-Z
30	RJ PATIL	MCPOR (TEL) I (WI)	082688-B
31	SUDEVAN G	MCPOR (TAC) I	090125-F
32	DS JASWAL	MCMECH I	049405-K
33	JAI SINGH	MCMECH I	087081-N
34	IR TUKARAM	MCWM I	086956-B
35	PRITAM SINGH	MCPO MA (BTA) I	082434-A
36	MARUTI URKUDE	MCPO MA I	081240-N
37	RR DESWAL	MC-AT-ARMS I	086132-F
38	BALVIR SINGH	MCPO II (QA I)	081928-A
39	BS CHAUHAN	MCPO II (QA I) (SD)	089768-W
40	RAGHUBIR SINGH	MCPO II (RC I)	092929-B
41	RB YADAV	MCPO CK (S) II	031098-R
42	R CHAND	MCCK (S) II	031175-R
43	S KARUPPAN	MCPO TOP II	030881-Y
44	NASIB CHAND	MCPO TOP II	081411-A
45	K LAL	MCPO TOP II	081647-N
46	HK SAINI	MCPOR (TAC) II	068688-K
47	RD DALAL	MCPOR (TAC) II SI	068664-F
48	JP SINGH	MCME II	068362-W

वायु शाखा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 5 (अ).—वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अंतर्गत निम्नलिखित फ्लाईंग अफसर को 26 जनवरी 1997 से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

1.	236357 एल	मा वा अ (आ फ अ)	मुखोपाध्याय सुनील	ए डी एस ओ
2.	237211 एल	मा वा अ (आ फ अ)	सिंह मनमोहन	ए डी एस ओ
3.	237433 ए	मा वा अ (आ फ अ)	शिवदास माडाशेरी	ए एफ एस ओ
4.	216749 बी	मा वा अ (आ फ अ)	कल्याल श्याम सुन्दर	ए एफ एस ओ
5.	238647 एस	मा वा अ (आ फ अ)	नायर किङ्गकेपाट अचुतन	ए सी एच/जी डी
6.	230696 जी	मा वा अ (आ फ अ)	चंद आजाद प्रेम	ए सी एच/जी डी
7.	229390 टी	मा वा अ (आ फ अ)	सूर्यनारायणन पालीकरा	ए एफ फिटर
8.	233995 ए	मा वा अ (आ फ अ)	नायर शिवरामन बालकृष्णन	ए एफ फिटर
9.	231014 एल	मा वा अ (आ फ अ)	प्रसाद कोटमाला मधुरा	कार्पिंग
10.	239243 एल	मा वा अ (आ फ अ)	मल्लप्पो माधकनूर हनमनतप्पा	कैट असिस्टेंट
11.	230460 टी	मा वा अ (आ फ अ)	यादव केदार नाथ	कैट असिस्टेंट
12.	230312 जी	मा वा अ (आ फ अ)	प्रसाद जगन्नाथ	क्लर्क/एकाउंटंट्स
13.	226155 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	सिंह जोगा	क्लर्क/एकाउंटंट्स
14.	238883 आर	मा वा अ (आ फ अ)	नारायणन इदाकुल बलापिल	क्लर्क जी डी
15.	240434 के	मा वा अ (आ फ अ)	अहमद शफीक	क्लर्क जी डी
16.	239444 एन	मा वा अ (आ फ अ)	दत्ता वासदेव	क्रिण्टो
17.	235291 एच	मा वा अ (आ फ अ)	विष्ट चंखी सिंह	शिक्षा अनुदेशक
18.	235153 के	मा वा अ (आ फ अ)	दामोदरन कुनिकु ताजा	इलैक्ट/फिटर
19.	226663 के	मा वा अ (आ फ अ)	नायर इलम्ब्रा पलिकुथ सदानन्दन	इलैक्ट/फिटर
20.	234290 ए	मा वा अ (आ फ अ)	सिंह जसबीर	इंजिन/फिटर
21.	228702 ए	मा वा अ (आ फ अ)	राठौर अमर सिंह	इंजिन/फिटर
22.	230190 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	गुप्ता दर्शन कुमार	उपस्कर/सहायक
23.	239256 आर	मा वा अ (आ फ अ)	फ्रान्सीस पुथुसेरि लोनन	उपस्कर/सहायक
24.	232569 ए	मा वा अ (आ फ अ)	देवरे मधुकर भाऊ राव	फ्लाइट/इंजीनियर
25.	243122 एस	मा वा अ (आ फ अ)	विवेकानन्दन गोपाल राजा	फ्लाइट/सिंग
26.	227545 एल	मा वा अ (आ फ अ)	गुप्ता समीर कान्ति	जी टी आई
27.	230124 एच	मा वा अ (आ फ अ)	बल्लभन पोन्नाथत गिरिजा	आई ए एफ/पी

28.	238071 जी	मा वा अ (आ फ अ)	सिंह मजिस्टर	आई ए एफ/पी
29.	230953 एस	मा वा अ (आ फ अ)	नायर नीलकण्ठ सुकुमारन	इन्सट/फिटर
30.	238455 एन	वा अ (आ फ अ)	दत्ता निरञ्जन	इन्सट/फिटर
31.	227256 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	जैकब	एम टी डी
32.	230729 जी	मा वा अ (आ फ अ)	रामास्वामी आरुमुगम	एम टी डी
33.	238703 जी	वा अ (आ फ अ)	जोसफ वर्गास कल्लरक्कल	भ्युजिसियन
34.	221434 बी	मा वा अ (आ फ अ)	हुसेन मिर्जा आसिफ	चिकित्सा/सहायक
35.	221439 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	शर्मा सत्य राम	चिकित्सा/सहायक
36.	217426 एस	मा वा अ (आ फ अ)	कृष्ण कुड़वा गणेश	मैट/असिस्टेंट
37.	236472 एल	मा वा अ (आ फ अ)	बोस सी के चन्द्र	मैट/असिस्टेंट
38.	227021 एन	मा वा अ (आ फ अ)	आरुमुगम गनानकोन पाक्विराज	एम टी फिटर
39.	226894 आर	मा वा अ (आ फ अ)	अलीयत चिन्ता कुट्टन	एम टी फिटर
40.	239415 जी	मा वा अ (आ फ अ)	अजीत कुमार विश्वास	पी जे आई
41.	228832 एस	मा वा अ (आ फ अ)	लाल सोहन	फोटो फिटर
42.	235609 टी	मा वा अ (आ फ अ)	सिंह दर्शन	फोटो फिटर
43.	217093 टी	मा वा अ (आ फ अ)	दामोदरन चन्द्रशेखरन	रडार फिटर
44.	237104 आर	मा वा अ (आ फ अ)	सिंह प्यारा	रेडियो फिटर
45.	231117 एन	मा वा अ (आ फ अ)	सुब्रमनियन पद्दुकुरसार	रेडियो फिटर
46.	216596 ए	मा वा अ (आ फ अ)	रावत भारत सिंह	रेडियो टैक
47.	217540 ए	मा वा अ (आ फ अ)	सेठ विनोद कुमार	रेडियो टैक
48.	232306टी	वा अ (आ फ अ)	बालकृष्णन नाम्बियार पापिनिसेरी कोनाथ	एस ई डब्ल्यू
49.	217405एल	मा वा अ (आ फ अ)	दिल्ली मोहिन्दर सिंह	टैलेस्ट आर टी ओपरेटर
50.	235302जी	मा वा अ (आ फ अ)	राव कून भीमा	डब्ल्यू एस पिन्ट (बी)
51.	227178एन	मा वा अ (आ फ अ)	पाल दिलीप रंजन	डब्ल्यू एस पिन्ट (बी)
52.	233031एन	वा अ (आ फ अ)	सिंह गुर बचन	डब्ल्यू एस पिन्ट (सी)
53.	231558टी	मा वा अ (आ फ अ)	इमाम सैय्यद एहसान	डब्ल्यू एस पिन्ट (एम)
54.	232116एच	मा वा अ (आ फ अ)	चन्द्र रमेश	डब्ल्यू एस पिन्ट (एम)
55.	233502के	मा वा अ (आ फ अ)	रामन कृष्णन पांडिंजारातलक्कल	चैपन फिटर
56.	231786आर	मा वा अ (आ फ अ)	सिरोही साहब सिंह	चैपन फिटर

कुल योग : 56 (छप्पन नाम केवल)

[सं. वा. से. मु./सी-40254/121/पी ए (सी पी सी)]
विनोद राय, संयुक्त सचिव (वायु)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 5(E).—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 26 January 1997, under para 344 of Regulations for the Air Force.

1	236357L	MWO (Hony Fg Offr)	MUKHOPADHYAY SUNIL	ADSO
2	237211N	MWO (Hony Fg Offr)	SINGH MANMOHAN	ADSO
3	237433A	MWO (Hony Fg Offr)	SIVADAS MADESERI	AFSO
4	216749B	MWO (Hony Fg Offr)	KATYAL SHYAM SUNDER	AFSO
5	238647S	MWO (Hony Fg Offr)	NAIR KIZHAKKOPAT ACHUTHAN	ACH GD
6	230696G	MWO (Hony Fg Offr)	CHAND AZAD PREM	ACH GD
7	229390T	MWO (Hony Fg Offr)	SURYANARAYANAN PALEEKARA	AF FIT
8	233995A	MWO (Hony Fg Offr)	NAIR SIVARAMAN BALAKRISHNAN	AF FIT
9	231014L	MWO (Hony Fg Offr)	PRASAD KOTMALA MATHURA	CARP RIG
10	239243L	MWO (Hony Fg Offr)	MALLAPPA MACHAKANUR HANAMANTAPPA	CAT ASST
11	230460T	MWO (Hony Fg Offr)	YADAV KEDAR NATH	CAT ASST
12	230312G	MWO (Hony Fg Offr)	PRASAD JAGANNATH	CLK ACCTS
13	226155F	MWO (Hony Fg Offr)	SINGH JOGA	CLK ACCTS
14	238883R	MWO (Hony Fg Offr)	NARAYANAN EDAKUL VALAPIL	CLK GD
15	240434K	MWO (Hony Fg Offr)	AHMED SHAFIQUE	CLK GD
16	239444N	MWO (Hony Fg Offr)	DATTA VASDEV	CRYPTO
17	235291H	MWO (Hony Fg Offr)	BISHT CHANKHI SINGH	EDN INST
18	235153K	MWO (Hony Fg Offr)	DAMODARAN KUNIKKU THAZHA	ELECT FIT
19	226663K	MWO (Hony Fg Offr)	NAIR ELEMBA PALLIKUTH SADANANDAN	ELECT FIT
20	234290A	MWO (Hony Fg Offr)	SINGH JASBIR	ENG FIT
21	228702A	MWO (Hony Fg Offr)	RATHAUR AMAR SINGH	ENG FIT
22	230190F	MWO (Hony Fg Offr)	GUPTA DARSHAN KUMAR	EQ ASST
23	239256R	MWO (Hony Fg Offr)	FRANCIS PUTHUSERRY LONAN	EQ ASST
24	232569A	MWO (Hony Fg Offr)	DEORE MADHUKAR BHAURAO	FLT ENGR
25	243122S	MWO (Hony Fg Offr)	VIVEKANANDAN GOPAL RAJA	FLT SIG
26	227545L	MWO (Hony Fg Offr)	GUPTA SAMIR KANTI	GTI
27	230124H	MWO (Hony Fg Offr)	VELLABHAN PONNACHATH GIRIJA	IAF P
28	238071G	MWO (Hony Fg Offr)	SINGH MAGISTER	IAF P

29	230953S	MWO (Hony Fg Offr)	NAIR NEELKANTAN SUKUMARAN	INST FIT
30	238455N	MWO (Hony Fg Offr)	DUTTA NIRANJAN	INST FIT
31	227256F	MWO (Hony Fg Offr)	JACOB	MTD
32	230729G	MWO (Hony Fg Offr)	RAMASWAMY ARUMUGAM	MTD
33	238703G	MWO (Hony Fg Offr)	JOSEPH VARGHESE KALLARAKKAL	MUSN
34	221434B	MWO (Hony Fg Offr)	HUSAIN MIRZA ASIF	MED ASST
35	221439F	MWO (Hony Fg Offr)	SHARMA SATYA RAM	MED ASST
36	217426S	MWO (Hony Fg Offr)	KRISHNA KUDVA GANES	MET ASST
37	236472L	MWO (Hony Fg Offr)	BOSE CK CHANDRA	MET ASST
38	227021N	MWO (Hony Fg Offr)	ARUMUGAM GANANACKON PACKIARAJ	MT FIT
39	226894R	MWO (Hony Fg Offr)	ALIYATH CHINNAKUTTAN	MT FIT
40	239415G	MWO (Hony Fg Offr)	AJIT KUMAR BISWAS	PJI
41	228832S	MWO (Hony Fg Offr)	LAL SOHAN	PHOTO FIT
42	235609T	MWO (Hony Fg Offr)	SINGH DARSHAN	PHOTO FIT
43	217093T	MWO (Hony Fg Offr)	DAMODARAN CHANDRA SEKHARAN	RAD FIT
44	237104R	MWO (Hony Fg Offr)	SINGH PIARA	RDO FIT
45	231117N	MWO (Hony Fg Offr)	SUBRAMANIAN PATTUKURSAR	RDO FIT
46	216596A	MWO (Hony Fg Offr)	RAWAT BHARAT SINGH	RDO TECH
47	217540A	MWO (Hony Fg Offr)	SETH VINOD KUMAR	RDO TECH
48	232306T	MWO (Hony Fg Offr)	BALAKRISHAN NAMBIAIR PAFPINSSERI KONATH	SEW
49	217405L	MWO (Hony Fg Offr)	DHILLON MOHINDER SINGH	TELST RT OPR
50	235302G	MWO (Hony Fg Offr)	RAO KOONA BHIMA	WS FIT (B)
51	227178N	MWO (Hony Fg Offr)	PAL DILIP RANJAN	WS FIT (B)
52	233031N	MWO (Hony Fg Offr)	SINGH GUR BACHAN	WS FIT (C)
53	231558T	MWO (Hony Fg Offr)	IMAM SYED EHSAN	WS FIT (M)
54	232116H	MWO (Hony Fg Offr)	CHANDER RAMESH	WS FIT (M)
55	233502K	MWO (Hony Fg Offr)	RAMAN KRISHNAN PADINJARATHALAKKAL	WPN FIT
56	231786R	MWO (Hony Fg Offr)	SIROHI SAHAB SINGH	WPN FIT

[No. Air HQ./C-40254/121/PA/(CPC)]

VINOD RAI, Jt. Secy. (Air.)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 6 (अ).—वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अंतर्गत निम्नलिखित मास्टर चारंट अफसरों और चारंट अफसरों को 26 जनवरी 1997 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में आग्रेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

1.	237881 एल	मा वा अ	सक्सेना राम स्वरूप	ए डी एस ओ
2.	237450 ए	मा वा अ	मंडल नरेश चन्द्र	ए डी एस ओ
3.	237542 एल	मा वा अ	सुरेन्द्रन पुदुपरम्बिल शंकरन	ए डी एस ओ
4.	217419 एल	मा वा अ	दत्ता नारायन चन्द्र	ए डी एस ओ
5.	237451 एस	मा वा अ	सिंह रामेश्वर	ए डी एस ओ
6.	243384 बी	मा वा अ	शर्मा छोटे लाल	ए डी एस ओ
7.	236473 एच	मा वा अ	अवस्थी रमेश चन्द्र	ए डी एस ओ
8.	236891 आर	मा वा अ	कौशि मुतक्कोट्टु फिलिय	ए एफ एस ओ
9.	236546 जी	मा वा अ	घोष अनिल चन्द्र	ए एफ एस ओ
10.	236028 जी	मा वा अ	राघवन ओनियिल	ए एफ एस ओ
11.	237131 के	मा वा अ	वासगम ए मानिकक	ए एफ एस ओ
12.	243317 के	वा आ	राम गुलाब	ए एफ एस ओ
13.	239685 एन	मा वा अ	शेक बाशा साहब	ए सी एच/जी डी
14.	230459 एल	मा वा अ	प्रभाकरन चेंम्ब्रा	ए सी एच/जी डी
15.	239506 ए	वा अ	चेनुगोपाल मुनिस्वामी	ए सी एच/जी डी
16.	239388 एफ	मा वा अ	सिद्दिकी महमूद आलम	ए सी एच/जी डी
17.	238012 आर	मा वा अ	भिंबरगी रामचन्द्र गुरभट्ट	ए सी एच/जी डी
18.	227404 एफ	मा वा अ	साह प्रहलाद प्रसाद	ए सी एच/जी डी
19.	240085 एच	वा अ	हलदर अशोक कुमार	ए सी एच/जी डी
20.	240411 एल	मा वा अ	तिवारी राम अचल	ए सी एच/जी डी

21.	238750के	मा वा अ	नवानी वाचस्पति	ए सी एच/जो डी
22.	230231जी	मा वा अ	कुन्दीरथ उन्निक्कण्ण मलधि	ए सी एच/जो डी
23.	231917आर	मा वा अ	रविनन्दन	ए एफ/पिटर
24.	229065टी	मा वा अ	यादव राम देव सिंह	ए एफ/पिटर
25.	228144आर	मा वा अ	सिंह कुलवरन	ए एफ/पिटर
26.	234730एस	मा वा अ	चिन्तामणि	ए एफ/पिटर
27.	235894एन	वा अ	भारद्वाज रवीन्द्र नाथ	ए एफ/पिटर
28.	229198एस	मा वा अ	सुकुमारन पुंत्त्या पुरयिल	ए एफ/पिटर
29.	228811एल	मा वा अ	सिंह वादेश्वर प्रसाद	ए एफ/पिटर
30.	230990जी	मा वा अ	चन्द जंग बहादुर	ए एफ/पिटर
31.	231453एस	मा वा अ	अधिकारी दलोप सिंह	ए एफ/पिटर
32.	228720एस	मा वा अ	पटनायक बृजसुन्दर	ए एफ/पिटर
33.	228950जी	मा वा अ	नाथ राम	ए एफ/पिटर
34.	231848बी	मा वा अ	सिंह शिंगारा	ए एफ/पिटर
35.	234724एच	मा वा अ	सिंह बृजेन्द्र	ए एफ/पिटर
36.	229112के	मा वा अ	सिंह जो-गिन्दर	ए एफ/पिटर
37.	229442एल	मा वा अ	बनये केशव रामचन्द्र	ए एफ/पिटर
38.	232964के	वा अ	विरवनाथ के एम	कार्य रिग
39.	231460के	मा वा अ	मेहता गुरचरण सिंह	कार्य रिग
40.	228866जी	मा वा अ	परमार मोहन सिंह	कार्य रिग
41.	231161एच	वा अ	गुन्मुद्दू केन्कट सुब्बा राव	कार्य रिग
42.	239075बी	मा वा अ	राणा नेशर सिंह	नेट/असिस्टेंट
43.	230229बी	मा वा अ	दास अनिल कुमार	नेट/असिस्टेंट
44.	240577के	मा वा अ	सिंह तरसेम	नेट/असिस्टेंट
45.	238072बी	मा वा अ	बकसी मोती लाल	क्लर्क/अनाउंद्स
46.	240410आर	मा वा अ	गुप्ता पारस नाथ	क्लर्क/अनाउंद्स
47.	230276जी	मा वा अ	चटर्जी माणिक रतन	क्लर्क/अनाउंद्स
48.	226935एस	मा वा अ	कमसला ब्रह्माचार	क्लर्क/अनाउंद्स
49.	239423एच	मा वा अ	अय्युब सिद्दीकी मुहम्मद	क्लर्क/अनाउंद्स
50.	240196एल	वा अ	बासु मृत्युंजय	क्लर्क/अनाउंद्स
51.	227528एल	वा अ	लक्ष्मणराव नाथे पांडुरंग	क्लर्क/अनाउंद्स

52.	239372एल	वा अ	कटलारिया नेहर सिंह	क्लर्क/जो डी
53.	230064एन	मा वा अ	सुभाष घन्ट	क्लर्क/जो डी
54.	238395टी	मा वा अ	लाल कज्जू	क्लर्क/जो डी
55.	230218एल	मा वा अ	गोयल दीदार सिंह	क्लर्क/जो डी
56.	238871एच	मा वा अ	बोट्टे महादेव निनाजी	क्लर्क/जो डी
57.	229905जी	मा वा अ	सिंह नरसिंह बहादुर	क्लर्क/जो डी
58.	240235ए	मा वा अ	कामेस्वर राव भिरबबोटला सत्य वेंकट	क्लर्क/जो डी
59.	240246एल	मा वा अ	नायर टी जी उन्निकृष्ण	क्लर्क/जो डी
60.	235686जी	मा वा अ	दास रनेन्दु	क्लर्क/जो डी
61.	239011के	मा वा अ	श्रीवास्तवा हरिहर प्रसाद	क्लर्क/जो डी
62.	239501टी	मा वा अ	दलिया रघुबीर सिंह	क्लर्क/जो डी
63.	238869एच	मा वा अ	सिंह सुरेन्द्र नाथ	क्लर्क/जो डी
64.	239462के	मा वा अ	बालाकृष्ण कुन्जु पनिकर	क्रिप्टो
65.	226731जी	मा वा अ	पाण्डेय बट्टी विशाल	शिक्षा अनुदेशक
66.	278807ए	मा वा अ	दास गोविन्द प्रसाद	शिक्षा अनुदेशक
67.	232776एल	मा वा अ	सिंह सूर्य नाथ	इलेक्ट/पिटर
68.	226571टी	वा अ	यादव इन्द्र सिंह	इलेक्ट/पिटर
69.	229574ए	मा वा अ	दत्त कृष्ण	इलेक्ट/पिटर
70.	229057एस	मा वा अ	चटर्जी असीम कुमार	इलेक्ट/पिटर
71.	229122एच	मा वा अ	सिंह जसवंत	इलेक्ट/पिटर
72.	229580के	मा वा अ	वैश्य मदन लाल	इलेक्ट/पिटर
73.	236643के	मा वा अ	सिंह सरवन	इलेक्ट/पिटर
74.	235846एन	मा वा अ	रेहड़ी पारेम पापि	इलेक्ट/पिटर
75.	238766बी	वा अ	अबुबेकर ए एम मुहमद	इलेक्ट/पिटर
76.	234531एच	मा वा अ	सिंह साधु	इलेक्ट/पिटर
77.	228293एच	मा वा अ	तुलसी राम सांगल	इलेक्ट/पिटर
78.	239381के	वा अ	उपाध्याय नन्द किशोर	इलेक्ट/पिटर
79.	234665के	मा वा अ	भाषवन बालासुन्दरम बल्लुवानुषुह	इंजन/पिटर
80.	232483टी	मा वा अ	दास काली पद	इंजन/पिटर
81.	233341जी	मा वा अ	अभिरधासिंगम क्लारक	इंजन/पिटर

82.	229503बी	मा वा अ	लाल राम	इंजन/पिटर
83.	229186ए	मा वा अ	शर्मा सुरेश चन्द्र	इंजन/पिटर
84.	233718ए	मा वा अ	सत्पाल	इंजन/पिटर
85.	234138ए	मा वा अ	सिंह प्रताप	इंजन/पिटर
86.	234452ए	वा अ	साहनी जगदीश लाल	इंजन/पिटर
87.	231004ए	मा वा अ	पाठक गोपीचन्द्र	इंजन/पिटर
88.	233729टी	मा वा अ	चन्द्र उत्तम	इंजन/पिटर
89.	232905टी	मा वा अ	कुमार नरिन्दर	इंजन/पिटर
90.	231191ए	मा वा अ	मसुमदार एम. सुत्सु रहमान	इंजन/पिटर
91.	232521ए	मा वा अ	नाथ द्वितीय लाल	इंजन/पिटर
92.	233846ए	मा वा अ	शर्मा देवेन्द्र कुमार	इंजन/पिटर
93.	234533ए	मा वा अ	सचदेवा जगदीश लाल	इंजन/पिटर
94.	235090बी	मा वा अ	धो राम गोगोई	इंजन/पिटर
95.	228384टी	वा अ	सिंह दीन दयाल	इंजन/पिटर
96.	227158ए	मा वा अ	भास्करन क्वकाटिरी वेनुयेथ	उपस्कर सहायक
97.	226718ए	मा वा अ	सिंह अमरीक	उपस्कर सहायक
98.	239825ए	मा वा अ	बालाकृष्ण वलिय वीदिटल	उपस्कर सहायक
99.	230219ए	मा वा अ	राज्युत श्याम सिंह	उपस्कर सहायक
100.	226381ए	मा वा अ	वर्मा ओम्काश	उपस्कर सहायक
101.	230718आर	मा वा अ	खान जमीर उद्दीन	उपस्कर सहायक
102.	240377ए	मा वा अ	कोटैया जी	उपस्कर सहायक
103.	240168ए	वा अ	त्रिपाठी शशि मुनि	उपस्कर सहायक
104.	239849बी	वा अ	काईमल राघवन	उपस्कर सहायक
105.	238326ए	वा अ	अब्दुल सत्तार एस	उपस्कर सहायक
106.	238667बी	मा वा अ	सनवाल चन्दन सिंह	उपस्कर सहायक
107.	226850ए	मा वा अ	मामराज	उपस्कर सहायक
108.	239384टी	मा वा अ	सिंह रामबहादुर	उपस्कर सहायक
109.	230337ए	मा वा अ	सोमन गंगाधर सामराव	उपस्कर सहायक
110.	240293आर	मा वा अ	सिंह महावीर	उपस्कर सहायक
111.	240494ए	मा वा अ	सिंह अजीत	उपस्कर सहायक
112.	239624आर	मा वा अ	सहदेवन पनयम धरमबिल	उपस्कर सहायक

113.	230454के	वा अ	सिंह शिव नारायण	उपस्कर सहायक
114.	230302एल	वा अ	सुरे मौतीराम दौलतराव	उपस्कर सहायक
115.	228616एव	मा वा अ	सिंह दविन्द्र	पस्ताइट इंजीनियर
116.	231231एस	मा वा अ	सिंह झम	पस्ताइट इंजीनियर
117.	232436आर	मा वा अ	शर्मा रमेश चन्द्र	पस्ताइट इंजीनियर
118.	230104टी	मा वा अ	नाथ आशुतोष	जी टी आई
119.	238070के	मा वा अ	भट्टाचार्य जम्म	जी टी आई
120.	239494जी	मा वा अ	शिवकुमार वेंकटरामण	जी टी आई
121.	240757जी	मा वा अ	नटराजन मुकुंदा पा. श्या	आई ए एम/पी
122.	240768एस	वा अ	बीमा धूरन सिंह	आई ए एम/पी
123.	227453ए	मा वा अ	नाथर पत्तिकपिल दामोदरन	आई ए एम/पी
124.	238867एल	मा वा अ	मिश्रा राम यश	आई ए एम/पी
125.	230156एप	मा वा अ	सिंह प्यारा	आई ए एम/पी
126.	246404एल	मा वा अ	शर्मा हरबंस लाल	इन्सट/पिटर
127.	246249जी	वा अ	सेनगुप्ता अशोक कुमार	इन्सट/पिटर
128.	230931आर	मा वा अ	कृष्णच्यन मुत्तु	इन्सट/पिटर
129.	246205बी	मा वा अ	नाथर ए शिवरामन	इन्सट/पिटर
130.	246173टी	मा वा अ	राव रेमाला सुब्बा	इन्सट/पिटर
131.	228095एल	मा वा अ	नागमाल गोपाल कृष्ण	इन्सट/पिटर
132.	238025टी	वा अ	त्रिपाठी परम हंस	इन्सट/पिटर
133.	401359एस	मा वा अ	महाजन शक्तीस चन्द	इन्सट/पिटर
134.	232240जी	मा वा अ	अब्दुल जम्बर मुहम्मद	इन्सट/पिटर
135.	232094टी	मा वा अ	लाम्बा योगेन्द्र नाथ	इन्सट/पिटर
136.	234068बी	मा वा अ	भाटिया वेद प्रकाश	इन्सट/पिटर
137.	230730एन	मा वा अ	अनरोल कुतदाप राज	एम टी डी
138.	238100ए	मा वा अ	कुमार अशोक	एम टी डी
139.	240341बी	मा वा अ	बाशा गणेश्वर अली	एम टी डी
140.	238145ए	मा वा अ	मिश्र सोम नाथ	एम टी डी
141.	238606बी	मा वा अ	सत्यनारायण मंदगाटे	एम टी डी
142.	240076के	मा वा अ	घोष प्रभात कुमार	एम टी डी
143.	239616एव	मा वा अ	अप्पुसुदटन के. के.	एम टी डी

144.	227004एन	मा वा अ	सिंह चौद	एम डी डी
145.	238889एन	मा वा अ	आयुदासा लक्ष्मीनारायण	एम टी डी
146.	230332आर	मा वा अ	प्रामाणिक प्रिय नाथ	म्यूसिसियन
147.	239356एच	वा अ	महेश्वर सरदेसाई अनंत	म्यूसिसियन
148.	230537बी	वा अ	राम नसीब	म्यूसिसियन
149.	221453आर	मा वा अ	हुसेन जाहिद	चिकित्सा/सहायक
150.	241066जी	मा वा अ	मल्होत्रा किशन प्रन्द	चिकित्सा/सहायक
151.	221589के	मा वा अ	सिंह विजय बहादुर	चिकित्सा/सहायक
152.	221558के	मा वा अ	शिदि शंकर रामराव	चिकित्सा/सहायक
153.	241057एच	मा वा अ	पित्तै रामकृष्ण	चिकित्सा/सहायक
154.	221483टी	मा वा अ	चन्द रसभ्य	चिकित्सा/सहायक
155.	236022एच	मा वा अ	शर्मा गुरदेव	मेट/ऑसिस्टेंट
156.	236292आर	मा वा अ	नारायणन बूलोत वसाणप्यल	मेट/ऑसिस्टेंट
157.	237877आर	वा अ	सुरचौधुरी नानिक लाल	मेट/ऑसिस्टेंट
158.	243153एस	मा वा अ	सिंह दलजीत	मेट/ऑसिस्टेंट
159.	240627के	मा वा अ	राय परमा	एम टी पिटर
160.	240324बी	मा वा अ	गोवडर नंदी मादा	एम टी पिटर
161.	240342टी	वा अ	कुट्टीनह सबासटियन	एम टी पिटर
162.	229909एल	मा वा अ	दीवा सिगमनी एस	एम टी पिटर
163.	239630टी	मा वा अ	नैनान पी जोसफ	एम टी पिटर
164.	226524आर	मा वा अ	भोहन ब्रज	एम टी पिटर
165.	226309जी	मा वा अ	सिंह अमर नाथ	एम टी पिटर
166.	229836जी	मा वा अ	विन्नास्वामी आरुमुगम	एम टी पिटर
167.	227198बी	मा वा अ	चौधो प्रसाद	एम टी पिटर
168.	228793एच	मा वा अ	पाण्डेय नन्द किशोर	पनेटी पिटर
169.	236257टी	मा वा अ	मादल नारायण राव	रठार पिटर
170.	243450जी	मा वा अ	वैकटस्वामी गोपालस्वामी	रठार पिटर
171.	236469आर	मा वा अ	भगवान सिंह श्री	रठार पिटर
172.	236795एच	मा वा अ	सिंह हरेन्द्र	रेडियो पिटर
173.	243601आर	मा वा अ	दास दुर्गा	रेडियो पिटर
174.	231032एच	मा वा अ	रामन्ना एम	रेडियो पिटर

175.	217472एफ	मा वा अ	नाथर पी एस माधवन कुट्टी	रेडियो पिटर
176.	217252के	मा वा अ	पाण्डेस राम बिलास	रेडियो पिटर
177.	236103एच	मा वा अ	सिद्धिनाथ	रेडियो पिटर
178.	236533बी	मा वा अ	पटेल शिव चरन	रेडियो पिटर
179.	216832जी	मा वा अ	सिंह गणेश बहादुर	रेडियो पिटर
180.	237241एस	मा वा अ	माने शंकर आनंदराव	रेडियो पिटर
181.	237648बी	मा वा अ	बिष्ट टेक चन्द्र	रेडियो पिटर
182.	217525एन	मा वा अ	ओम्प्रकाश	रेडियो पिटर
183.	236221एस	मा वा अ	मोल्तिक बीरेन्द्र नाथ	रेडियो पिटर
184.	237954के	मा वा अ	पुसाद राव दुर्गाप्रसाद	रेडियो पिटर
185.	236150एल	मा वा अ	डा सुभाषचंद्र	रेडियो टेक
186.	231132ए	मा वा अ	धार हरजिन्द्र सिंह	रेडियो टेक
187.	236763एल	मा वा अ	शिवनन्दन परम्बत	रेडियो टेक
188.	236684एफ	मा वा अ	पान मुक्ति पद	रेडियो टेक
189.	236652एच	मा वा अ	नूला बाल कृष्ण	रेडियो टेक
190.	217177एच	मा वा अ	ठाकुर दिवान चन्द्र	रेडियो टेक
191.	236877एफ	मा वा अ	मात्यू परमतानिविल कुर्पाफोस	रेडियो टेक
192.	231396एन	मा वा अ	सिंह रामदत्त	एस ई डब्ल्यू
193.	231436एफ	मा वा अ	राजमात	एस ई डब्ल्यू
194.	232772जी	मा वा अ	सिंह राम प्यारे	एस ई डब्ल्यू
195.	231347बी	मा वा अ	विश्वास नसिनी रंजन	एस ई डब्ल्यू
196.	231771टी	वा अ	सहाय सोमदानन्द	एस ई डब्ल्यू
197.	217485एच	मा वा अ	मिश्रा विषय शंकर	टेलिस्ट आर टी ओपरेटर
198.	236448जी	मा वा अ	भुस्तर सतनाम सिंह	टेलिस्ट आर टी ओपरेटर
199.	216512टी	मा वा अ	चावला विषय कुमार	टेलिस्ट आर टी ओपरेटर
200.	236284एन	मा वा अ	सिंह तरसेम	टेलिस्ट आर टी ओपरेटर
201.	236053एच	मा वा अ	सिंह महिन्द्र	टेलिस्ट आर टी ओपरेटर
202.	235260एच	मा वा अ	सिंह हरभजन	डब्ल्यू एस पिटर बी।

203.	235064एच	वा अ	वण्णूर एम वी	डब्ल्यू एस पिटर बी
204.	235835 बी	मा वा अ	नाथ पारस	डब्ल्यू एस पिटर सी
205.	235311एफ	मा वा अ	विश्वकर्मा रामलाल राम	डब्ल्यू एस पिटर सी
206.	231876एन	मा वा अ	वर्मा तरसेम लाल	डब्ल्यू एस पिटर एम
207.	232870जी	वा अ	पुरनेत गोपेश्वर	डब्ल्यू एस पिटर एम
208.	231069जी	मा वा अ	कलहण राजेन्द्र कुमार	डब्ल्यू एस पिटर एम
209.	231477टी	मा वा अ	चक्रवर्ती बरुन शंकर	डब्ल्यू एस पिटर एम
210.	230963एल	मा वा अ	गम्भीर श्रीराम	डब्ल्यू एस पिटर एम
211.	234910एन	मा वा अ	शास्त्री चेरुवु आंजनेय	वैपन पिटर
212.	235674टी	मा वा अ	मल्लिक प्रशान्त	वैपन पिटर
213.	233383एफ	मा वा अ	सिंह गोर्धन	वैपन पिटर
214.	235992एन	मा वा अ	सिंह गुरमुख	वैपन पिटर
215.	238063एफ	वा अ	गुलया अभूत प्रसाद	वैपन पिटर
216.	231214एस	मा वा अ	कन्दन कुट्टी अप्पुकुट्टन करहाटोडी	वैपन पिटर
217.	233313आर	मा वा अ	पल्लै के. आर गोविनाथन	वैपन पिटर
218.	249027एल	मा वा अ	ओम प्रकाश	वैपन पिटर
219.	401475एन	मा वा अ	चक्रवर्ती आनल चन्द्र	वैपन पिटर
220.	234242ए	मा वा अ	सिंह धानन	वैपन पिटर
221.	231990एस	मा वा अ	शर्मा प्रशोक्तम राम	वैपन पिटर
222.	235520एव	मा वा अ	रवामिनाथन वी	वैपन पिटर

[सं. वा. से. मु./सी-40254/121/पी ए (सी पी सी)]

विनोद राय, संयुक्त सचिव (वायु)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 6(E).—The undermentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 26 January 1997, under para 344 of Regulations for the Air Force.

1	237881L	MWO	SAXENA RAM SWAROOP	ADSO
2	237450A	MWO	MANDAL NARESH CHANDRA	ADSO
3	237542L	MWO	SURENDRAN PUTHUPARAMBIL SANKARAN	ADSO
4	217419L	MWO	DATTA NARAYAN CHANDRA	ADSO
5	237451S	WO	SINGH RAMESHWAR	ADSO
6	243384B	MWO	SHARMA CHHOTAY LAL	ADSO
7	236473H	MWO	AWASTHI RAMESH CHANDRA	ADSO
8	236891R	MWO	KOSHY MUTHACKOTTU PHILIP	AFSO
9	236546G	MWO	GHOSH ANIL CHANDRA	AFSO
10	236028G	MWO	RAGHAVAN ONIYIL	AFSO
11	237131K	MWO	VASAGAM A MANICKA	AFSO
12	243317K	WO	RAM GULAB	AFSO
13	239685N	MWO	SHAIK BASHA SAHEB	ACH GD
14	230459L	MWO	PRABHAKARAN CHEMBRA	ACH GD
15	239506A	WO	VENUGOPAL MUNI SWAMI	ACH GD
16	239388F	MWO	SIDDIQUI MAHMOOD ALAM	ACH GD
17	238012R	MWO	NIMBARGI RAMCHANDRA GURABHATT	ACH GD
18	227404F	MWO	SAH PRAHLAD PRASAD	ACH GD
19	240085H	WO	HALDAR ASHOK KUMAR	ACH GD
20	240411L	MWO	TIWARI RAM ACHAL	ACH GD
21	238750K	MWO	NAWANI BACHASPATI	ACH GD
22	230231G	MWO	KUNCHEERATH UNNIKRISHNAN MALACHI	ACH GD

23.	231917R	MWD	Ravinandan	AF	FIT
24.	229065T	MWD	Yadav Ram Deo Singh	AF	FIT
25.	228144R	MWD	Singh Kulvaran	AF	FIT
26.	234730S	MWD	Chintamani	AF	FIT
27.	235894N	WD	Bharadwaj Ravindra Nath	AF	FIT
28.	229198F	MWD	Sukumaran Puthiya Purayil	AF	FIT
29.	228811L	MWD	Singh Badeshwar Prasad	AF	FIT
30.	230990G	MWD	Chand Jung Bahadur	AF	FIT
31.	231453F	MWD	Adhikari Dalip Singh	AF	FIT
32.	228720S	MWD	Patnaik Brajasunder	AF	FIT
33.	228950G	MWD	Nath Ram	AF	FIT
34.	231848B	MWD	Singh Shingara	AF	FIT
35.	234724H	MWD	Singh Brijendra	AF	FIT
36.	229112K	MWD	Singh Joginder	AF	FIT
37.	229442L	MWD	Banaya Keshav Ramchandra	AF	FIT
38.	232964K	WD	Viswanathan KM	CARP	RIG
39.	231460K	MWD	Mehla Gurcharan Singh	CARP	RIG
40.	228866G	MWD	Parmar Mohan Singh	CARP	RIG
41.	231161H	WD	Gummuduru Venkata Subba Rao	CARP	RIG
42.	239075B	MWD	Rana Kesar Singh	CAT	ASST
43.	230229B	MWD	Dass Anil Kumar	CAT	ASST
44.	240577K	MWD	Singh Tarsem	CAT	ASST
45.	238072B	MWD	Bakshi Mati Lal	CLK	ACCTS
46.	240410R	MWD	Gupta Paras Nath	CLK	ACCTS
47.	230276G	MWD	Chatterjee Manik Ratan	CLK	ACCTS
48.	226935S	MWD	Kamsala Brahamachar	CLK	ACCTS
49.	239423H	MWD	Aiyoub Siddiqui Mohammad	CLK	ACCTS
50.	240196L	WD	Basu Prityunjay	CLK	ACCTS
51.	227528L	WD	Laxmanrao Mathane Pandurang	CLK	ACCTS

52.	239372L	WD	Katlarla Kedar Singh	CLK	GD
53.	230064M	MWD	Subash Chander	CLK	GD
54.	238395T	MWD	Lal Kajju	CLK	GD
55.	230218L	MWD	Goel Didar Singh	CLK	GD
56.	238871H	MWD	Bonde Mahadeo Ninaji	CLK	GD
57.	229905G	MWD	Singh Narsingh Bahadur	CLK	GD
58.	240235A	MWD	Kameswara Rao Bhyravabotla Satya Venkata	CLK	GD
59.	240246L	MWD	Nair TG Unnikrishnan	CLK	GD
60.	235686G	MWD	Das Ranendu	CLK	GD
61.	239011K	MWD	Srivastava Harihar Prasad	CLK	GD
62.	239501T	MWD	Dahiya Raghbir Singh	CLK	GD
63.	238869F	MWD	Singh Surendra Nath	CLK	GD
64.	239462K	MWD	Balakrishnan Kunjupanicker	CRYPTO	
65.	226731G	MWD	Pandey Badri Vishal	EDN	INST
66.	278807A	MWD	Das Govind Prasad	EDN	INST
67.	232776L	MWD	Singh Surya Nath	ELECT	FIT
68.	226571T	WD	Yadav Inder Singh	ELECT	FIT
69.	229574A	MWD	Dutt Krishan	ELECT	FIT
70.	229057S	MWD	Chatterjee Ashim Kumar	ELECT	FIT
71.	229122F	MWD	Singh Jaswant	ELECT	FIT
72.	229580K	MWD	Vaish Madan Lal	ELECT	FIT
73.	236643K	MWD	Singh Sarwan	ELECT	FIT
74.	235846N	MWD	Reddy Param Papi	ELECT	FIT
75.	238766B	WD	Abubacker AM Mohamed	ELECT	FIT
76.	234531H	MWD	Singh Sadhu	ELECT	FIT
77.	228293F	MWD	Tulsi Ram Sangal	ELECT	FIT
78.	239381K	WD	Upadhyay Nand Kishor	ELECT	FIT
79.	234665K	MWD	Madhavan Balasundaram Valluvakund	ENG	FIT
80.	232483T	MWD	Das Kali Pada	ENG	FIT

81.	233341G	MWO Amirthalingam Kailasam	ENG FIT
82.	229503B	MWO Lal Ram	ENG FIT
83.	229186S	MWO Sharma Suresh Chander	ENG FIT
84.	233718H	MWO Satpal	ENG FIT
85.	234138L	MWO Singh Partap	ENG FIT
86.	234452A	WO Sawhney Jagdish Lal	ENG FIT
87.	231004S	MWO Pathak Gopi Chand	ENG FIT
88.	233729T	MWO Chandra Uttam	ENG FIT
89.	232905T	MWO Kumar Narinder	ENG FIT
90.	231191L	MWO Majumdar MD Lutfur Rahman	ENG FIT
91.	232521L	MWO Nath Bijoy Lal	ENG FIT
92.	233846L	MWO Sharma Devender Kumar	ENG FIT
93.	234533A	MWO Sachdeva Jagdish Lal	ENG FIT
94.	235090G	MWO Thagi Ram Gogoi	ENG FIT
95.	228384T	WO Singh Din Dayal	ENG FIT
96.	227158F	MWO Bhaskaran Akkattiriveluthedath	EQ ASST
97.	226718L	MWO Singh Amrik	EQ ASST
98.	239825L	MWO Balakrishnan Valiya Veettil	EQ ASST
99.	230219H	MWO Rajput Shyam Singh	EQ ASST
100.	226381H	MWO Verma Omparkash	EQ ASST
101.	230718R	MWO Khan Zamir Uddin	EQ ASST
102.	240377F	MWO Kotiah G	EQ ASST
103.	240168A	WO Tripathi Rishi Muni	EQ ASST
104.	239849G	WO Kaimal Raghavan	EQ ASST
105.	238326N	WO Abdul Satter S	EQ ASST
106.	238667G	MWO Sanual Chandan Singh	EQ ASST
107.	226850L	MWO Mamraj	EQ ASST
108.	239384T	MWO Singh Rambahadur	EQ ASST
109.	230337S	MWO Soman Gangadhar Shamrao	EQ ASST
110.	240293R	MWO Singh Mahabir	EQ ASST

111.	240494S	MWD Singh Ajit	EQ ASST
112.	239824R	MWD Sahadevan Panayam Parambil	EQ ASST
113.	230454K	WD Singh Shiv Narain	EQ ASST
114.	230302L	WD Sure Motiram Daulatrao	EQ ASST
115.	228616H	MWD Singh Davinder	FLT ENGR
116.	231231S	MWD Singh Roop	FLT ENGR
117.	232436R	MWD Sharma Ramesh Chandra	FLT ENGR
118.	230104T	MWD Nath Ashutosh	G T I
119.	238070K	MWD Bhattacharya Arup	G T I
120.	239494G	MWD Sivakumar Venkatraman	G T I
121.	240757G	MWD Natarajan Murugiah Packia	IAF P
122.	240768S	WD Cheema Puran Singh	IAF P
123.	227453A	MWD Nair Palliyil Damodaran	IAF P
124.	238867L	MWD Mishra Ram Yash	IAF P
125.	230156F	MWD Singh Piara	IAF P
126.	246404L	MWD Sharma Harbans Lal	INST FIT
127.	246249G	WD Sengupta Ashok Kumar	INST FIT
128.	230931R	MWD Kanakappen Muthu	INST FIT
129.	246205B	MWD Nair A Sivaraman	INST FIT
130.	246173T	MWD Rao Remala Subba	INST FIT
131.	228095L	MWD Nagpal Gopal Krishan	INST FIT
132.	238025T	WD Tripathi Param Hans	INST FIT
133.	401359S	MWD Mahajan Shaktish Chand	INST FIT
134.	232240G	MWD Abdul Zubber Mohammed	INST FIT
135.	232094T	MWD Lamba Yogendra Nath	INST FIT
136.	234068E	MWD Bhatia Ved Prakesh	INST FIT
137.	230730N	MWD Abrol Kuldip Raj	M T D
138.	238100A	MWD Kumar Ashok	M T D
139.	240341B	MWD Basha Gaffar Ali	M T D
140.	238145A	MWD Mishra Some Nath	M T D

141.	238606B	MWD	Satyanaarayana Mandapati	M T D
142.	240076K	MWD	Ghosh Prabhat Kumar	M T D
143.	239616H	MWD	Appukuttan K K	M T D
144.	227004N	MWD	Singh Chand	M T D
145.	238889N	MWD	Ayudha Lakshminarayan	M T D
146.	230332R	MWD	Pramanik Priya Nath	M U S N
147.	239356H	WD	Maheshwar Sardesai Anant	M U S N
148.	230537B	WD	Ram Nasib	M U S N
149.	221453R	MWD	Hussain Zahid	MED ASST
150.	241066G	MWD	Malhotra Kishan Chand	MED ASST
151.	221589K	MWD	Singh Vijai Bahadur	MED ASST
152.	221558K	MWD	Shinde Shankar Ramrao	MED ASST
153.	241057H	MWD	Pillai Ramakrishna	MED ASST
154.	221483T	MWD	Chanda Rasamoy	MED ASST
155.	236022H	MWD	Sharma Gurdev	MET ASST
156.	236292R	MWD	Narayanan Kooloth Valappil	MET ASST
157.	237877R	WD	Surchoudhuri Manik Lal	MET ASST
158.	243153S	MWD	Singh Daljit	MET ASST
159.	240627K	MWD	Ray Parma	MT FIT
160.	240324B	MWD	Gowder Nandi Matha	MT FIT
161.	240342T	WD	Cutinha Sebastian	MT FIT
162.	229909L	MWD	Deiva Sigamani S	MT FIT
163.	239630T	MWD	Ninan P Joseph	MT FIT
164.	226524R	MWD	Mohan Brij	MT FIT
165.	226809G	MWD	Singh Amar Nath	MT FIT
166.	229838G	MWD	Chinnaswamy Arumugam	MT FIT
167.	227198B	MWD	Chauthi Prasad	MT FIT
168.	228793H	MWD	Pandey Nand Kishor	PHOTO FIT
169.	236257T	MWD	Madala Narayana Rao	RAD FIT
170.	243450G	MWD	Venketasamy Gopalsamy	RAD FIT

171.	236468R	MWD Bhagwan Singh Shree	RAD FIT
172.	236795H	MWD Singh Harendra	RDD FIT
173.	243601R	MWD Dass Durga	RDD FIT
174.	231032H	MWD Ramanna M	RDD FIT
175.	217472F	MWD Nair PS Madhavan Kutty	RDD FIT
176.	217252K	MWD Pandey Ram Bilas	RDD FIT
177.	236103H	MWD Siddhinath	RDD FIT
178.	236533B	MWD Patel Shiva Charan	RDD FIT
179.	216832G	MWD Singh Gajendra Bahadur	RDD FIT
180.	237241S	MWD Mane Shankar Anandareo	RDD FIT
181.	237648B	MWD Bisht Tek Chand	RDD FIT
182.	217525N	MWD Omprakash	RDD FIT
183.	236221S	MWD Mallick Birendra Nath	RDD FIT
184.	237954K	MWD Prasada Rao Durga Ganpathi	RDD FIT
185.	236150L	MWD Jha Sumudrapaneshwar	RDD TECH
186.	231132A	MWD Dhir Harjinder Singh	RDD TECH
187.	236763L	MWD Sivanandan Perambath	RDD TECH
188.	236684F	MWD Pan Mukti Pada	RDD TECH
189.	236652H	MWD Narula Bal Krishan	RDD TECH
190.	217177H	MWD Thakur Diwan Chandra	RDD TECH
191.	236077F	MWD Mathew Parumthaniyil Kuriakos	RDD TECH
192.	231358N	MWD Singh Ramdutt	S E W
193.	231436F	MWD Rajpal	S E W
194.	232772G	MWD Singh Ram Pyare	S E W
195.	231347B	MWD Biswas Nalini Ranjan	S E W
196.	231771T	WD Sahay Sachchida Nand	S E W
197.	217485H	MWD Misra Bijay Senkar	TELST RT DPR
198.	236448G	MWD Bhullar Satnam Singh	TELST RT DPR
199.	216512T	MWD Chauha Vijay Kumar	TELST RT DPR
200.	236284N	MWD Singh Tarsem	TELST RT DPR

201.	236053H	MWD	Singh Mohinder	TELST RT OPR
202.	235260H	MWD	Singh Harbhajan	WS FIT (B)
203.	235064H	WD	Vannur MV	WS FIT (B)
204.	235835B	MWD	Nath Paras	WS FIT (C)
205.	235311F	MWD	Vishwakarma Ramlogan Ram	WS FIT (C)
206.	231876N	MWD	Verma Tarsem Lal	WS FIT (M)
207.	232870G	WD	Purkait Gopeshwar	WS FIT (M)
208.	231069G	MWD	Kalhan Rajinder Kumar	WS FIT (M)
209.	231477T	MWD	Chakraborty Barun Sankar	WS FIT (M)
210.	230963L	MWD	Gambhir Shiri Ram	WS FIT (M)
211.	234910N	MWD	Sastry Cheruvu Anjaneya	WPN FIT
212.	235674T	MWD	Mallik Prasanta	WPN FIT
213.	233383S	MWD	Singh Gordhan	WPN FIT
214.	235992N	MWD	Singh Gurmukh	WPN FIT
215.	238063F	WD	Gulia Amrit Prashed	WPN FIT
216.	231214S	MWD	Kandankutty Appukkuttan Karadathodi	WPN FIT
217.	233313R	MWD	Pillai KR Gopinathan	WPN FIT
218.	249027L	MWD	Dmprakash	WPN FIT
219.	401475N	MWD	Chakraborty Anil Chandra	WPN FIT
220.	234242A	MWD	Singh Chanan	WPN FIT
221.	231990S	MWD	Sharma Parshotam Ram	WPN FIT
222.	235520H	MWD	Swaminathan	WPN FIT

[No. Air HQ/C-40254/121/PA(CPC)]

VINOD RAI, Jt Secy (Air)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 7 (अ)—वायुसेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति सूची में निम्नलिखित सेवा निवृत्त मास्टर चारंट अफसरों को 26 जनवरी 1997 से फ्लाईंग अफसर का ऑनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है।

1.	भूतपूर्व	मा वा अ	(234743ए)	सिंह पाल	वैपन फिटर
2.	भूतपूर्व	मा वा अ	(238271 एल)	सिंह श्रवण	उपस्कर सहायक
3.	भूतपूर्व	मा वा अ	(228848 के)	मण्डल केशव चन्द्र	कार्प रिग
4.	भूतपूर्व	मा वा अ	(234135 बी)	शर्मा मदन मोहन	इन्सट/फिटर

कुल : 04 (चार नाम केवल)

[सं.वा.से.मु./सी-40254/121/पी ए/(सी पी सी)]
विनोद राय, संयुक्त सचिव (वायु)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 7(E).—The undermentioned retired MWOs are granted Honorary rank of Flying Officer with effect from 26 January, 1997 on the retired list under para 345 of Regulations for the Air Force.

1	Ex-MWO (234743A)	SINGH PAL	WPN FIT
2.	Ex-MWO (238271L)	SINGH SARWAN	EQ ASST
3.	Ex-MWO (228848K)	MONDAL KESHAB CHANDRA	CARP RIG
4.	Ex-MWO (234135B)	SHARMA MADAN MOHAN	INST/FIT

Total : 04 (Four names only)

[No. Air HQ./C-40254/121/PA(CPC)]
VINOD RAI . Jt. Secy. (Air)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 8 (अ)— सं. 1 ई 26 जनवरी 1995—राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 95 के अवसर पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

क्रम संख्या 1, रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट की जगह रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट पढ़िए ।

क्रम संख्या 30, जे सी 138348 डब्ल्यू की जगह जे सी 138348 एन पढ़िए ।

क्रम संख्या 136, 140, 141 व 142 सिख लाईट इन्फैन्ट्री की जगह इनको डोगरा रेजिमेंट में पढ़िए ।

क्रम संख्या 258 पद की जगह खाली में सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट पढ़ें ।

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

क्रम संख्या 160 जे सी 86661 एकत सुबेदार मेजर एम मनोहरा रेडी की जगह जे सी 86661 एफ सुबेदार मेजर नचुकुरु मनोहरा रेडी पढ़िए ।

क्रम संख्या 295 में कोई तबदीली नहीं है ।

क्रम संख्या 330 प्रेम सिंह कोहली की जगह प्रेम सिंह कोली पढ़िए ।

क्रम संख्या 373 सेना मम्बर नाम व पद सहित रद्द किया जाता है ।

क्रम संख्या 421 जे सी 181412 एच की जगह जे सी 181412 एन पढ़िए ।

क्रम संख्या 531 रैंक की खाली जगह को सुबेदार पढ़िए ।

क्रम संख्या 711 प्रमेश सिंह राना की जगह प्रमोद सिंह राना पढ़िए ।

क्रम संख्या 714 जे सी 1161997 एल की जगह जे सी 161997 एल पढ़िए ।

क्रम संख्या 736 में कोई तबदीली नहीं है ।

क्रम संख्या 845 जे सी 180497 एल की जगह जे सी 180498 एल पढ़िए ।

क्रम संख्या 958 सुबेदार की जगह सुबेदार मेजर पढ़िए ।

क्रम संख्या 973 जे सी 170094 पी की जगह जे सी 170094 एफ पढ़िए ।

क्रम संख्या 1008 जे सी 124907 की जगह जे सी 124907 एफ पढ़िए ।

[सं. बी 43432/आर डी-95-शुद्धि/ए जी/सी डब्ल्यू 2]
एम. एस. सोखण्डा, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 8(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 1E dated 26 Jan 95, notifying the grant of Honorary Commission to JCOs on the occasion of Republic Day 1995 is amended as under :—

UNDER HEADING Serial 1	TO BE HONORARY CAPTAINS 1 HORSE For—RIS MAJ & HONY LT Read—RIS & HONY LT
UNDER HEADING Serial 30	REGIMENT OF ARTILLERY For—JC-138348W Read—JC-138348N
UNDER HEADING Serial 136, 140, 141, and 142	THE SIKH LIGHT INFANTRY For—from THE SIKH LIGHT INFANTRY Read—from THE DOGRA REGIMENT
UNDER HEADING Serial 258	DEFENCE SECURITY CORPS For—Rank left blank Read—SUB & HONY LT
UNDER HEADING Serial 160	TO BE HONORARY LIEUTENANTS MADRAS ENGINEER GROUP For—JC-86661X SUB MAJ N MANOHARA REDDY Read—JC-86661F SUB MAJ NACHUKURU MANOHARA REDDY
UNDER HEADING Serial 295	BOMBAY ENGINEER GROUP For—OM PARKASH VERMA Read—OM PRAKASH VERMA
UNDER HEADING Serial 330	CORPS OF SIGNALS For—PREM SINGH KOHLI Read—PREM SINGH KOLI
Delete Serial 373 and connected entries	
UNDER HEADING Serial 421	THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT For—JC-181412H Read—JC-181412N
UNDER HEADING Serial 531	TO BE HONORARY LIEUTENANTS THE SIKH LIGHT INFANTRY For—Rank left blank Read—SUB
UNDER HEADING Serial 711	THE ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY) For—PARMOSH SINGH RANA Read—PARMODH SINGH RANA
Serial 714	For—JC-1161997L Read—JC-161997L
Serial 736	For—LAIQ RAM CHAUDHARI Read—LAIQ RAM CHAUDHRI
UNDER HEADING Serial 845	ARMY ORDINANCE CORPS For—JC-180497L Read—JC-180498L
UNDER HEADING Serial 958	ARMY EDUCATIONAL CORPS For—SUB Read—SUB MAJ
UNDER HEADING Serial 973	INTELLIGENCE CORPS For—JC-170094P Read—JC-170094F
UNDER HEADING Serial 1008	DEFENCE SECURITY CORPS For—JC-124907 Read—JC-124907F

[B/43432/RD 95/Corr/AG/CW-2]
M. S. SOKHANDA, Jt Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 9 (अ)— सं. 2 ई दिनांक 26 जनवरी 1995—राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 95 पर दिये गए पदों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

- क्रम संख्या 50 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
 क्रम संख्या 53 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
 क्रम संख्या 63 तारीख 01-11-94 की जगह 01-01-95 पढ़िए ।
 क्रम संख्या 70 जे सी 87625 एफ की जगह जे सी 87725 एफ पढ़िए ।
 क्रम संख्या 108 जे सी 93186 डब्ल्यू की जगह जे सी 93106 डब्ल्यू पढ़िए ।
 क्रम संख्या 111 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
 क्रम संख्या 121 तारीख 01-11-94 की जगह 01-10-94 पढ़िए ।
 क्रम संख्या 123 जे सी 96436 ए की जगह जे सी 96436 एन पढ़िए ।
 क्रम संख्या 157 अलगा राजा राजा की जगह अलगा राजा भपति पढ़िए ।
 क्रम संख्या 179 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
 क्रम संख्या 184 जे सी 181274 के की जगह जे सी 181274 एक्स पढ़िए ।
 क्रम संख्या 196 पद सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट की जगह सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट पढ़िए ।
 क्रम संख्या 208 व 209 तारीख 01-10-94 की जगह 01-09-94 पढ़िए ।
 क्रम संख्या 235 अपसा हीपारमति की जगह अप्पासाब सीपारमति पढ़िए ।
 क्रम संख्या 238 जे सी 190435 पी की जगह जे सी 190345 पी पढ़िए ।
 क्रम संख्या 252 जे सी 187469 पी की जगह जे सी 187469 वाई पढ़िए ।
 क्रम संख्या 253 हरनाम सिंह पतिवाल की जगह हरनाम सिंह पतियाल पढ़िए ।
 क्रम संख्या 399 जे सी 120752 एफ की जगह जे सी 120792 एफ पढ़िए ।
 क्रम संख्या 449 में कोई परिवर्तन नहीं है ।

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

- क्रम संख्या 6 सिवा प्रसाद की जगह सिवा प्रसाद पी पढ़िए ।
 *क्रम संख्या 14 गोपाल दत्त नीलिया की जगह गोपाल दत्त नयोलिया पढ़िए ।
 *क्रम संख्या 22 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
 *क्रम संख्या 33 जे सी 183654 एल की जगह जे सी 133854 एल पढ़िए ।
 *क्रम संख्या 68 जे सी 172422 एम की जगह जे सी 172412 एम पढ़िए ।
 *अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में ।

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में

- क्रम संख्या 94 जोबाय परिनादेज बी की जगह जोबाय फरिनादेज बी पढ़िए ।
 क्रम संख्या 116 के के पाथरोसे की जगह के टी पाथरोसे पढ़िए ।

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में

- क्रम संख्या 56 तारीख 01-01-94 की जगह 01-11-94 पढ़िए ।
 क्रम संख्या 01-11-94 की जगह 01-12-94 पढ़िए ।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 9(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 2E dated 26 Jan 95, notifying the grant of Honorary ranks to the JCOs on the occasion of Republic Day 1995 is amended as under :—

UNDER HEADING	TO BE HONORARY CAPTAINS
	MADRAS ENGINEERING GROUP
Serial 50	For—RANGASMAMY KALIAPPAN Read—RANGASWAMI KALIAPPAN
Serial 53	For—SHRIRAMOJU SRINIVASARAO Read—SRIRAMOJU SRINIVASARAO
Serial 63	For—01-11-94 Read—01-01-95
UNDER HEADING	BENGAL ENGINEER GROUP
Serial 70	For—JC-87625F Read—JC-87725F
Serial 108	For—JC-93186W Read—JC-93106W
Serial 111	For—VADAKKSEA KALATHIL POTHAN JOSHY KUTTY Read—VADAKKSA KALATHIL POTHAN JOSHY KUTTY
UNDER HEADING	BOMBAY ENGINEER GROUP
Serial 121	For—01-11-94 Read—01-10-94
Serial 123	For—JC-96436A Read—JC-96436N
UNDER HEADING	CORPS OF SIGNALS
Serial 157	For—ALAGA RAJA RAJA Read—ALAGA RAJA BHUPATHY
Serial 179	For—RAMA SHANKAR Read—RAMA SHANKER
Serial 184	For—JC-181274K Read—JC-181274X
UNDER HEADING	THE RAJPUTANA RIFLES
Serial 196	For—SUB & HONY LT Read—SUB MAJ & HONY LT

UNDER HEADING	THE DOGRA REGIMENT
Serial 208	For—01-10-94 Read—01-09-94
Serial 209	For—01-10-94 Read—01-09-94
UNDER HEADING	ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)
Serial 235	For—APPASA HIPARMATTI Read—APPASAB SHIPARMATTI
Serial 238	For—JC-190435P Read—JC-190345P
Serial 252	For—JC-187469P Read—JC-187469Y
Serial 253	For—HARNAM SINGH PATIWAL Read—HARNAM SINGH PATIAL
UNDER HEADING	CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS
Serial 399	For—JC-120752F Read—JC-120792F
UNDER HEADING	THE INTELLIGENCE
Serial 449	For—ASHOK KUMAR CHOWDHURY Read—ASHOKE KUMAR CHOWDHURY
UNDER HEADING	TO BE HONORARY LIEUTENANTS
Serial 6	For—SHIVA PRASAD Read—SHIVA PRASAD P
UNDER HEADING	TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR
Serial 14	THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT For—GOPAL DATT NEELIA Read—GOPAL DATT NEOLIA
UNDER HEADING	ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)
Serial 22	For—CHINA BALAKRISHNAN Read—CHINNA BALAKRISHNAN
Serial 33	For—JC-183654L Read—JC-133854L
UNDER HEADING	ARMY MEDICAL CORPS
Serial 68	For—JC-172422M Read—JC-172412M
UNDER HEADING	ARMY ORDNANCE CORPS
Serial 94	For—JOEBOY FERNADEZ V Read—JOEBOY FERNADEZ V
UNDER HEADING	THE TERRITORIAL ARMY
Serial 116	For—KK PATHROSE Read—KT PATHROSE
UNDER HEADING	TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS
Serial 56	MADRAS ENGINEER GROUP For—01-01-94 Read—01-11-94
UNDER HEADING	ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)
Serial 121	For—01-11-94 Read—01-12-94

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 10(अ.)— सं. 3 ई दिनांक 26 जनवरी 1995—राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 95 पर दिये गए पदों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अवैतनिक नायब रिसालदार/सुबेदार के रूप में

- क्रम संख्या 143 नाम बदन की जगह शादन पढ़िए ।
- क्रम संख्या 159, 14305004 एफ की जगह 14305004 पी पढ़िए ।
- क्रम संख्या 160, 12255398 ए की जगह 1255398 ए पढ़िए ।
- क्रम संख्या 241, बिजोय कुमार सिंह की जगह बिजय कुमार सिंह पढ़िए ।
- क्रम संख्या 242, बिरेन्द्र सिंह की जगह बरिन्द्र सिंह पढ़िए ।
- क्रम संख्या 248, काम्ता प्रसाद सिंह की जगह कान्ता प्रसाद सिंह पढ़िए ।
- क्रम संख्या 262, दत्तातराय बाले टाटकरे की जगह दत्तातराय बाला टाटकरे पढ़िए ।
- क्रम संख्या 269, सेना संख्या 1540670 की जगह 1540670 एष पढ़िए ।
- क्रम संख्या 299, सेना संख्या 14211612 की जगह 14211612 एक्स पढ़िए ।
- क्रम संख्या 358, सेना संख्या 14212431 एल की जगह 14212431 वाई पढ़िए ।
- क्रम संख्या 440, बाबुल हुसैन की जगह राबुल हुसैन पढ़िए ।
- क्रम संख्या 567 को सेना संख्या, पद व नाम सहित रद्द किया जाता है ।
- क्रम संख्या 569 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
- क्रम संख्या 637, शंकर ठागड की जगह शंकर ठागड पढ़िए ।
- क्रम संख्या 660, में कोई परिवर्तन नहीं है ।
- क्रम संख्या 809, सेना संख्या 1379489 वाई की जगह 13795489 वाई पढ़िए ।
- क्रम संख्या 1031, सेना संख्या 13837483 एल की जगह 13837493 एल पढ़िए ।
- क्रम संख्या 1265 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
- क्रम संख्या 1306 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
- क्रम संख्या 1315 नाम मुरगें सुबाराव शंकर की जगह बुरगें सुबाराव शंकर पढ़िए ।
- क्रम संख्या 1531 नाम में कोई परिवर्तन नहीं है ।

[सं-बी/43432/आर डी-95/शुद्धि/ए जी/सी डब्ल्यू-2]
एम एस सोखण्डा, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 10(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 3E dated 26 Jan 95, notifying the grant of Honorary ranks to the NCOs on the occasion of Republic Day 1995 is amended as under :—

UNDER HEADING	TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS REGIMENT OF ARTILLERY
Serial 143	For—BADAN Read—SADAN
Serial 159	For—14305004F Read—14305004P
Serial 160	For—12255398A Read—1255398A
UNDER HEADING	BENGAL ENGINEERING GROUP
Serial 241	For—BIJOY KUMAR SINGH Read—BIJAY KUMAR SINGH
Serial 242	For—BIRINDER SINGH Read—BARINDER SINGH
Serial 248	For—KAMTA PRASAD SINGH Read—KANTA PRASAD SINGH
UNDER HEADING	BOMBAY ENGINEER GROUP
Serial 262	For—DATTATRAY BALE TATKARE Read—DATTATRAY BALA TATKARE
Serial 269	For—1540670 Read—1540670H
UNDER HEADING	CORPS OF SIGNALS
Serial 299	For—14211612 Read—14211612X
Serial 358	For—14212431L Read—14212431Y
Serial 440	For—BABBUL HUSSAIN Read—RABBUL HUSSAIN
UNDER HEADING	THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT
Delete Serial 567 and connected entries Serial 569	For—MOHAMMED JALIL Read—MOHAMED JALIL
UNDER HEADING	THE MARATHA LIGHT INFANTRY
Serial 637	For—SHANKAR THAGAD Read—SHANKAR TAGAD
UNDER HEADING	THE JAT REGIMENT
Serial 660	For—GANESH DATT JOSHI Read—GANESH DUTT JOSHI
UNDER HEADING	THE JAMMU & KASHMIR RIFLES
Serial 809	For—1379489Y Read—13795489Y
UNDER HEADING	ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)
Serial 1031	For—13837483L Read—13837493L
Serial 1265	For—SHIV NARAIN RAI Read—SHIV NARAYAN RAI
UNDER HEADING	CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGI- NEERS
Serial 1306	For—AMER SINGH KUSHWAHA Read—AMER SINGH KUSWAHA
Serial 1315	For—SURANGE SUBARAO SHANKAR Read—BURANGE SUBARAO SHANKAR
UNDER HEADING	DEFENCE SECURITY CORPS
Serial 1531	For—RAM RICHPAL Read—RAM RICHPAL

[B/43432/RD 95/CORR/AG/CW-2]
M.S. SOKHANDA, Jt. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 11 (अ).— सं. 7 ई दिनांक 15 अगस्त, 1995—राष्ट्रपति सहर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 1995 के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ओज को सेना विधिमावली 1987 के पैरा 177 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करने के बाद निम्न संशोधन करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

क्रम संख्या 91 जे सी 106712 एन की जगह जे सी 106712 एच पढ़िए ।

क्रम संख्या 202 कोई परिवर्तन नहीं है ।

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

क्रम संख्या 276 जे सी 159818 एफ की जगह जे सी 159818 वाई पढ़िए ।

क्रम संख्या 292 जे सी नम्बर, नाम व पद सहित रद्द किया जाता है ।

क्रम संख्या 434 जे सी 178486 एक्स की जगह जे सी 178496 एक्स पढ़िए ।

क्रम संख्या 437 जे सी 164930 एक्स की जगह जे सी 164930 वाई पढ़िए ।

क्रम संख्या 611 धर्म सिंह, सेना मैडल की जगह धर्म सिंह, शौर्य चक्र पढ़िए ।

क्रम संख्या 811 जे सी 175901 एन की जगह जे सी 179501 एन पढ़िए ।

क्रम संख्या 827 करतार सिंह काठोरी की जगह करतार सिंह राठोर पढ़िए ।

[सं. बी/43432/आई डी-95/शुद्धि/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

एम. एस. सौखंडा, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 11(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 7E dated 15 August, 1995, notifying the grant of Honorary Commission to JCOs on the occasion of Independence Day 1995 is amended as under :—

UNDER HEADING

Serial 91

UNDER HEADING

Serial 202

UNDER HEADING

Serial 276

Delete Serial 292 and connected entries.

UNDER HEADING

Serial 434

Serial 437

UNDER HEADING

Serial 611

UNDER HEADING

Serial 811

Serial 827

TO BE HONORARY CAPTAINS**THE GRENADIERS**

For—JC-106712N

Read—JC-106712H

ARMY MEDICAL CORPS

For—GORI SHANKER SHARMA IBIBHAKAR

Read—GAURI SHANKER SHARMA IBIBHAKAR

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**BOMBAY ENGINEER GROUP**

For—JC-159818F

Read—JC-159818Y

THE GRENADIERS

For—JC-178486X

Read—JC-178496X

For—JC-164930X

Read—JC-164930Y

THE MAHAR REGIMENT

For—DHARAM SINGH, SM

Read—DHARAM SINGH, SC

ARMY MEDICAL CORPS

For—JC-175901N

Read—JC-179501N

For—KARTAR SINGH KATHORE

Read—KARTAR SINGH RATHORE

[B/43432/ID95/Corr/AG/CW-2]

M. S. SOKHANDA, Jt. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. नि. आ. 12 (अ).—सं. 8 ई दिनांक 15 अगस्त 1995 के अक्षर पर दिए गए रैंकों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—
अवैतनिक कप्तान के रूप में

- क्रम संख्या 138 जे सी 168141 के की जगह जे सी 168441 के पढ़िए ।
क्रम संख्या 278 राजजीत गुल्ले की जगह राजजी गुल्ले पढ़िए ।
क्रम संख्या 331 राजपूत बालाकृष्ण सिंह की जगह राजपूत बालाकृष्ण सिंह पढ़िए ।
क्रम संख्या 345 सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट की जगह सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट पढ़िए ।
क्रम संख्या 348 कोई परिवर्तन नहीं है ।
क्रम संख्या 359 सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट की जगह सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट पढ़िए ।
क्रम संख्या 363 सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट की जगह सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट पढ़िए ।
क्रम संख्या 373 जे सी 165220 ए की जगह जे सी 165220 एम पढ़िए ।
क्रम संख्या 450 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
क्रम संख्या 464 जे सी 172727 डब्ल्यू की जगह जे सी 172727 एन पढ़िए ।
क्रम संख्या 514 01-04-93 की जगह जे सी 01-04-95 पढ़िए ।
क्रम संख्या 668 जे सी 56040 की जगह जे सी 56040 एन पढ़िए ।
क्रम संख्या 915 जे सी 191156 पी की जगह जे सी 191155 पी पढ़िए ।
क्रम संख्या 938 सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट की जगह सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट पढ़िए ।
क्रम संख्या 941 जे सी 202501 एम की जगह जे सी 202501 डब्ल्यू पढ़िए ।
क्रम संख्या 967 राजानन्द प्रसाद पुरेसेठ की जगह गजानन्द प्रसाद पुरेसेठ पढ़िए ।
क्रम संख्या 980 01-08-95 की जगह 01-03-95 पढ़िए ।

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

- क्रम संख्या 110 जे सी 120491 एक्स सुबेदार मेजर कार्तिक ओरन को अवैतनिक लैफ्टिनेंट का रैंक 01-08-95 से दिया गया है इसकी जगह उसको अवैतनिक कप्तान का रैंक पढ़िए ।
क्रम संख्या 125 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
क्रम संख्या 350 जे सी 150709 एन की जगह जे सी 150709 ए पढ़िए ।
क्रम संख्या 360 दलबारा सिंह की जगह दरबारा सिंह पढ़िए ।
क्रम संख्या 365 जे सी 182621 एक्स की जगह जे सी 182621 एच पढ़िए ।
क्रम संख्या 393 जे सी 182621 एक्स की जगह जे सी 165409 पढ़िए ।
क्रम संख्या 405 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
क्रम संख्या 426 नरेन चन्द दास की जगह नरेन चन्द्र दास पढ़िए ।
क्रम संख्या 777 को नाम, नम्बर व रैंक सभी को रद्द किया जाता है ।
क्रम संख्या 786 जे सी 181460 डब्ल्यू की जगह जे सी 181460 एन पढ़िए ।
क्रम संख्या 809 जे सी 177559 एफ की जगह जे सी 177591 एफ पढ़िए ।
क्रम संख्या 834 प्रीतम सिंह की जगह पीतम सिंह पढ़िए ।
क्रम संख्या 839 सहादेवन के जी की जगह सहादेवन के सी पढ़िए ।
क्रम संख्या 845 मिलाप सिंह की जगह मिलाप चन्द पढ़िए ।
क्रम संख्या 177 को जे सी नम्बर, पद व नाम सहित रद्द किया जाता है ।
क्रम संख्या 9 जे सी 225743 एच की जगह जे सी 225743 एक्स पढ़िए ।
क्रम संख्या 12 जे सी 2111883 वाई की जगह जे सी 211883 वाई पढ़िए ।
क्रम संख्या 18 भुपेन्द्र सिंह की जगह भुपिन्द्र सिंह वैहल पढ़िए ।
क्रम संख्या 138, 142, 144, 147, 161, 170 व 176 सभी को उनके जे सी नम्बर, नाम व पद सहित रद्द किया जाता है ।
क्रम संख्या 249 जे सी 660026 डब्ल्यू की जगह जे सी 220026 डब्ल्यू पढ़िए ।
क्रम संख्या 250 जे सी 221398 एन की जगह जे सी 221388 एन पढ़िए ।
क्रम संख्या 251 पी एस कुमावत की जगह पी सी कुमावत पढ़िए ।
क्रम संख्या 332 जे सी 225300 एल की जगह जे सी 225309 एल पढ़िए ।
क्रम संख्या 339 व 346 को नाम, नम्बर व पद सहित रद्द किया जाता है ।

[बी/43432/आई डी-95/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

एम. एस. सौखण्डा, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 12(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 8E dated 15 August 95, notifying the grant of Honorary Ranks to JCOs on the occasion of Independence Day 1995 is amended as under :—

UNDER HEADING**TO BE HONORARY CAPTAINS
REGIMENT OF ARTILLERY**

Serial 138

For—JC-168141K

Read—JC-168441K

UNDER HEADING**BOMBAY ENGINEER GROUP**

Serial 278

For—RAOJIT GHULE

Read—RAOJI GHULE

UNDER HEADING**CORPS OF SIGNALS**

Serial 331

For—RAJPUT BALKRISHNA SINGH

Read—RAJPUT BALKRISHNA SINH

Serial 345

For—SUB & HONY LT

Read—SUB MAJ & HONY LT

Serial 348

For—DHANMUN RAI

Read—DHUNMUN RAI

Serial 359

For—SUB & HONY LT

Read—SUB MAJ & HONY LT

Serial 363

For—SU-B & HONY LT

Read—SUB MAJ & HONY LT

Serial 373

For—JC-165220A

Read—JC-165220M

UNDER HEADING**THE GRENADIERS**

Serial 450

For—JAIBARN SINGH CHAUHAN

Read—JAIBARAN SINGH CHAUHAN

Serial 464

For—JC-172727W

Read—JC-172727N

UNDER HEADING**THE JAT REGIMENT**

Serial 514

For—JC-141849K SUB & HONY LT MAHABIR SINGH-01-04-93

Read—JC-141840K SUB & HONY LT MAHABIR SINGH-01-04-95

UNDER HEADING**1 GORKHA RIFLES**

Serial 668

For—JC-56040W

Read—JC-56040N

UNDER HEADING**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

Serial 915

For—JC-191156P

Read—JC-191155P

Serial 938

For—SUB & HONY LT

Read—SUB MAJ & HONY LT

Serial 941

For—JC-202501M

Read—JC-202501W

UNDER HEADING**ARMY EDUCATION CORPS**

Serial 967

For—RAJANAND PRASAD PURSETH

Read—GAJANAND PRASAD PURSETH

Serial 980

For—01-08-95

Read—01-03-95

UNDER HEADING**TO BE HONORARY LIEUTENANTS**

Serial 110

THE BIHAR REGIMENT

For—JC-120491X SUB MAJ KARTIK ORAON GRANTED HONY RANK OF LT W.E.F. 01-08-95

Read—JC-120491X SUB MAJ & HONY LT KARTIK ORAON GRANTED HONY RANK OF CAPTAIN W.E.F. 01-08-95

UNDER HEADING**ARMY EDUCATION CORPS**

Serial 125

For—DHARAM PAUL SHARMA

Read—DHARM PAUL SHARMA

UNDER HEADING**TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR
BOMBAY ENGINEER GROUP**

Serial 350

For—JC-150709N

Read—JC-150709A

Serial 360	For—DALBARA SINGH Read—DALBARA SINGH
Serial 365	For—JC-182621X Read—JC-182621H
Serial 393	For—JC-165409X Read—JC-165409A
UNDER HEADING	CORPS OF SIGNALS
Serial 405	For—BASABANNEPPA MADANBHAVI Read—BASAVANNEPPA MADANBHAVI
Serial 426	For—NAREN CHAND DAS Read—NAREN CHANDRA DAS
UNDER HEADING	CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS
delete Serial 777 and connected entries. Serial 786	For—JC-181460W Read—JC-181460N
Serial 809	For—JC-177559F Read—JC-177591F
UNDER HEADING	ARMY EDUCATION CORPS
Serial 834	For—PRITAM SINGH Read—PITAM SINGH
Serial 839	For—SAHADEVAN KG Read—SAHADEVAN KC
UNDER HEADING	THE INTELLIGENCE CORPS
Serial 845	For—MILAP SINGH Read—MILAP CHAND
UNDER HEADING	REGIMENT OF ARTILLERY
delete Serial 177 and connected entries. UNDER HEADING	TO BE HONRARY RISALDAR/SUBEDAR REGIMENT OF ARTILLERY
Serial 9	For—JC-225743H Read—JC-225743X
Serial 12	For—JC-2111883Y Read—JC-211883Y
Serial 18	For—BHUPINDER SINGH Read—BHUPINDER SINGH CHAHAL
UNDER HEADING	THE RAJPUT REGIMENT
delete Serial 138 and connected entries. UNDER HEADING	THE DOGRA REGIMENT
delete Serial Nos 142, 144 and 147 and connected entries. UNDER HEADING	THE BIHAR REGIMENT
delete Serial No 161 and connected entries. UNDER HEADING	5 GORKHA RIFLES
delete Serial No 170 and connected entries. UNDER HEADING	ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)
delete Serial No 176 and connected entries. UNDER HEADING	ARMY SERVICE CORPS (MECHANISED TRANSPORT)
Serial 249	For—JC-660026W Read—JC-220026W
Serial 250	For—JC-221398N Read—JC-221388N
Serial 251	For—PS KUMMAWAT Read—PC KUMMAWAT
UNDER HEADING	CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS
Serial 332	For—JC-225300L Read—JC-225309L
UNDER HEADING	CORS OF MILITARY POLICE
delete Serial No 339 and connected entries. UNDER HEADING	DEFENCE SECURITY CORPS
delete Serial 346 and connected entries	

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

का. भि. आ. 13 (अ).—सं. 9 ई दिनांक 15 अगस्त, 1995—राष्ट्रपति सहर्ष दिवस 15 अगस्त, 1995 के अवसर पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अवैतनिक नायब सुबेदार के रूप में

क्रम संख्या 446 को सेना नम्बर, पद व नाम सहित रद्द किया जाता है ।

क्रम संख्या 521 में कोई परिवर्तन नहीं है ।

क्रम संख्या 671 वेकटासेशा तलपा सायी नीमालीका की जगह वेकटासेशा तलपा सायी नीमालीकान्ती पढ़िए ।

क्रम संख्या 696 मुल्लासेरिल परमेश्वरा गंगाधरण की जगह मुल्लासेरिल परमेश्वरा गंगाधरण पानीकर पढ़िए ।

क्रम संख्या 950 व 951 को सेना नम्बर, पद व नाम के साथ रद्द किया जाता है ।

क्रम संख्या 1032, 1077, 1249, 1370, 1660, 1712, 1911, 2184, 2229, 2308, 2338 व 2479 सभी को सेना नम्बर, पद व नाम सहित रद्द किया जाता है ।

क्रम संख्या 1731 बलवंत सिंह की जगह बलवान सिंह पढ़िए ।

क्रम संख्या 2483 दिलावर सिंह की जगह दिलावर साह पढ़िए ।

क्रम संख्या 2485 एम कृष्णा सामी की जगह एस कृष्णा सामी पढ़िए ।

[बी/43432/आई डी-95/शुद्धि/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

एम. एस. सोखंडा, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 13(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 9E dated 15 August, 1995, notifying the Honorary Ranks of Naib Risaldar/Naib Subedar to NCOs on the occasion of Independence Day 1995 is amended as under :—

UNDER HEADING

TO BE HONORARY NAIB SUBEDAR/RISALDARS
CORPS OF SIGNALS

Deleted Serial 446 and connected entries.

Serial 521

For—KRISHAN NANDAN PRASAD

Read—KARISHAN NANDAN PRASAD

Serial 671

For—VENKATASESHA TALPA SAYEE NEEMALI KA

Read—VENKATASESHA TALPA SAYEE NEEMALI KANTI

UNDER HEADING

THE BRIGADE OF THE GUARDS

Serial 696

For—MULLASSERIL PARAMESWARA GANGADHARAN

Read—MULLASSERIL PARAMESWARA GANGADHARAN
PANICKER

UNDER HEADING

Delete Serial No 950 and connected entries.

delete Serial No 591 and connected entries.

UNDER HEADING

Delete Serial No 1032 and connected entries.

UNDER HEADING

Delete Serial No 1077 and connected entries.

UNDER HEADING

Delete Serial No 1249 and connected entries.

UNDER HEADING

Delete Serial No 1370 and connected entries.

UNDER HEADING

Delete Serial No 1660 and connected entries.

Delete Serial No 1712 and connected entries.

UNDER HEADING

Serial 1731

Delete Serial No 1911 and connected entries.

UNDER HEADING

Delete Serial No 2184 and connected entries.

Delete Serial No 2229 and connected entries.

Delete Serial No 2308 and connected entries.

Delete Serial No 2338 and connected entries.

UNDER HEADING

Delete Serial No 2479 and connected entries.

UNDER HEADING

Serial 2483

Serial 2485

THE RAJPUT REGIMENT**THE SIKH LIGHT INFANTRY****THE DOGRA REGIMENT****THE KUMAON REGIMENT****THE MAHAR REGIMENT****ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)****ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)**

For—BALWANT SINGH

Read—BALWAN SINGH

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**ARMY POSTAL SERVICE****DEFENCE SECURITY CORPS**

For—DILAWAR SINGH

Read—DILAWAR SHAH

For—M KRISHNA SAMY

Read—S KRISHNA SAMY

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

शुद्धि पत्र

का. नि. आ. 14 (अ).—सं. 12 ई दिनांक 15 अगस्त, 1996.—राष्ट्रपति सहर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ओज को आनरेरी कमीशन देने के बाद निम्न संशोधन करते हैं :—

अद्यतनिक कप्तान के रूप में

- क्रम संख्या 29 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 56 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 110 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 183 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 252 में टी जे 2109 एल की जगह टी जे 2190 एल पढ़िए ।

अद्यतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

- क्रम संख्या 13 एवं संबंधित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं ।
- क्रम संख्या 42 में काजे राम की जगह पर राजे राम पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 45, 108, 164 और 273 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 347 एवम सम्बंधित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं ।
- क्रम संख्या 454 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 531 में भानी सहाय चौरा की जगह भानी सहाय पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 611 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 654 में जे सी 117729 एफ की जगह जे सी 117293 एफ पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 655 और 747 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 935 में सूबेदार (आर टी) की जगह सूबेदार मेजर (आर टी) पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 942 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 979 में ओम सिंह कुशवाह की जगह ओम प्रकाश सिंह कुशवाह पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1018 में कोई परिवर्तन नहीं ।

[बी/40432/आरडी-96/एजी/सी डब्ल्यू-2]

एम. एस. सोखण्डा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 26th January, 1997

CORRIGENDUM

S.R.O. 14(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 12E dated 15 Aug. 96, notifying the grant of Honorary Commission to JCOs on the occasion of Independence Day 1996 is amended as under :—

UNDER HEADING	TO BE HONORARY CAPTAINS
UNDER GROUP	REGIMENT OF ARTILLERY
Ser 29	For—SURENDRA KUMAR SHARMA Read—SURINDRA KUMAR SHARMA
	BOMBAY ENGINEER GROUP
Ser 56	For—BAHADUR SINGH Read—BAHADAR SINGH
	THE MARATHA LIGHT INFANTRY
Ser 110	For—SURYABHAN NALKUL Read—SURYBHAN NALKUL
	5 GORKHA RIFLES
Ser 183	For—KISHORE SINGH Read—KISHOR SINGH
	TERRITORIAL ARMY
Ser 252	For—TJ 2109L Read—TJ 2190L
UNDER HEADING	TO BE HONORARY LIEUTENANTS
UNDER GROUP	69 ARMOURED REGIMENT
Delete Serial 13 and connected entries.	
	REGIMENT OF ARTILLERY
Ser 42	For—KAJE RAM Read—RAJE RAM
Ser 45	For—LEKHA SINGH Read—LAKHA SINGH
Ser 108	For—RADHEY SHYAM YADAWA Read—RADHEY SHYAM YADAV
	MADRAS ENGINEER GROUP
Ser 164	For—VEDAGIRI CHANDRA SEKHARAN Read—VEDAGIRI CHANDRA SEKARAN
	CORPS OF SIGNALS
Ser 273	For—BIJESHWAR LAL Read—BIJESHWAR LALL

UNDER HEADING	TO BE LIEUTENANTS
UNDER GROUP	THE PUNJAB REGIMENT
delete serial 347 and connected entries.	
	THE JAT REGIMENT
Ser 454	For—OM PRAKASH KUNDU Read—OM PARKASH KUNDU
	THE KUMAON REGIMENT
Ser 531	For—BHANI SAHAYA CHORA Read—BHANI SAHAYA
	THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
Ser 611	For—BISHAMBER DASS Read—BISHAMBER DASS
	1 GORKHA RIFLES
Ser 654	For—JC 117729F Read—JC 117293F
Ser 655	For—NIRANJAN SINGH Read—NARANJAN SINGH
	ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)
Ser 747	For—OM PRAKASH BARAK Read—OM PARKASH BARAK
	CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS
Ser 935	For—SUB (RT) Read—SUB MAJ (RT)
Ser 942	For—MANDHUL SINGH READ—MANPHUL SINGH
	ARMY EDUCATION CORPS
Ser 979	FOR—OM SINGH KUSHWAH Read—OM PRAKASH KUSHWAH
	THE DEFENCE SECURITY CORPS
Ser 1018	For—PRABHAKARAN NAIR URPIYIL Read—PRABHAKARAN NAIR URPAYIL

[B/43432/RD-96/AG/CW-2]

M. S. SOKHANDA, Jt Secy.

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

शुद्धिपत्र

का. नि. आ. 15 (अ).—सं. 13 ई दिनांक 15 अगस्त, 1996.—राष्ट्रपति सहर्ष स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त, 1996 के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ओज की सूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में

क्रम संख्या 51 में कोई परिवर्तन नहीं।

क्रम संख्या 63 में सुबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेंट की जगह सुबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाए।

क्रम संख्या 71 में सुबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेंट की जगह सुबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 117 में जे सी 156593 एफ की जगह जे सी 156594 एफ पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 136 में सुबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट की जगह सुबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 144 में मोति लाल दाँडे की जगह मोति लाल पांडे पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 155 में अजित खान की जगह अजिज खान पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 170 में बालकृष्ण पील्ललाई के जी जगह बालाकृष्ण पील्ललाई पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 193 में कोई परिवर्तन नहीं।

क्रम संख्या 213 में पुथन पुराईल ईसी कारलोसे की जगह पुथन पुराईल एसो कारलोसे पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 287 में बालाकृष्ण राऊल की जगह बालकृष्ण राऊल पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 331 में हनुमान प्रसाद की जगह हनुमान पारसद पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 336 में आम प्रकाश की जगह ओम प्रकाश पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 445 में नेरेन सिंह की जगह नारायण सिंह पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 446 में पालक सिंह की जगह बालक सिंह पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 451 में राजिन्द्र सिंह के जगह राजेन्द्र सिंह पढ़ा जाए।

क्रम संख्या 483 में जे सी नं. 153438 एन की जगह जे सी नं. 151438 एन पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 505 में कैलास चंद की जगह कालाश चंद पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 542 में ई डी बहादुर गुरंग की जगह ई के बहादुर गुरंग पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 583 में कोई परिवर्तन नहीं।

क्रम संख्या 586 में जे सी 146445 ओम प्रकाश चौधरी की जगह जे सी 146445 ए ओम प्रकाश चौहान पढ़ा जाये।

क्रम संख्या 598, 604, 605,

607, 608 और 611

में आर्मी मेडिकल कोर [मेकेनिकल ट्रान्सपोर्ट] की जगह
आर्मी मेडिकल कोर पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 650 में रामेश्वर दयाल की जगह रामेश्वर दयाल शर्मा पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 653 में जे सी 71744 ए की जगह जे सी 41744 ए पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 684 में मुखेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट की जगह मुखेदार और
अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 692 में जे सी 201300 के की जगह जे सी 201308 के पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 732 में रिजालदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट की जगह रिजालदार मेजर और
अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 753 में जे सी 139163 वाई की जगह जे सी 111767 एफ पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 756 में मुखेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट की जगह मुखेदार मेजर और
अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट पढ़ा जाये ।

अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के रम में

क्रम संख्या 17 में अंबिका प्रसाद की जगह अंबिका प्रसाद पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 33 में दिनांक 30-03-96 की जगह दिनांक 01-04-96 पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 54 में निलू गणपती की जगह वेलू गणपती पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 57 के सम्बन्धीत प्रविष्टीया हटाई जाती है ।

क्रम संख्या 112 में रामालाकर नाईक की जगह कमलाकर नाईक पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 132 में कोई परिवर्तन नहीं ।

क्रम संख्या 145 में शिवाराम शर्मा की जगह शिवाराम शर्मा पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 165 में कोई परिवर्तन नहीं ।

क्रम संख्या 224 में कोई परिवर्तन नहीं ।

क्रम संख्या 237 में कोई परिवर्तन नहीं ।

क्रम संख्या 280 में राम नरन पांडे की जगह राम बरन पांडे पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 307 में शिवेश्वर प्रसाद की जगह शिवेश्वर प्रसाद पढ़ा जाये ।

क्रम संख्या 340 में के आर नलकोलन्दीया की जगह के आर मालकोलन्दीया पढ़ा जाये ।

अधैतनिक रितालदार/सूबेदार मेजर के पद में

- क्रम संख्या 83 में जे ती 173095 एम की जगह जे ती 173995 एम पढा जाये ।
- क्रम संख्या 92 में जेती 124010रक्त सूबेदार भगतावर तिहें अधैतनिक सूबेदार मेजर
01 मई 96 की जगह जेती 124010रक्त सूबेदार मेजर भगतावर तिहें अधैतनिक कैप्टनैन्ट
01 मई 96 पढा जाए।
- क्रम संख्या 93 मे 01-04-96 की जगह 01-02-96 पढा जाए।
- क्रम संख्या 96 मे 01-04-96 की जगह 01-06-96 पढा जाए।
- क्रम संख्या 430 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 439 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 450 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 502 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 508 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 528 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 548 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 557 संवम सम्बंधित प्रविष्ठिया हटाई जाती हैं।
- क्रम संख्या 667 मे यादव अनन्त बहराव की जगह यादव अनन्त बाबुराव पढा जाए।
- क्रम संख्या 703 मे 01-06-96 की जगह 01-02-96 पढा जाए।
- क्रम संख्या 711 मे कोई परिवर्तन नही।
- क्रम संख्या 912 मे जे ती 178665 एफ की जगह जे ती 178665 एफ पढा जाये।
- क्रम संख्या 936 में बयाम चंद की जगह बारीयाम चंद पढा जाये ।
- क्रम संख्या 953 में जे ती 175087 एच सूबेदार मतबर तिहें विष्ठ अधैतनिक सूबेदार मेजर
01 फरवरी 96 की जगह जे ती 175087 एच सूबेदार और अधैतनिक
कैप्टनैन्ट मतबर तिहें अधैतनिक कॅप्टन के पद में 01-02-96 पढा जाये ।
- क्रम संख्या 1052 में सुरेन्द्र नाथ थापा की जगह सुरेन्द्र तिहें थापा पढा जाये ।
- क्रम संख्या 1104 में जे ती 187506 ए की जगह 187506 एफ पढा जाये ।
- क्रम संख्या 1125 में 290342 पी की जगह 190342 पी पढा जाये ।
- क्रम संख्या 1153 में जे ती 189963 डब्ल्यू दिनांक 31-08-96 की जगह जे ती 189963 एन
दिनांक 01-07-96 पढा जाये ।
- क्रम संख्या 1298 संवम सम्बंधित प्रविष्ठिया हटाई जाती है ।
- क्रम संख्या 1316 संवम सम्बंधित प्रविष्ठिया हटाई जाती है ।
- क्रम संख्या 1328 में कलमुददीन की जगह कलामुददीन पढा जाये ।
- क्रम संख्या 1357 में शिव रातान शर्मा की जगह शिव रतन शर्मा पढा जाये ।
- क्रम संख्या 1358 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1364 में कोई परिवर्तन नहीं ।

- क्रम संख्या 1430 में कोई परिवर्तन नहीं ।
 क्रम संख्या 1559 में कोई परिवर्तन नहीं ।
 क्रम संख्या 1580 में कोई परिवर्तन नहीं ।
 क्रम संख्या 1588 में कोई परिवर्तन नहीं ।
 क्रम संख्या 1632 में दिनांक 27-06-96 की जगह 01-07-96 पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1635 में जे सी 195388 वाई को जगह 195488 वाई पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1675 में कोई परिवर्तन नहीं ।
 1708 में जे सी 206784 एम की जगह जे सी 206423 एन पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1727 में दिनांक 01-07-96 की जगह दिनांक 01-08-96 पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1798 में तलित सिंह की जगह तलित सिन्हा पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1824 में कोई परिवर्तन नहीं ।
 क्रम संख्या 1879 में जे सी 195536 एम की जगह जेसी 195536 एन पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1902 में सुभाष चंद दास की जगह सुभाष चन्द्र दास पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1940 में कोई परिवर्तन नहीं ।
 क्रम संख्या 1941 में जेसी 174332 ए की जगह जेसी 174332 एन पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 1954 में कोई परिवर्तन नहीं ।

अतिरिक्त रिजालदार/सुबेदार के स्प मेंक

- क्रम संख्या 10 में जेसी 225581 एम की जगह जेसी 225585 एन पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 26 में जेसी 168366 एल नायब सुबेदार जोगिन्दर सिंह अतिरिक्त सुबेदार 01-06-96 की जगह जेसी 168366 एल सुबेदार जोगिन्दर सिंह अतिरिक्त सुबेदार रेजर 01-06-96 में पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 28 में 22-08-95 की जगह 01-09-95 पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 59 में राया राम यादव की जगह दया राम यादव पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 82 में जेसी 125143के की जगह जेसी 325143के पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 89 एम तम्बन्धित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं।
 क्रम संख्या 96 में प्रताप सिंह की जगह प्रताप सिंह पटवाल पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 101 में जेसी 1448961 एच की जगह जेसी [नया] 1448961 एच पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 120 एम तम्बन्धित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं।
 क्रम संख्या 133 में गुरमेल सिंह दयाल की जगह गुरमेल सिंह दयाल पढ़ा जाये।
 क्रम संख्या 143 एम तम्बन्धित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं।
 क्रम संख्या 148 में कोई परिवर्तन नहीं।
 क्रम संख्या 205 और 206 एम तम्बन्धित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं।
 क्रम संख्या 238 एम तम्बन्धित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं।
 क्रम संख्या 268 में गिरीश चन्द्रा की जगह गिरीश चन्द्रा गिरकारपढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 270 में गोपीन्द्रा चंद की जगह गोपिन्द्रा चंद्रा दयामारी पढ़ा जाये ।
 क्रम संख्या 272 में अरिशा पाल मेन की जगह अरिशा पाल सिंह पढ़ा जाये ।

- क्रम संख्या 274 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 275 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 278 में जावर की जगह जावर सिंह पटा जाये ।
- क्रम संख्या 279 में के एत अरुमल को जगह के एत अरुभुगन पटा जाये ।
- क्रम संख्या 280 में कालाकट्टर एम की जगह कालाकट्टर सिंह पटा जाये ।
- क्रम संख्या 282 में खेम बहादुर की जगह खेम बहादुर गुरंग पटा जाये ।
- क्रम संख्या 284 में कीझाकी विट की जगह कीझाकी घट्टील ईप्येन जॉन पटा जाये ।
- क्रम संख्या 288 में लाल बहादुर वाई की जगह लाल बहादुर यादव पटा जाये ।
- क्रम संख्या 298 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 299 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 305 में रतन चंद की जगह रत्तान चंद पटा जाये ।
- क्रम संख्या 306 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 315 में कोई परिवर्तन नहीं है ।
- क्रम संख्या 368 में गोपाल सिंह घरती की जगह भोपाल सिंह घरती पटा जाये ।
- क्रम संख्या 369 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 391 में आर सी एम राजा की जगह आर सी एम राजू पटा जाये ।
- क्रम संख्या 397 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 403 में आर वी 7749 एम की जगह आर वी 7747 एम पटा जाये ।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 15(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 13E dated 15 Aug 1996, notifying the grant of Honorary ranks to JCOs on retirement on the occasion of Independence Day 1996 is amended as under :—

UNDER HEADING	TO BE HONORARY CAPTAINS
UNDER GROUP	REGIMENT OF ARTILLERY
Ser 51	For—THETTATM IBRAHIM Read—THETTATH IBRAHIM
Ser 63	For—SUB & HONY LT Read—SUB MAJ & HONY LT
Ser 71	For—SUB & HONY LT Read—SUB MAJ & HONY LT
	MADRAS ENGINEER GROUP
Ser 117	For—JC 156593F Read—JC 156594F
	BENGAL ENGINEERING
Ser 136	For—SUB MAJ & HONY LT Read—MOTI LAL PANDEY
Ser 144	For—MOTI LAL PANDEY
	BOMBAY ENGINEERING GROUP
Ser 155	Read—AJIT KHAN For—AJIJ KHAN
	CORPS OF SIGNALS
Ser 170	Read—BALKRISHNA PILLAI KG For—BALAKRISHNA PILLAI KG
Ser 193	For—INDRADEO SINGH KUSHWAHA Read—INDARDEO SINGH KUSHWAHA
	THE BRIGADE OF GUARDS
Ser 213	For—PUTHEN PURAYIL ESSO CARLOSE Read—PUTHEN PURAYIL EASO CARLOSE
	THE MARATH LIGHT INFANTRY
Ser 287	For—BALAKRISHNA RAUL Read—BALKRISHNA RAUL
	THE JAT REGIMENT
Ser 331	For—HANUMAN PRASAD Read—HANUMAN PARSAD
Ser 336	For—OM PRAKASH Read—OM PARKASH

<u>UNDER HEADINGS</u>	<u>TO BE HONORARY CAPTAINS</u>
<u>UNDER GROUP</u>	<u>THE KUMAON REGIMENT</u>
Ser 445	For - NAIRAIN SINGH Read - NABAIN SINGH
Ser 446	For - PALAK SINGH Read - BALAK SINGH
Ser 451	For - RAJENDER SINGH Read - RAJENDRA SINGH
	<u>THE MAHAR REGIMENT</u>
Ser 483	For - JC 153438N Read - JC 151438N
	<u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u>
Ser 505	For - KAILASH CHAND Read - KAILASH CHAND
	<u>5 GONKA RIFLES</u>
Ser 542	For - ED BAHADUR GUNING Read - EK BAHADUR GUNING
	<u>ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)</u>
Ser 583	For - JANG BAHADUR CHOUDRI Read - JANG BHADUR CHOUDRI
Ser 586	For - JC 146445 OM PRAKASH CHOHAN Read - JC 146445A OM PANKASH CHOHAN
	<u>ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)</u>
Ser 598, 604, 605, 607, 608 and 611	For - ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT) Read - ARMY MEDICAL CORPS
	<u>ARMY ORDNANCE CORPS</u>
Ser 650	For - RAMESHWAR DAYAL Read - RAMESHWAR DAYAL SHARMA
Ser 653	For - JC 71744A Read - JC 41744A
	<u>CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS</u>
Ser 684	For - SUB MAJ & HONY LT Read - SUB & HONY LT
Ser 692	For - JC 201300K Read - JC 201308K

	<u>REGIMENT AND VETERINARY CORPS</u>
Ser 732	For - HIS & HONY LT Read - HIS MAJ & HONY LT
	<u>THE DEFENCE SECURITY CORPS</u>
Ser 753	For - JC 139163Y Read - JC 111767F
Ser 756	For - SUB & HONY LT Read - SUB MAJ & HONY LT
<u>UNDER HEADING</u>	<u>TO BE HONORARY LIEUTENANTS</u>
<u>UNDER GROUP</u>	<u>REGIMENT OF ARTILLERY</u>
Ser 17	For - AMBIKA PRASAD Read - AMBIKA PRASAD
Ser 33	For - 30-03-96 Read - 01-04-96
	<u>MADRAS ENGINEER GROUP</u>
Ser 54	For - VELU GANAPATHI Read - VELU GANAPATHI
delete serial 57 and connected entries.	
	<u>BOMBAY ENGINEER GROUP</u>
Ser 112	For - KAMALAKAR NAIK Read - KAMALAKAR NAIK
	<u>CORPS OF SIGNALS</u>
Ser 125 132	For - KULAVOOR KRISHNA KURUP RAJASEKHARA Read - MULAVOOR KRISHNA KURUP RAJASEKHARA
Ser 145	For - SIYARAM VERMA Read - SIYARAM VARMA
	<u>THE MARATHA LIGHT INFANTRY</u>
Ser 165	For - DALVI YESHWANT RAVJI Read - DALVI YESHAVANT RAVJI
	<u>ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)</u>
Ser 224	For - GOPALKRISHNA PILLAI Read - GOPALAKRISHNA PILLAI
Ser 237	For - PRABHAKARAN C Read - PRABHAKARAN B C
	<u>ARMY MEDICAL CORPS</u>
Ser 280	For - RAM NARAN PANDE Read - RAM BARAN PANDE

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

Ser 307

For - BISHESHWAR PRASAD

Read - RISHESHWAR PRASAD

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

Ser 340

For - KASI REDDY MALAKOLANDIAH

Read - KASI REDDY MALAKOLANDIAH

UNDER HEADINGTO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJORUNDER GROUPREGIMENT OF ARTILLERY

Ser 83

For - JC 173095M

Read - JC 173995M

Ser 92

For - JC 124010X SUB BAKHTAWAR SINGH
GRANTED HONORARY SUBEDAR MAJOR WEF 01.05.96Read - JC 124010X SUB MAJ BAKHTAWAR SINGH
GRANTED HONORARY LIEUTINANT WEF 01.05.96.

Ser 93

For - 01-04-96

Read - 01-02-96

Ser 96

For - 01-04-96

Read - 01-06-96

BOMBAY ENGINEER GROUP

Ser 430

For - DAGADU GANPAT CHAVAN

Read - DAGADU GANPAT CHAVAN

Ser 439

For - JAMIR AHMAD

Read - JAMIR AHMED

CORPS OF SIGNALS

Ser 450

For - AMAR SINGH RATMORE

Read - AMAR SINGH RATHOR

Ser 502

For - LAKHVINDER SINGH

Read - LAKHVINDAR SINGH

Ser 508

For - MANSAPURAM PULUGANDI KANDHAPPAN

Read - MANSAPURAM PULUGANDI KANDHAPPAN

Ser 528

For - RAM RATTAN

Read - RAM RATTAN

Ser 548

For - SUBHAN SINGH GURUNG

Read - SUBHAN SING GURUNG

delete serial 557 and connected entries.

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

Ser 667

For - YADAV ANANT BAHORAO

Read - YADAV ANANT BAHORAO

	<u>THE JAT REGIMENT</u>	
Ser 705	For - 01-06-96	
	Read - 01-02-96	
Ser 711	For - RAGHUBIR SINGH KADYAN	
	Read - RAGHUBIR SINGH KADYAN	
	<u>THE MAHAR REGIMENT</u>	
Ser 912	For - JC 178665F	
	Read - JC 178665X	
	<u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u>	
Ser 936	For - BAYAM CHAND	
	Read - BAYAM CHAND	
<u>UNDER HEADING</u>	<u>TO BE HONORARY HISALDAR/SUBEDAR MAJOR</u>	
<u>UNDER GROUP</u>	<u>THE NAGA REGIMENT</u>	
Ser 953	For - JC 175087H SUB MATBAR SINGH BISHT GRANTED HONORARY SUBEDAR MAJOR WEF 01.02.96	
	Read - JC 175087H SUB & HONY LT MATBAR SINGH BISHT GRANTED HONORARY RANK OF CAPTAIN WEF 01-02-96.	
	<u>5 GORKHA RIFLES</u>	
Ser 1052	For - SURENDRA NATH THAPA	
	Read - SURENDRA SINGH THAPA	
	<u>ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)</u>	
Ser 1104	For - JC 187506A	
	Read - JC 187506F	
Ser 1125	For - 290342P	
	Read - 190342P	
Ser 1153	For - JC 189963W	31-08-96
	Read - JC 189963N	01-07-96
	<u>ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)</u>	

delete Ser 1298 and connected entries.

delete Ser 1316 and connected entries.

Ser 1328	For - KALMUDDIN	
	Read - KALAMUDDIN	
Ser 1357	For - SHEO RATTAN SHARMA	
	Read - SHEO RATAN SHARMA	
Ser 1358	For - SHIRAJ MAHAMAD MULLA	
	Read - SHIRAJ MAHAMAD MULLA	
Ser 1364	For - SURENDER SINGH	
	Read - SURINDER SINGH	

	<u>ARMYMEDICAL CORPS</u>
Ser 1430	For - KHAJ SINGH GILL Read - KHAJ SINGH GILL
	<u>ARMY ORDNANCE CORPS</u>
Ser 1559	For - CHHAVIRATAN SINGH KATHORE Read - CHHAVI RATAN SINGH KATHORE
Ser 1580	For - JAI LAL Read - JIA LAL
Ser 1588	For - KAHONA SHANKAR TIWARI Read - KAHONA SHANKER TIWARI
Ser 1632	For - 27-06-96 Read - 01-07-96
Ser 1635	For - JC 195388Y Read - JC 195488Y
Ser 1675	For - SURAT SINGH CHAHL Read - SURAT SINGH CHAHAL
	<u>UNDER HEADING</u> <u>TO BE HONORARY BISALDAR/SUBEDAR MAJOR</u>
	<u>UNDER GROUP</u> <u>CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS</u>
Ser 1708	For - JC 206784M Read - JC 206423M
Ser 1727	For - 01-07-96 Read - 01-08-96
Ser 1798	For - LALIT SINGHA Read - LALIT SINHA
Ser 1824	For - PARSHU NATH PANDIT Read - PARSHU RAM PANDIT
Ser 1879	For - JC 195536M (M) Read - JC 195536M
Ser 1902	For - SUBHASH CHAND DAS Read - SUBHASH CHANDRA DAS
	<u>ARMY EDUCATION CORPS</u>
Ser 1940	For - BUSHAN LAL MATOO Read - BUSHAN LAL MATOO
Ser 1941	For - JC 174332A Read - JC 174332M
Ser 1954	For - NETKA NARAYAN GANPATRA Read - NETKE NARAYAN GANPATRAO

<u>UNDER HEADING</u>	<u>TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDARS</u>
<u>UNDER GROUP</u>	<u>REGIMENT OF ARTILLERY</u>
Ser 10	For - JC 225581M Read - JC 225585N
Ser 26	For - JC 168366L MB SUB JOGINDER SINGH GRANTED HONORARY RANK OF SUBEDAR WEF 01-06-96. Read - JC 168366L SUB JOGINDER SINGH GRANTED HONORARY RANK OF SUBEDAR MAJOR WEF 01-06-96.
Ser 28	For - 22-08-95 Read - 01-09-95
Ser 59	For - RAYA RAM YADAV Read - DAYA RAM YADAV
	<u>BENGAL ENGINEER GROUP</u>
Ser 82	For - JC 125143K Read - JC 325143K
delete serial 89 and connected entries.	
Ser 96	For - PRATAP SINGH Read - PRATAP SINGH PATWAL
Ser 101	For - JC 1448961H Read - JC (NYA) 1448961H

UNDER HEADINGTO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDARSUNDER GROUPCORPS OF SIGNALS

delete Ser 120 and connected entries.

Ser 133	For - GURMAIN SINGH DYAL Read - GURMAIL SINGH DYAL
---------	---

delete serial 143 and connected entries.

Ser 148	For - MADHAVAN MOHANA KUMARAN Read - MADHAVAN MOHANA KUMARAN
---------	---

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

deleted serial 205 and 206 and connected entries.

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

delete ser 238 and connected entries.

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

Ser 268	For - GIRISH CHANDRA Read - GIRISH CHANDRA SIRKAR
Ser 270	For - GOPENDRA CHAND Read - GOPENDRA CHANDRA DOJMAY

Ser 272	For - GRESH PAL SIN Read - GRESH PAL SINGH
Ser 274	For - HARI SHANKER SH Read - HARI SHANKER SHARMA
Ser 275	For - HIMONE FAIJ MON Read - HIMONE FAIJ MOHAMAD
Ser 278	For - JAVAR Read - JAVAR SINGH
Ser 279	For - K S ANUML Read - K S ANUMUGAN
Ser 280	For - KALAKTAR S Read - KALAKTAR SINGH
Ser 282	For - KHEM BAHADUR Read - KHEM BAHADUR GURUNG
Ser 284	For - KIZHAKKE VEET Read - KIZHAKKE VEETIL BAPPEN JOHN
Ser 288	For - LAL BAHADUR Y Read - LAL BAHADUR YADAV
Ser 298	For - OM PRAKASH Read - OM PRAKASH
Ser 299	For - OM PRAKASH Read - OM PRAKASH
Ser 305	For - RATAN CHAND Read - RATTAN CHAND
Ser 306	For - RAVINDRA PRASAD SINGH Read - RAVENDRA PRASAD SINGH
Ser 315	For - YAM PRASAD RANA Read - YAM PRASAD RANA
<u>UNDER HEADING</u>	<u>TO BE MEMORARY RISALDAR/SUBEDARS</u>
<u>UNDER GROUP</u>	<u>CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS</u>
Ser 368	For - GOPAL SINGH GHARTI Read - BHOPAL SINGH GHARTI
Ser 369	For - HAJAKKAVAR MALLAPPA BASAPPA Read - HAWAKKAVAR MALLAPPA BASAPPA
Ser 391	For - REDDI CHARLA SHEENIVASA RAJA Read - REDDI CHARLA SHEENIVASA RAJU
Ser 397	For - SWAMINATHAN MANICKAM Read - SAMINATHAN MANICKAM
	<u>REMOUNT AND VETERINARY CORPS</u>
Ser 403	For - RV 7749M K THANKARAJAN Read - RV 7747M K THANKARAJAN

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1997

शुद्धिपत्र

का. नि. आ. 16 (अ).—सं. 14 ई दिनांक 15 अगस्त, 1996.—राष्ट्रपति सहर्ष स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त, 1996 पर दिए गए पदों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अद्यतनिक जायब रिसालदार/सूबेदार के पद में

- क्रम संख्या 64 एवं संबंधित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं ।
- क्रम संख्या 150 एवं संबंधित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं ।
- क्रम संख्या 168 में लखबिर धिंग की जगह लखबिर सिंह पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 212 एवं संबंधित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं ।
- क्रम संख्या 222 एवं संबंधित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं ।
- क्रम संख्या 254 एवं संबंधित प्रविष्टियां हटाई जाती हैं ।
- क्रम संख्या 279 में विजय राघवन के की जगह विजय राघवन पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 281 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 316 में 1542586 एफ की जगह 1542586 पी पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 349 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 390 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 412 में दूधपाल सिंह की जगह बुधपाल सिंह पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 449 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 460 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 502 में कुरेशि सहीद अमीन सहीद की जगह कुरेशि सहीद अमीन सहीद अहमद पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 512 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 518 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 571 में नेत्र बहादुर की जगह नेत्र बहादुर रोका पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 582 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 655 में आर के पुलियाल की जगह आर के पुलियाली पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 687 में एस जी नंदाल की जगह एस जी मंडल पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 709 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 907 में भल्यान सिंह की जगह कल्यान सिंह पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 911 और 912 में राजपुत रेजिमेंट की जगह राजपुतना राईफल पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1003 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1092 में चेरिंग नेरबू की जगह चेरिंग नुरबू पढ़ा जाए ।
- क्रम संख्या 1111 में जोगिन्दर सिंह की जगह जोगिन्दर लाल पढ़ा जाये ।

- क्रम संख्या 1124 में 5341115 एक्स की जगह 534115S एक्स पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1158 में दिनांक 01-08-96 की जगह दिनांक 01-06-96 पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1174 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1324 में पुरन बहादुर दास की जगह पुरन चंद्र दास पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1388 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1408 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1536 में मोहन लाल की जगह मदन लाल पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1601 में 6908011 एच की जगह हविलादार सिंह पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1621 में 690529 डब्ल्यू की जगह 690520 डब्ल्यू पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1611 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1644 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1699 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1718 में दिनांक 01-07-96 की जगह 01-08-96 पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1733 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1734 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1766 में के जी नाई की जगह के जी नायर पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1771 में एम मुनीअप्पा की जगह एम मुनीआप्पन पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1790 में दिनांक 31-05-96 की जगह 01-06-96 पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1792 में दिनांक 01-09-96 की जगह 01-09-95 पढ़ा जाये ।
- क्रम संख्या 1810 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1813 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1814 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1818 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1823 में कोई परिवर्तन नहीं ।
- क्रम संख्या 1838 में हवालदार की जगह दफादार पढ़ा जाये ।

[बी/43432/आई डी-96/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

एम. एस. सौखण्डा, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 1997

S.R.O. 16(E).—The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 14E dated 15 Aug., 96, notifying the grant of Honorary ranks to NCOs on the occasion of Independence Day 1996 is amended as under :—

UNDER HEADING**TO BE HONORARY NAIB RISALDAR/SUBEDAR****UNDER GROUP****74 ARMOURED REGIMENT**

Delete serial 64 and connected entries.

REGIMENT OF ARTILLERY

Delete serial 150 and connected entries.

Ser 168

For—LAKHBIR DINGH

Read—LAKHBIR SINGH

CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY

Delete serial 212 and connected entries.

Delete serial 222 and connected entries.

Delete serial 254 and connected entries.

MADRAS ENGINEER GROUP

Ser 279

For—VIJAYA RAGHAVAN K

Read—VIJAYA RAGHAVAN

BENGAL ENGINEER GROUP

Ser 281

For—BACHAN SINGH GWSAIN

Read—BACHAN SINGH GUSAIN

BOMBAY ENGINEER GROUP

Ser 316

For—1542586F

Read—1542586P

CORPS OF SIGNALS

Ser 349

For—BAURI SINGH

Read—BHURI SINGH

Ser 390

For—DALIP KUMAR HATI

Read—DILIP KUMAR HATI

Ser 412

For—DUDHPAL SINGH

Read—BUDHPAL SINGH

Ser 449

For—INDRA PRASAD PRADHAN

Read—INDRA PRASHAD PRADHAN

Ser 460

For—JAGNYESWAR DASH

Read—JAJNYESWAR DASH

Ser 502

For—KURESHI SYED AMIN SYED

Read—KURESHI SYED AMIN SYED AHMED

Ser 512

For—LALIT CHANDRA BABHA

Read—LALIT CHANDRA RABHA

Ser 518

For—M VILVANADAAN

Read—M VILVANADHAN

Ser 571

For—NETRA BAHADUR

Read—NETRA BAHADUR ROKA

Ser 582	For—OM PRASASH ROHAJ Read—OM PRAKASH ROHAJ
Ser 655	For—RAMA KRISHNAN PULIYAL Read—RAMA KRISHNAN PULIYALI
Ser 687	For—SAKSHI GOPAL NANDAL Read—SAKSHI GOPAL MANDAL
Ser 709	For—SHIVAJI RAM Read—SHIVJI RAM THE RAJPUTANA RIFLES
Ser 907	For—MALYAN SINGH Read—KALYAN SINGH THE RAJPUT REGIMENT
Ser 911 and 912	For—RAJPUT REGIMENT Read—RAJPUTANA RIFLES THE KUMAON REGIMENT
Ser 1003	For—RAMA SHANKKER TIWARI Read—RAMA SHANKER TIWARI THE LADAKH SCOUTS
Ser 1092	For—CHHERING NERBU Read—CHHERING NURBU THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
Ser 1111	For—JOGINDER SINGH Read—JOGINDER LAL 1 GORKHA RIFLES
Ser 1124	For—5341115X Read—5341155X
Ser 1158	For—01-08-96 Read—01-06-96
Ser 1174	For—TUKKA BAHADUR THAPA Read—TUKRA BAHADUR THAPA ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)
Ser 1324	For—PURNA BAHADUR DAS Read—PURNA CHANDRA DAS ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)
Ser 1388	For—BALDEV RAM Read—BALDEO RAM
Ser 1408	For—HIRA LAL Read—HARI LAL ARMY MEDICAL CORPS
Ser 1536	For—MOHAN LAL Read—MADAN LAL

ARMY ORDNANCE CORPS

Ser 1601	For—6908011H Read—HAWALDAR SINGH
Ser 1621	For—690529W Rcad—6905209W
Ser 1611	For—BHASKARAN EDAKKATI Read—BHASKARN EDAKKATI
Ser 1644	For—KALLUMADAYIL THEVAN TYYAPPAN Read—KALLUMADAYIL THEVAN AYYAPPAN
Ser 1699	For—SINGARI LAKSHMANA MURTY Read—SIGARI LAKSHMANA MURTY

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

Ser 1718	For—01-07-96 Read—01-08-96
Ser 1733	For—BHRIGO NATH SINGH Read—BHRIGU NATH SINGH
Ser 1734	For—BIMAL KUMAR THAKUR Rcad—BIMAL KUMAR THAKURI
Ser 1766	For—KIZHAKKEKARARAMAN GOPALAKRISHNA NAI Read—KIZHAKKEKARARAMAN GOPALAKRISHNAN NAIR
Ser 1771	For—M MUNIAPPA Read—M MUNIAPPAN
Ser 1790	For—31-05-96 Read—01-09-96
Ser 1792	For—01-09-96 Read—01-09-95
Ser 1810	For—SEEMIRAJ SAMOEL RAJ Read—SEENTRAJ SAMUEL RAJ
Ser 1813	For—SITARAM GANU MAHAPARLE Read—SITARAM GANU MHAPARLE
Ser 1814	For—SOBAN SINGH Read—SHOBAN SINGH
Ser 1818	For—SUBRANANIAN KANDASAM Read—SUBRAMANIAN KANDASAMY
Ser 1823	For—SURAVASE MADHUKAR SHRIWANT Read—SURAVASE MADHUKAR SHRIMANT
	REMOUNT AND VETERINARY CORPS
Ser 1838	For—HAV Read—DFR

[B/43432/ID-96/AG/CW-2]

M. S. SOKHANDA, Jt. Secy.